

सत्यं शिवं सुन्दरम्

॥ श्रीराम ॥

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी विरचित

श्रीरामचरितमानस

[सचित्र, सटीक, मोटा टाइप]



श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छवि सोहई ।
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥
मुकुटांगदादि विचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे ।
अंभोज नयन विसाल उर भुज घन्य नर निरखंति जे ॥

टीकाकार—हनुमानप्रसाद पोद्दार

निवेदन

श्रीरामचरितमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगत्के साहित्यमें निराला है। इसके जोड़का ऐसा ही सर्वाङ्गसुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणोंसे युक्त, साहित्यके सभी रसोंका आस्वादन करानेवाला, काव्यकलाकी दृष्टिसे भी सर्वोच्च कोटिका तथा आदर्श गार्हस्थ्य-जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत-धर्म, आदर्श भ्रातृधर्मके साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति-ज्ञान, त्याग-वैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध-युवा—सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण-साकार भगवान्की आदर्श मानव-लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेमके गहन तत्त्वको अत्यन्त सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों-में व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिंदी-भाषामें ही नहीं, कदाचित् संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जिस चावसे गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ-संन्यासी, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध—सभी श्रेणियोंके लोग इस ग्रन्थरत्नको पढ़ते हैं, उतने चावसे और किसी ग्रन्थको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे हुआ है, उतना कदाचित् और किसी ग्रन्थसे नहीं हुआ।

जिस ग्रन्थका जगत्में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोंका छपना तथा उसपर अनेकों टीकाओंका लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियमके अनुसार श्रीरामचरितमानसके भी आजतक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इसपर सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता-पुस्तकालय-में रामायणसम्बन्धी सैकड़ों ग्रन्थ भिन्न-भिन्न भाषाओंके आ चुके हैं। अबतक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी होंगी। आये दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण देखनेको मिलता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठके सम्बन्धमें भी रामायणी विद्वानोंमें बहुत मतभेद है, यहाँतक कि कई स्थलोंमें तो प्रत्येक चौपाईमें एक-न-एक पाठ-भेद भिन्न-भिन्न संस्करणोंमें मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रन्थके मिलते हैं, उतने कदाचित् और किसी प्राचीन ग्रन्थके नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है।

इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है। इसके प्रत्येक पद्यको श्रद्धालु लोग मन्त्रवत् आदर देते हैं और इसके पाठसे लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आये हुए उपदेशोंका विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करनेसे तथा इसमें वर्णित भगवान्की मधुर लीलाओंका चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत्प्रेमकी प्राप्ति आसानीसे की जा सकती है। क्यों न हो, जिस ग्रन्थकी रचना गोस्वामी तुलसीदासजी—जैसे अनन्य भगवद्भक्तके द्वारा, जिन्होंने भगवान् श्रीसीतारामजीकी कृपासे उनकी दिव्य लीलाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूपमें वर्णन किया है, साक्षात् भगवान् श्रीगौरीशंकरजीकी आज्ञासे हुई तथा जिसपर उन्हीं भगवान्ने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' लिखकर अपने हाथसे सही की, उसका इस प्रकारका अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। ऐसी दशामें इस अलौकिक ग्रन्थका जितना-भी प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशीलन होगा, उतना ही जगत्का मङ्गल होगा—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समयमें तो, जब सर्वत्र हाहाकार मचा

हुआ है, सारा संसार दुःख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वालासे जल रहा है, जगत् के कोने-कोनेमें मार-काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्योंका संहार हो रहा है, करोड़ों-अरबोंकी सम्पत्ति एक-दूसरेके विनाशके लिये खर्च की जा रही है, विज्ञानकी सारी शक्ति पृथ्वीको अज्ञानके रूपमें परिणत करनेमें लगी हुई है। संसारके बड़े-से-बड़े मस्तिष्क संहारके नये-नये साधनोंको ढूँढ़ निकालनेमें व्यस्त हैं, जगत्में सुख-शान्ति एवं प्रेमका प्रसार करने तथा भगवत्कृपाका जीवनमें अनुभव करनेके लिये रामचरित्तमानसका पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है।

इसी दृष्टिसे गीता की भाँति मानसके भी कई छोटे-बड़े, यथासाध्य शुद्ध, प्रामाणिक, सस्ते, सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालनेका आयोजन गीताप्रेसद्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे-चौपाइयोंका अर्थ बही है, जो 'मानसाङ्क' में था। पाठ एवं अर्थकी भूलोंके लिये हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं और भगवान्की वस्तु दिनभरभावसे भगवान्की सेवामें अर्पण करते हैं।

दिनीत—

प्रकाशक

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-नवाह्नपारायणके विश्राम-स्थान	... ६	३१-शिवजीकी विचित्र बारात और विवाहकी तयारी	... १०३
२-मासपारायणके विश्राम-स्थान	... ६	३२-शिवजीका विवाह	... ११३
३-गोस्वामी तुलसीदासजीकी सक्षिप्त जीवनी	... १०	३३-शिव-पार्वती-संवाद	... १२०
४-श्रीरामशलाका प्रशनावली	... १२	३४-अवतारके हेतु	... १३४
५-पारायण-विधि	... १३	३५-नारदका अभिमान और मायाका प्रभाव	... १४०
बालकाण्ड			
६-मञ्जुलाचरण	... १	३६-विश्वमोहिनीका स्वयंवर, शिवगणोंको तथा भगवान्को शाप और नारदका मोह-भङ्ग	... १४३
७-गुरु-वन्दना	... ३	३७-मनुशतरूपा-त्प एवं वरदान	... १५४
८-ब्राह्मण-संत-वन्दना	... ४	३८-मानुप्रतापकी कथा	... १६४
९-खल-वन्दना	... ८	३९-रावणादिका जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार	... १८४
१०-संत-असंत-वन्दना	... ९	४०-पृथ्वी और देवतादिकी करुण पुकार	... १९३
११-रामरूपसे जीवमात्रकी वन्दना	... १३	४१-भगवान्का वरदान	... १९६
१२-तुलसीदासजीकी दीनता और रामभक्तिमयी कविताकी महिमा	... १३	४२-राजा दशरथका पुत्रेष्टि-यज्ञ, रानियोंका गर्भवती होना	... १९८
१३-कवि-वन्दना	... २२	४३ श्रीभगवान्का प्राकट्य और बाललीला-का आनन्द	... २००
१४-बालमीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदिकी वन्दना	... २३	४४-विश्वामित्रका राजा दशरथसे राम-लक्ष्मणको माँगना	... २१६
१५-श्रीसीताराम-धाम-परिकर-वन्दना	... २५	४५-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा	... २१८
१६-श्रीनाम-वन्दना और नाम-महिमा	... २८	४६-अहल्या-उद्धार	... २२०
१७-श्रीरामगुण और श्रीरामचरितकी महिमा	... ३८	४७-श्रीराम-लक्ष्मणसहित विश्वामित्रका जनकपुर-में प्रवेश	... २२२
१८-मानसनिर्माणकी तिथि	... ४६	४८-श्रीराम-लक्ष्मणकी देखकर जनकजीकी प्रेम-मुग्धता	... २२५
१९-मानसका रूपक और माहात्म्य	... ४७	४९-श्रीराम-लक्ष्मणका जनकपुर-निरोक्षण	... २२८
२०-याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद तथा प्रयाग-माहात्म्य	... ५८	५०-पुष्पवाटिका-निरीक्षण, सीताजीका प्रथम दर्शन, श्रीसीतारामजीका परस्पर दर्शन	... २३५
२१-सतीका भ्रम, श्रीरामजीका ऐश्वर्य और सतीका खेद	... ६१	५१-श्रीसीताजीका पार्वती-पूजन एवं वरदान-प्राप्ति तथा राम-लक्ष्मण-संवाद	... २४३
२२-शिवजीद्वारा सतीका त्याग, शिवजीकी समाधि	... ७०	५२-श्रीराम-लक्ष्मणसहित विश्वामित्रका यज्ञ-शालामें प्रवेश	... २४८
२३-सतीका दक्ष-यज्ञमें जाना	... ७५	५३-श्रीसीताजीका यज्ञशालामें प्रवेश	... २५६
२४-पतितके अपमानसे दुखी होकर सतीका योगाग्निसे जल जाना, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस	... ७६	५४-वन्दो-जनोंद्वारा जनक-प्रतिभाकी घोषणा	... २५७
२५-पार्वतीका जन्म और तपस्या	... ७८	५५-राजाओंसे धनुष न उठाना, जनककी निराशाजनक वाणी	... २५८
२६-श्रीरामजीका शिवजीसे विवाहके लिये अनुरोध	... ८८	५६-श्रीलक्ष्मणजीका क्रोध	... २६०
२७-सप्तपियोंकी परीभामें पार्वतीजीका महत्त्व	... ८९	५७-धनुषभङ्ग	... २६८
२८-कामदेवका देवकार्यके लिये जाना और भस्म होना	... ९४	५८-जयमाल पहनाना	... २७१
२९-रतिकी वरदान	... ९९	५९-श्रीराम-लक्ष्मण और परशुराम-संवाद	... २७७
३०-देवताओंका शिवजीसे ब्याहके लिये प्रार्थना करना, सप्तपियोंका पार्वतीके पास जाना	... १००		

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
६०-दशरथजीके पास जनकजीका दूत भेजना, अयोध्यासे वारातका प्रस्थान ...	२६१	८६-मुनि वसिष्ठका भरतको बुलानेके लिये दूत भेजना ...	५२०
६१-वारातका जनकपुरमें आना और स्वागतदि ...	३०८	८७-श्रीभरत-शत्रुघ्नका आगमन और शोक ...	५२१
६२-श्रीसीता-राम-विवाह ...	३२८	९१-भरत-कौशल्या-संवाद और दशरथजीकी अन्त्येष्टि-क्रिया ...	५२६
६३-वारातका अयोध्या लौटना और अयोध्यामें आनन्द ...	३५३	९२-वसिष्ठ-भरत-संवाद, श्रीरामजीको लानेके लिये चित्रकूट जानेकी तैयारी ...	५३३
६४-श्रीरामचरित्र सुनने-गानेकी महिमा ...	३६९	९३-अयोध्यावासियोंसहित श्रीभरत-शत्रुघ्न आदिका वन-गमन ...	५४६
अयोध्याकाण्ड		९४-निपादकी शङ्का और सावधानी ...	५४९
६५-मञ्जलाचरण ...	३७१	९५-भरत-निषाद-मिलन और संवाद और भरतजीका तथा नगरवासियोंका प्रेम ...	५५४
६६-रामराज्याभिषेककी तैयारी, देवताओंकी व्याकुलता तथा सरस्वतीजीसे उनकी-प्रार्थना ...	३७५	९६-भरतजीका प्रयाग जाना और भरत-भरद्वाज-संवाद ...	५६४
६७-सरस्वतीका मन्थराकी बुद्धि फेरना, कैकेयी-मन्थरा-संवाद ...	३८३	९७-भरद्वाजद्वारा भरतका सत्कार ...	५७२
६८-कैकेयीका कोपभवनमें जाना ...	३९३	९८-इन्द्र-बृहस्पति-संवाद ...	५७७
६९-दशरथ-कैकेयी-संवाद और दशरथ-शोक, सुमन्त्रका महलमें जाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामजीको महलमें भेजना ...	३९५	९९-भरतजी चित्रकूटके मार्गमें ...	५८१
७०-श्रीराम-कैकेयी-संवाद ...	४०६	१००-श्रीसीताजीका स्वप्न, श्रीरामजीको कोल-किरातोंद्वारा भरतजीके आगमनकी सूचना, रामजीका शोक, लक्ष्मणजीका क्रोध ...	५८५
७१-श्रीराम-दशरथ-संवाद, अवधवासियोंका विषाद, कैकेयीको समझाना ...	४१४	१०१-श्रीरामजीका लक्ष्मणजीको समझाना एवं भरतजीकी महिमा कहना ...	५९१
श्रीराम-कौशल्या-संवाद ...	४२१	१०२-भरतजीका मन्दाकिनी-स्नान, चित्रकूटमें पहुँचना, भरतादि सबका परस्पर मिलाप, पिताका शोक और श्राद्ध ...	५९२
श्रीसीता-राम-संवाद ...	४२६	१०३-वनवासियोंद्वारा भरतजीकी मण्डलीका सत्कार, कैकेयीका पश्चात्ताप ...	६०९
राम-लक्ष्मण-संवाद ...	४३८	१०४-श्रीवसिष्ठजीका भाषण ...	६१३
श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद ...	४४१	१०५-श्रीराम-भरतादिका संवाद ...	६१८
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी, सीताजीका महाराज दशरथके पास विदा माँगने जाना, दशरथजीका सीताजीको समझाना ...	४४३	१०६-जनकजीका पहुँचना, कोल-किरातादिकी भेंट, सबका परस्पर मिलाप ...	६३२
श्रीराम-सीता-लक्ष्मणका वनगमन और नगर-निवासियोंको सोये छोड़कर भागे बढ़ना ...	४४६	१०७-कौशल्या-सुनयना-संवाद, श्रीसीताजीका शील ...	६३६
श्रीरामका शृङ्गवेरपुर पहुँचना, निपादके द्वारा सेवा ...	४५३	१०८-जनक-सुनयना-संवाद, भरतजीकी महिमा ...	६४५
लक्ष्मण-निषाद-संवाद, श्रीराम-सीतासे सुमन्त्रका संवाद, सुमन्त्रका लौटना ...	४५८	१०९-जनक-वसिष्ठ-संवाद, इन्द्रकी चिन्ता, सरस्वतीका इन्द्रको समझाना ...	६४६
कैवटका प्रेम और गङ्गा-पार जाना ...	४६५	११०-श्रीराम-भरत-संवाद ...	६५४
प्रयाग पहुँचना, भरद्वाज-संवाद, यमुना-तीरनिवासियोंका प्रेम ...	४७०	१११-भरतजीका तीर्थ-जल-स्थापन तथा चित्रकूट-भ्रमण ...	६६७
तापस-प्रकरण ...	४७५	११२-श्रीराम-भरत-संवाद, पादुका-प्रदान, भरतजीकी विदाई ...	६७०
यमुनाको प्रणाम, वनवासियोंका प्रेम ...	४७७	११३-भरतजीका अयोध्या लौटना, भरतजीद्वारा पादुकाकी स्थापना, नन्दिग्राममें निवास और श्रीभरतजीके चरित्रश्रवणकी महिमा ...	६७७
श्रीराम-वाल्मीकि-संवाद ...	४८६		
चित्रकूटमें निवास, कोल-भीलके द्वारा सेवा ...	४९७		
गुणन्त्रका अयोध्याको लौटना और सर्वत्र शोक देचना ...	५०७		
दशरथ-सुमन्त्र-संवाद, दशरथ-मरण ...	५१२		
		अरण्यकाण्ड	
		११४-मञ्जलाचरण ...	६८५

विषय	पृष्ठ-संख्या
११५-जयन्तकी कुटिलता और फलप्राप्ति ...	६८६
११६-अग्नि-मिलन एवं स्तुति ...	६८९
११७-श्रीसीता-अनसूया-मिलन और श्रीसीताजीको अनसूयाजीका पातिप्रव्रतधर्म कहना ...	६९१
११८-श्रीरामजीका आगे प्रस्थान, विराध-वध और शरभङ्ग-प्रसंग ...	६९५
११९-राधास-वधकी प्रतिज्ञा करना ...	६९८
१२०-सुतीक्ष्णजीका प्रेम, अगस्त्य-मिलन, अगस्त्य-संवाद, रामका दण्डक-वन-प्रवेश और जटायु-मिलन ...	६९८
१२१-यश्वदी-निवास और श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद ...	७०७
१२२-शूर्पणखाकी कथा, शूर्पणखाका खरदूषणके पास जाना और खरदूषणादिका वध ...	७१०
१२३-शूर्पणखाका रावणके निकट जाना, श्रीसीताजीका अग्नि-प्रवेश और माया-सीता ...	७१६
१२४-मारीचप्रसंग और स्वर्णमृगरूपमें मारीचका मारा जाना ...	७२३
१२५-श्रीसीताहरण और श्रीसीताविलाप ...	७२८
१२६-जटायु-रावण-युद्ध ...	७३०
१२७-श्रीरामजीका विलाप, जटायुका प्रसङ्ग ...	७३२
१२८-कवच-उद्धार ...	७३७
१२९-शबरीपर कृपा, नवधा-भक्ति-उपदेश और पम्पासरकी ओर प्रस्थान ...	७३८
१३०-नारद-राम-संवाद ...	७४७
१३१-संतोके लक्षण और सत्सङ्ग-भजनके लिये प्रेरणा ...	७५१

किष्किन्धाकाण्ड

१३२-मङ्गलाचरण ...	७५५
१३३-श्रीरामजीसे हनुमान्जीका मिलना और श्रीराम-सुग्रीवकी मित्रता ...	७५६
१३४-सुग्रीवका दुःख सुनाना, बालिवधकी प्रतिज्ञा, श्रीरामजीका मित्र-लक्षण-वर्णन ...	७६१
१३५-सुग्रीवका वराम्य ...	७६४
१३६-बालि-सुग्रीव-युद्ध, बालि-उद्धार ...	७६६
१३७-ताराका विलाप, ताराको श्रीरामजीद्वारा उपदेश और सुग्रीवका राज्याभिषेक तथा अङ्गदको युवराज्यपद ...	७६९
१३८-नर्पाश्रुतु-वर्णन ...	७७२
१३९-शरद-श्रुतु-वर्णन ...	७७४
१४०-श्रीरामकी सुग्रीवपर नाराजी, लक्ष्मणजीका कोप ...	७७७
१४१-सुग्रीव-राम-संवाद और सीताजीकी खोजके लिये बंदरोका प्रस्थान ...	७७९
१४२-गुफामें तपस्विनीके दर्शन ...	७८३

विषय	पृष्ठ-संख्या
१४३-वानरोंका समुद्रतटपर आना, संपातीसे भेंट और बातचीत ...	७८५
१४४-समुद्र लानेका परामर्श, जाम्बवन्तका हनुमान्जीको बल याद दिलाकर उत्साहित करना ...	७८५
१४५-श्रीरामगुणका माहात्म्य ...	७८९

सुन्दरकाण्ड

१४६-मङ्गलाचरण ...	७९१
१४७-हनुमान्जीका लङ्काको प्रस्थान, सुरसासे भेंट, छाया पकड़नेवाली राक्षसीका वध ...	७९५
१४८-लङ्कावर्णन, लङ्कानीपर प्रहार, लङ्कामें प्रवेश ...	७९७
१४९-हनुमान्-विभीषण-संवाद ...	८०१
१५०-हनुमान्जीका अशोकवाटिकामें सीताको देख-कर दुखी होना और रावणका सीताजीको भय दिखलाना ...	८०३
१५१-श्रीसीता-विजटा-संवाद ...	८०६
१५२-श्रीसीता-हनुमान्-संवाद ...	८०८
१५३-हनुमान्जीद्वारा अशोकवाटिकाविध्वंस, अक्षय-कुमार-वध और मेघनादका हनुमान्जीको नागपाशमें बाँधकर सभामें ले जाना ...	८१३
१५४-हनुमान्-रावण-संवाद ...	८१६
१५५-लङ्का-दहन ...	८२१
१५६-लङ्का जलानेके बाद हनुमान्जीका सीताजीसे बिदा माँगना और चूड़ामणि पाना ...	८२२
१५७-समुद्रके इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन-प्रवेश, सुग्रीव-मिलन, श्रीराम-हनुमान्-संवाद ...	८२३
१५८-श्रीरामजीका वानरोंकी सेनाके साथ चलकर समुद्र-तटपर पहुँचना ...	८३०
१५९-मंदोदरी-रावण-संवाद ...	८३२
१६०-रावणकी विभीषणका समझाना और विभीषणका अपमान ...	८३४
१६१-विभीषणका भगवान् श्रीरामजीकी शरणके लिये प्रस्थान और शरण-प्राप्ति ...	८३८
१६२-समुद्र पार करनेके लिये विचार, रावणदूत शुकका आना और लक्ष्मणजीके पत्रको लेकर लौटना ...	८४६
१६३-दूतका रावणको समझाना और लक्ष्मणजीका पत्र देना ...	८४९
१६४-समुद्रपर श्रीरामजीका क्रोध और समुद्रकी विनती ...	८५४
१६५-श्रीरामगुणगानकी महिमा ...	८५७

लङ्काकाण्ड

१६६-मङ्गलाचरण ...	८५९
१६७-नल-नीलद्वारा पुल बाँधना, श्रीरामजीद्वारा श्रीरामेश्वरकी स्थापना ...	८६१

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
२१६-गुरुजीका अपमान एवं शिवजीके शापकी बात सुनना	२२०-ज्ञान-भक्ति-निरूपण, ज्ञानदीपक और भक्ति-की महान् महिमा	...
२१७-छद्राष्टक ...	११३६	२२१-गरुडजीके सात प्ररत तथा काकभुगुण्डिके उत्तर	११५१
२१८-गुरुजीका शिवजीसे अपराध-समापन, शापानुग्रह और काकभुगुण्डिकी आगेकी कथा	११४१	२२२-भजन-महिमा	११६४
२१९-काकभुगुण्डिकी सोमशजीके पाम जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना	११४५	२२३-रामायण-माहात्म्य, फलस्तुति	११६८
		२२४-रामायणजीकी आरती	११७०
			११८२

चित्र-सूची

१-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज (रंगीन)	१०	२-श्रीरामकी हांकी (रंगीन)	१०१५
--	----	---------------------------	------

नवाह्नपारायणके विश्राम-स्थान

हला विश्राम	पृष्ठ	पृष्ठ
सरा "	१३३	छठा विश्राम
सरा "	२४७	सातवाँ "
या "	३६५	आठवाँ "
चर्वा "	४८१	नवाँ "
	५६६	

भासपारायणके विश्राम-स्थान

भास विश्राम	पृष्ठ	पृष्ठ
...	३६	सोलहवाँ विश्राम
...	६६	सत्रहवाँ "
...	१०१	अठारहवाँ "
...	१३३	उन्नीसवाँ "
...	१६३	बीसवाँ "
...	१९२	इक्कीसवाँ "
...	२२१	बाईसवाँ "
...	२४७	तेईसवाँ "
...	२७७	चौबीसवाँ "
...	३०७	पच्चीसवाँ "
...	३३५	छन्बीसवाँ "
...	३६६	सत्ताईसवाँ "
...	३९८	अट्ठाईसवाँ "
...	४२६	उन्तीसवाँ "
...	४५६	तीसवाँ "

गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी

प्रयागके पास वांदा जिलेमें राजापुर नामक एक ग्राम है, वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नीका नाम हुलसी था। संवत् १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अशुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान् दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक गर्भमें रहनेके पश्चात् गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं; किंतु उनके मुखसे 'राम' का शब्द निकला। उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे। उनका डील-डौल पाँच वर्षके बालकका-सा था। इस प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने लगे। माता हुलसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने बालकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसारसे चल बसीं। दासीने, जिसका नाम चुनिर्या था, बड़े प्रेमसे बालकका पालन-पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनिर्याका भी देहान्त हो गया, अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार-द्वार भटकने लगा। इसपर जगज्जननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर दया आयी। वे ब्राह्मणीका वेष धारणकर प्रतिदिन उसके पास जातीं और उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं।

इधर भगवान् शंकरजीकी प्रेरणासे रामशैलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीने इस बालकको ढूँढ़ निकाला और उनका नाम रामबोला रक्खा। उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत् १५६१ माघ शुक्ला पञ्चमी शुकवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया। विना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये। इसके बाद नरहरि स्वामीने वैष्णवोंके पाँच संस्कार करके रामबोलाको राममन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुखसे जो मुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था। वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों सूकरक्षेत्र (सोरों) पहुँचे। वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासको रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आये। काशीमें शेषसनातनजीके पास रहकर तुलसीदासने पंद्रह वर्षतक वेद-वेदाङ्गका अध्ययन किया। इधर उनकी लोक-वासना कुछ जाग्रत् हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर ये अपनी जन्म-भूमिको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया और वहाँ रहकर लोगोंको भगवान् रामकी कथा सुनाने लगे।

संवत् १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साथ उनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी। पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि 'मेरे इस हाड़-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान्में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता।'

तुलसीदासको ये शब्द लग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चल दिये। वहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये। वहाँ उन्होंने गृहस्थवेषका परित्याग कर साधुवेष ग्रहण किया। फिर तीर्थयात्रा करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवरके पास उन्हें काकभुण्डिजीके दर्शन हुए।

काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान्जीका पता बतलाया। हनुमान्जीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की। हनुमान्जीने कहा—'तुम्हें चित्रकूटमें रघुनाथजीके दर्शन होंगे।' इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े।

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। तुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछेसे हनुमान्जीने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे। हनुमान्जीने उन्हें सात्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे।

संवत् १६०७ की मीनी अमावस्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान् श्रीराम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालकृष्णमें तुलसीदासजीसे कहा—'बाबा! हमें चन्दन दो। हनुमान्जीने सोचा, वे इस वार भी धोखा न खा जायें, इससे उन्होंने तोतेका रूप धारणकर यह दोहा कहा—

चित्रकूट के घाट पर भद्र संतन की भीर। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर ॥



B.K. Pillai

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज

तुलसीदासजी उस अद्भुत छविको निहारकर शरीरकी मुग्ध भूल गये । भगवान् ने अपने हावसे चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये ।

संवत् १६२८ में ये हनुमान्जीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े ; उन दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये । पर्वके छः दिन बाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हें भरद्वाज और यामवल्क्य मुनिके दर्शन हुए । वहाँ उक्त समय वही कथा हो रही थी ; जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें अपने गुप्ते सुनी थी । वहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ ब्रह्मदयाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया । वहाँ उनके अंदर कवित्वशक्तिका स्फुरण हुआ और वे संस्कृतमें पद्य-रचना करने लगे । परंतु दिनमें वे जितने पद्य रचते, रात्रिमें वे सब सुप्त हो जाते । यह घटना रोज घटती । आठवें दिन तुलसीदासजीको स्वप्न हुआ । भगवान् शंकरने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी धायामें काव्य-रचना करो । तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी । वे उठकर बैठ गये । उसी समय भगवान् शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । शिवजीने कहा—'तुम अयोध्यामें जाकर रहो और हिन्दीमें काव्य-रचना करो । मेरे प्राणीवर्गसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी ।' इतना कहकर श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये । तुलसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्यकर काशीसे अयोध्या चले आये ।

संवत् १६३१ का प्रारम्भ हुआ । उस साल रामनवमीके दिन प्रायः बंसा ही योग था जिससे नेतायुगमें रामजन्मके दिन था । उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दो वर्ष, सात महीने, छम्बीस दिनमें ग्रन्थकी समाप्ति हुई । संवत् १६३३ के मार्गशीर्ष शुक्लपक्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण हो गये ।

इसके बाद भगवान्की आज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले आये । वहाँ उन्होंने भगवान् विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातकी पुस्तक श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें रख दी गयी । सबेरे जब पट छोला गया तो उसपर लिखा हुआ पाया गया—'सत्यं शिवं सुन्दरम्' और नीचे भगवान् शंकरकी सही थी । उस समय उपस्थित लोगोंने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की आवाज भी कानोंसे सुनी ।

इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई । वे दल बांधकर तुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने लगे । उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे । चोरोंने जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं । वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गौर चंचके थे । उनके दशमसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें लग गये । तुलसीदासजीने अपने लिये भगवान्की कृप्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छुटा दिया । पुस्तक अपने मित्र गोडरमलके यहाँ रख दी । इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी । इसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा ।

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी—

आनन्दकानने हृष्टिमञ्जुमस्तुसप्तोत्तरेः । कवितामञ्जरी भाति रामछन्दरूपिता ॥

'इस काशीरूपी आनन्दचरितमें तुलसीदास चतुर्ता-फिरता तुलसीका पौधा है । उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी भँवरा सदा मँडराया करता है ।'

पण्डितोंकी इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक और उपाय सोचा गया । भगवान् विश्वनाथ सामने सबसे ऊपर बैद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रोंके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर छोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोंके ऊपर रखना हुआ । अब तो पण्डित लोग बड़े लज्जित हुए । उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिसे उनका चरणोदक लिया । तुलसीदासजी अब असीयाटपर रहने लगे । रातको एक दिन कलियुग मूर्तरूप धारणकर उनके पास आया और उन्हें पास देने लगा । गोस्वामीजीने हनुमान्जीका ध्यान किया । हनुमान्जीने उन्हें बिनयके पद रचनेको कहा ; इसपर गोस्वामीजीने तनय-वक्रिका लिखी और भगवान्के चरणोंमें उसे समर्पित कर दी । श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये और तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया ।

संवत् १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असीयाटपर गोस्वामीजीने राम-राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया ।

श्रीरामशलाका प्रश्नावली

मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है। श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका स्वरूप इस प्रकार है—

सु	प्र	उ	वि	हो	मु	ग	व	सु	नु	वि	घ	घि	ई	द
र	रु	फ	सि	सि	रें	वस	है	मं	ल	न	ल	य	न	अं
मुज	सो	ग	सु	कु	म	स	ग	त	न	ई	ल	घा	वे	नो
त्य	र	न	कु	जो	म	रि	र	र	अ	की	हो	सं	रा	य
पु	सु	थ	सी	जे	इ	ग	मं	सं	क	रे	हो	स	स	नि
त	र	त	र	स	इ	ह	व	व	प	चि	स	य	स	तु
म	का	ा	र	र	मा	मि	मी	म्हा	ा	जा	हू	हीं	ा	जू
ता	रा	रे	री	हू	का	फ	खा	जि	ई	र	रा	पू	द	ल
नि	को	मि	गो	न	म	ज	य	ने	मनि	क	ज	प	स	ल
हि	र	म	स	रि	ग	द	न	ष	म	खि	जि	मनि	त	जं
सि	मु	न	न	की	मि	ज	र	ग	धु	ख	सु	का	स	र
गु	क	म	अ	ध	नि	म	ल	ा	न	व	ती	न	रि	भ
ना	पु	व	अ	ढा	र	ल	का	ए	तु	र	न	नु	व	थ
सि	ह	सु	म्ह	रा	र	स	हि	र	त	न	ष	ा	जा	ा
र	सा	ा	ला	धी	ा	री	ज	हू	हीं	षा	जू	ई	रा	रे

इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें अंगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रश्नावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई चिन्तन लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गन्दी हो

और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय। अब जिस कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवें अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अंगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय। पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्न-

तत्किं अभीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी। यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमें केवल 'आ' ही मात्रा (r) और किसी-किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनो अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये।

अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावलीके * इस चिह्नसे संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकमें अँगुली या शलाका रखवा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह चौपाई बन जायगी—

हो इ है सो ई जो रा म* र धि रा खा ।

को क रि त र क ब डा व हि सा पा ॥

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पावतीके संवादमें है। प्रश्नकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः उसे भगवान्पर छोड़ देना श्रेयस्कर है।

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीसे और भी जितनी चौपाईयाँ बनती हैं, उन सबका स्थान और फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है।

१-सुम्न सिय सत्य असीत हमारो । पूजिह मन कामना सुम्हारो ॥
स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरी-पूजनके प्रसंगमें है। गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है।

फल—प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।

२-प्रब्रति मगर कीने सब काम । हृदय राखि कोतमपुर राम ॥

स्थान—यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जीके लङ्कामें प्रवेश करनेके समयकी है।

फल—भगवान्का स्मरण करके कार्यात्म्य करो, सफलता मिलेगी।

३-उपरें अंत न होइ निबहू । कालनेमि जिनि राखन राहू ॥

स्थान—यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्संगवर्णनके प्रसंगमें है।

फल—इस कार्यमें भलाई नहीं है। कार्यकी सफलतामें सन्देह है।

४-बिधि बस सुखन कुसंगत परहो । कति मनि सम निबहू ननु तहो ॥

स्थान—यह चौपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें ही सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है।

फल—खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो। कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

५-सुख भंगतमय संत समाहू । जिनि भग भंगम तीरचरानू ॥

स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमें है।

फल—प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।

६-गरत दुघारिषु करप मिताई । गोघर सिधु अमल तितलाई ॥

स्थान—यह चौपाई श्रीहनुमान्जीके लङ्कामें प्रवेश करनेके समयकी है।

फल—प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा।

७-बहन कुबेर सुरेस समोरा । रन सनमूख धरि काहू न धीरा ॥

स्थान—यह चौपाई लङ्काकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात् मन्दोदरीके विलापके प्रसंगमें है।

फल—कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

८-सुकल मनोरथ होहुं सुम्हारे । राम लखनु सुनि भय सुम्हारे ॥

स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है।

फल—प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा।

इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुल नौ चौपाईयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नके उत्तराशय सहिहित हैं।

पारायण-विधि

श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोंको पाठारम्भके पूर्व धीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात् तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये। सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं—

अथ आवाहनमन्त्रः

सुसतीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिप्रत ।
नश्र्चैत्य उपविश्येयं पूजनं प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥

ॐ तुलसीदासाय नमः

धीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रब ।
उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहोप्य मेऽध्वंम् ॥ २ ॥

ॐ वाल्मीकाय नमः

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर ।
पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥

ॐ गौरीपतये नमः

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।
पाम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।
पौष्टस्य पत्रिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ ५ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।
पौष्टकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः

श्रीहनुमत्प्रदस्तुभ्यमिहागच्छ हृषानिधे ।
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ७ ॥

ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपुत्रा च कर्तव्या विधिपूर्वकम् ।
पृष्ठाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥
रत्नाम्नोज्ज्वलामिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं
श्यामान्नाङ्गं द्विमूर्धं प्रमन्नजदनं श्रीसीतया भोमितम् ।
काष्ठ्याममृतमागारं प्रियपथीश्रादिभिर्माचितं
बन्धे विष्णुगिद्यादिमेध्यमनिर्गं मन्त्रेष्टसिद्धिप्रदम् ॥ ९ ॥
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ।
गृहाण मम पूजां च आयुष्यादिभिर्युतः ॥ १० ॥

इत्यावाहृतम्

शुक्लरश्मिं राम दिव्यास्तरणभोमितम् ।
आगतं हि मया बलं गृहाण मणिचित्रितम् ॥ ११ ॥

इति पौष्टशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य
श्रीशिवकाकमृगशिवयाज्ञरत्नवयोश्चरामिभुवनश्रीवासा ऋषयः
श्रीसीतलामो देवता श्रीरामनाम बीजं पञ्चशतहरी भक्तिः
शक्तिः अथ निमन्त्रितशोयत्रिपलतया श्रीसीतारामप्रीतिपूर्वक-
मकमनोरथविद्वेषर्ष पाठे विनियोगः ॥

अथाश्रमनम्

श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीराघवञ्ज्याय नमः ।

श्रीरामभ्रातृभ्यां नमः ।

इति मन्त्रत्रयवेन आश्रमनं कुर्यात् ॥ श्रीपुण्ड्रबीज-
मन्त्रेण प्राशयामं कुर्यात् ॥

अथ करन्यासः

जग मंगल गुन प्राप्त राम के । शक्ति मुकुति धन धरम प्राप्त के ॥

अङ्गुष्ठाभ्यां नमः

राम राम कहिं जे जमुह्राहों । तिन्हहिं न पापपुंज ममुह्राहों ॥

तर्जनीभ्यां नमः

राम मकर नामन्ह ते अघिका । होउ नाथ अथ जग मन अघिका ॥

मध्यमाभ्यां नमः

उमा दाउ जोपित की नाई । सबहिं नबाबत राम-गोसाई ॥

अनामिकाभ्यां नमः

मन्मुख होइ जोय मोहिं जहहीं । जन्म कोटि अथ नामहिं तहहीं ॥

कनिष्ठिकाभ्यां नमः

मायभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप शक्ति कर सायक ॥

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

इति करन्यासः

अथ हृदयादिन्यासः

जग मंगल गुन प्राप्त राम के । शक्ति मुकुति धन धरम प्राप्त के ॥

हृदयाय नमः ।

राम राम कहिं जे जमुह्राहों । तिन्हहिं न पापपुंज ममुह्राहों ॥

शिरसे स्वाहा ।

राम मकर नामन्ह ते अघिका । होइ नाथ अथ जग मन अघिका ॥

शिखायै वषट् ।

उमा दाउ जोपित की नाई । सबहिं नबाबत राम-गोसाई ॥

कवचाय हुम् ।

मन्मुख होइ जोय मोहिं जहहीं । जन्म कोटि अथ नामहिं तहहीं ॥

नेत्राभ्यां धीपट् ।

मायभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप शक्ति कर सायक ॥

अस्त्राय फट् ।

इति हृदयादिन्यास

अथ ध्यानम् ।

मानवसोक्य संजग मोचन । कृपा बिलोकनि तोष बिमोचन ॥

बीज मानसम श्याम काय शरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥

जानुप्रान बरुष बल भंजन । मुनि सखन संजग अक्ष भंजन ॥

भृगुर सप्रि नरबंद बलाहक । अक्षरन सरन दीन जन गाहक ॥

भुजबल बिभूष भार महि कंदित । कर धूपन जिराध बध पंडित ॥

राजनादि मुखदय भुववर । जय वसरय कुस कुमुद मृदाकर ॥

शुक्ल पुरान बिबिन निगमागम । गाबत मुर मुनि संत समागम ॥

बास्वीक व्यर्थाक मर कंदन । अथ बिधि कुसल कोसगा भंजन ॥

जनिजन मयम नाम नमनाह्न । शुभनिवात अथ पाहिं प्रनत जन ॥

इति ध्यानम् ।

श्रीरामचरितमानस

रामजी पालनेमें



एक बार जननीं अन्हवाए ।
करि सिंगार पलनां पौढ़ाए ॥

श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान

बालकाण्ड

श्लोक

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि ।

मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥

अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, छन्दों और मङ्गलोंकी करनेवाली सरस्वतीजी और गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥२॥

श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशंकरजीकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके विना सिद्धजन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २ ॥

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणाम् ।

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥

ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके आश्रित होनेसे ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३ ॥

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ।

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥

श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञान-सम्पन्न कवीश्वर श्रीवाल्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमान्जीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करिं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥

उत्पत्ति, स्थिति (पालन) और संहार करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥

यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्रमः ।

यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान्भोधेस्तितीर्षावतां

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामारव्यमीशं हरिम् ॥ ६ ॥

जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमें सर्पके भ्रमकी भाँति यह सारा दृश्य जगत् सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणोंसे पर (सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान् हरिकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्

रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ।

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-

भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७ ॥

अनेक पुराण, वेद और [तन्त्र] शास्त्रसे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है और कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके मुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत करता है ॥ ७ ॥

सो०—जो सुमिरत सिद्धि होइ गन नायक करिवर बदन ।

करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ ९ ॥

जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणोंके स्वामी और सुन्दर हाथीके मुखवाले हैं, वे ही बुद्धिके राशि और शुभ गुणोंके धाम (श्रीगणेशजी) मुझपर कृपा करें ॥ ९ ॥

मूक होइ वाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन ।

जासु कृपाँ सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन ॥ २ ॥

जिनकी कृपासे गंगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और लँगड़ा-लूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता है, वे कलियुगके सब पापोंको जला डालनेवाले दयालु (भगवान्) मुझपर द्रवित हों (दया करें), ॥ २ ॥

नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन ।

करउ सो मम उर धाम सदा क्षीरसागर सयन ॥ ३ ॥

जो नील कमलके समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं वे भगवान् (नारायण) मेरे हृदयमें निवास करें ॥ ३ ॥

कुंद इंद्रु सम देह उमा रमन करुना अयन ।

जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन ॥ ४ ॥

जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीर है, जो पार्वतीजीके प्रियतम और दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन करनेवाले (शंकरजी) मुझपर कृपा करें ॥ ४ ॥

बंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि ।

महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर ॥ ५ ॥

मैं उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ, जो कृपाके समुद्र और नररूपमें श्रीहरि ही हैं और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्य-किरणोंके समूह हैं ॥ ५ ॥

चौ०—बंदउँ गुरु पद पद्म परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥

अमिअ मूरिमय चूरन चारु । समन सकल भव रुज परिवारु ॥

मैं गुरु महाराजके चरण-कमलोंकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि (सुन्दर स्वाद), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। वह अमर मूल (संजीवनी जड़ी) का सुन्दर चूर्ण है जो सम्पूर्ण भवरोगोंके परिवारको नाश करनेवाला है ॥ १ ॥

सुकृति संभु तन विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किँ तिलक गुन गन वस करनी ॥

वह रज सुकृती (पुण्यवान्, पुरुष) लयी सिद्धीके शरीरपर सुयोमित निर्मल विभूति है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है, सत्के मनरूपी सुन्दर दर्पणके मूलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके समूहको बर्षने करनेवाली है ॥ २ ॥

श्रीगुरु पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती ॥
दलन मोह तम सो सप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥

श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदयमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है ॥ ३ ॥

उघरहिं विमल विलोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥
सूझहिं राम चरित मनि मानिक । गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥

उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोष-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिवायी पड़ने लगते हैं—॥ ४ ॥

चौ०—जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान ।
कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥

जैसे सिद्धाञ्जनको नेत्रोंमें लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वीके अंदर कौतुकसे ही बहुत-सी खानें देखते हैं ॥ १ ॥

चौ०—गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दृग दोष विभंजन ॥
तेहिं करि विमल विवेक विलोचन । वरनउँ राम चरित भव मोचन ॥

श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल और सुन्दर नयनानृत-अञ्जन है, जो नेत्रोंके दोषोंका नाश करनेवाला है। उस अञ्जनसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके मैं संसाररूपी दम्बनसे छुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

बंदउँ प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥
सुजन समाज सकल गुन खानी । करउँ प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥

पहले पृथ्वीके देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जो अज्ञानसे उत्पन्न सब सन्देहोंको हरनेवाले हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रनाम करता हूँ ॥ २ ॥

साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुणमय फल जासू ॥
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥

संतोंका चरित्र कपासके चरित्र (जीवन) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। (कपासकी डोंडी नीरस होती है, संत-चरित्रमें भी विषमासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है, कपास उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है, इसलिये वह विशद है, और कपासमें गुण (तन्तु) होते हैं, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्गुणोंका भण्डार होता है, इसलिये वह गुणमय है।) [जैसे कपासका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी वस्त्रके रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंको ढकता है, उसी प्रकार] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों (दोषों) को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत्में बन्दनीय यश प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

मुद मंगलमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥
राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥

संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्में चलता-फिरता तीर्थराज (प्रयाग) है। जहाँ (उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें) रामभक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं ॥ ४ ॥

विधि निषेधमय कलि मल हरनी । कर्म कथा रविन्दनि वरनी ॥
हरि हर कथा विराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥

विधि और निषेध (यह करो और यह न करो) रूपी कर्मोंकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं और भगवान् विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥

बटु बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज सुकरमा ॥
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥

[उस संतसमाजरूपी प्रयागमें] अपने धर्ममें जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभकर्म ही उस तीर्थराजका समाज (परिकर) है। वह (संतसमाजरूपी

प्रयागराज) सब देशोंमें, सब समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥

अकथ अलौकिक तीरथराज । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥

वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥

दो०—सुनि समुझहिं जन मुदिन मन मज्जहिं अति अनुराग ।

लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥

जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हैं और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों फल पा जाते हैं ॥ २ ॥

चौ०—मज्जनफलपेखिअ ततकाला । काक होहिं पिक बकड मराला ॥

सुनि आचरज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥

इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए कोयल वन जाते हैं और वगुले हंस । यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्सङ्गकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १ ॥

बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥

जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥

बालमीकजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपनी होनी (जीवनका वृत्तान्त) कही है । जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जगत्में हैं, ॥ २ ॥

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥

सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥

उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्नसे बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सत्सङ्गका ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३ ॥

विनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥

सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥

सत्सङ्गके बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह सत्सङ्ग सहजमें मिलता नहीं। सत्सङ्गति आनन्द और कल्याणकी जड़ है। सत्सङ्गकी सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है और सब साधन तो फूल हैं ॥ ४ ॥

**सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥
विधि वस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥**

दुष्ट भी सत्सङ्गति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुहावना हो जाता है (सुन्दर सोना बन जाता है)। किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसङ्गतिमें पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी साँपकी मणिके समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं (अर्थात् जिस प्रकार साँपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विपको ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोंके सङ्गमें रहकर भी दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।) ॥ ५ ॥

**विधि हरि हर कवि कौविद वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥
सो मो सन कहि जात न कैसे । साक वनिक मनि गुन गन जैसे ॥**

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें सकुचाती है; वह मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे मणियोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते ॥ ६ ॥

दो०—**बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ ।**

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३(क) ॥

मैं संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु! जैसे अब्जलिमें रक्खे हुए सुन्दर फूल [जिस हायने फूलोंको तोड़ा और जिसने उनको रक्खा उन] दोनों ही हाथोंको समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं] ॥ ३ (क) ॥

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु ।

बालविनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ ३(ख) ॥

संत सरलहृदय और जगत्के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दें ॥ ३ (ख) ॥

दोनों (संत और असंत) जगत्में एक साथ पैदा होते हैं; पर [एक साथ पैदा होनेवाले] कमल और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं। (कमल दर्शन और स्पर्शसे सुख देता है, किन्तु जोंक शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है।) साधु अमृतके समान (मृत्युरूपी संसारसे उबारनेवाला) और असाधु मदिराके समान (मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करनेवाला) है, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्‌रूपी अगाध समुद्र एक ही है। [शास्त्रोंमें समुद्रमन्थनसे ही अमृत और मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है] ॥ ३ ॥

भल अनभल निज निज करतूती । लहत सुजस अपलोक विभूती ॥
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥

भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं। अमृत, चन्द्रमा, गङ्गाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोंकी नदी अर्थात् कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है ॥ ४-५ ॥

दो०—भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु ।

सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु ॥ ५ ॥

भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है। अमृतकी सराहना अमर करनेमें होती है और विषकी मारनेमें ! ॥ ५ ॥

चौ०—खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥

तेहि तें कळु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥

दुष्टोंके पापों और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसीसे कुछ गुण और दोषोंका वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता ॥ १ ॥

भलेउ पोच सब विधि उपजाए । गनि गुन दोष वेद बिलगाए ॥

कहहि वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥

भले, बुरे सभी ब्रह्माके पैदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने

उनको अलग-अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि गुण-अवगुणोंसे सनी हुई है ॥ २ ॥

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥

दानव देव ऊँच अरु नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥

माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥

कासी मग सुरसरि क्रमनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥

सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥

दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊँच-नीच, अमृत-विष सुजीवन (सुन्दर जीवन)-मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध, गङ्गा-कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्ग-नरक, अनुराग-वैराग्य, [ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सृष्टिमें हैं।] वेदशास्त्रोंने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥

दो०—जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ ६ ॥

विधाताने इस जड़-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है। किन्तु संतरूपी हंस दोष-रूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हैं ॥ ६ ॥

ची०—अस विवेक जब देइ विधाता । तव तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥

काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥

विधाता जब इस प्रकारका (हंसका-सा) विवेक देते हैं, तब दोषोंको छोड़कर मन गुणोंमें अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे भले लोग (साधु) भी मायाके बशमें होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते हैं ॥ १ ॥

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ॥

खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू । मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू ॥

भगवान्के भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोंको मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परन्तु उनका कभी भंग न होनेवाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता ॥ २ ॥

लखि सुबेष जग वंचक जेऊ । बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ ॥
उघरहिं अंत न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥

जो [वेषधारी] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा (साधुका-सा) वेष बनाये देखकर वेषके प्रतापसे जगत् पूजता है, परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हाल हुआ ॥ ३ ॥

किएहुँ कुबेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥
हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥

बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है, जैसे जगत्में जाम्बवान् और हनुमान्जीका हुआ । बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे लाभ होता है । यह बात लोक और वेदमें है और सभी लोग इसको जानते हैं ॥ ४ ॥

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संग्गा ॥
साधु असाधु सदन सुक सारीं । सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं ॥

पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच (नीचेकी ओर बहने-वाले) जलके संगसे कीचड़में मिल जाती है । साधुके घरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते हैं और असाधुके घरके तोता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं ॥ ५ ॥

धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥
सोई जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥

कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ [सुसंगसे] सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके काममें आता है । और वही धुआँ जल, अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्को जीवन देनेवाला बन जाता है ॥ ६ ॥

दो०—ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग ।

होहिं कुवस्तु सुवस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥७(क)॥

ग्रह, ओषधि, जल, वायु और वस्त्र—ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसारमें बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं । चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातको जान पाते हैं ॥ ७ (क) ॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह ।

ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख)॥

महीनेके दोनों पक्षवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विघाताने इनके नाममें भेद कर दिया है (एकका नाम शुक्ल और दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया) । एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाला और दूसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगत्ने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ (ख) ॥

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।

बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ ७(ग) ॥

जगत्में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ (ग) ॥

देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।

बंदउँ किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व ॥ ७(घ) ॥

देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ । अब सब मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ) ॥

चौ०—आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ वासी ॥

सीय राममय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज जरायुज) जीव जल, पृथ्वी और आकाशमें रहते हैं । उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत्को श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

जानि कृपाकर किंकर मोहू । सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू ॥

निज बुधिबल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करउँ सब पाहीं ॥

मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये । मुझे अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है, इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ ॥ २ ॥

करन चहउँ रघुपति गुन गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥

सृझ न एकउ अंग उपाऊ । मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥

मैं श्रीरघुनाथजीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि छोटी है और

रामजीका चरित्र अथाह है। इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात् कुछ (केशमाश) भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ राजा है ॥३॥

ति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिअ अमिअ जगजुरइ न छाछी ॥

मिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहिं बालवचन मन लाई ॥

मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पानेकी पर जगत्में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे बालवचनोंको मन लगाकर (प्रेमपूर्वक) सुनेंगे ॥ ४ ॥

मैं बालक कह तोतरि बाता । सुनिहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥

सिहहिं क्रूर कुटिल कुविचारी । जे पर दूषन भूषनधारी ॥

जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे सुनते हैं। किन्तु क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोंके दोषोंको ही भूषण-रूपसे धारण किये रहते हैं (अर्थात् जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं), हँसेंगे ॥ ५ ॥

नेज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ॥

ते पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥

रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती? किन्तु जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत्में बहुत नहीं हैं ॥ ६ ॥

जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई ॥

सज्जन सकृत सिंधु सम कोई । देखि पूर विधु बाढ़इ जोई ॥

हे भाई! जगत्में तालावों और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल गाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते हैं (अर्थात् अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं)। समुद्र-सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (दूसरोंका उत्कर्ष देखकर) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥

दो०—भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक विस्वास ।

पैहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥

मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८ ॥

चौ०—खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥

हंसहि बक दादुर चातकही । हँसहिं मलिन खल विमल बतकही ॥

किन्तु दुष्टोंके हँसनेसे मेरा हित ही होगा । मधुर कण्ठवाली कोयलको कोए तो कठोर ही कहा करते हैं । जैसे बगुले हंसको और भेदक पपीहेको हँसते हैं वैसे ही मलिन मनवाले दुष्ट निमल वाणीको हँसते हैं ॥ १ ॥

कवित रसिक न राम पद नेहू । तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू ॥

भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसें नहिं खोरी ॥

जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है, उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्यरसका काम देगी । प्रथम तो यह भाषाकी रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं ॥ २ ॥

प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥

हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुवर की ॥

जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी । जिनकी श्रीहरि (भगवान् विष्णु) और श्रीहर (भगवान् शिव) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है (जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते), उन्हें श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥

राम भगति भूषित जिउँ जानी । सुनिहहिं सुजन सराहि सुवानी ॥

कवि न होउँ नहिं बचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥

सज्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे । मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ ॥ ४ ॥

आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥

भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥

नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलङ्कार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों और रसोंके अपार भेद और कविताके भाँति-भाँतिके गुण-दोष होते हैं ॥ ५ ॥

कवित विवेक एक नहिं मोरें । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें ॥

इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागजपर लिखकर (शपथपूर्वक) सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ६ ॥

दो०—भनिति मोरि सब गुन रहित विस्व विदित गुन एक ।

सो विचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह कें विमल विवेक ॥ ६ ॥

मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस जगत्प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे ॥ ६ ॥

चौ०—एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥

मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥

इसमें श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोंका सार है, कल्याणका भवन है और अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान् शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १ ॥

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥

विधुबदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥

जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी रामनामके बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब प्रकारसे सुसज्जित होनेपर भी वस्त्रके बिना शोभा नहीं देती ॥ २ ॥

सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥

सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥

इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम एवं यशसे अङ्कित जानकर, बुद्धिमान् लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भीरकी भाँति गुणहीको ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

जदपि कवित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥

सोइ भरोस मोरें मन आवा । केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥

यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीराम-

जीका प्रताप प्रकट है। मेरे मनमें यही एक भरोसा है। भले संगसे भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया ? ॥ ४ ॥

धूमउ तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥

भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी । राम कथा जग मंगल करनी ॥

घुमां भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपनको छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत्का कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है [इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी] ॥ ५ ॥

छं०—मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥

प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी ।

भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और कलियुगके पापोंको हरनेवाली है। मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र जलवाली नदी (गङ्गाजी) की चालकी भाँति टेढ़ी है। प्रभु श्रीरघुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सज्जनोके मनको भानेवाली हो जायगी। भ्रमशानकी अपवित्र राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली होती है।

दो०—प्रिय लागिहि अति सवहि मम भनिति राम जस संग ।

दारु विचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १० (क) ॥

श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वतके संगसे काष्ठमात्र [चन्दन बनकर] वन्दनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ [की तुच्छता] का विचार करता है ? ॥ १० (क) ॥

स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद करहिं सब पान ।

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान ॥ १० (ख) ॥

श्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुल गुणकारी होता

है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान् लोग बड़े चावसे गाते और सुनते हैं ॥ १० (ख) ॥

चौ०—मनिमानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥

नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥

मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छवि है, वह साँप, पर्वत और हाथीके मस्तकपर वैसी शोभा नहीं पाती। राजाके मुकुट और नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

तैसेहिं सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ॥

भगति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥

इसी तरह बुद्धिमान् लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है (अर्थात् कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका ग्रहण और अनुसरण होता है)। कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥ २ ॥

राम चरित सर विनु अन्हवाएँ । सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ।

कवि कोविद अस हृदयँ विचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥

सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमें उन्हें नहलाये बिना दूसरे करोड़ों उपायोंसे भी दूर नहीं होती। कवि और पण्डित अपने हृदयमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंको हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं ॥ ३ ॥

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥

हृदय सिंधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥

संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछिताने लगती हैं [कि मैं क्यों इसके बुलानेपर आयी]। बुद्धिमान् लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप और सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं ॥ ४ ॥

जौं वरपइ वर वारि विचारू । होहिं कवित मुकुतामनि चारू ॥

इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर कविता होती है ॥ ५ ॥

दो०—जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग ।

पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥

उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागमें पिरोकर सज्जन लोग अपने निमल हृदयमें धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा होती है (वे आत्यन्तिक प्रेमको प्राप्त होते हैं) ॥ ११ ॥

चो०—जे जनमे कलिकाल कराला । करतव वायस वेष मराला ॥

चलत कुपंथ वेद मग छाँड़े । कपट कलेवर कलि मल भाँड़े ॥

जो कराल कलियुगमें जन्मे हैं, जिनकी करनी कोएके समान है और वेष हंसका-सा है, जो वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके भाँड़े हैं ॥ १ ॥

बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के ॥

तिन्ह महुँ प्रथम रेख जग मोरी । धोंग धरमध्वज धंधक धोरी ॥

जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो धन (लोभ), क्रोध और कामके गुलाम हैं और जो धोंगाधीनी करनेवाले, धर्मध्वज (धर्मकी मूर्ति ध्वजा फहरानेवाले—दम्भी) और कपटके धन्धोंका बोझ ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोपने सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २ ॥

जौं अपने अवगुन सब कहऊँ । वाढ़इ कथा पार नहिं लहऊँ ॥

ताते मैं अति अल्प बखाने । धोरे न्हूँ जल्लिहै तयाने ॥

यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने दूर जो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा । इससे मैंने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है । बुद्धिमान् लोग थोड़ेहीमें समझ लेंगे ॥ ३ ॥

समुझि विविधि विधि विनती मोरी । कोउ न कथा सुनि ते

एतेहु पर करिहहिं जे असंका । मोहिते अधिकते ज

मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं देगा। इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं ॥४॥

कवि न होऊँ नहिँ चतुर कहावउँ । मति अनुरूप राम गुन गावउँ ॥
कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥

मैं न तो कवि हूँ; न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि ! ॥५॥

जेहिँ मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥
समुझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥

जिस हवासे सुमेरु-जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने रूई किस गिनतीमें है। श्रीरामजीकी असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है—॥ ६ ॥

दो०—सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान ।

नेति नेति कहि जासु गुन करहिँ निरंतर गान ॥ १२ ॥

सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण—ये सब 'नेति नेति' कहकर (पार नहीं पाकर 'ऐसा नहीं', 'ऐसा नहीं' कहते हुए) सदा जिनका गुणगान किया करते हैं ॥ १२ ॥

चौ०—सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें विनु रहा न कोई ॥

तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥

यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी (अकथनीय) ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है। (अर्थात् भगवान्की महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता; परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान्का गुणगान करना चाहिये; क्योंकि भगवान्के गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकारसे शास्त्रोंमें वर्णन है। थोड़ा-सा भी भगवान्का भजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे तार देता है) ॥ १ ॥

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द पर धामा ॥

व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥

जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द और परमधाम हैं और जो सबमें व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान्ने दिव्य शरीर धारण करके नाचा प्रकारकी लीला की है ॥ २ ॥

सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥

जेहि जन पर ममता अति छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥

वह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि भगवान् परम कृपालु हैं और शरणागतके बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया ॥ ३ ॥

गई बहोर गरीब नेवाजू । सरल सबल साहिव रघुराजू ॥

बुध बरनहि हरि जस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥

वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले, गरीबनिवाज (दीनबन्धु), सरलस्वभाव, सर्वशक्तिमान् और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान् लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल (मोक्ष और दुर्लभ भगवत्प्रेम) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४ ॥

तेहि बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥

मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥

उसी बलसे (महिमाका यथायं वर्णन नहीं, परंतु महान् फल देनेवाला भजन समझकर भगवत्कृपाके बलपर ही) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहूंगा। इसी विचारसे [वाल्मीकि, व्यास आदि] मुनियोंने पहले हरिकी कीर्ति गायी है, भाई! उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम होगा ॥ ५ ॥

दो०—अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहि ।

आदि पिपीलिकउ परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥

जै अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उनपर पुल बंधा देता है तो अत्यन्त

छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे में भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सकूंगा] ॥ १३ ॥

ची०—एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहउँ रघुपति कथा सुहाई ॥

व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥

इस प्रकार मनको बल दिखलाकर मैं श्रीरघुनाथजीकी सुहावनी कथाकी रचना करूंगा । व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयज्ञ वर्णन किया है ॥ १ ॥

चरण कमल बंदउँ तिन्ह केरे । पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे ॥

कलि के कविन्ह करउँ परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥

मैं उन सब (श्रेष्ठ कवियों) के चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें । कलियुगके भी उन कवियोंको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है ॥ २ ॥

जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने ॥

भए जे अहहिं जे होइहहिं आगे । प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागे ॥

जो बड़े बुद्धिमान् प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

होहु प्रसन्न देहु बरदानू । साधु समाज भनिति सनमानू ॥

जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं । सो श्रम बादि बाल कवि करहीं ॥

आप सब प्रसन्न होकर यह बरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान् लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥ ४ ॥

कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥

राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अँदिसा ॥

कीर्ति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है, जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो । श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दर (सबका अनन्त कल्याण

करनेवाली ही) है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामञ्जस्य है। (अर्थात् इन दोनोंका मेल नहीं मिलता); इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥

तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे । सिआनि सुहावनि टाट पटोरे ॥

परंतु हे कवियो ! आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है ॥ ६ ॥

दो०—सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥१४(क)॥

चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरको भूलकर सराहना करने लगें ॥ १४ (क) ॥

सोन होइ बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर ।

करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४(ख)॥

ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो ! आप कृपा करें, जिससे मैं हरियशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ (ख) ॥

कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल ।

बालविनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल ॥१४(ग)॥

कवि और पण्डितगण ! आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥ १४ (ग) ॥

सो०—बंदउँ मुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ ।

सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१४(घ)॥

मैं उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो खर (राक्षस) सहित होनेपर भी खर (कठोर) से विपरीत] बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूषण (राक्षस) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात् दोषसे रहित है ॥ १४ (घ) ॥

बंदउँ चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस ।

जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुवर विसद जसु ॥१४(ड)॥

मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसार-समुद्रके पार होनेके लिये ब्रह्माजीके समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमें भी वेद (थकावट) नहीं होता ॥ १४ (ड) ॥

बंदउँ विधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ ।

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी ॥१४(च)॥

मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँसे एक ओर संतरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए ॥ १४ (च) ॥

दो०—विबुध विप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि ।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४(छ)॥

देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह—इन सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ (छ) ॥

ची०—पुनि बंदउँ सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥

मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिवेका ॥

फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी वन्दना करता हूँ । दोनों पवित्र और मनोहर चरित्रवाली हैं । एक (गङ्गाजी) स्नान करने और जल पीनेसे पापोंको हरती हैं और दूसरी (सरस्वतीजी) गुण और यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं ॥१॥

गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवउँ दीनबंधु दिन दानी ॥

सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधिसब विधितुलसी के ॥

श्रीमहेश और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, जो दीनबन्धु और नित्य दान करनेवाले हैं, जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका सब प्रकारसे कपटरहित (सच्चा) हित करनेवाले हैं ॥ २ ।

कलिबिलोकिजग हित हर गिरजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥

अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥

जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर, जंगत्के हितके लिये शाबर मन्त्रसमूहकी रचना की, जिन मन्त्रोंके अक्षर वेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ३ ॥

सो उमैस मोहि पर अनुकूला । करिहिँ कथा मुद मंगल मूला ।
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनउँ राम चरित चित चाऊ ॥

वे उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर, [श्रीरामजीकी] इस कथाको आनन्द और मङ्गलकी मूल (उत्पन्न करनेवाली) बनायेंगे। इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥४॥

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥
जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहहिँ सुनिहहिँ समुझि सचेता ॥
होइहहिँ राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥

मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके साथ समझ-बूझकर कहें-सुनें, वे कलियुगके पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी बन जायेंगे ॥ ५-६ ॥

दो०—सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौँ हर गौरि पसाउ ।

तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥

यदि मुझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता होती मनें इस भाषाकविताका जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो ॥ १५-॥

चौ०—बंदउँ अवघपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥
प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥

मैं अति पवित्र श्रीअयोध्यापुरी और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली श्रीसरयू नदीकी वन्दना करता हूँ, फिर अवघपुरीके उन नर-नारियोंको प्रणाम करता हूँ जिनपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी-नहीं है (अर्थात् बहुत है) ॥ १ ॥

सिय निंदक अघ ओघ नसाए । लोक विसोक बनाइ वसाए ॥
बंदउँ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥

उन्होंने [अपनी पुरीमें रहनेवाले] सीताजीकी निन्दा करनेवाले (धोबी और उसके समर्थक पुर-नर-नारियों) के पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक (धाम) में बसा दिया। मैं कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल रही है ॥ २ ॥

प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥
दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥
करउँ प्रनाम करम मन बानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥
जिन्हहि विरचिबड़ भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥

जहाँ (कौसल्यारूपी पूर्वदिशा) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोंके लिये पानेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए। सब रानियोंसहित राजा दशरथजीको पुण्य और सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्माजीने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण महिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४ ॥

श्लो०—बंदउँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद ।

विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तून इव परिहरेउ ॥ १६ ॥

मैं अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयालु प्रभुके विछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मागूली तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥

श्लो०—प्रनवउँ परिजन सहित विदेहू । जाहि राम पद गूढ सनेहू ॥

जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥

मैं परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें गूढ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्खा था। परंतु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १ ॥

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥

राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥

[भाष्योंमें] सबसे पहले मैं श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका

नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरण-कमलोंमें भारेकी तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता ॥ २ ॥

बंदउँ लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥

रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥

मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो-शीतल, सुन्दर और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं। श्रीरघुनाथजीकी कीतिरूपी विमल पताकामें जिनका (लक्ष्मणजीका) यश [पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले] दंडके समान हुआ ॥३॥

सेष सहस्रसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥

सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥

जो हजार सिरवाले और जगत्के कारण (हजार सिरोंपर जगत्को धारण कर रखनेवाले) शेषजी हैं, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे गुणोंकी खानि कृपासिंधु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥

रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥

महावीर विनवउँ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥

मैं श्रीशत्रुघ्नजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीभरतजीके पीछे चलनेवाले हैं। मैं महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करता हूँ जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं (अपने श्रीमुखसे) वर्णन किया है ॥ ५ ॥

सो०—प्रनवउँ पवनकुमार खल वन पावक ग्यानधन ।

जासु हृदय आगार वसहिँ राम सर चाप धर ॥१७॥

मैं पवनकुमार श्रीहनुमानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनको भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं, जो ज्ञानकी धनमूर्ति हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥ १७ ॥

चो०—कपिपति रीछ निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥

बंदउँ सब के चरन सुहाए । अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥

वानरोंके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवान्जी, राक्षसोंके राजा विभीषणजी और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी मैं बन्द करता हूँ:

जिन्होंने अधम (पशु और राक्षस आदि) शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजी को प्राप्त कर लिया ॥१॥

रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥
बंदउँ पद सरोज सब केरे । जे विनु काम राम के चरे ॥

पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, मैं उन सबके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥२॥

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान बिसारद ॥
प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥

शुकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरतीपर सिर टेककर उन ऋषियोंको प्रणाम करता हूँ, हे मुनीश्वरो ! आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ॥ ३ ॥

जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥
ताके जुग पद कमल मनावउँ । जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ ॥

राजा जनककी पुत्री, जगत्की माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीजानकीजीके दोनों चरण-कमलोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपासे निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥४॥

पुनि मन वचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदउँ सब लायक ॥
राजिवनयन धरें धनु सायक । भगत विपति भंजन सुख दायक ॥

फिर मैं मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारी, भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान् श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरण-कमलोंकी वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥

दो०—गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।

बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥

जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान कहनेमें अलग-अलग हैं, परंतु वास्तवमें अभिन्न (एक) हैं, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ जिन्हें दोन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८ ॥

चौ०—बंदउँ नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥
बिधि हरि हरमय वेद प्रानसो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥

मैं श्रीरघुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कृष्णानु (बग्नि), भानु (सूर्य) और हिमकर (चन्द्रमा) का हेतु अर्थात् 'र', 'आ' और 'म' रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है ॥ १ ॥

**महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासीं मुकुति हेतु उपदेसू ॥
महिमां जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥**

जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं ॥ २ ॥

**जान आदिकवि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥
सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेईं पिय संग भवानी ॥**

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा नाम ('मरा', 'मरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नामके समान है; पार्वतीजी सदा अपने पति (श्रीशिवजी) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३ ॥

**हरषे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥**

नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया (अर्थात् उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्द्धाङ्गिनी बना लिया) । नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस (प्रभाव) के कारण कालकूट जहर्ने उनको अमृतका फल दिया ॥ ४ ॥

दो०—वरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास ।

राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १६ ॥

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम रोपण-गण धान हैं, और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥१६॥



दो०—आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाहू ॥

दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हैं, भक्तोंके जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये सुलभ और सुख देनेवाले हैं, और जो इस लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह करते हैं (अर्थात् भगवान्के दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं) ॥ १ ॥

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥

वरनत वरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥

ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर और मधुर) हैं; तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ('र' और 'म' का) अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिलगाती है (अर्थात् बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ और फलमें भिन्नता दीख पड़ती है), परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे ही साथ रहनेवाले (सदा एकरूप और एकरस) ॥ २ ॥

नर नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥

भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेतु विमल विधु पूषन ॥

ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं। ये जगत्का पालन और विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुन्दर स्त्रीके कानोंके सुन्दर आभूषण (कर्णफूल) हैं और जगत्के हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३ ॥

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर वसुधा के ॥

जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥

ये सुन्दरगति (मोक्ष) रूपी अमृतके स्वाद और तृप्तिके समान हैं, कच्छप और शेषजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलमें विहार करनेवाले भौरके समान हैं और जीभरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान [आनन्द देनेवाले] हैं ॥ ४ ॥

दो०—एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब वरननि पर जोड ।

तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दोड ॥२०॥

तुलसीदासजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमेंसे एक (रकार) छत्ररूप (रेफ) से और दूसरा (मकार) मुकुटमणि (अनुस्वार-) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं ॥ २० ॥

चौ०—समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥

नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥

समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और सेवकके समान प्रीति है (अर्थात् नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं । प्रभु श्री-रामजी अपने 'राम' नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं ।) नाम और रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये (भगवान्के नाम और रूप) दोनों अनिवचनीय हैं, अनादि हैं और सुन्दर (शुद्ध भक्तियुक्त) बुद्धिसे ही इनका [दिव्य अविनाशी] स्वरूप जाननेमें आता है ॥ १ ॥

को बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू ॥

देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥

इन (नाम और रूप) में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है । इनके गुणोंका तारतम्य (कमी-व्येशी) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे । रूप नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥

रूप बिसेष नाम विनु जानें । करतल गत न परहिं पहिचानें ॥

सुमिरिअ नाम रूप विनु देखें । आवत हृदयँ सनेह बिसेषें ॥

कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेलीपर रक्खा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता । और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है ॥ ३ ॥

नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥

अगुन सगुन विच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर बुझानी ॥

नाम और रूपकी गतिकी कहानी (विशेषताकी कथा) समझनेमें सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा

बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया है ॥४॥

दो०—राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर ॥२१॥

तुलसीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर राम-नामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ ॥

चौ०—नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥

ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम नरूपा ॥

ब्रह्माके बनाये हुए इस प्रपञ्च (दृश्य-जगत्) से भलीभाँति छूटे हुए वैराग्यवान् मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए [तत्त्वज्ञानरूपी दिनमें] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं ॥ १ ॥

जाना चहहिं गूढ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥

साधक नाम जपहिं लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥

जो परमात्माके गूढ रहस्यको (यथार्थ महिमाको) जानना चाहते हैं वे (जिज्ञासु) भी नामको जीभसे जपकर उसे जान लेते हैं। [लौकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थार्थी] साधक ली लगाकर नामका जप करते हैं और अणिमादि [आठों] सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ २ ॥

जपहिं नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥

राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥

[संकटसे घबराये हुए] आर्त भक्त नाम-जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे-बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत्में चार प्रकारके (१-अर्थार्थी-धनादिकी चाहसे भजनेवाले, २-आर्त-संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञासु-भगवान्को जाननेकी इच्छासे भजनेवाले, ४-ज्ञानी-भगवान्को तत्त्वसे जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाले) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हैं ॥३॥

चहू चतुर कहूँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि विसेषि पिआरा ॥

चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥

चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे

प्रिय है। यों तो चारों युगोंमें और चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है, परंतु कलियुगमें विशेषरूपसे है। इसमें तो [नामको छोड़कर] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ॥४॥

दो०—सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।

नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥

जो सब प्रकारकी (भोग और मोक्षकी भी) कामनाओंसे रहित और श्रीराम-भक्तिके रसमें लीन हैं, उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको मछली बना रक्खा है (अर्थात् वे नामरूपी सुधाका निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते) ॥ २२ ॥

चौ०—अगुनसगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥

मोरें मत वड़ नामु दुहू तें । किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें ॥

निर्गुण और सगुण ब्रह्मके दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा है, जिसने अपने बलसे दोनोंको अपने वशमें कर रक्खा है ॥ १ ॥

प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥

एकु दारुगत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥

उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेउँ नामु वड़ ब्रह्म राम तें ॥

व्यापकु एकू ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनँद रासी ॥

सज्जनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी बात कहता हूँ। [निर्गुण और सगुण] दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्निके समान है जो काष्ठके अंदर है, परंतु दीखती नहीं; और सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती है। [तत्त्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हैं। इतना होनेपर भी] दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हैं, परंतु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीसे मैंने नामको [निर्गुण] ब्रह्मसे और [सगुण] रामसे बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी घन राशि है ॥२-३ ॥

अस प्रभु हृदयँ अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥
नाम निरूपन नाम जतन तें । सोउ प्रगटत जिमिमोल रतन तें ॥

ऐसे विकाररहित प्रभुके हृदयमें रहते भी जगत्के सब जीव दीन और दुखी हैं। नामका निरूपण करके (नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावको जानकर) नामका जतन करनेसे (श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी साधन करनेसे) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नके जाननेसे उसका मूल्य ॥ ४ ॥

दो०—निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।

कहउँ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥२३॥

इस प्रकार निर्गुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है। अब अपने विचारके अनुसार कहता हूँ कि नाम [सगुण] रामसे भी बड़ा है ॥ २३ ॥

चौ०—राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥

नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ॥

श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; परंतु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहज-हीमें आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं। ॥ १ ॥

राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥

रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥

सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥

भंजेउ राम आपु भव चापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥

श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री (अहल्या) को ही तारा; परंतु नामने करोड़ों दुष्टोंकी विगड़ी बुद्धिको सुधार दिया। श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या तांडकाकी सेना और पुत्र (सुबाहु) सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रिका। श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषको तोड़ा, परंतु नामका प्रताप ही संसारके सब भयोंका नाश करनेवाला है ॥ २-३ ॥

दंडक वनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जनमनअमित नाम किए पावन ॥
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥

प्रभु श्रीरामजीने [भयानक] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परंतु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोको पवित्र कर दिया। श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके समूहको मारा, परंतु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़नेवाला है ॥ ४ ॥

दो०—सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।

नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ ॥२४॥

श्रीरघुनाथजीने तो शवरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही भुक्ति दी; परंतु नामने अगणित दुष्टोंका उद्धार किया। नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥

चौ०—राम सुकंठ विभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ॥

नाम गरीव अनेक नेवाजे । लोक वेद वर विरिद विराजे ।

श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपने शरणमें रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की है। नामका यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है ॥ १ ॥

राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ।

नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु विचारु सुजन मन माहीं ॥

श्रीरामजीने तो भालू और बंदरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बांधनेके लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परंतु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण! मनमें विचार कीजिये [कि दोनोंमें कौन बड़ा है] ॥ २ ॥

राम सकुल रन रावनु मारा । सीयसहित निज पुर पगु धारा ॥

राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि वर वानी ॥

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । विनु श्रम प्रवल मोह दलु जीती ॥

फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें । नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें ॥

— श्रीरामचन्द्रजीने कूटम्बसहित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होंने अपने नगर (अयोध्या) में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी देह, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं। परंतु सेवक (सुः

पूर्वक नामके स्मरणमात्रसे विना परिश्रम मोहकी प्रबल सेनाको जीतकर प्रेममें मग्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥३-४॥

दो०—ब्रह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि ।

रामचरित सत कोटि महँ लिय महेश जियँ जानि ॥२५॥

इस प्रकार नाम [निर्गुण] ब्रह्म और [सगुण] राम दोनोंसे बड़ा है। यह वरदान देनेवालोंको भी वर देनेवाला है। श्रीशिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेंसे इस 'राम' नामको [साररूपसे चुनकर] ग्रहण किया है ॥२५॥

मासपारायण, पहला विश्राम

चौ०—नाम प्रसाद संभु अविनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ॥

सुक सनकादि सिद्ध मुनिजोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥

नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं और अमङ्गल वेषवाले होनेपर भी मङ्गलकी राशि हैं। शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं ॥ १ ॥

नारद जानेउ नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥

नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रह्लादू ॥

नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [हरिको हर प्यारे हैं] और आप (श्रीनारदजी) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं। नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्तशिरोमणि हो गये ॥ २ ॥

ध्रुवँ सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥

ध्रुवजीने ग्लानिसे (विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे) हरिनामको जपा और उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान (ध्रुवलोक) प्राप्त किया। हनुमान्जीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने वशमें कर रक्खा है ॥ ३ ॥

अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥

कहाँ कहाँ लागि नाम बड़ाई । रामु न सकहिँ नाम गुन गाई ॥

नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त हो गये। मैं नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके गुणोंको नहीं गा सकते ॥ ४ ॥

दो०—नासु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु ।

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥

कलियुगमें रामका नाम कल्पतरु (मनचाहा पदार्थ देनेवाला) और कल्याणका निवास (मुक्तिका घर) है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा (निकृष्ट) तुलसीदास तुलसीके समान (पवित्र) हो गया ॥ २६ ॥

चौ०—चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥

वेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥

[केवल कलियुगकी ही बात नहीं है,] चारों युगोंमें, तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीरामजीमें [या राम-नाममें] प्रेम होना है ॥ १ ॥

ध्यानु प्रथम जुग मखविधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें ॥

कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥

पहले (सत्य) युगमें ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें यज्ञसे और द्वापरमें पूजनसे भगवान् प्रसन्न होते हैं; परंतु कलियुग केवल पापकी जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमें मछली बना हुआ है (अर्थात् पापोंकी फणी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते) ॥ २ ॥

नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समनसगल जग जाला ॥

राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु भाता ॥

ऐसे कराल (कलियुगके) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो ही संसारके सब जंजालोंको नाश कर देनेवाला है। कलियुगमें यह वाञ्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हितपी और इस लोक (अर्थात् परलोकमें भगवान्का परमधाम देता है और इस लोकमें समान सब प्रकारसे पालन और रक्षण करता है) ॥ ३ ॥

हिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥

कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥

कलियुगमें न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है। कपटकी खान कलियुगरूपी कालनेमिके मारनेके लिये रामनाम ही बुद्धिमान् और समर्थ श्रीहनुमान्जी है ॥ ४ ॥

दो०—राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल ।

जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७ ॥

रामनाम श्रीनुसिंह भगवान् है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्लादके समान हैं; यह रामनाम देवताओंके शत्रु (कलियुगरूपी दैत्य) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा ॥ २७ ॥

चौ०—भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥

सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥

अच्छे भाव (प्रेम) से, बुरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरहसे भी नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें कल्याण होता है। उसी (परम कल्याणकारी) रामनामका स्मरण करके और श्रीरघुनाथजीको मस्तक नवाकर मैं रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती ॥

राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥

वे (श्रीरामजी) मेरी [बिगड़ी] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अघाती। राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है ॥ २ ॥

लोकहूँ वेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥

गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥

लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिनय सुनते ही प्रेमको पहचान लेता है। अमीर-गरीब, गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूर्ख, बदनाम-यशस्वी ॥ ३ ॥

सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥

साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस अंस भव परम कृपाला ॥

सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान्, सुशील, ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपालु राजा—॥४॥

सुनि सनमानहिं सवहि सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥

यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥

सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालको पहचानकर सुन्दर (मीठी) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुरशिरोमणि हैं ॥ ५ ॥

रीझत राम सनेह निसोतें । को जग मंद मलिन मति मोतें ॥

श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रीझते हैं, पर जगत्में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिनबुद्धि और कौन होगा ? ॥ ६ ॥

दो०—सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपालु ।

उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥२८(क)॥

तथापि कृपालु श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरोंको जहाज और वंदर-भालुओंको बुद्धिमान् मन्त्री बना लिया ॥ २८ (क) ॥

हौंहु कहावत सवु कहत राम सहत उपहास ।

साहिव सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥

सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं, और मैं भी । [किंतु लज्जा-सांकोचके] कहलाता हूँ (कहनेवालोंका विरोध नहीं करता) ; कृपालु श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे स्वामीका तुलसीदास-सा सेवक है ॥ २८ (ख) ॥

चौ०—अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि सुनि सुनि सुनि नकसकोरे

समुझि सहम मोहि अपडर अपने । राम कीन्ह नहिं

यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और सिकोड़ ली है (अर्थात् नरकमें भी भेज दी है) । श्रीरामचन्द्रजी अपने ही कल्पित डरसे डर हो भी इसपर (मेरी इस ढिठाई से) डर नहीं दिया ॥

सुनि अवलोकिसुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥
कहत नसाइ होइ हियँ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥

वरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बातको सुनकर, देखकर और अपने सुचितरूपी चक्षुसे निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धिकी [उलटे] सराहना की । क्योंकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय (अर्थात् मैं चाहे अपनेको भगवान्का सेवक कहता-कहलाता रहूँ), परंतु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये (हृदयमें तो अपनेको उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है ।) श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [अच्छी] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं ॥ २ ॥

रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥
जेहिं अघ वधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥

प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती (वे उसे भूल जाते हैं) और उनके हृदय [की अच्छाई—नीकी] को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं । जिस पापके कारण उन्होंने बालिको व्याधकी तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीवने चली ॥ ३ ॥

सोइ करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी ॥
ते भरतहि भेंटत सनमाने । राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥

वही करनी विभीषणकी थी, परंतु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका मनमें विचार नहीं किया । उलटे भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान ।

तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२६(क)॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तो वृक्षके नीचे और वंदर डालीपर (अर्थात् कहाँ मर्यादा-पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर कूदने-वाले वंदर) ! परंतु ऐसे वंदरोंको भी उन्होंने अपने समान बना लिया । तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं ॥ २६ (क) ॥

राम निकाई रावरी है सब ही को नीक ।

जौं यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक ॥२६(ख)॥

हे श्रीरामजी ! आपकी अच्छाईसे सभीका भला है (अर्थात् आपका कल्याण-मय स्वभाव सभीका कल्याण करनेवाला है) । यदि यह बात सच है, तो तुलसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख) ॥

एहि विधि निज गुन दोष कहि सवहि बहुरि सिरु नाइ ।

वरनउँ रघुवर विसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२६(ग)॥

इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥२९(ग)॥

चौ०—जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥

कहिहउँ सोइ संवाद वखानी । सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥

मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी संवादको मैं बखानकर कहूँगा; सब सज्जन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ १ ॥

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥

सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥

शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पावँतीजीको सुनाया । वही चरित्र शिवजीने काकभुशुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥२॥

तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥

ते श्रोता वक्ता समसीला । सवँदरसी जानहिं हरिलीला ॥

उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता और श्रोता (याज्ञवल्क्य और भरद्वाज)

समान शीलवाले और समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको जानते हैं ॥ ३ ॥

जानहिं तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥

औरउ जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना ॥

वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी बातोंको हथेलीपर रखे हुए आँवलेके समान (प्रत्यक्ष) जानते हैं । और भी जो सुजान (भगवान्की लीलाओंका रहस्य जानने-वाले) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते और समझते हैं ॥ ४ ॥

दो०—मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत ।

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥

फिर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परंतु उस समय मैं लड़कपनके कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार (अच्छी तरह) समझा नहीं ॥३० (क)॥

श्रोता वक्ता ग्याननिधि कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समुझौं मैं जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ़ ॥३०(ख)॥

श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता (कहनेवाले) और श्रोता (सुननेवाले) दोनों ज्ञानके खजाने (पूरे ज्ञानी) होते हैं । मैं कलियुगके पापोंसे ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था ? ॥ ३० (ख) ॥

चौ०—तदपि कही गुर बारहिं बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥

भाषावद्ध करवि मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहिं होई ॥

तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी । वही अब मेरे द्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको संतोष हो ॥ १ ॥

जस कछु बुधि विवेक बल मेरे । तस कहिहउँ हियँ हरि के प्रेरें ॥

निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करउँ कथा भव सरिता तरनी ॥

जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, मैं हृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहूँगा । मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है ॥ २ ॥

बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष विभंजनि ॥

रामकथा कलि पंग भरनी । पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥

रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली है । रामकथा कलियुगरूपी साँपके लिये मोरनी है और विवेकरूपी अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि (मन्थन की जानेवाली लकड़ी) है (अर्थात् इस कथासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है) ॥ ३ ॥

रामकथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥

सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥

रामकथा कलियुगमें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ है और सज्जनोंके लिये सुन्दर सञ्जीवनी जड़ी है। पृथ्वीपर यही अमृतकी नदी है, जन्म-मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और भ्रमरूपी मेढकोंको खानेके लिये सर्पिणी है ॥४॥

असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥
संत समाज पयोधि रमा सी । विस्व भार भर अचल छमा सी ॥

यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके कुलका हित करनेवाली पार्वती (दुर्गा) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल पृथ्वीके समान है ॥५॥

जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी ॥

यमदूतोंके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगत्में यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही है। यह श्रीरामजीको पवित्र तुलसीके समान प्रिय है और तुलसीदासके लिये हुलसी (तुलसीदासजीकी माता) के समान हृदयसे हित करनेवाली है ॥ ६ ॥

सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥

यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब सिद्धियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी राशि है। सदगुणरूपी देवताओंके उत्पन्न और पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है। श्रीरघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-स्ती है ॥ ७ ॥

बो०—रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु ।

तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहारु ॥ ३१ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर (निर्मल) चित्त चित्रकूट है और सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ॥३१॥

बो०—रामचरित चिंतामनि चारु । संत सुमति तिय सुभग सिंगारु ॥

जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥

श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुद्धिरूपी स्त्रीका

सुन्दर शृङ्गार है। श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्का कल्याण करनेवाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं ॥ १ ॥

सद्गुरु ग्यान विराग जोग के । विबुध बैद भव भीम रोग के ॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥

ज्ञान, वैराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश करनेके लिये देवताओंके वैद्य (अश्विनीकुमार) के समान हैं। ये श्रीसीतारामजीके प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं ॥२॥

समन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥

पाप, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय पालन करनेवाले हैं। विचार (ज्ञान) रूपी राजाके शूर-वीर मन्त्री और लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैं ॥ ३ ॥

काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥

भक्तोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले, काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये सिंहके बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४ ॥

मंत्र महामनि विषय व्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥

विषयरूपी सांपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं। ये ललाटपर लिखे हुए कठिनतासे मिटानेवाले बुरे लेखों (मन्द प्रारब्ध) को मिटा देनेवाले हैं। अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके लिये सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं ॥ ५ ॥

अमिमत दानि देवतरु वर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥
सुकवि सरद नभमन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से ॥

मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें थोड़ा कल्पवृक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके समान सुलभ और सुख देनेवाले हैं। सुकविरूपी शरद् ऋतुके मनरूपी आकाशकी सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और श्रीरामजीके भक्तोंके तो जीवनघन ही हैं॥६॥

सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥

सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥

सम्पूर्ण पुण्योंके फल महान् भोगोंके समान हैं। जगत्का छलरहित (यथायं) हित करनेमें साधु-संतोंके समान हैं। सेवकोंके मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके समान और पवित्र करनेमें गङ्गाजीकी तरङ्गमालाओंके समान हैं ॥ ७ ॥

दो०—कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड ।

दहन राम गुन ग्राम जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥३२(क)॥

श्रीरामजीके गुणोंके समूह कुमार्ग, कुतकं, कुचाल और कलियुगके कपट, दम्भ और पाषण्डके जलानेके लिये वैसे ही हैं जैसे ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु ।

सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥३२(ख)॥

रामचरित्र पूर्णमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले हैं, परंतु सज्जनरूपी कुमुदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी और महान् लाभदायक हैं ॥ ३२ (ख) ॥

चो०—कीन्हि प्रस्न जेहि माँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥

सो सब हेतु कहव मैं गाई । कथाप्रबंध विचित्र बनाई ॥

जिस प्रकार श्रीपावतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा ॥ १ ॥

जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरजु करै सुनि सोई ॥

कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥

रामकथा कै मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥

नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥

जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञान इस विचित्र कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसारमें रामकथा कोई सीमा नहीं है (रामकथा अनन्त है)। उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार रामायण हैं ॥२-३॥
कल्प भेद हरि चरित सुहाए । भौंति अनेक मुनीसन्ह गाए ।
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ।

कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये ॥४॥
दो०—राम अनंत अनंत गुण अमित कथा बिस्तार ।

सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह के विमल विचार ॥ ३३ ॥

श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे ॥३३॥

चौ०—एहि विधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ।
पुनि सबही विनवउँ कर जोरी । करत कथा जेहिं लाग न खोरी ।

इस प्रकार सब संदेहोंको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजक धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाक रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे ॥ १ ॥

सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनउँ बिसद राम गुन गाथा ।
संवत सोरह सै एकतीसा । करउँ कथा हरि पद धरि सीसा ।

अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत् १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ ॥२॥

नौमी भौम बार मधु मासा । अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ।
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ।

चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वह (श्रीअयोध्याजीमें) चले आते हैं ॥ ३ ॥

असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल कीरति गाना ॥

असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरघुनायक-
जीकी सेवा करते हैं। बुद्धिमान् लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं और श्रीरामजीकी
सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—मज्जहिं सज्जन वृन्द बहु पावन सरजू नीर ।

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥

सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और
हृदयमें सुन्दर श्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ ॥

चौ०—दरस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद पुराना ॥

नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहिन सकइ सारदा विमलमति ॥

वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों-
को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है जिसे विमल
बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥

राम धामदा पुरी सुहावनि । लोकसमस्त विदित अति पावनि ॥

चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजें तनु नहिं संसारा ॥

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब
लोकोंमें प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है। जगत्में [अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और
जरायुज] चार खानि (प्रकार) के अनन्त जीव हैं, इनमेंसे जो कोई भी अयोध्या-
जीमें शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसारमें नहीं आते (जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर
भगवान्के परमधाममें निवास करते हैं) ॥ २ ॥

सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥

विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद दंभा ॥

इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और
कल्याणकी खान समझकर मने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम,
मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी स विचित्र कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसारमें रामकथाकी कोई सीमा नहीं है (रामकथा अनन्त है)। उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। माना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार रामायण हैं ॥२-३॥

कल्प भेद हरि चरित सुहाए । भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥

कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है। हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये ॥४॥

श्री०—राम अनंत अनंत गुण अमित कथा बिस्तार ।

सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह कें बिमल विचार ॥ ३३ ॥

श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे ॥३३॥

श्री०—एहि विधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ॥
पुनि सबही विनवउँ कर जोरी । करत कथा जेहिं लाग न खोरी ॥

इस प्रकार सब संदेहोंको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे ॥ १ ॥

सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनउँ विसद राम गुन गाथा ॥
संवत सोरह सै एकतीसा । करउँ कथा हरि पद धरि सीसा ॥

अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत् १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ ॥२॥

नौमी भौम वार मधु मासा । अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ॥
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥

चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ (श्रीअयोध्याजीमें) चले आते हैं ॥ ३ ॥

असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल करति गान्क ॥

असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्यावासीने आकर श्रीरघुनायक की सेवा करते हैं। बुद्धिमान् लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं और श्रीरघुनायक की सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—मज्जहिं सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर ।

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥

सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और हृदयमें सुन्दर श्यामशरीर श्रीरघुनायककी ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ ॥

चौ०—दरस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद पुराना ॥

नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहिन सकइ सारदा बिमलमति ॥

वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों-को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥

राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥

चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब लोकोंमें प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है। जगत्में [अण्डज, स्वदेज, उद्भिज्ज और जरायुज] चार खानि (प्रकार) के अनन्त जीव हैं, इनमेंसे जो कोई भी अयोध्या-जीमें शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसारमें नहीं आते (जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर भगवान्के परमधाममें निवास करते हैं) ॥ २ ॥

सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥

विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद दंभा ॥

इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणकी खान समझकर मनें इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसको सुनते-सुनते पाप, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा ॥

मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जौं एहिं सर परई ॥

इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है। अनरूपी हाथी विषयरूपी दावानलमें जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी प्ररोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ॥ ४ ॥

रामचरितमानस मुनि भावन । विरचेउ संभु सुहावन पावन ॥

त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन । कलि कुचालि कुलि कल्लुष नसावन ॥

यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुहावने और पवित्र मानसकी शिवजीने रचना की। यह तीनों प्रकारके दोषों, दुःखों और दरिद्रताको तथा कलियुगकी कुचालों और सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥

रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥

तातेँ रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥

श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने मनमें रक्खा था और सुअवसर पाकर पावंतीजीसे कहा। इसीसे शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रक्खा ॥ ६ ॥

कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥

मैं उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सज्जनो ! आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिये ॥ ७ ॥

दो०—जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु ।

अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥

यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसे जगत्में इसका प्रचार हुआ अब वही सब कथा मैं श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥

चो०—संभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥

करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥

श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्रीरामचरितमानसका कवि हुआ। अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही

बनाता है; किंतु फिर भी हे सज्जनो ! सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥१॥

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू । वेद पुरान उदधि घन साधू ॥

वरषहिं राम सुजस वर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥

सुन्दर (सात्त्विकी) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं। वे (साधुरूपी मेघ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और मङ्गलकारी जलकी वर्षा करते हैं ॥ २ ॥

लीला सगुन जो कहहिं वखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥

प्रेम भगति जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥

सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी जलकी निर्मलता है, जो मलका नाश करती है; और जिस प्रेमा भक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर शीतलता है ॥ ३ ॥

सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥

मेधा महि गत सो जल पावन । सकलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥

भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥

वह (राम-सुयशरूपी) जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर है, और श्रीरामजीके भक्तोंका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धिरूपी पृथ्वीपर गिरा और सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानस (हृदय) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुन्दर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया ॥ ४-५ ॥

दो०—सुठि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारि ।

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥

इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद (भृशुण्डि-गरुड, शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और तुलसीदास और संत) रचे हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं ॥ ३६ ॥

चौ०—सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥

रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥

सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी

नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण (प्राकृतिक गुणोंसे अतीत) और निर्बाध (एकरस) महिमाका जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अथाह गहराई है ॥ १ ॥

राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा वीचि बिलास मनोरम ॥

पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गयी हैं वही तरङ्गोंका मनोहर विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइनि (कमलिनी) हैं और कविताकी युक्तियाँ सुन्दर मणि (मोती) उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं ॥ २ ॥

छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥

अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥

जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलोंके समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग (पुष्परज), मकरन्द (पुष्परस) और सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला । ग्यान विराग विचार मराला ॥

धुनि अवरैव कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥

सत्कर्मों (पुण्यों) के पुञ्ज भौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविताकी ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं ॥ ४ ॥

अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान विग्यान विचारी ॥

नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—ये चारों, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्यके प्रसङ्ग—ये सब इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हैं ॥ ५ ॥

सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जलबिहग समाना ॥

संतसभा चहुँ दिसि अवरैई । श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥

सुकृती (पुण्यात्मा) जनोके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुणोंका गान ही विचित्र जल-पक्षियोंके समान है। संतोंकी सभा ही इस सरोवरके चारों ओरकी

अमराई (आमकी बगीचियाँ) हैं और श्रद्धा वसन्तऋतुके समान कही गयी है ॥ ६ ॥

भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दया दम लता विताना ॥

सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरि पद रति रस वेद बखाना ॥

नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण और क्षमा, दया तथा दम (इन्द्रियनिग्रह) लताओंके मण्डप हैं। मनका निग्रह, यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह), नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७ ॥

औरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहुवरन विहंगा ॥

इस (रामचरितमानस) में और भी जो अनेक प्रसङ्गोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग-विरंगे पक्षी हैं ॥ ८ ॥

दो०—पुलक वाटिका वाग वन सुख सुविहंग विहार ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७ ॥

कथामें जो रोमाञ्च होता है, वही वाटिका, वाग और वन हैं; और जो सुख होता है, वही सुन्दर पक्षियोंका विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रोंद्वारा उनको सींचता है ॥ ३७ ॥

चौ०—जे गावहिं यह चरित सँमारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥

सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥

जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालाबके चतुर रखवाले हैं; और जो स्त्री-पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं ॥ १ ॥

अति खल जे विषई वग कागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥

संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥

जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते; क्योंकि यहाँ (इस मानस-सरोवरमें) घोंघे, मंडक और सेवार-के समान विषय-कथा-रस नहीं हैं ॥ २ ॥

कारन आवत हियँ हारे । कामी काक बलाक विचारे ॥
 वत एहिँ सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥

इसी कारण बेचारे कोए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें
 र मान जाते हैं; क्योंकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजीकी
 पा बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३ ॥

कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥
 गृह कारज नाना जंजाला । ते अति दुर्गम सैल बिसाला ॥

घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाघ, सिंह
 और साँप हैं। घरके काम-काज और गृहस्थीके भाँति-भाँतिके जंजाल ही अत्यन्त
 दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥ ४ ॥

वन बहु विषम मोह मद माना । नदीं कुतर्क भयंकर नाना ॥
 मोह, मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतर्क
 ही भयानक नदियाँ हैं ॥ ५ ॥

दो०—जे श्रद्धा संबल रहित नहिँ संतन्ह कर साथ ।

तिन्ह कहँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥

जिनके पास श्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहीं है
 जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम
 (अर्थात् श्रद्धा, सत्सङ्ग और भगवत्प्रेमके बिना कोई इसको नहीं पा सकता) ॥ ३८ ॥

चो०—जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिँ नीद जुड़ाई हो

जड़ता जाड़ विषम उर लागा । गएहुँ न मज्जन पाव अभागा

यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते
 नींदरूपी जूड़ी आ जाती है। हृदयमें मूर्खतारूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगाने लग
 जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥ १ ॥

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिर आवइ समेत अभिम
 जौं वहोरि कोड पूछन आवा । सर निंदा करि ताहि बु

उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे [वहाँका हाल] पूछने आता है, तो वह [अपने अभाग्यकी बात न कहकर] सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥

सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपाँ विलोकहिं जेही ॥
सोइ सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥

ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते (बाधा नहीं देते), जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता है और महान् भयानक त्रितापसे (आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापोंसे) नहीं जलता ॥३॥

ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह केँ राम चरन भल भाऊ ॥
जो नहाइ चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करउ मन लाई ॥

जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ते। हे भाई! जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सङ्ग करे ॥ ४ ॥

अस मानस मानस चख चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥
भयउ हृदयँ आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥

ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता लगाकर कविकी बुद्धि निर्मल हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥

चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥
सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मंजुल कूला ॥

उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी वह निकली, जिसमें श्रीरामजीका निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस (कवितारूपिणी नदी) का नाम सरजू है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हैं ॥ ६ ॥

नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । कलिमल तृन तरु मूल निकान्दिनि ॥

यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुगके [छोटे-बड़े] पापरूपी तिनकों और वृक्षोंको जड़से उखाड़ फेंकनेवाली है ॥

दो०—श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल ।

संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ ३६ ॥

तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर हैं; और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है ॥ ३६ ॥

चौ०—रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥

सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥

सुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गङ्गाजीमें जा मिलीं । छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला । १ ॥

जुग विच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥

त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी ॥

दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित शोभित हो रही है । ऐसी तीनों तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है ॥ २ ॥

मानस मूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥

विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर वन वागा ॥

इस (कीर्तिरूपी सरयू) का मूल मानस (श्रीरामचरित) है और यह [राम-भक्तिरूपी] गङ्गाजीमें मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सज्जनोंके मनको पवित्र कर देगी । इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हैं, वे ही मानो नदी-तटके आस-पासके वन और वाग हैं ॥ ३ ॥

उमा महेस विवाह वराती । ते जलचर अगनित बहुभाँती ॥

रघुवर जनम अनंद वधाई । भँवर तरंग मनोहरताई ॥

श्रीपार्वतीजी और शिवजीके विवाहके वराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं । श्रीरघुनायजीके जन्मकी आनन्द-वधाइयाँ ही इस नदीके भँवर और तरङ्गोंकी मनोहरता है ॥ ४ ॥

दो०—बालचरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग ।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविहंग ॥ ४० ॥

चारों भाइयोंके जो बालचरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग-विरंगे बहुत-से कमल हैं। महाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियोंके सत्कर्म (पुण्य) ही भ्रमर और जल-पक्षी हैं ॥ ४० ॥

चौ०—सीय स्वयंवर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥
नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥

श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमें सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥ १ ॥

सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥
घोर धार भृगुनाथ रिसानी । घाट सुवद्ध राम वर वानी ॥

इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी मयानक धारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर बंधे हुए घाट हैं ॥ २ ॥

सानुज राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥

भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याण-कारिणी वाढ़ है, जो सभीको सुख देनेवाली है। इसके कहने-सुननेमें जो हृषित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्नमनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥ ३ ॥

राम तिलक हित मंगल साजा । परव जोग जनु जुरे समाजा ॥
काई कुमति केकाई केरी । परी जासु फल विपति घनेरी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मङ्गल-साज सजाया गया, वही मानो वर्षके समय इस नदीपर यात्रियोंके समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी ॥ ४ ॥

दो०—समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग ।

कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल वग काग ॥ ४१ ॥

सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदी-तटपर किया जानेवाला जपयज्ञ है। कलियुगके पापों और दुष्टोंके अवगुणोंके जो वर्णन हैं, वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और वगुले-कौए हैं ॥ ४१ ॥

चो०—कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥

हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥

यह कीर्तिरूपिणी नदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥ १ ॥

वरनव राम विवाह समाजू । सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥

ग्रीष्म दुसह राम बनगवनू । पंथकथा खर आतप पवनू ॥

श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसन्त है। श्रीरामजीका वनगमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और लू है ॥ २ ॥

वरषा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥

राम राज सुख विनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥

राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सुहावनी शरद ऋतु है ॥ ३ ॥

सती सिरोमनि सिय गुनगाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥

भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥

सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका निर्मल और अनुपम गुण है। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है, जो सदा एक-सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥

दो०—अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास ।

भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुवास ॥ ४२ ॥

चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना एक-दूसरेसे प्रेम करना हँसना और सुन्दर भाईपना—इस जलकी मधुरता और सुगन्ध है ॥ ४२ ॥

चौ०—आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥

अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी ॥

मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन नहीं है (अर्थात् अत्यन्त हलकापन है) । यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही गुण करता है और आशाखी प्यासको और मनके मेलको दूर कर देता है ॥ १ ॥

राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥

भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद्र दोषा ॥

यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों और उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता है । संसारके (जन्म-मृत्युरूप) श्रमको सोख लेता है । संतोषको भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है ॥ २ ॥

काम कोह मद मोह नसावन । विमल विवेक विराग बढ़ावन ॥

सादर मज्जन पान किए तें । मिटहिं पाप परिताप हिए तें ॥

यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यका बढ़ानेवाला है । इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं, ॥ ३ ॥

जिन्ह एहिं वारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥

तृषित निरखि रवि कर भव वारी । फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥

जिन्होंने इस (राम-सुयशरूपी) जलसे अपने हृदयको नहीं धोया, वे कायर कलिकालके द्वारा ठगे गये । जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको दौड़ता है और जल न पाकर डूबी होता है, वैसे ही वे (कलियुगसे ठगे हुए) जीव भी [विषयोंके पीछे भटककर] डूबी होंगे ॥ ४ ॥

दो०—मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ ।

सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाइ ॥४३(=)

अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणको विचारकर, उल्लेख
मनको स्नान कराकर और श्रीभवानी-शंकरको स्मरण करके कवि (सुलतान)
कथा कहता है ॥ ४३ (क) ॥

अब रघुपति पद पंकरुह हियँ धरि पाइ प्रसाद ।

कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद ॥४३(ख)॥

मैं अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण कर और उनका प्रसाद
पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ (ख) ॥

श्री०—भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥

तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥

भरद्वाज मुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है । वे
तपस्वी, निगृहीतचित्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुर हैं ॥१॥

माघ मकरगत रवि जब होई । तीरथपतिहिं आव सब कोई ॥

देव दनुज किंनर नर श्रेनीं । सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनीं ॥

माघमें जब सूर्य मकरराशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको आते
हैं । देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें स्नान करते हैं ॥२॥

पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अख्य बटु हरषहिं गाता ॥

भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥

श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके
शरीर पुलकित होते हैं । भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और
श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है ॥ ३ ॥

तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मज्जन तीरथराजा ॥

मज्जहिं प्रात समेत उछाहा । कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥

तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ
(भरद्वाजके आश्रममें) जुटता है । प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और
फिर परस्पर भगवान्के गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥ ४ ॥

श्री०—ब्रह्म निरूपन धरम विधि वरनहिं तत्त्व विभाग ।

कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ग्यान विराग ॥ ४४ ॥

ब्रह्मका निरूपण, धर्मका विधान और तत्त्वोंके विभागका वर्णन करते हैं तथा
ज्ञान-विरागसे मुक्त भगवान्की भक्तिका कथन करते हैं ॥ ४४ ॥

चौ०—एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥

प्रति संबत अति होइ अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृंदा ॥

इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है। मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं ॥ १ ॥

एक वार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥

जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥

एक वार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया ॥ २ ॥

सादर चरन सरोज पवारे । अति पुनीत आसन वैठारे ॥

करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत मृदु वानी ॥

आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और कोमल वाणीसे बोले—॥ ३ ॥

नाथ एक संसउ बड़ मोरें । करगत वेदतत्त्व सबु तोरें ॥

कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जौं न कहउँ बड़ होइ अकाजा ॥

हे नाथ ! मेरे मनमें एक बड़ा संदेह है; वेदोंका तत्त्व सब आपकी मुट्ठीमें है (अर्थात् आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं)। पर उस संदेहको कहते मुझे भय और लाज आती है [भय इसलिये कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिये कि इतनी आयु बीत गयी, अबतक ज्ञान न हुआ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ] ॥ ४ ॥

दो०—संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥ ४५ ॥

हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरुके साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥ ५ ॥

ची०—अस विचारि प्रगटुँ निजमोह । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद् गावा ॥

यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका नाश कीजिये । संतों, पुराणों और उपनिषदोंने रामनामके असीम प्रभावका गान किया है ॥ १ ॥

संतत जपत संभु अविनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥

आकर चारि जीव जग अहहीं । कासीं मरत परम पद लहहीं ॥

कल्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणोंकी राशि, अविनाशी भगवान् शम्भु निरन्तर रामनामका जप करते रहते हैं । संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेशु करत करि दाया ॥

रामु कवन प्रभु पूछुँ तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥

हे मुनिराज ! वह भी राम [नाम] की ही महिमा है; क्योंकि शिवजी महाराज दया करके [काशीमें मरनेवाले जीवको] रामनामका ही उपदेश करते हैं । [इसीसे उसको परमपद मिलता है] हे प्रभो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ? हे कृपानिधान ! मुझे समझाकर कहिये ॥ ३ ॥

एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥

नारि विरहँ दुखु लहेउ अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा ॥

एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है । उन्होंने स्त्रीके विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको मार डाला । ४ ।

दो०—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।

सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह कहहु विवेकु विचारि ॥ ४६ ॥

हे प्रभो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ? आप सत्यके धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥

ची०—जैसें मिटै मोर भ्रम मारी । कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥

जागवलिक बोले मुसुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥

हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही क्या विस्तारपूर्वक कहिये। इसपर याज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम जानते हो ॥ १ ॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥
चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा । कीन्हहु प्रश्न मनहुँ अति मूढ़ा ॥

तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुराईको मैं जान गया। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गुणोंको सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो ॥ २ ॥

तात सुनहु सादर मनु लाई । कहउँ राम कै कथा सुहाई ॥
महामोहु महिषेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥

हे तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [उसे पट्ट कर देनेवाली] भयंकर कालीजी हैं ॥ ३ ॥

रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥

श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा जान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥

दो०—कहउँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद ।

भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७ ॥

अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे मुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा ॥ ४७ ॥

ती०—एक बार त्रेता जुग माहीं । संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥

संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥

एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ जगज्जननी भवानी सतीजी भी थीं ऋषिने सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर जानकर उनका पूजन ॥ १ ॥

रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥
 तेषि पूछी हरिभगति सुहाई । कहा संभु अधिकारी पाई ॥

मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना । फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [रहस्यसहित] भक्तिका निरूपण किया ॥ २ ॥

कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥
 मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥

श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे । फिर मुनिसे विदा माँगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर (कैलास) को चले ॥ ३ ॥

तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥
 पिता वचन तजि राजु उदासी । दंडक बन विचरत अबिनासी ॥

उन्हीं दिनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया था । वे अबिनाशी भगवान् उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या साधुवेपमें दण्डक वनमें विचर रहे थे ॥ ४ ॥

दो०—हृदयँ विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥४८(क)॥

शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवान्के दर्शन मुझे किस प्रकार हों । प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान जायँगे ॥ ४८ (क) ॥

सो०—संकर उर अति छेभु सती न जानहिं मरमु सोइ ।

तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥४८(ख)॥

श्रीशंकरजीके हृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलवली उत्पन्न हो गयी, परंतु सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं । तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [भेद खुलनेका] डर था, परंतु दर्शनके लोभसे उनके नेत्र ललचा रहे थे ॥ ४८ (ख) ॥

चो०—रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रभुविधिबचनुकीन्ह चह साचा ॥

जौं नहिं जाउँ रहइ पछितावा । करत विचारु न बनत बनावा ॥

रावणने [ब्रह्माजीसे] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी । ब्रह्माजीके वचनों-

को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी ॥ १ ॥
एहि विधि भए सोचवस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥
लीन्ह नीच मारीचहि संगी । भयउ तुरत सोइ कपटकुरंगी ॥

इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया और वह (मारीच) तुरंत कपट-मृग बन गया ॥ २ ॥

करि छलु मूढ़ हरी वैदेही । प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥
मृग बधि बंधु सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥

मूर्ख (रावण) ने छल करके सीताजीको हर लिया। उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये और उसे खाली देखकर (अर्थात् वहाँ सीताजीको न पाकर) उनके नेत्रोंमें आंसू भर आये ॥ ३ ॥

विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥
कवहूँ जोग वियोग न जाकें । देखा प्रगट विरह दुखु ताकें ॥

श्रीरघुनाथजी मनुष्यकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई वनमें सीताको खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥

दो०—अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह बस हृदयँ धरहिं कहु आन ॥ ४६ ॥

श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मन्दबुद्धि हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं ॥ ४६ ॥

चौ०—संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हियँ अति हरपु विसेपा ॥

भरि लोचन छविसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥

श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बह्मन भारी

को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी ॥ १ ॥

एहि विधि भए सोचवस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥

लीन्ह नीच मारीचहि संग्गा । भयउ तुरत सोइ कपटकुरंग्गा ॥

इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया और वह (मारीच) तुरंत कपट-मृग बन गया ॥ २ ॥

करि छलु मूढ़ हरी वैदेही । प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥

मृग वधि बंधु सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥

मूर्ख (रावण) ने छल करके सीताजीको हर लिया। उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये और उसे खाली देखकर (अर्थात् वहाँ सीताजीको न पाकर) उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये ॥ ३ ॥

विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दौउ भाई ॥

कवहूँ जोग वियोग न जाकें । देखा प्रगट विरह दुखु ताकें ॥

श्रीरघुनाथजी मनुष्यकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई वनमें सीताको खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥

दो०—अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह वस हृदयँ धरहिं कछु आन ॥ ४६ ॥

श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मन्दबुद्धि हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं ॥ ४६ ॥

चो०—संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हियँ अति हरषु विसेषा ॥

भरि लोचन छविसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥

श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बहुत भारी

आनन्द उत्पन्न हुआ। उन शोभाके समुद्र (श्रीरामचन्द्रजी) को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया ॥ १ ॥

जय सच्चिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥

जगत्के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े। कृपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ २ ॥

सतीं सो दसा संभु कै देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥
संकरु जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥

सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। [वे मन-ही-मन कहने लगीं कि] शंकरजीकी सारा जगत् वन्दना करता है। वे जगत्के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं ॥ ३ ॥

तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥
भए मगन छवि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥

उन्होंने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती ! ॥ ४ ॥

दो०—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥

जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है ! ॥ ५० ॥

चौ०—विष्णु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥

खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥

देवताओंके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करनेवाले जो विष्णुभगवान् हैं, वे भी शिवजीकी ही भाँति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति और असुरोंके शत्रु भगवान् विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको खोजेंगे ॥ १ ॥

संभुगिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्वग्य जान सबु कोई ॥
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदयँ प्रबोध प्रचारा ॥

फिर शिवजीके वचन भी झूठे नहीं हो सकते । सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं । सतीके मनमें इस प्रकारका अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था ॥ २ ॥

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥

यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये । वे बोले—हे सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है । ऐसा संदेह मनमें कभी न रखना चाहिये । ३ ।

जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥

जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्तिमेंने मुनिको सुनायी, ये वही मेरे इष्टदेव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं ॥ ४ ॥

छं०—मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी ।
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥

ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निमल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान् श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये [अपनी इच्छासे] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है ।

सो०—लाग न उर उपदेसु जद्यपि कहेउ सिवँ वार बहु ।
बोले विहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जियँ ॥ ५१ ॥

यद्यपि शिवजीने बहुत वार समझाया, फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठता । तब महादेवजी मनमें भगवान्की मायाका बल जानकर मुसकराते हुए बोले—॥ ५१ ॥

चौ०—जौं तुम्हरेँ मन अति संदेह । तौं किन जाइ परीछा लेह ॥
तव लागि बैठ अहउँ वटछाहीं । जव लागि तुम्ह ऐहहु मोहि ॥

जो तुम्हारे मनमें बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जबतक तुम मेरे पास लौट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ ॥ १ ॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । करहु सो जतनु विवेक विचारी ॥

चलीं सती सिव आयसु पाई । करहि विचारु करौ का भाई ॥

जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [भलीभाँति] विवेकके द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना। शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं और मनमें सोचने लगीं कि भाई! क्या कहूँ (कैसे परीक्षा लूँ?) ॥ २ ॥

इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दृच्छसुता कहूँ नहि कल्याणा ॥

मोरेहु कहें न संसय जाहीं । विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥

इधर शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है। जब मेरे समझानेसे भी संदेह दूर नहीं होता, तब [मालूम होता है] विधाता ही उलटे हैं, अब सतीका कुशल नहीं है ॥ ३ ॥

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥

अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥

जो कुछ रामने रच रक्खा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा (विस्तार) बढ़ावे। [मनमें] ऐसा कहकर शिवजी भगवान् श्रीहरिका नाम जपने लगे और सतीजी वहाँ गयीं, जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ ॥

दो०—पुनि पुनि हृदयँ विचारु करि धरि सीता कर रूप ।

आगेँ होइ चलि पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप ॥ ५२ ॥

सती बार-बार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्गकी ओर आगे होकर चलीं जिससे [सतीजीके विचारानुसार] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥

चो०—लछिमन दीख उमाकृत वेषा । चकित भए भ्रम हृदयँ बिसेषा ॥

कहि न सकत कहु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥

सतीजीके वनावटी वेषको देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये और उनके हृदयमें बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके। धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥ १ ॥

सती कपटु जानेउ सुरस्वामी । सवदरसी सब अंतरजामी ॥

सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना । सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥

सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटकी जान गये, जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ २ ॥

सती कीन्ह चहः तहँहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥

निज माया बलु हदयँ वखानी । बोले विहसि रामु म्हुदु वानी ॥

स्त्रीस्वभावका असर तो देखो कि वहाँ (उन सर्वज्ञ भगवान् के सामने) भी सतीजी छिपाव करना चाहती हैं । अपनी मायाके बलको हृदयमें बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥

कहेउ वहोरि कहाँ वृषकेतू । विपिनअकेलि फिरहु कोहि हेतू ॥

पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम बताया । फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं ? आप यहाँ वनमें अकेली किसलिये फिर रही हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—राम वचन म्हुदु गूढ सुनि उपजा अति संकोचु ।

सती सभीत महेस पहिं चलीं हदयँ वड सोचु ॥ ५३ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच हुआ । वे डरती हुई (चुपचाप) शिवजीके पास चलीं, उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी—॥ ५३ ॥

चौ०—मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥

जाइ उतरु अब देहउँ काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥

—कि मैंने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर आरोप किया । अब जाकर मैं शिवजीको क्या उत्तर दूंगी ? [यों सोचते-सोचते] सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी ॥ ५ ॥

जाना राम सतीं दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनाव ॥

सतीं दीख कौतुकु मग जाता । आगेँ रामु सहित श्री भ्राता ॥

श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ, तब उन्होंने अपना

प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सतीजीने मार्गमें जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित आगे चले जा रहे हैं। [इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सच्चिदानन्दमय रूपको देखें, वियोग और दुःखकी कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों।] ॥ २ ॥

फिर चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥
जहँ चितवहिँ तहँ प्रभु आसीना । सेवहिँ सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥

[तब उन्होंने] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेशमें दिखायी दिये। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥३॥

देखे सिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाउ एक तेँ एका ॥
बंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध बेष देखे सब देवा ॥

सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक-से-एक बढ़कर असीम प्रभाववाले थे। [उन्होंने देखा कि] भाँति-भाँतिके बेष धारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप ।

जेहिँ जेहिँ बेष अजादि सुर तेहिँ तेहिँ तन अनुरूप ॥ ५४ ॥

उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस-जिस रूपमें ब्रह्मा आदि देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमें [उनकी] ये सब [शक्तियाँ] भी थीं ॥५४॥

चौ०—देखे जहँ तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥

जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥

सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देखा। संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥५५॥

पूजहिँ प्रभुहिँ देव बहु बेषा । राम रूप दूसर नहिँ देखा
अवलोकै रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न बेष घनेरे ॥

[उन्होंने देखा कि] अनेकों बेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी

पूजा कर रहे हैं। परंतु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परंतु उनके वेप अनेक नहीं थे ॥ २ ॥

सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति भई समीता ॥

हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि वैठीं मग माहीं ॥

[सब जगह] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी—सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गयीं। उनका हृदय कंपने लगा और देहकी सारी सुघ-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मागमें बैठ गयीं ॥ ३ ॥

बहुरि विलोकेउ नयन उधारो । कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥

पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥

फिर आंख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी (सतीजी) को कुछ भी न दीख पड़ा। तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे ॥४॥

दो०—गई समीप महेस तव हँसि पूछी कुसलात ।

लीन्हि परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥

जब पास पहुँचीं, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-प्रश्न करके कहा कि तुमने रामजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच-सच कहो ॥ ५५ ॥

मासपारायण, दूसरा विश्राम

चौ०—सतीं समुझि रघुवीर प्रभाऊ । भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥

कछु न परीछा लीन्हि गोसाईं । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥

सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया और कहा—हे स्वामिन्! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, [वहाँ जाकर] आपकी ही तरह प्रणाम किया ॥ १ ॥

जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥

तब संकर देखेउ धरि घ्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥

आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा (पूरा) विश्वास है। तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सब जान लिया ॥ २ ॥

बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहिं भूँठ कहावा ॥

हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदयँ विचारत संभु सुजाना ॥

फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके मुंहसे भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रबल है ॥ ३ ॥

सती कीन्ह सीता कर बेषा । सिव उर भयउ विषाद विसेषा ॥

जौँ अब करउँ सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥

सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है ॥ ४ ॥

दो०—परम पुनीत न जाइ तजि किँएँ प्रेम बड़ पापु ।

प्रगटि न कहत महेस कछु हृदयँ अधिक संतापु ॥ ५६ ॥

सती परम पवित्र हैं, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदयमें बड़ा संताप है ॥ ५६ ॥

चौ०—तव संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदयँ अस आवा ।

एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ।

तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीका स्मरण करते ही उनके मनमें यह आया कि सतीके इस शरीरसे मेरी [पति-पत्नीरूप में] भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने मनमें यह संकल्प कर लिया ॥ १ ॥

अस विचारि संकरु मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ।

चलत गगन भै गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति दृढाई ।

स्विरवृद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घ (कंलास) को चले। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश! आपका जय हो। आपने भक्तिकी अच्छी दृढ़ता की ॥ २ ॥

असपनतुम्ह विनु करइ कोआना । रामभगत समरथ भगवाना

सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा

आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं; समर्थ हैं और भगवान् हैं। इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा—॥ ३ ॥

कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥
जदपि सतीं पूछा बहु भाँती । तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥

हे कृपालु ! कहिये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो! आप सत्यके धाम और दीन-दयालु हैं। यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परंतु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा ॥ ४ ॥

दो०—सतीं हृदयँ अनुमान किय सबु जानेउ सर्वग्य ।

कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥

सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये। मैंने शिवजीसे कपट किया, स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और बेसमझ होती है ॥ ५७ (क) ॥

सो०—जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि ।

विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥

प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [दूधके साथ मिलकर] दूधके समान भाव विकता है; परंतु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है (दूध फट जाता है) और स्वाद (प्रेम) जाता रहता है ॥ ५७ (ख) ॥

चो०—हृदयँ सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं वरनी ॥

कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥

अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। [उन्होंने समझ लिया कि] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमें उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥

संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदयँ अकुलानी ॥

निजअघसमुझिन कळु कहि जाई । तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥

शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदयमें व्याकुल हो उठीं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता; परंतु हृदय [भीतर-ही-भीतर] कुम्हारके आँवके समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २ ॥

सतिहि ससोच जानि वृषकेतू । कहीं कथा सुंदर सुख हेतू ॥
वरनत पंथ विविध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥

वृषकेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ कहीं । इस प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासोंको कहते हुए विश्वनाथ कैलास जा पहुँचे ॥ ३ ॥

तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन । बैठे बट तर करि कमलासन ॥
संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥

वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़ेके पेटके नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये । शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप संभाला । उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी ॥ ४ ॥

दो०—सती बसहिँ कैलास तब अधिक सोचु मन माहिँ ।

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिँ ॥ ५८ ॥

तब सतीजी कैलासपर रहने लगीं । उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यको कोई कुछ भी नहीं जानता था । उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! ॥ ५८ ॥

चौ०—नित नव सोचु सती उर भारा । कब जैहउँ दुख सागर पारा ॥

मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिवचनु मृषा करि जाना ॥

सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःख-समुद्रके पार कब जाऊँगी । मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके वचनोंको झूठ जाना—॥ १ ॥

सो फलु मोहि विधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥

अब विधिअसबूझिअनहिँ तोही । संकर बिमुख जिआवसि मोही ॥

उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परंतु हे विधाता ! अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २ ॥

कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥

जौं प्रभु दीनदयालु कहावा । आरति हरन वेद जसु गावा ॥

सतीजीके हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनमें

श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और कहा—हे प्रभो! यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप दुःखको हरनेवाले हैं, ॥ ३ ॥

तौ मैं विनय करउँ कर जोरी । छूटउ बेगि देह यह मोरी ॥

जौं मोरें सिव चरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य ब्रतु एहू ॥

तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय। यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें प्रेम है और मेरा यह [प्रेमका] व्रत मन, वचन और कर्म (आचरण) से सत्य है ॥ ४ ॥

बो०—तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ ।

होइ मरनु जेहिं विनहिं श्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥ ५६ ॥

तो हे सबदशी, प्रभो! सुनिये और शीघ्र वह उपाय कीजिये, जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह [पति-परित्यागरूपी] असह्य विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५६ ॥

बो०—एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥

बीते संवत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥

दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥

राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेउ सर्ती जगतपति जागे ॥

जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा । सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥

शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगत्के स्वामी (शिवजी) जागे। उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया। शिवजीने उनको बैठनेके लिये सामने आसन दिया ॥ २ ॥

लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥

देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्हा प्रजापति नायक ॥

शिवजी भगवान् हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्माजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३ ॥

बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदयँ तब आवा ॥
 नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥

जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया। जगत्में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, जिसको प्रभुता पाकर मद न हो ॥ ४ ॥

दो०—दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग ।

नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥

दक्षने सब मुनियोंको बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञका भाग पाते हैं, दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया ॥ ६० ॥

चौ०—किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥

विष्णु विरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥

[दक्षका निमन्त्रण पाकर] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १ ॥

सतीं विलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर विधि नाना ॥

सुर सुंदरी करहिं कल गाना । सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥

सतीजीने देखा, अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं, देवसुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ २ ॥

पूछेउ तव सिवँ कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥

जौं महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रहौं मिस एहीं ॥

सतीजीने [विमानोंमें देवताओंके जानेका कारण] पूछा, तब शिवजीने सब बातें बतलायीं। पिताके यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें, तो इसी वहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ ॥

पति परित्याग हृदयँ दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी ॥

बोली सती मनोहर बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥

क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं—॥ ४ ॥

दो०—पिता भवन उत्सव परम जौं प्रभु आयसु होइ ।

तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥

हे प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम ! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ ॥ ६१ ॥

चौ०—कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥

दृच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरें वयर तुम्हउ विसराई ॥

शिवजीने कहा—तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद आयी । पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है । दक्षने अपनी सब लड़कियोंको बुलाया है, किंतु हमारे वरके कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया ॥ १ ॥

ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना ॥

जौं विनु बोलेँ जाहु भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥

एक वार ब्रह्माकी सभामें हमसे अपसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं । हे भवानी ! जो तुम बिना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी ॥ २ ॥

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ विनु बोलेहुँ न संदेहा ॥

तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गएँ कल्याणु न होई ॥

यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥

भाँति अनेक संभु समुझावा । भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥

कह प्रभु जाहु जो विनहिं बोलाएँ । नहिं भलि बात हमारे भाएँ ॥

शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें बोध नहीं हुआ । फिर शिवजीने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी बात न होगी ॥ ४ ॥

दो०—कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दृच्छकुमारि ।

दिए मुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥

शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर-देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकीं, तब त्रिपुरारि महादेवजीने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा कर दिया ॥ ६२ ॥

श्री०—पिता भवन जब गई भवानी । दृच्छ त्रास काहुँ न सनमानी ॥

सादर भलेहिं मिली एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥

भवानी जब पिता (दक्ष) के घर पहुँचीं, तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी श्रावभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदरसे मिली। बहिनें बहुत मुसकराती हुई मिलीं ॥ १ ॥

दृच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सब गाता ॥

सतीं जाइ देखेउ तब जागा । कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥

दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीको देखकर उलटे उनके शारे अंग जल उठे। तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका भाग दिखायी नहीं दिया ॥ २ ॥

तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥

पाछिल दुखु न हृदयँ अस व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा ॥

तब शिवजीने जो कहा था, वह उनकी समझमें आया। स्वामीका अपमान समझकर सतीका हृदय जल उठा। पिछला (पतिपरित्यागका) दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था, जितना महान् दुःख इस समय (पति-अपमानके कारण) हुआ ॥ ३ ॥

जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तें कठिन जाति अवमाना ॥

समुझिसो सतिहि भयउ अतिक्रोधा । बहु विधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥

यद्यपि जगत्में अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया। माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥

श्री०—सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँ न होइ प्रबोध ।

सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं वचन सक्रोध ॥ ६३ ॥

परंतु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभाको हठपूर्वक डाँटकर क्रोधभरे वचन बोलीं—॥ ६३ ॥

श्री०—सुनहु सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥

सो फलु तुरत लहब सब काहुँ । भली भाँति पछिताब पिताहुँ ॥

हे सभासदो और सब मुनीश्वरो ! सुनो। जिन लोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभाँति पछतायेंगे ॥ १ ॥

संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥
काटिअ तासु जीभ जो वसाई । श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥

जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति श्रीविष्णुभगवान्की निन्दा सुनी जाय, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस (निन्दा करनेवाले) की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे भाग जाय ॥ २ ॥

जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥
पिता मंदमति निंदत तेही । दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥

त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले भगवान् महेश्वर सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं, वे जगत्पिता और सबका हित करनेवाले हैं। मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उत्पन्न है ॥ ३ ॥

तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥
अस कहि जोगअगिनितनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥

इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृषकेतु शिवजीको हृदयमें धारण करके मैं इस शरीरको तुरंत ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजीने योगाग्निमें अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया ॥ ४ ॥

दो०—सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस ।

जग्य विधंस विलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥

सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥

चौ०—समाचार सब संकर पाए । वीरभद्रु करि कोप पठाए ॥

जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलुदीन्हा ॥

ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल (दण्ड) दिया ॥ ११ ॥

जगविदित दृच्छ गति सोई । जसि कछु संभु विमुख कै होई ॥
 यह इतिहास सकल जग जानी । ताते मैं संक्षेप बखानी ॥

दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही गति हुई, जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया ॥ २ ॥

सतीं मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥
 मेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारबती तनु पाई ॥

सतीने मरते समय भगवान् हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे जन्म लिया ॥ ३ ॥

जब तें उमा सैल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥
 जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दीन्हे ॥

जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मीं, तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयीं। मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥

दो०—सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति ।

प्रगटीं सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति ॥ ६५ ॥

उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फलयुक्त हो गये और वहाँ बहुत तरहकी मणियोंकी खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥

चो०—सरिता सब पुनीतजलु बहहीं । खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरिपरसकल करहि अनुरागा ॥

सारी नदियोंमें पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वर छोड़ दिया और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥ १ ॥

सोह सैल गिरिजा गृह आएँ । जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥

नित नूतन मंगल गृह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥

पार्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तको पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस (पर्वतराज) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोल्लास होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥ २ ॥

नारद समाचार सब पाए । कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए ॥
सैलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥

जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके घर पधारे । पर्वतराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥३॥

नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा ॥
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥

फिर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमें छिड़काया । हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ४ ॥

दो०—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि ।

कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदयँ विचारि ॥ ६६ ॥

[और कहा—] हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है । अतः आप हृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥

चौ०—कह मुनि विहसि गूढ़ मृदु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥

सुंदर सहज सुशील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥

नारदमुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा—तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है । यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील और समझदार है । उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥ १ ॥

सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥

सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पैहहिं पितु माता ॥

कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेंगे ॥ २ ॥

होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कळु दुर्लभ नाहीं ॥

एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहिं पतिव्रत असिधारा ॥

यह सारे जगत्में पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा । संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम-स्मरण करके पतिव्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायेंगी ॥ ३ ॥

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥

हे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है । अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो । गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन (लापरवाह) ॥ ४ ॥

दो०—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष ।

अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥

योगी, जटाधारी, निष्कामहृदय, नंगा और अमङ्गल वेषवाला, ऐसा पति इसको मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥ ६७ ॥

चो०—सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥

नारदहँ यह भेदु न जाना । दसा एक समुझब बिलगाना ॥

नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी (हिमवान् और मैना) को दुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुई । नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी ॥ १ ॥

सकल सर्खीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नैना ॥

होइ न मृषा देवरिषि भाषा । उमा सो बचनु हृदयँ धरि राखा ॥

सारी सखियाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवान् और मैना सभीके शरीर पुलकित थे और सभीके नेत्रोंमें जल भरा था । देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [यह विचारकर] पार्वतीने उन वचनोंको हृदयमें धारण कर लिया ॥ २ ॥

उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥

जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी उछँग बैठी पुनि जाई ॥

उन्हें शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है । अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और फिर वे सखीकी गोदमें जाकर बैठ गयीं ॥ ३ ॥

भूठि न होइ देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सर्खीं सयानी ॥

उर धरि धीर कहइ गिरिराज । कहहु नाथ का करिअ उपाज ॥

[काकमुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है । नीच विनयसे नहीं मानता, वह डाँटने-पर ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥

चौ०—सभय सिंधु गहि पद प्रभु करे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥

गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण (दोष) क्षमा कीजिये । हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड़ है ॥ १ ॥

तव प्रेरित मायाँ उपजाए । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने यही गायी है । जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥

डोल गवाँर सूद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी । किंतु मर्यादा (जीवोंका स्वभाव) भी आपकी ही बनायी हुई है । डोल, गँवार, शूद्र, पशु और स्त्री—ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि वड़ाई ॥

प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्हाहि सोहाई ॥

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी) । तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात् आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं । अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥

दो०—सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुसुकाइ ।

जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥

समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा—

यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पभरके लिये पड़ते हैं। भला, कहीं जीव भी ईश्वरके समान (सर्वथा स्वतन्त्र) हो सकता है? ॥६६॥

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥

सुरसरि मिलें सौ पावन जैसे । ईस अनीसहि अंतरु तैसे ॥

गङ्गाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संतलोग कभी उसका पान नहीं करते। पर वही गङ्गाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवमें वैसा ही भेद है ॥ १ ॥

सिंधु सहज समर्थ भगवाना । एहि बिबाहँ सब विधि कल्याणा ॥

दुराशय पै अहहिं महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥

शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान् हैं। इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश (तप) करनेसे वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥

जौं तपु करै कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥

जद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥

यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हैं। यद्यपि संसारमें बर अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा बर नहीं है ॥ ३ ॥

वर दायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥

इच्छित फल विनु सिव अवरार्धे । लहिअ न कोटि जोग जप सार्धे ॥

शिवजी बर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समान और सेवकोंके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं। शिवजीकी आराधना किये बिना करे योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिलता ॥ ४ ॥

दो०—अस कहि नारद सुमिरि हरिगिरिजहि दीन्हि असीस ।

होइहि यह कल्याण अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥

ऐसा कहकर भगवान्का स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया। कहा कि) हे पर्वतराज ! तुम संदेहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ॥

देवपिकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्, मंता और सारी चतुर सखियाँ चिन्ता करने लगीं। फिर हृदयमें धीरज धरकर पर्वतराजने कहा—हे नाथ ! कहिये, अब क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥

दो०—कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥ ६८ ॥

मुनीश्वरने कहा—हे हिमवान् ! सुनो, विधाताने ललाटपर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥

चौ०—तदपि एक मैं कहउँ उपाई । होइ करै जौं दैउ सहाई ॥

जसवरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥

तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमाको वर तो निःसंदेह वंसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥१॥

जे जे बर के दोष बखाने । ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने ॥

जौं विवाहु संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सबु कोई ॥

परंतु मैंने वरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीमें हैं। यदि शिवजीके साथ विवाह हो जाय तो दोषोंको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे ॥२॥

जौं अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥

भानु कृसानु सर्व रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥

जैसे विष्णुभगवान् शोपनागकी शय्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोंका भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ३ ॥

सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥

समरथ कहँ नहिं दोषु गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाईं ॥

गङ्गाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है; पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गङ्गाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोष नहीं लगता ॥ ४ ॥

दो०—जौं अस हिसिषा करहिं नर जड़ विव्रेक अभिमान ।

परहिं कल्प भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ॥

नारद वचन सगर्भ सहेतू । सुंदर सब गुन निधि वृषकेतू ॥
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥

नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं। यह विचारकर तुम [मिथ्या] संदेहको छोड़ दो। शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हैं ॥ २ ॥

सुनि पति वचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बैठारी ॥

पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयीं। पार्वतीको देखकर उनकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया ॥ ३ ॥

वारहिं वार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥
जगत मातु सर्वम्य भवानी । मातु सुखद बोलीं मृदु बानी ॥

फिर वार-वार उसे हृदयसे लगाने लगीं। प्रेमसे मैनाका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं [माताके मनकी दशाको जानकर] वे माताको सुख देनेवाली कोमल वाणीसे बोलीं—॥ ४ ॥

दो०—सुनाहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावउँ तोहि ।

सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेउ मोहि ॥ ७२ ॥

माँ! सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौर-वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने ऐसा उपदेश दिया है—॥ ७२ ॥

चौ०—करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥

मातु पितहि पुनियह मतभावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥

हे पार्वती! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका नाश करनेवाला है ॥ १ ॥

तपवल रचइ प्रपंचु विधाता । तपवल विष्णु सकल जग त्राता ॥

तपवल संभु करहिं संघारा । तपवल सेषु धरइ महिभारा ॥

तपके बलसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हैं और तपके बलसे ही विष्णु सारे जगतका

चो०—कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ । आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥

पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे मुनि बैना ॥

यों कहकर नारदमुनि ब्रह्मलोकको चले गये । अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो । पतिको एकान्तमें पाकर मैताने कहा—हे नाथ ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥१॥

जौं घरु वरु कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाहु सुता अनुरूपा ॥

न त कन्या वरु रहउ कुआरी । कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥

जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये । नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे (मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती) क्योंकि हे स्वामिन् ! पार्वती मुझको प्राणोंके समान प्यारी है ॥ २ ॥

जौंनमिलिहि वरुगिरिजहि जोगू । गिरिजइ सहज कहिहि सबुलोगू ॥

सोइ विचारि पति करेहु विवाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥

यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभावसे ही जड़ (मूर्ख) होते हैं । हे स्वामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो ॥ ३ ॥

अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा ॥

वरु पावक प्रगटै ससि माहीं । नारद वचनु अन्यथा नाहीं ॥

इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं । तब हिमवानने प्रेमसे कहा—चाहे चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते ॥४॥

दो०—प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान ।

पारवतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्याण ॥ ७१ ॥

हे प्रिये ! सब सोच छोड़कर श्रीभगवान्का स्मरण करो । जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण करेंगे ॥ ७१ ॥

चो०—अब जौं तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥

करै सो तपु जेहि मिलहिं महेसू । आन उपायँ न मिटिहि कलेसू ॥

अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जायें । दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीं मिटेगा ॥५॥

कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किये। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया ॥३॥

पुनि परिहरे सुखानेउ परना । उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥

फिर सूखे पर्ण (पत्ते) भी छोड़ दिये, तभी पार्वतीका नाम 'अपर्णा' हुआ। तपसे उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई—॥ ४ ॥

दो०—भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि ।

परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥

हे पर्वतराजकी कुमारी! सुन। तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशोंको (कठिन तपको) त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे ॥ ७४ ॥

चौ०—अस तपुकाहुँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥

अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥

हे भवानी! धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा (कठोर) तप किसीने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर ॥ १ ॥

आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥

मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥

जब तेरे पिता बुलानेको आवें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना ॥ २ ॥

सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥

उमा चरित सुंदर में गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥

[इस प्रकार] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो गयीं और [हर्षके मारे] उनका शरीर पुलकित हो गया। [याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोले कि] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥३॥

जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ विरागा ॥

जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहँ तहँ सुनहिं राम गुन ग्रामा ॥

पालन करते हैं। तपके बलसे ही शम्भु [स्वरूपसे जगत्का] संहार करते हैं और तपके बलसे ही शैपजी पृथ्वीका भार धारण करते हैं ॥ २ ॥

तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियँ जानी ॥
सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥

हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है। ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान्को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया ॥ ३ ॥

मातु पितहि बहुविधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरषाई ॥
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए विकल मुख आव न वाता ॥

माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हृषंके साथ पावंतीजी तप करनेकेलिये चलीं। प्यारे कूटुम्बी, पिता और माता सब व्याकुल हो गये। किसीके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥४॥

दो०—वेदसिरा मुनि आइ तव सवहि कहा समुझाइ ।

पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ ७३ ॥

तव वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा। पावंतीजीकी महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया ॥ ७३ ॥

चौ०—उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागीं तपु करना ॥

अतिसुकुमार न तनु तपजोगू । पति पद सुमिरितजेउ सबु भोगू ॥

प्राणपति (शिवजीके) चरणोंको हृदयमें धारण करके पावंतीजी वनमें जाकर तप करने लगीं। पावंतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको तज दिया ॥ १ ॥

नित नव चरन उपज अनुरागा । विसरी देह तपहिं मनु लागा ॥

संवत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत वरष गवाँए ॥

स्वामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन लगा कि शरीरकी सारी सुघ विसर गयी। एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये, फिर सौ वर्ष साग खाकर विताये ॥ २ ॥

कछु दिन भोजनु वारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥

बेल पाती महि परइ सुखाई । तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥

मुनाया । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया ॥ ४ ॥

दो०—अब विनती मम सुनहु सिव जौं मो पर निज नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥

[फिर उन्होंने शिवजीसे कहा—] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिये । मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर लें ॥ ७६ ॥

चौ०—कह सिवजदपि उचितअसनाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥

शिवजीने कहा—यद्यपि ऐसा उचित नहीं है; परंतु स्वामीकी बात भी मेटी नहीं जा सकती । हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करूँ ॥ १ ॥

मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । विनहिं विचार करिअ सुभ जानी ॥

तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥

माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना (मानना) चाहिये । फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं । हे नाथ ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २ ॥

प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना । भक्ति विवेक धर्म जुत रचना ॥

कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥

शिवजीकी भक्ति, ज्ञान और धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी संतुष्ट हो गये । प्रभुने कहा—हे हर ! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । अब हमने जो कहा है उसे हृदयमें रखना ॥ ३ ॥

अंतरधान भए अस भाषी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥

तबहिं सप्तारिषि सिव पहिं आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥

इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये । शिवजीने उनकी वह मूर्ति

जबसे सतीने जाकर शरीर त्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया। वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने लगे ॥ ४ ॥

दो०—चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम ।

विचरहिं महि धरि हृदयँ हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५ ॥

चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान् श्रीहरि (श्रीरामचन्द्रजी) को हृदयमें धारण कर (भगवान्-के ध्यानमें मस्त हुए) पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ७५ ॥

चौ०—कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना । कतहुँ राम गुन करहिं वखाना ॥

जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥

वे कहीं मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान् अपने भक्त (सती) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १ ॥

एहि विधि गयउ कालु बहु वीती । नित नै होइ राम पद प्रीती ॥

नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अविचल हृदयँ भगति कै रेखा ॥

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित-नयी प्रीति हो रही है। शिवजीके [कठोर] नियम, [अनन्य] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अटल टैकको [जब श्रीरामचन्द्रजीने] देखा, ॥ २ ॥

प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥

बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह विनुअस व्रतु कोनिरवाहा ॥

तब कृतज्ञ (उपकार माननेवाले), कृपालु, रूप और शीलके भण्डार, महान् तेजपुञ्ज भगवान् श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा (कठिन) व्रत कौन निवाह सकता है ॥ ३ ॥

बहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्मु सुनावा ॥

अति पुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित कृपानिधि वरनी ॥

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म

पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले—तुम्हारा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है। भला, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बसा है? ॥ ७८ ॥

चौ०—दृच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥
चित्रकेतु कर घरु उन घाला । कनककसिपु करपुनि अस हाला ॥

उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घरका मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपुका हुआ ॥ १ ॥

नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥

जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं, उनका मन तो कपटी है, शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे सभीको अपने समान बनाना चाहते हैं ॥ २ ॥

तेहि कें वचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥
निर्गुन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥

उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेषवाला, नर-कपालोंकी माला पहननेवाला, कुलहीन, बिना घर-बारका, नंगा और शरीरपर साँपोंको लपेटे रखनेवाला है ॥ ३ ॥

कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ । भल भूलिहु ठग के बौराएँ ॥
पंच कहें सिवँ सती बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥

ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग (नारद) के बहकावमें आकर खूब भूलीं। पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला ॥ ४ ॥

दो०—अव सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं ।

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥ ७९ ॥
अव शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा लेते हैं और सुखसे सोते हैं।

मूर्ति अपने हृदयमें रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये। प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे—॥ ४ ॥

दो०—पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु ।

गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ ७७ ॥

आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलको कहकर [उन्हें पार्वतीको लिवा लानेके लिये भेजिये तथा] पार्वतीको घर भिजवाइये और उनके संदेहको दूर कीजिये ॥ ७७ ॥

चौ०—रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥

बोले मुनि सुनु शैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥

ऋषियोंने [वहाँ जाकर] पार्वतीको कैसी देखा मानो मूर्तिमान् तपस्या ही हो। मुनि बोले—हे शैलकुमारी ! सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो ? ॥ १ ॥

केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥

कहत वचन मनु अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥

तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती ? [पार्वतीने कहा—] बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे ॥ २ ॥

मनु हठ परा न सुनइ सिखावा । चहत वारि पर भीति उठावा ॥

नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना ॥

मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल उठाना चाहता है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँखके उड़ना चाहती हूँ ॥ ३ ॥

देखहु मुनि अबिवेकु हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥

हे मुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ ॥ ४ ॥

दो०—सुनत वचन विहसे रिषय गिरिसंभव तव देह ।

नारद कर उपदेसु सुनि कहहु वसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥

हे मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी । फिर गुण-दोषोंका विचार कौन करे ? ॥ १ ॥

जौं तुम्हरे हठ हृदयँ विसेषी । रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी ॥
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ॥

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहकी बातचीत (बरेखी) किये बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारमें बर-कन्या बहुत हैं । खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [और कहीं जाकर कीजिये] ॥ २ ॥

जन्म कोटि लागि रगर हमारी । बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ॥
तजउँ न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू ॥

मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी । स्वयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ूंगी ॥ ३ ॥

मैं पा परउँ कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा ॥
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥

जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ । आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो गयी । [शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले— हे जगज्जननी, हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो !! ॥ ४ ॥

दो०—तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु ।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥

आप माया हैं और शिवजी भगवान् हैं । आप दोनों समस्त जगत्के माता-पिता हैं । [यह कहकर] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर चल दिये । उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे ॥ ८१ ॥

चौ०—जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए । करि विनती गिरजहिं गृह ल्याए ॥
बहुरिसप्तारिषिसिव पहिं जाई । कथा उमा कै सकल सुनाई ॥
मुनियोंने जाकर हिमवान्को पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको

ऐसे स्वभावसे ही अकेले रहनेवालोंके घर भी भला, क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं? ॥७६॥

चौ०—अजहूँ मानहुँ कहा हमारा । हमतुम्ह कहूँ बरुनीकबिचारा ॥

अतिसुन्दर सुचिसुखदसुसीला । गावहिं वेद जासु जस लीला ॥

अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं ॥ १ ॥

दूषन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर वैकुण्ठ निवासी ॥

अस वरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसिकह बचन भवानी ॥

वह दोषोंसे रहित, सारे सद्गुणोंकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और वैकुण्ठपुरीका रहनेवाला है। हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वतीजी हँसकर बोलीं—॥ २ ॥

सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा । हठ न छूट छूटै बरु देहा ॥

कनकउ पुनि पषान तें होई । जारेहुँ सहजु न परिहर सोई ॥

आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाये जानेपर भी अपने स्वभाव (सुवर्णत्व) को नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥

नारद वचन न मैं परिहरऊँ । बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊँ ॥

गुर कें वचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥

अतः मैं नारदजीके वचनोंको नहीं छोड़ूँगी; चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्नमें भी सुगम नहीं होती ॥ ४ ॥

दो०—महादेव अवगुन भवन विष्णु सकल गुन धाम ।

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥

माना कि महादेवजी अवगुणोंके भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणोंके धाम हैं; पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥

चौ०—जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथममुनीसा । सुनतिउँ सिखतुम्हारि धरि सीस

अब मैं जन्मु संभु हित हारा । गुन दूषन करै विचारा

तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि बैठे सबु त्यागी ॥

जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥

उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड़-छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात सुनो ॥ २ ॥

पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं । करै छोभु संकर मन माहीं ॥

तव हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब विवाहु बरिआई ॥

तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे (उनकी समाधि भङ्ग करे) । तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जवरदस्ती (उन्हें राजी करके) विवाह करा देंगे ॥ ३ ॥

एहि विधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कहइ सबु कोई ॥

अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ बिषमवान भूषकेतू ॥

इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [और तो कोई उपाय नहीं है] । सवने कहा—यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की। तब विषम (पाँच) वाण धारण करनेवाला और मछलीके चिह्नयुक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४ ॥

दो०—सुरन्ह कही निज विपति सब सुनि मन कीन्ह विचार ।

संभु विरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥

देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेवने मनमें विचार किया और हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है ॥ ८३ ॥

चौ०—तदपि करव मै काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥

पर हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥

तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा; क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते हैं। जो दूसरेके हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं ॥ १ ॥

अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥

चलत मार अस हृदयँ विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥

घर ले आये। फिर सप्तपियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥ १ ॥

भए मगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तारिषि गवने गेहा ॥

मनु थिर करि तव संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥

पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये। सप्तपि प्रसन्न होकर अपने घर (ब्रह्मलोक) को चले गये। तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनायजीका ध्यान करने लगे ॥ २ ॥

तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज विसाला ॥

तेहिं सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥

उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालोंको जीत लिया, सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥

अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि विविध लराई ॥

तव विरंचि सन जाइ पुकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥

वह अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरहकी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये। तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी। ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा ॥ ४ ॥

वो०—सब सन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तव होइ ।

संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२ ॥

ब्रह्माजीने सबको समझाकर कहा—इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्धमें वही जीतेगा ॥ ८२ ॥

वो०—मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥

सतीं जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥

मेरी बात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा। सतीजीने जो दक्षके यज्ञमें देहका त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म लिया है ॥ १ ॥

चौ०—सब के हृदयें मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥

नदीं उमगि अंबुधि कहूँ धाई । संगम करहिं तलाव तलाई ॥

सबके हृदयमें कामकी इच्छा हो गयी । लताओं (बेलों) को देखकर वृक्षोंकी डालियाँ झुकने लगीं । नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं और ताल-तलैयाँ भी आपसमें संगम करने (मिलने-जुलने) लगीं ॥ १ ॥

जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥

पसु पच्छी नभ जल थलचारी । भए कामवस समय विसारी ॥

जब जड़ (वृक्ष, नदी आदि) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोंकी करनी कौन कह सकता है ? आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरनेवाले सारे पक्षु-पक्षी [अपने संयोगका] समय भुलाकर कामके वश हो गये ॥ २ ॥

मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसिदिनुनहिं अवलोकहिं कोका ॥

देव दनुज नर किंनर ब्याला । प्रेत पिशाच भूत बेताला ॥

सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा-चकई रात-दिन नहीं देखते । देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल—॥ ३ ॥

इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी । सदा काम के चरे जानी ॥

सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामवस भए बियोगी ॥

ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया । सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान् योगी भी कामके वश होकर योगरहित या स्त्रीके विरही हो गये ॥ ४ ॥

छं०—भए कामवस जोगीस तापस पावैरन्हि की को कहै ।

देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥

अबला विलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं ।

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥

जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योंकी कौन कहे ? जो समस्त चराचर जगतको ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे । स्त्रियाँ सारे संसारको पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे । दो घड़ीतक

याँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथमें लेकर [वसन्तादि] सहायकोंके साथ चला। चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित है ॥ २ ॥

तब आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥
कोपेउ जबहिं वारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥

तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर लिया। जिस समय उस मछलीके चिह्नकी ध्वजावाले कामदेवने कोप किया उस समय क्षणभरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३ ॥

ब्रह्मचर्ज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान विग्याना ॥
सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सबु भागा ॥

ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वंराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥

छ०—भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग माहि मुरे ।
सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा ।
दुइ माथ केहि रतिनाथजेहि कहुँ कोपिकर धनुसरुधरा ॥

विवेक अपने सहायकोंसहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये। उस समय वे सब सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकी कन्दराओंमें जा छिपे (अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रन्थोंमें ही लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया)। सारे जगत्में खलबली मच गयी [और सब कहने लगे—] हे विघाता! अब क्या होनेवाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिरवाला कौन है, जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोप करके हाथमें धनुष-बाण उठाया है?

दो०—जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम ।

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८४ ॥

जगत्में स्त्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके वश हो गये ॥ ८४ ॥

विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा ।

कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा ॥

मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा। सरोवरोंमें अनेकों कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगीं।

दो०—सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥

कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ (उपाय) करके हार गया; पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ ॥

ची०—देखि रसाल विटप वर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा ॥

सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवनलगिताने ॥

आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया। उसने पुष्पधनुषपर अपने [पाँचों] बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे [लक्ष्यकी ओर] ताककर उन्हें कानतक तान लिया ॥ १ ॥

छाड़े विषम विसिख उर लागे । छूटि समाधि संभु तब जागे ॥

भयउ ईस मन छोभु बिसेषी । नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥

कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमें लगे। तब उनकी समाधि टूट गयी और वे जाग गये। ईश्वर (शिवजी) के मनमें बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ २ ॥

सौरभ पल्लव मदनु बिलोका । भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका ॥

तव सिवँ तीसर नयन उधारा । चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥

जब आमके पत्तोंमें [छिपे हुए] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक काँप उठे। तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥

हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥

समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥

मारे ब्रह्माण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक (तमाशा) रहा ।

सो०—धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे ।

जे राखे रघुवीर ते उवरे तेहि काल महुँ ॥ ८५ ॥

किसीने भी हृदयमें धैर्य नहीं धारण किया, कामदेवने सबके मन हर लिये । श्री-रघुनाथजीने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय वचे रहे ॥ ८५ ॥

सो०—उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ लागि कामु संभु पहिं गयऊ ॥

सिवहि विलोकि ससंकेउ मारू । भयऊ जथाथिति सबु संसारू ॥

दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया । शिव-जीको देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥१॥

भए तुरत सब जीव सुखारे । जिमि मद् उतरि गएँ मतवारे ॥

रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥

तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये हुए) लोग मद (नशा) उतर जानेपर सुखी होते हैं । दुराधर्ष (जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है) और दुर्गम (जिनका पार पाना कठिन है) भगवान् (सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त) रुद्र (महाभयंकर) शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २ ॥

फिरत लाज कछु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥

प्रगटैसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु राजि विराजा ॥

लौट जानेमें लज्जा मालूम होती है, और करते कुछ बनता नहीं । आखिर मनमें मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा । तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया । फूले हुए नये-नये वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गयीं ॥ ३ ॥

वन उपवन वापिका तड़ागा । परम सुभग सब दिसा विभागा ॥

जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा ॥

वन-उपवन, बावली-तालाब और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनमें भी कामदेव जाग उठा ॥४॥

छं०—जागइ मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न परै कही ।

सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥

फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी । उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ ३ ॥

बोले कृपासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस विनवउँ स्वामी ॥

कृपाके समुद्र शिवजी बोले—हे देवताओ ! कहिये, आप किस लिये आये हैं ? ब्रह्माजीने कहा—हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं; तथापि हे स्वामी ! भक्तित्वश मैं आपसे विनती करता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—सकल सुरन्ह के हृदयँ अस संकर परम उछाहु ।

निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार विवाहु ॥ ८८ ॥

हे शंकर ! सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी आँखोंसे आपका विवाह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥

चौ०—यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदनमदमोचन ॥

कामु जारि रति कहूँ वरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥

हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सवको नेत्र भरकर देखें । हे कृपाके सागर ! कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया ॥ ९ ॥

सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥

पारवतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ॥

हे नाथ ! श्रेष्ठ स्वामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करते हैं । पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये ॥ २ ॥

सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥

तब देवन्ह दुंदुभीं बजाई । वरषि सुमन जय जय सुर साई ॥

ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा, 'ऐसा ही हो ।' तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा करके जय हो ! देवताओंके स्वामीकी जय हो !' ऐसा कहने लगे ॥ ३ ॥

जगत्में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग कामसुखको याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कण्टक हो गये ॥ ४ ॥

छं०—जोगी अकण्टक भए पति गति सुनत रति मुरुछित भई ।

रोदति वदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥

अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुखरही ।

प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अवला निरखि बोले सही ॥

योगी निष्कण्टक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूर्च्छित हो गयी। रोती-चिल्लाती और भाँति-भाँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपालु शिवजी अवला (असहाया स्त्री) को देखकर सुन्दर (उसको सान्त्वना देनेवाले) वचन बोले—

दो०—अव तें रति तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु ।

विनु वपु व्यापिहि सबहि पुनिसुनुनिज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ॥

हे रति! अबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनङ्ग' होगा। वह विना ही शरीरके सबको व्यापेगा। अब तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥

चौ०—जव जदुवंस कृष्ण अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥

कृष्ण तनय होइहि पति तोरा । वचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥

जब पृथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र (प्रद्युम्न) के रूपमें उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १ ॥

रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अव कहउँ वखानी ॥

देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक वैकुण्ठ सिधाए ॥

शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी। अब दूसरी कथा बखानकर (विस्तारसे) कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठको चले ॥ २ ॥

सब सुर विष्णु विरंचि समेता । गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥

पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥

हे तात ! अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा । महादेवजी और कामदेवके सम्बन्धमें भी यही न्याय (वात) समझना चाहिये ॥ ४ ॥

दो०—हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास ।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ६० ॥

पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ६० ॥

चौ०—सबु प्रसंगुगिरिपतिहिसुनावा । मदन दहन सुनि अतिदुखु पावा ॥

बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥

उन्होंने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए । फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही । उसे सुनकर हिमवान्ने बहुत सुख माना ॥ १ ॥

हृदयँ विचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥

सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदविधि लगन धराई ॥

शिवजीके प्रभावकी मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोंको आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया ॥ २ ॥

पत्री सप्तारिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥

जाइविधिहितिन्हदीन्ही सोपाती । बाचत प्रीति न हृदयँ समाती ॥

फिर हिमाचलने वह लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की । उन्होंने जाकर वह लग्नपत्रिका ब्रह्माजीको दी । उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेम समाता न था ॥ ३ ॥

लगन वाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥

सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥

ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका

अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं विधि गिरिभवन पठाए ॥

प्रथम गए जहँ रहीं भवानी । बोले मधुर वचन छल सानी ॥

उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके घर भेज दिया । वे पहले वहाँ गये, जहाँ पार्वतीजी थीं और उनसे छलसे भरे मीठे (विनोद-युक्त, आनन्द पहुँचानेवाले) वचन बोले—॥ ४ ॥

दो०—कहा हमार न सुनेहु तव नारद कें उपदेस ।

अब भा भूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ८६ ॥

नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी । अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८६ ॥

मासपारायण, तीसरा विश्राम

चौ०—सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिवर विग्यानी ॥

तुम्हरेँ जान कामु अब जारा । अब लगि संभु रहे सविकारा ॥

यह सुनकर पार्वतीजी मुसकराकर बोलीं—हे विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित ही कहा । आपकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, अबतक तो वे विकारयुक्त (कामी) ही रहे ! ॥ १ ॥

हमरेँ जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥

जौं मैं सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥

कितु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, काम-रहित और भोगहीन हैं और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेम-सहित उनकी सेवा की है—॥ २ ॥

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥

तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अतिवड़ अबिवेकु तुम्हारा ॥

तो हे मुनीश्वरो ! सुनिये, वे कृपानिधान भगवान् मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे । आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है ॥ ३ ॥

तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥

गएँ समीप सो अवसि नसाई । असि मन्मथ महेस की नाई ॥

०—विष्णु कहा अस विहसि तव बोलि सकल दिसिराज ।

विलगविलगहोइ चलहु सब निजनिज सहितसमाज ॥ ६२ ॥

तव विष्णुभगवान्ने सब दिक्पालोंको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा—सब लोग अपने-
ने दलसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ६२ ॥

०—वर अनुहारि वरात न भाई । हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥

विष्णु बचन सुनिसुर मुसुकाने । निजनिज सेन सहित बिलगाने ॥

हे भाई ! हमलोगोंकी यह वरात वरके योग्य नहीं है । क्या पराये नगरमें जाकर
करायोगे ? विष्णुभगवान्की बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी
सहित अलग हो गये ॥ १ ॥

नहीं मन महेसु मुसुकाहीं । हरि के विंग्य बचन नहिं जाहीं ॥

अति प्रिय बचन सुनत प्रिय करे । भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥

महादेवजी [यह देखकर] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवान्के व्यङ्ग्य-
बचन (विलगगी) नहीं छूटते ! अपने प्यारे (विष्णुभगवान्) के इन अति प्रिय बचनोंको
सुनकर शिवजीने भी भृंगीको भेजकर अपने सब गणोंको बुलवा लिया ॥ २ ॥

सब अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥

गाना बाहन नाना बेषा । विहसे सिव समाज निज देखा ॥

शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके चरणकमलोंमें
पद नवाया । तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके बेषवाले अपने समाजको देखकर
शिवजी हँसे ॥ ३ ॥

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥

विपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥

कोई विना मुखका है, किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई विना हाथ-पैरका है तो किसीके
हाथ-पैर हैं । किसीके बहुत आँखें हैं तो किसीके एक भी आँख नहीं है । कोई बहुत
मोटा-नाजा है तो कोई बहुत ही दुबला-पतला है ॥ ४ ॥

छ०—तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें ।

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥

सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओंमें मङ्गल-कलश सजा दिये गये ॥ ४ ॥

दो०—लगे सँवारन सकल सुर वाहन विविध विमान ।

होहिं सगुन मंगल सुभद्र करहिं अपछरा गान ॥ ६१ ॥

सब देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मङ्गल-शकुन होने लगे और अप्सराएँ गाने लगीं ॥ ६१ ॥

चौ०—सिवहि संभुगन करहिं सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा ॥

कुंडल कंकन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला ॥

शिवजीके गण शिवजीका श्रृङ्गार करने लगे। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर साँपोंका मोर सजाया गया। शिवजीने साँपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने, शरीर-पर विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह वाघम्बर लपेट लिया ॥ १ ॥

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपवीत भुजंगा ॥

गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव वेष सिवधाम कृपाला ॥

शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, शिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, साँपोंका जनैऊ, गलेमें विष और छातीपर नरमुण्डोंकी माला थी। इस प्रकार उनका वेष अशुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं ॥ २ ॥

कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा । चले बसहँ चढ़ि वाजहिं वाजा ॥

देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं । वर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥

एक हाथमें त्रिशूल और दूसरेमें डमरु सुशोभित है। शिवजी बेलपर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजीको देखकर देवाङ्गनाएँ मुसकरा रही हैं [और कहती हैं कि] इस वरके योग्य दुलहिन संसारमें नहीं मिलेगी ॥ ३ ॥

विष्णु विरंचि आदि सुरव्राता । चढ़ि चढ़ि वाहन चले वराता ॥

सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहिं वरात दूलह अनुरूपा ॥

विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों (सवारियों) पर चढ़कर वरातमें चले। देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम (परम सुन्दर) था, पर दूलहके योग्य वरात न थी ॥ ४ ॥

हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये। नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी ॥४॥

छ०—लघु लाग बिधि की निपुणता अवलोकि पुर सोभा सही ।

वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥

मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं ।

बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं ॥

नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कूप, तालाव, नदियाँ सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है? घर-घर बहुत-से मङ्गलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर और चतुर स्त्री-पुरुषोंकी छवि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं।

दो०—जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ६४ ॥

जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? जहाँ ऋद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं ॥ ६४ ॥

चौ०—नगर निकट बरात सुनि आई । पुर खरभरु सोभा अधिकाई ॥

करि बनाव सजि बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥

बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी शोभा बढ़ गयी। अगवानी करनेवाले लोग बनाव-शृंगार करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको लेने चले ॥ १ ॥

हियँ हरषे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥

सिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले बाहन सब भागे ॥

देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णुभगवान्को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजीके दलको देखने लगे तब तो उनके सब वाहन (सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके बैल आदि) डरकर भाग चले ॥ २ ॥

धरि धीरजु तहँ रहे सयाने । बालक सब लै जीव पराने ॥

गएँ भवन पूछहिं पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥

खर स्वान सुअर सृकाल मुखगन वेषअगनित को गनै ।

बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमातवरनतनहिं बनै ॥

कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेप धारण किये हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथमें कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमें ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियारके-से उनके मुख हैं। गणोंके अनगिनत वेपोंको कौन गिने? बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच और योगिनियोंकी जमातें हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता ।

सो०—नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब ।

देखत अति विपरीत बोलहिं वचन विचित्र विधि ॥ ६३ ॥

भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं। देखनेमें बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं ॥ ६३ ॥

चो०—जस दूलहु तसि बनी वराता । कौतुक विविध होहिं मग जाता ॥

इहाँ हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहिं जाइ वखाना ॥

जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही वरात बन गयी है। मार्गमें चलते हुए भाँति-भाँतिके कौतुक (तमाश) होते जाते हैं। इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥

सैल सकल जहँ लगि जग माहीं । लघु विसाल नहिं वरनि सिराहीं ॥

वन सागर सब नदीं तलावा । हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा ॥

जगतमें जितने छोटे-बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाव थे, हिमाचलने सबको नेवता भेजा ॥ २ ॥

कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥

गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥

वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर सुन्दरी स्त्रियों और समाजोंके साथ हिमाचलके घर गये। सभी स्नेहसहित मङ्गलगीत गाते हैं ॥ ३ ॥

प्रथमहिं गिरि बहु गृह सँवराए । जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए ॥

पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु विरंचि निपुर् ॥

सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने चलीं। जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो स्त्रियोंके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २ ॥

भागि भवन पैठीं अति त्रासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥
मैना हृदयँ भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥

बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये। मैनाके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ; उन्होंने पार्वतीजीको अपने पास बुला लिया ॥ ३ ॥

अधिक सनेहँ गोद वैठारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥
जेहिं विधितुम्हहिरूपु असदीन्हा । तेहिं जड़ वरु बाउर कस कीन्हा ॥

और अत्यन्त स्नेहसे गोदमें बैठकर अपने नीलकमलके समान नेत्रोंमें आँसू भरकर कहा—जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्खने तुम्हारे दूल्हेको बावला कैसे बनाया? ॥ ४ ॥

छं०—कस कीन्ह वरु वौराह विधि जेहिं तुम्हहि सुन्दरता दई ।
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई ॥
तुम्ह सहित गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं ।
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हौं करौं ॥

जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्पवृक्षमें लगाना चाहिये, वह जबदस्ती बबूलमें लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़से गिर पड़ूंगी, आगमें जल जाऊंगी या समुद्रमें कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाय और संसारभरमें अपकीर्ति फैल जाय, पर जीते-जी मैं इस बावले वरसे तुम्हारा विवाह न करूंगी।

दो०—भईं बिकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि ।

करि विलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ ६६ ॥

हिमाचलकी स्त्री (मैना) को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गयीं। मैना अपनी कन्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं—॥६६॥

कुछ बड़ी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं तब वे भयसे काँपते हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते हैं—॥ ३ ॥

कहिअ काह कहि जाइ न वाता । जम कर धार किधौं बरिआता ॥
वरु वौराह वसहँ असवारा । व्याल कपाल विभूषन छारा ॥

क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह वरात है या यमराजकी सेना? दूल्हा मागल है और बैलपर सवार है। साँप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥

छं०—तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा ।
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥
जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही ।
देखिहि सो उमा विवाहु घर घर वात असिलरिक्न्ह कही ॥

दूल्हेके शरीरपर राख लगी है, साँप और कपालके गहने हैं; वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो वरातको देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पावँतीका विवाह देखेगा। लड़कोंने घर-घर यही बात कही।

दो०—समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं ॥
बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिं ॥ ६५ ॥

महेश्वर (शिवजी) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं उन्होंने बहुत तरहसे लड़कोंको समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥ ६५ ॥

चौ०—लै अगवान वरातहि आए । दिए सवहि जनवास सुहाए ॥
मैनाँ सुभ आरती सँवारी । संग सुमंगल गावहिं नारी ॥

अगवान लोग वरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको दिये। मैना (पावँतीजीकी माता) ने शुभ आरती सजायी और उनके सायकी स्त्रियाँ उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥

कंचन थार सोह वर पानी । परिछन चली हरहि हरपानी ॥
विकट वेष रुद्रहि जब देखा । अवलन्ह उर भय भयउ निषेपा ॥

इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सप्तर्षियोंको साथ लेकर अपने घर गये ॥ ६७ ॥

चौ०—तव नारद सबही समुझावा । पूरुब कथाप्रसंगु सुनावा ॥

मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥

तव नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [और कहा] कि हे मैना ! तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात् जगज्जननी भवानी है ॥ १ ॥

अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥

जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥

ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके अर्द्धाङ्गमें रहती हैं। ये जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं; और अपनी इच्छासे ही लीला-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥

जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई । नामु सती सुंदर तनु पाई ॥

तहँहु सती संकरहि बिवाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥

पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकरजीसे ही व्याही गयी थीं। यह कथा सारे जगत्में प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥

एक वार आवत सिव संग्गा । देखेउ रघुकुल कमल पतंग्गा ॥

भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा ॥

एक वार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [राहमें] रघुकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीको देखो तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका वेष धारण कर लिया ॥ ४ ॥

छं०—सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं ।

हर विरहँ जाइ बहोरि पितु केँ जग्य जोगानल जरीं ॥

अवजनमितुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया ।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥

सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया, उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको

चौ०—नारद कर मैं काह बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥

अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । वौरै बराहि लागि तपु कीन्हा ॥

मैंने नारदका क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पावतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वरके लिये तप किया ॥ १ ॥

साचेहुँ उन्ह केँ मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥

पर घर घालक लाज न भीरा । बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥

सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है; वे सबसे उदासीन हैं। इसीसे वे दूसरेका घर उजाड़नेवाले हैं। उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है। भला, बाँझ स्त्री प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ? ॥ २ ॥

जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु बानी ॥

अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरइ जो रचइ विधाता ॥

माताको विकल देखकर पावतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं—हे माता ! जो विधाता रच देते हैं, वह टलता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३ ॥

करम लिखा जौँ वाउर नाहू । तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥

तुम्ह सनमिटहिं किविधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥

जो मेरे भाग्यमें बावला ही पति लिखा है तो किसीको क्यों दोष लगाया जाय ? हे माता ! क्या विधाताके अङ्क तुमसे मिट सकते हैं ? वृथा कलङ्कका टीका मत लो ॥ ४ ॥

छं०—जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं ।

दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जहँ पाउवतहीं ॥

सुनि उमा वचन विनीतकोमलसकल अबला सोचहीं ।

बहु भाँति विधिहि लगाइ दूषन नयन वारि विमोचहीं ॥

हे माता ! कलङ्क मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विपाद करनेका नहीं है। मेरे भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी, वहीं पाऊँगी ! पावतीजीके ऐसे विनय-भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भाँति-भाँतिसे विधाताको दोष देकर आँखोंसे आँसू बहाने लगीं।

दो०—तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत ।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निवेत्त ॥ ६७ ॥

छं०—गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य वचन सुनावहीं ।
 भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं ॥
 जेवँत जो बढ्यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो ।
 अचवाँइ दीन्है पान गवने बास जहँ जाको रह्यो ॥

सब सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वरमें गालियाँ देने लगीं और व्यंग्यभरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिये भोजन करनेमें बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता। [भोजन कर चुकनेपर] सबके हाथ-मुँह धुलवाकर पान दिये गये। फिर सब लोग, जो जहाँ ठहरे थे; वहाँ चले गये।

दो०—बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आइ ।

समय बिलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ ॥ ६६ ॥

फिर मुनियोंने लौटकर हिमवान्को लगन (लगनपत्रिका) सुनायी और विवाहका समय देखकर देवताओंको बुला भेजा ॥ ६६ ॥

चौ०—बोलि सकल सुर सादर लीन्है । सबहि जथोचित आसन दीन्है ॥

वेदी वेद विधान सँवारी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥

सब देवताओंको आदरसहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये। वेदकी रीतिसे वेदी सजायी गयी और स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मञ्जुलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥

सिंघासनु अति दिव्य सुहावा । जाइ न बरनि विरंचि बनावा ॥

बैठे सिव विप्रन्ह सिरु नाई । हृदयँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥

वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [की सुन्दरता] का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था। ब्राह्मणोंको सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठ गये ॥ २ ॥

बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखीं लै आई ॥

देखत रूपु सकल सुर मोहे । बरनै छवि अस जग कबि को है ॥

फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीको बुलाया। सखियाँ श्रृङ्गार करके उन्हें ले आयीं

याग दिया । फिर शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके यज्ञमें जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म हो गयीं । अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है । ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी प्रिया (अर्द्धङ्गिनी) हैं ।

दो०-सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद ।

छन महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ ६८ ॥

तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार सारे नगरमें घर-घर फैल गया ॥ ६८ ॥

चौ०-तब मयना हिमवंतु अनंदे । पुनि पुनि पारवती पद वंदे ॥

नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने । नगर लोग सब अति हरपाने ॥

तब मैना और हिमवान् आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना की । स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १ ॥

लगे होन पुर मंगलगाना । सजे सवहिं हाटक घट नाना ॥

भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसाख्र जस कछु व्यवहारा ॥

नगरमें मङ्गलगीत गाये जाने लगे और सबने भाँति-भाँतिके सुवर्णके कलश सजाये । पाकशास्त्रमें जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुईं (रसोई बनी) ॥ २ ॥

सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी ॥

सादर बोले सकल वराती । विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥

जिस घरमें स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार (भोजन-सामग्री) का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोंको-विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको बुलवाया ॥ ३ ॥

विविधि पाँति वैठी जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा ॥

नारिद्वंद सुर जेवँत जानी । लगीं देन गारीं मृदु वानी ॥

भोजन [करनेवालों] की बहुत-सी पंगतें बैठीं । चतुर रसोइये परोसने लगे । स्त्रियोंकी मण्डलियाँ देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं ॥ ४ ॥

पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हियँ हरषे तब सकल सुरेसा ॥

वेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥

जब महेश्वर (शिवजी) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया, तब [इन्द्रादि] सब देवता हृदयमें बड़े ही हर्षित हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ ॥

बाजहिं बाजन विविध विधाना । सुमनवृष्टि नम भै विधि नाना ॥

हर गिरिजा कर भयउ विवाहू । सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥

अनेकों प्रकारके बाजे बजने लगे । आकाशसे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई । शिव-पार्वतीका विवाह हो गया । सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३ ॥

दासीं दास तुरग रथ नागा । धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥

अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥

दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोनेके बर्तन गाड़ियोंमें लदवाकर दहेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

छं०—दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो ।

का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥

सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो ।

पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥

बहुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा—हे शंकर ! आप पूर्णकाम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ? [इतना कहकर] वे शिवजीके चरण-कमल पकड़कर रह गये । तब कृपाके सागर शिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान किया । फिर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मैताजीने शिवजीके चरणकमल पकड़ [और कहा—]

दो०—नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी करेहु ।

छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥

हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [प्यारी] है । आप इसे अपने

पार्वतीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये। संसारमें ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ? ॥ ३ ॥

जगदंबिका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥

सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ वदन बखानी ॥

पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही-मन प्रणाम किया। भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं। करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती ॥ ४ ॥

छं०—कोटिहुँ वदन नहीं बने वरनत जग जननि सोभा महा ।

सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥

छविरखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ ।

अवलोकिसकहिं नसकुचपतिपदकमलमनुमधुकरुतहाँ ॥

जगज्जननी पार्वतीजीकी महान् शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं बनता। वेद, शेषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि तुलसी किस गिनतीमें है? सुन्दरता और शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके बीचमें, जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं। वे संकोचके मारे पति (शिवजी) के चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं [रस-मान कर रहा] था।

दो०—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि ।

कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जियँ जानि ॥ १०० ॥

मुनियोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया। मनमें देवताओंको अनादि समझकर कोई इस बातको सुनकर शङ्का न करे [कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं, अभी विवाहसे पूर्व ही वे कहाँसे आ गये] ॥१००॥

चौ०—जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥

गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवाहिसमरपीं जानि भवानी ॥

वेदोंमें विवाहकी जैसी रीति कही गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति करवायी। पर्वतराज हिमाचलने हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी (शिव-पत्नी)-जानकर शिवजीको समर्पण किया ॥ १ ॥

पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये । पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं । तब सखियाँ उन्हें शिवजीके पास ले गयीं । महादेवजी सब याचकोंको संतुष्ट कर पार्वतीके साथ घर (कैलास) को चले । सब देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे और आकाशमें सुन्दर नगाड़े बजाने लगे ।

दो०—चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु ।

विविध भौंति परितोषु करि विदा कीन्ह वृषकेतु ॥ १०२ ॥

तब हिमवान् अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले । वृषकेतु (शिवजी) ने बहुत तरहसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया ॥ १०२ ॥

चौ०—तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोलाई ॥

आदर दान विनय बहुमाना । सब कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥

पर्वतराज हिमाचल तुरत घर आये और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरोंको बुलाया । हिमवान्ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १ ॥

जबहिं संभु कैलासहिं आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥

जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहिं सिंगारु न कहउँ बखानी ॥

जब शिवजी कैलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोंको चले गये । [तुलसीदासजी कहते हैं कि] पार्वतीजी और शिवजी जगतके माता-पिता हैं, इसलिये मैं उनके श्रृङ्गारका वर्णन नहीं करता ॥ २ ॥

करहिं विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥

हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहिविधिबिपुलकालचलिगयऊ ॥

शिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित कैलासपर रहने लगे । वे नित्य नये विहार करते थे । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥

तब जनमेउ षटवदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥

तब छः मुखवाले पुत्र (स्वामिकांतिक) का जन्म हुआ, जिन्होंने [बड़े होनेपर]

घरकी टहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये ॥ १०१ ॥

चौ०—वहु विधिसंभु सासु समुझाई । गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥
जननीं उमा बोलि तव लीन्ही । लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥

शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया । तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं । फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और गोदमें बैठाकर यह सुन्दर सीख दी—॥ १ ॥

करेहु सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु पति देउ न दूजा ॥
वचन कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥

हे पार्वती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म है । उनके लिये पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है । इस प्रकारकी बातें कहते-कहते उनकी आंखोंमें आंसू भर आये और उन्होंने कन्याको छातीसे चिपटा लिया ॥ २ ॥

कत विधि सृजीं नारि जग माहीं । पर जीन सपनेहुँ सुखु नाहीं ॥
भै अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी ॥

[फिर बोलीं कि] विधाताने जगत्में स्त्रीजातिको क्यों पैदा किया ? पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं मिलता । यों कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयीं, परंतु कुसमय जानकर (दुःख करनेका अवसर न जानकर) उन्होंने धीरज धरा ॥ ३ ॥

पुनिपुनिमिलतिपरतिगाहिचरना । परम प्रेमु कछु जाइ न वरना ॥
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥

मेना बार-बार मिलती हैं और [पार्वतीके] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता । भवानी सब स्थियोंसे मिल-भेटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटी ॥ ४ ॥

छं०—जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई ।
फिरिफिरि विलोकति मातु तन तव सखीं लैसि व पहिं गई ॥
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले ।
सब अमर हरषे सुमन वरषि निसान नभ वाजे भले ॥

शिवजीके चरणकमलोंमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्नमें भी बचछे नहीं लगते। विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट (विशुद्ध) प्रेम होना यही रामभक्त का लक्षण है ॥ ३ ॥

सिव सम को रघुपति व्रतधारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥

शिवजीके समान रघुनाथजी [की भक्ति] का व्रत धारण करनेवाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पापके सती-जैसी स्त्रीको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखा दिया। हे भाई! श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कौन प्यारा है? ॥ ४ ॥

दो०—प्रथमहिं मैं कहि सिव चरित बूझा मरमु तुम्हार ।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥

मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ॥ १०४ ॥

चौ०—मैं जाना तुम्हार गुन सीला । कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला ॥

सुनु मुनि आजु समागम तौरें । कहिन जाइ जस सुखु मन मोरें ॥

मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि! सुनो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता ॥ १ ॥

राम चरित अति अमित मुनीसा । कहिन सकहिं सतकोटि अहीसा ॥

तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥

हे मुनीश्वर! रामचरित्र अत्यन्त अपार है। सौ करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणीके स्वामी (प्रेरक) और हाथमें धनुष लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता हूँ ॥ २ ॥

सारद दाह्नारि सम स्वामी । रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥

जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥

मरस्वतोजी कठपुतलीके समान हैं और अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [सूत

युद्धमें तारकासुरको मारा । वेद, शास्त्र और पुराणोंमें स्वामिकांतिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत् उसे जानता है ॥ ४ ॥

छं०—जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा ।

तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेपहि कहा ॥

यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहहि जे गावहीं ।

कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं ॥

पडानन (स्वामिकांतिक) के जन्म, कर्म, प्रताप और महान् पुरुषार्थको सारा जगत् जानता है । इसलिये मैंने वृषकेतु (शिवजी) के पुत्रका चरित्र संक्षेपसे ही कहा है । शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको जो स्त्री-पुरुष कहेंगे और गायेंगे वे कल्याणके कार्यों और विवाहादि मङ्गलोंमें सदा सुख पावेंगे ।

दो०—चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु ।

वरनै तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवौरु ॥ १०३ ॥

गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान (अपार) है, उसका पार बेद भी नहीं पाते । तब अत्यन्त मन्दबुद्धि और गँवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है ॥ १०३ ॥

चौ०—संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥

बहु लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढी ॥

शिवजीके रसीले और सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख पाया । कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी । नेत्रोंमें जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥

प्रेम विवस मुख आव न वानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥

अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥

वे प्रेममें मुग्ध हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [और बोले—] हे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ २ ॥

सिव पदकमल जिन्हहिरतिनाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥

विनु छल विस्वनाथ पद नेहू । राम भगत कर ल एहू ॥

॥ बड़ी लंबी भुजाएँ थीं और वे मुनियोंके-से (वल्कल) वस्त्र धारण किये हुए थे ॥ ३ ॥
 तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगतहृदय तम हरना ॥
 भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छवि हारी ॥

उनके चरण नये (पूर्णरूपसे खिले हुए) लाल कमलके समान थे, नखोंकी ज्योति मत्तोंके हृदयका अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका मुख शरद् (पूर्णिमा) के चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला (फीकी करनेवाला) था ॥ ४ ॥

दो०—जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विसाल ।

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥ १०६ ॥

उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्गाजी [शोभायमान] थीं। कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे। उनका नील कण्ठ था और वे सुन्दरताके भण्डार थे। उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६ ॥

चौ०—बैठे सोह कामरिपु कैसें । धरें सरीरु सांतरसु जैसें ॥

पारवती भल अवसरु जानी । गई संभु पहिं मातु भवानी ॥

कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर धारण किये बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं ॥ १ ॥

जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥

बैठीं सिव समीप हरषाई । पूरुब जन्म कथा चित आई ॥

अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी बायीं ओर बैठनेके लिये आसन दिया। पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयीं। उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ २ ॥

पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥

कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥

स्वामीके हृदयमें [अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी

पकड़कर कठपुतलीको नचानेवाले] सुत्रधार हैं । अपना भक्त जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी आंगनमें सरस्वतीको वे नचाया करते हैं ॥ ३ ॥

प्रनवउँ सोइ कृपालु रघुनाथा । वरनउँ विसद तासु गुन गाथा ॥
परम रम्य गिरिवरु कैलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥

उन्हीं कृपालु श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हींके निमल गुणोंकी कथा कहता हूँ । कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिवृन्द ।

वसहिँ तहाँ सुकृती सकल सेवहिँ सिव सुखकंद ॥ १०५ ॥

सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह उस पर्वतपर रहते हैं । वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०५ ॥

चौ०—हरि हर विमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिँ जाहीं ॥

तेहिँ गिरिपर बट विटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥

जो भगवान् विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते । उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल (छहों ऋतुओं) में सुन्दर रहता है ॥ १ ॥

त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥

एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरुविलोकिउर अतिसुखु भयऊ ॥

वहाँ तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्ध) वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है । वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष है, जिसे वेदोंने गाया है । एक वार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षके नीचे गये और उसे देखकर उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २ ॥

निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिँ संभु कृपाला ॥

कुंद इंद्रु दर गौर सरीरा । भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरां ॥

अपने हाथसे बाघम्बर विछाकर कृपालु शिवजी स्वभावसे ही (बिना किसी घास प्रयोजनके) वहाँ बैठ गये । कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर शरीर

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥

और हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ? या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥

यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? [और यदि ब्रह्म हैं तो] स्त्रीके विरहमें उनकी मति वावली कैसे हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है ॥ १०८ ॥

चौ०—जौं अनीह व्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥

अग्य जानि रिस उर जनि धरहु । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहु ॥

यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ ! मुझे उसे समझाकर कहिये। मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न लाइये। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये ॥ १ ॥

मैं वन दीखि राम प्रभुताई । अति भयविकल न तुम्हहि सुनाई ॥

तदपि मलिन मन बोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥

मैंने [पिछले जन्ममें] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी; परंतु अत्यन्त भयभीत होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं। तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया ॥ २ ॥

अजहँ कछु संसउ मन मोरें । करहु कृपा विनवउँ कर जोरें ॥

प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सोसमुझि करहु जनि क्रोधा ॥

अब भी मेरे मनमें कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभो ! आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था। [फिर भी मेरा संदेह नहीं गया], हे नाथ ! यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ ३ ॥

हँसकर प्रिय वचन बोलीं । [याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि] जो कथा सब लोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं ॥ ३ ॥

विस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥

चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहिं पद पंकज सेवा ॥

[पार्वतीजीने कहा—] हे संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध करनेवाले ! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें विख्यात है । चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु समरथ सर्वग्य सिव सकल कला गुण धाम ।

जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम ॥ १०७ ॥

हे प्रभो ! आप समय, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हैं । सब कलाओं और गुणोंके निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके भण्डार हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है ॥ १०७ ॥

चौ०—जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥

तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥

हे सुखके राशि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी [या अपनी सच्ची दासी] जानते हैं, तो हे प्रभो ! आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ॥ १ ॥

जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥

ससिभूषन अस हृदयँ विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥

जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेंगा ? हे शशिभूषण ! हे नाथ ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर कीजिये ॥ २ ॥

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥

सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुण गाना ॥

हे प्रभो ! जो परमार्थतत्त्व (ब्रह्म) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हैं ॥

वन बसि कीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥

हे नाथ ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावणको मारा, वह कहिये । हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओंको कहिये जो उन्होंने राज्य [सिंहासन] पर बैठकर की थीं ॥ ४ ॥

दो०—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।

प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ ११० ॥

हे कृपाधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया—वै रघुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको गये ? ॥ ११० ॥

चौ०—पुनि प्रभु कहहु सोतत्त्व बखानी । जेहिं विग्यानमगन मुनिग्यानी ॥

भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनिसब बरनहु सहित विभागा ॥

हे प्रभो ! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभाग-सहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

औरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥

जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥

[इसके सिवा] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य (छिपे हुए भाव अथवा चरित्र) हैं, उनको कहिये । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है । हे प्रभो ! जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा ॥ २ ॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना ॥

प्रश्न उमा कै सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥

वेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है । दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें ? पावँतीजीके सहज सुन्दर और छलरहित (सरल) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥

हर हियँ रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ।

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ।

तब कर अस विमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥

कहहु पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूषण सुरनाथा ॥

मुझे अब पहले-जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि है । हे शेषनागको अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओंके नाथ ! आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥ ४ ॥

दो०—बंदउँ पद धरि धरनि सिरु विनय करउँ कर जोरि ।

वरनहुरघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धान्त निचोरि ॥ १०६ ॥

मैं पृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निमंत यश वर्णन कीजिये ॥ १०६ ॥

चौ०—जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥

गूढउ तत्त्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥

यद्यपि स्त्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्मसे आपकी दासी हूँ । संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ तत्त्व भी उससे नहीं छिपाते ॥ १ ॥

अति आरति पूछउँ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥

हे देवताओंके स्वामी ! मैं बहुत ही आर्तभाव (दीनता) से पूछती हूँ, आप मुझपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा कहिये । पहले तो वह कारण विचारकर बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥ २ ॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥

कहहु जथा जानकी विवाहीं । राज तजा सो दूषन काहीं ॥

फिर हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार (जन्म) की कथा कहिये तथा उनका उदार बालचरित्र कहिये । फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, वह कथा कहिये और फिर यह बतलाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे ? ॥ ३ ॥

वन बसि कीन्है चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥
राज बैठि कीन्हौ बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥

हे नाथ ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावणको मारा, वह कहिये । हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओंको कहिये जो उन्होंने राज्य [सिंहासन] पर बैठकर की थीं ॥ ४ ॥

दो०—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।

प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ ११० ॥

हे कृपाधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया—वे रघुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको गये ? ॥ ११० ॥

ची०—पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहिं विग्यानमगन मुनिग्यानी ॥

भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनिसब बरनहु सहित विभागा ॥

हे प्रभो ! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभाग-सहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

औरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥

जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥

[इसके सिवा] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य (छिपे हुए भाव अथवा चरित्र) हैं, उनको कहिये । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है । हे प्रभो ! जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा ॥ २ ॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना ॥

प्रश्न उमा कै सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥

वेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है । दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें ? पार्वतीजीके सहज सुन्दर और छलरहित (सरल) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥

हर हियँ रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥

श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये । प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया । श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥

दो०—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तव हरषित वरनै लीन्ह ॥ १११ ॥

शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस (आनन्द) में डूबे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥

चो०—भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें ॥

जेहि जानें जग जाइ हेराई । जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥

जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्तीमें सांपका भ्रम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ १ ॥

बंदउँ बालरूप सोइ रामू । सबसिधिसुलभजपतजिसुनामू ॥

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर विहारी ॥

मैं-उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं । भङ्गलके धाम, अमुङ्गलके हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आंगनमें खेलनेवाले (बालरूप) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २ ॥

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी ॥

त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमें भरकर अमृतके समान वाणी बोले—हे गिरिराजकुमारी पावती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३ ॥

पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ॥

जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके समान है । तुमने जगत्के कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं । तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥

दो०—राम कृपा तें पारवति सपनेहुँ तव मन माहिं ।

सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं ॥ ११२ ॥

हे पार्वती ! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥

चौ०—तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥

जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहिभवन समाना ॥

फिर भी तुमने इसीलिये वही (पुरानी) शङ्का की है कि इस प्रसङ्गके कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा । जिन्होंने अपने कानोंसे भगवान्की कथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके विलके समान हैं ॥ १ ॥

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥

ते सिर कटु तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥

जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर दीखने-वाली नकली आँखोंकी गिनतीमें हैं । वे सिर कड़वी तुंबरीके समान हैं, जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥ २ ॥

जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सब समान तेइ प्राणी ॥

जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥

जिन्होंने भगवान्की भक्तिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्देके समान हैं । जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान है ॥ ३ ॥

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥

गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुर हित दनुज विमोहनसीला ॥

वह हृदय वज्रके समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान्के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता । हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, यह देवताओंका कल्याण करनेवाली और दैत्योंको विशेषरूपसे मोहित करनेवाली है ॥ ४ ॥

दो०—रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि ।

सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥ ११३ ॥

श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया। श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥

दो०—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तव हरषित वरनै लीन्ह ॥ १११ ॥

शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस (आनन्द) में डूबे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥

चौ०—भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें ॥

जेहि जानें जग जाइ हेराई । जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥

जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्तीमें सांपका भ्रम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ १ ॥

बंदउँ बालरूप सोइ रामू । सबसिधिसुलभजपतजिसुनामू ॥

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥

मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मङ्गलके घाम, अमङ्गलके हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आंगनमें खेलनेवाले (बालरूप) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २ ॥

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥

त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमें भरकर अमृतके समान वाणी बोले—हे गिरिराजकुमारी पावती! तुम धन्य हो! धन्य हो!! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३ ॥

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हहु प्रसन्न जगत हित लागी ॥

जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके समान है। तुमने जगत्के कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥

अग्य अकोविद अंध अभागी । कई विषय मुकुर मन लागी ॥
लंपट कपटी कुटिल विसेषी । सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी ॥

जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूपी
ई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्नमें
संत-समाजके दर्शन नहीं किये ॥ १ ॥

कहहिं ते वेद असंमत बानी । जिन्ह केँ सूझ लाभु नहिं हानी ॥
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥

और जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहा करते
हैं। जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन हैं, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका
रूप कैसे देखें ! ॥ २ ॥

जिन्ह केँ अगुन न सगुन विवेका । जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटितनाहीं ॥

जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बक
करते हैं, जो श्रीहरिकी मायाके वशमें होकर जगत्में (जन्म-मृत्युके चक्रमें) भ्रम
फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है ॥ ३ ॥

बातुल भूत विवस मतवारे । ते नहिं बोलहिं वचन विचारे
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना

जिन्हें वायुका रोग (सन्निपात, उन्माद आदि) हो गया हो, जो भूतके वश
गये हैं और जो नशमें चूर हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते । जिन्होंने महामोह
मदिरा पी रक्खी है, उनके कहनेपर कान न देना चाहिये ॥ ४ ॥

सो०—अस निज हृदयँ विचारि तजु संसय भजु राम पद ।
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रवि कर वचन प्रम ॥ १११ ॥

अपने हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके
भजो । हे पावती ! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके स
वचनोंको सुनो ! ॥ ११५ ॥

सो०—सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन स

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाली है और सत्पुरुषोंके समाज ही सब देवताओंके लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ! ॥११३॥

चौ०—रामकथा सुंदर कर तारी । संसय विहग उड़ावनिहारी ॥

रामकथा कलि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है, जो संदेहरूपी पक्षियोंको उड़ा देती है । फिर रामकथा कलियुगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाड़ी है । हे गिरिराजकुमारी ! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो ॥ १ ॥

राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुतिगाए ॥

जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥

वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं । जिस प्रकार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं ॥ २ ॥

तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥

उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥

तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसीके अनुसार मैं कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वामाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसंमत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ॥ ३ ॥

एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोह वस कहेहु भवानी ॥

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुतिगावधरहिं मुनिध्याना ॥

परंतु हे पार्वती ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है । तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं—॥ ४ ॥

दो०—कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच ।

पाषंडी हरि पद विमुख जानहिं भूठ न साच ॥ ११४ ॥

जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त है, पाषण्डी है, भगवान्के चरणोंसे विमुख है और जो झूठ-सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते हैं ॥

अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर उमका आरोप करते हैं। जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी (अज्ञानी) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूर्यको ढक लिया ॥ १ ॥

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥

उमा राम विषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥

जो मनुष्य आँखमें उँगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट (प्रत्यक्ष) हैं। हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाशमें अन्धकार, धूँएँ और धूलका सोहना (दीखना) । [आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं] ॥ २ ॥

विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥

सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥

विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा—ये सब एककी सहायतासे एक चेतन होते हैं। (अर्थात् विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है।) इन सबका जो परम प्रकाशक है (अर्थात् जिससे इन सबका प्रकाश होता है), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३ ॥

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥

जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

यह जगत् प्रकाश्य है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं। वे मायाके स्वामी और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं। जिनकी सत्तासे मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित होती है, ॥ ४ ॥

दो०—रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर वारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥ ११७ ॥

जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [बिना हृए भी] प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालोंमें झूठ है तथापि इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७ ॥

सगुण और निर्गुणमें कुछ भी भेद नहीं है—मुनि, पुराण, पण्डित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप (निराकार), अलख (अव्यक्त) और अजन्मा है, वही भक्तोंके प्रेमवश सगुण हो जाता है ॥ १ ॥

जो गुण रहित सगुण सोइ कैसें । जलुहिम उपल विलगनहिं जैसें ॥

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा ॥

जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है ? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं । (दोनों ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं ।) जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकारके मिलनेके लिये सूर्य है, उसके लिये मोहका प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है ? ॥ २ ॥

राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा ॥

सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि विग्यान विहाना ॥

श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्य हैं । वहाँ मोहरूपी रात्रिका लवलेश भी नहीं है । वे स्वभावसे ही प्रकाशरूप और [पडंश्वर्ययुक्त] भगवान् हैं; वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता (अज्ञानरूपी रात्रि ही तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो, भगवान् तो नित्य ज्ञानस्वरूप हैं) ॥ ३ ॥

हरप विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥

हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान—ये सब जीवके धर्म हैं । श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हैं । इस बातको सारा जगत् जानता है ॥ ४ ॥

दो०—पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ ।

रघुकुलमनि मम स्वामी सोइ कहि सिवँ नायउ माथ ॥ ११६ ॥

जो [पुराण] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब रूपोंमें प्रकट हैं, जीव, माया और जगत् सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी भरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६ ॥

चौ०—निज भ्रम नहिं समुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी ॥

जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानुकहिं कुविचारी ॥

[हे पार्वती !] जिनके नामके बलसे काशीमें मरते हुए प्राणीको देखकर मैं उसे [राममन्त्र देकर] शोकरहित कर देता हूँ (मुक्त कर देता हूँ), वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड़-चेतनके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥

धिवसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥
खादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥

शिवजीको (विना इच्छाके) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंमें किये हुए पाप जल जाते हैं । फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसाररुधी [दुस्तर] समुद्रको गायके खुरसे बने हुए गड्ढेके समान (अर्थात् विना किसी परिश्रमके) पार कर जाते हैं ॥ २ ॥

राम सौ परमात्मा भवानी । तहँ भ्रम अतिअबिहिततववानी ॥
अस संसय आनत उर नाहीं । ग्यान विराग सकल गुन जाहीं ॥

हे पार्वती ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं । उनमें भ्रम [देखनेमें आता] है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है । इस प्रकारका संदेह मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

सुनि सिद्ध के भ्रम भंजन वचना । सिद्धि गै सब कुतश्क कै रचना ॥
भइ श्छुपति पद प्रीति प्रतीति । दाखन असंभावना वीति ॥

शिवजीके भ्रमनाशक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतर्कोंकी रचना मिट गयी । श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना (जिनका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना) जाती रही ॥ ४ ॥

दो०—पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि ।
बोलीं गिरिजा वचन वर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥ ११६ ॥

बार-बार स्वामी (शिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हाथोंको जोड़कर पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११६ ॥

चो०—ससिकर समसुनिगिरातुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥

आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद-

१०—एहि विधि जगहरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥

जों सपनें सिर काटै कोई । विनु जागे न दूरि दुख होई ॥

इसी तरह यह संसार भगवान्‌के आश्रित रहता है। यद्यपि यह करता है, तो भी दुख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई तिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर ही होता ॥ १ ॥

जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥

मादि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानिनिगम अस गावा ॥

हे पावन्ती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं। जिनका आदि और अन्त किसीने नहीं [जान] पाया। वेदोंने अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (नीचे लिखे अनुसार) गाया है—॥ २ ॥

वेनु पद चलइ सुनइ विनु काना । कर विनु करम करइ विधि नाना ॥

प्राणन रहित सकल रस भोगी । विनु वानी वक्ता वड़ जोगी ॥

वह (ब्रह्म) बिना ही पैरके चलता है, बिना ही कानके सुनता है, बिना ही हाथके नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह (जिह्वा) के ही सारे (छहों) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥

नन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहइ प्राण विनु वास असेपा ॥

असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥

वह बिना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखोंके देखता है और बिना ही नाकके सब गन्धोंको ग्रहण करता है (सूँघता है)। उस ब्रह्मकी करनी तमी प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती ॥ ४ ॥

दो०—जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान ।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥

जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथनन्दन, भवतोंके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ११८ ॥

चौ०—कासीं मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करउँ विसोकी ॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतरजामी ॥

हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मङ्गलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डिने प्रस्तावसे कहा और पक्षियोंके राजा गरुड़जीने सुना था ॥ १२० (ख) ॥

सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहव ।

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥

वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा । अभी तुम श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका परम सुन्दर और पवित्र (पापनाशक) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग) ॥

हरि गुन नाम अपार कथारूप अगणित अमित ।

मैं निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥

श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं । फिर भी हे पार्वती ! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ) ॥

सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ॥

हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥

हे पार्वती ! सुनो, वेद-शास्त्रोंने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मल चरित्रोंका गान किया है । हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण 'वस यही है' ऐसा नहीं कहा जा सकता (अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता) ॥ १ ॥

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥

तदपि संत मुनि वेद पुराना । जसकळु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥

हे सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की जा सकती । तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, ॥ २ ॥

तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥

जब जब होइ धरम कै हानी । वाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥

और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुमुखि ! वही कारण मैं तुमको सुना रहा हूँ, जब-जब धर्मका हास होता है और नीच-अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं ॥ ३ ॥

तु (गवार) की धूपका भारी ताप मिट गया । हे कृपालु ! आपने मेरा सब संदिग्ध हर
या, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप मेरी समझमें आ गया ॥ १ ॥

नाथ कृपाँ अब गयउ विषादा । सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥

अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपिसहज जड़ नारि अयानी ॥

हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके अनुग्रहसे
सुखी हो गयी । यद्यपि मैं स्त्री होनेके कारण स्वभावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी
अब आप मुझे अपनी दासी जानकर—॥ २ ॥

नाथ जो मैं पृछा सोइ कहहू । जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥

अब ब्रह्म चिनमय अविनासी । सर्व रहित सब उर पुर वासी ॥

हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी,
ही कहिये । [यह सत्य है कि] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय (ज्ञानस्वरूप) हैं,
विनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृपकेतू ॥

अब वचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥

फिर हे नाथ ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मकी
राजा धारण करनेवाले प्रभो ! यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्र वचन
सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें उनका विशुद्ध प्रेम देखकर—॥ ४ ॥

सो०—हियँ हरषे कामारि तव संकर सहज सुजान ।

बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥

तब कामदेवके शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मतमें बहुत ही
क्षिप्त हुए और बहुत प्रकारसे पार्वतीकी बढ़ाई करके फिर बोले—॥ १२० (क) ॥

नवाह्नपारायण, पहला विश्राम

मासपारायण, चौथा विश्राम

सो०—सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।

कहा भुसुंदि वखानि सुना विहग नायक गरुड़ ॥१२०(ख)॥

बिजई समर वीर विख्याता । धरि बराह बपु एक निपाता ॥

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा ॥

वे युद्धमें विजय पानेवाले विख्यात वीर थे। इनमेंसे एक (हिरण्याक्ष) को भगवान् ने बराह (सूअर) का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरण्यकशिपु) का नरसिंहरूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रह्लादका सुन्दर यश फैलाया ॥ ४ ॥

दो०—भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान ।

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२ ॥

वे ही [दोनों] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और कुम्भकर्ण नामक बड़े बलवान् और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत् जानता है ॥ १२२ ॥

चो०—मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥

एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥

भगवान् के द्वारा मारे जानेपर भी वे (हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु) इसीलिये मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणके वचन (शाय) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था। अतः एक वार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवान् ने फिर अवतार लिया ॥ १ ॥

कश्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥

एक कल्प एहि त्रिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥

वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्याके नामसे प्रसिद्ध थे। एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें पवित्र लीलाएँ कीं ॥ २ ॥

एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे ॥

संभु कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महाबल मरइ न मारा ॥

एक कल्पमें सब देवताओंको जलन्धर दैत्यसे युद्धमें हार जानेके कारण दुखी देखकर शिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥

परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥

उस दैत्यराजकी स्त्री परम सती (बड़ी ही पतिव्रता) थी। उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [जैसे अजेय शत्रु] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥

करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे कृपानिधान प्रभु भाति-भातिके [दिव्य] शरीर धारण कर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ४ ॥

दो०—असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु ।

जग विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ १२१ ॥

वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [श्वासरूप] वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं और जगत्में अपना निर्मल यश फैलाते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है ॥ १२१ ॥

चौ०—सोइजस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हिततनु धरहीं ॥

राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तैं एका ॥

उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं । कृपासागर भगवान् भक्तोंके हितके लिये शरीर धारण करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण हैं, जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १ ॥

जनम एक दुइ कहउँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥

द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥

हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! मैं उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो । श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २ ॥

विप्र श्राप तैं दूनउ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥

कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगतविदितसुरपति मद मोचन ॥

उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण (सनकादि) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया । एकका नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गवोंको छुड़ानेवाले सारे जगत्में प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥

—कहँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु ।
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४(ख)॥

[याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज ! मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा
ता हूँ, तुम आदरसे सुनो । तुलसीदासजी कहते हैं—मात और मदको छोड़कर आवा-
नका नाश करनेवाले श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १२४ (ख) ॥

०—हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥

हिमालय पर्वतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी । उसके समीप ही सुन्दर गङ्गाजी बहती
थी । वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना लगा ॥१॥

निरखि सैल सरि विपिनविभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा ॥
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥

पर्वत, नदी और वनके [सुन्दर] विभागोंको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त
भगवान्के चरणोंमें प्रेम हो गया । भगवान्का स्मरण करते ही उन (नारद मुनि) के
शापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थानपर
नहीं ठहर सकते थे) गति रुक गयी और मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे उनकी
समाधि लग गयी ॥ २ ॥

मुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि हियँ जलचरकेतू

नारद मुनिकी [यह तपोमयी] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया ।
कामदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [और कहा कि] मेरे [हितके]
तुम अपने सहायकोंसहित [नारदकी समाधि भङ्ग करनेको] जाओ । [यह सुन
गोनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला ॥ ३ ॥

सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बार
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डेर

इन्द्रके मनमें यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी (अमरावती) का
(राज्य) चाहते हैं । जगत्में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौएकी त
रते हैं ॥ ४ ॥

दो०—छल करि टारैउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । . . .

जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥

प्रभुने छलसे उस स्त्रीका व्रत भङ्ग कर देवताओंका काम किया। जब उस स्त्रीने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान्को शाप दिया ॥ १२३ ॥

चौ०—तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥

तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ ॥

लीलाओंके भण्डार कृपालु हरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया (स्वीकार किया)। वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर परमपद दिया ॥ १ ॥

एक जनम कर कारन एहा । जेहि लागि राम धरी नरदेहा ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी कविन्ह घनेरी ॥

एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे वर्णन किया है ॥ २ ॥

नारद श्राप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लागि अवतारा ॥

गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विष्णुभगत पुनि ग्यानी ॥

एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ। यह बात सुनकर पावतीजी बड़ी चकित हुई [और बोलीं कि] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥

मुनिने भगवान्को शाप किस कारणसे दिया? लक्ष्मीपति भगवान्ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारि (शंकरजी)! यह क्या मुझसे कहिये। मुनि नारदके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ४ ॥

दो०—बोले विहसि महेस तव ग्यानी मूढ़ न कोइ ।

जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १२४ (क) ॥

तब महादेवजीने हँसकर कहा—न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। जय जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है ॥ १२४ (क) ॥

तव अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आतं (दीन) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥

चौ०—भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रियवचन काम परितोषा ॥

नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तव सहित सहाई ॥

नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया । तव मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसहित लौट गया ॥ १ ॥

मुनि सुशीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब वरनी ॥

मुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥

द्वंद्वराज इन्द्रकी समामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया ॥ २ ॥

तव नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥

मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥

तव नारदजी शिवजीके पास गये । उनके मनमें इस बातका अहंकार हो गया कि अपने कामदेवको जीत लिया । उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन (नारदजी) को अत्यन्त प्रिय जानकर [इस प्रकार] शिक्षा दी—॥ ३ ॥

वार वार विनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥

तिमि जानि हरिहि सुनावहु कवहूँ । चलेहूँ प्रसंग दुराएहु तवहूँ ॥

हे मुनि ! मैं तुमसे वार-वार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है, उस तरह भगवान् श्रीहरिको कभी मत सुनाना । चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना ॥ ४ ॥

दो०—संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान ।

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७ ॥

यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! अब कौतुक (तमाशा) सुनो । हरिकी इच्छा बड़ी बलवान् है ॥ १२७ ॥

दो०—सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनि जानजड़ तिमिसुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥

जैसे मूख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूख यह समझे कि कहीं उस हड्डीको सिंह छीन न ले, वैसे ही इन्द्रको [नारदजी भेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते] लाज नहीं आयी ॥ १२५ ॥

चौ०—तेहि आश्रमहिं मदनजव गयऊ । निज मायाँ वसंत निरमयऊ ॥

कुसुमित विविध विटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिलगुंजहिं भृंगा ॥

जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त ऋतुको उत्पन्न किया । तरह-तरहके वृक्षोंपर रंग-विरंगे फूल खिल गये; उनपर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे ॥ १ ॥

चली सुहावनि त्रिविध वयारी । काम कृसानु बढावनिहारी ॥

रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥

कामाग्निको भड़कानेवाली तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्ध) सुहावनी हवा चलने लगी । रम्भा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएँ, जो सबकी-सब कामकलामें निपुण थीं, ॥ २ ॥

करहिं गान बहु तान तरंगा । बहुविधि कीड़हिं पानि पतंगा ॥

देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच त्रिविधि नाना ॥

वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरङ्गके साथ गाने लगीं और हाथमें गैद लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने लगीं । कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये ॥ ३ ॥

काम कला कछु मुनिहि न व्यापी । निज भयँ डरेउ मनोभव पापी ॥

सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥

परन्तु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी । तब तो पापी कामदेव अपने ही [नाशके] भयसे डर गया । लक्ष्मीपति भगवान् जिसके बड़े रक्षक हों, भला, उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई दबा सकता है ! ॥ ४ ॥

दो०—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन ।

गहेसि जाइ मुनि चरन तव कहि सुठि आरत वैन ॥ १२६ ॥

तव अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आतं (दीन) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥

चौ०—भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तव सहित सहाई ॥

नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया । तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसहित लौट गया ॥ १ ॥

मुनि सुशीलता आपनि करनी । सुरपति सभौ जाइ सब बरनी ॥
सुनि सब केँ मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥

देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया ॥ २ ॥

तव नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥
मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥

तब नारदजी शिवजीके पास गये । उनके मनमें इस बातका अहंकार हो गया कि हमने कामदेवको जीत लिया । उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन (नारदजी) को अत्यन्त प्रिय जानकर [इस प्रकार] शिक्षा दी—॥ ३ ॥

वार वार विनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ । चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ ॥

हे मुनि ! मैं तुमसे वार-वार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है, उस तरह भगवान् श्रीहरिको कभी मत सुनाना । चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना ॥ ४ ॥

दो०—संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान ।

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७ ॥

यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! अब कौतुक (तमाशा) सुनो । हरिकी इच्छा बड़ी बलवान् है ॥ १२७ ॥

चौ०—राम कीन्ह चाहिँ सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिँ कोई ॥

संभु वचन मुनि मन नहिँ भाए । तव विरंचि के लोक सिधाए ॥

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँसे ब्रह्मलोकको चल दिये ॥ १ ॥

एक बार करतल वर वीना । गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥

छीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥

एक बार गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप (मूर्तिमान् वेदागततत्व) लक्ष्मीनिवास भगवान् नारायण रहते हैं ॥ २ ॥

हरपि मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिषिहि समेता ॥

बोले विहसि चराचर राया । बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥

रमानिवास भगवान् उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि (नारदजी) के साथ आसनपर बैठ गये। चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—हे मुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की ॥ ३ ॥

काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम वरजि सिवँ राखे ॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥

यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज रक्खा था; तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र भगवान्को कह सुनाया। श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रबल है। जगत्में ऐसा कौन जन्मा है, जिसे वह मोहित न कर दे ॥ ४ ॥

दो०—रुख वदन करि वचन मृदु बोले श्रीभगवान ।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिँ मोह मार मद मान ॥ १२८ ॥

भगवान् रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले—हे मुनिराज ! आपका स्मरण करनेसे दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं [फिर आपके निये तो कहना ही क्या है !] ॥ १२८ ॥

चौ०—सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ग्यान विराग हृदय नहिँ जाकें ॥

ब्रह्मचरज व्रत रत मतिधीरा । तुम्हहिँ कि करइ मनोर ॥

हे मुनि! सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है, जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं । आप तो ब्रह्मचर्यव्रतमें तत्पर और बड़े धीरवृद्धि हैं । भला, कहीं आपको भी कामदेव ता सकता है ? ॥ १ ॥

नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥

रुनानिधि मन दीख विचारी । उर अंकुरेउ गरब तरु भारी ॥

नारदजीने अभिमानके साथ कहा—भगवन् ! यह सब आपकी कृपा है । करुणा-धान भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके मनमें गर्वके भारी वृक्षका अङ्कुर पैदा हो गया है ॥ २ ॥

गि सो मैं डारिहउँ उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥

मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा प्रण है । मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा, जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३ ॥

तब नारद हरि पद सिर नाई । चले हृदयँ अहमिति अधिकाई ॥

श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥

तब नारदजी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले । उनके हृदयमें अभिमान और भी बढ़ गया । तब लक्ष्मीपति भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ ॥

दो०—विरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार ।

श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२६ ॥

उस (हरिमाया) ने रास्तेमें सौ योजन (चार सौ कोस) का एक नगर रचा । उस नगरकी भ्रांति-भ्रांतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान् विष्णुके नगर (वैकुण्ठ) से भी अधिक सुन्दर थीं ॥ १२६ ॥

दो०—वसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥

तेहिं पुर वसइ सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥

उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी वसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और [उसकी

ची०—राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई ॥

संभु वचन मुनि मन नहिं भाए । तव विरंचि के लोक सिधाए ॥

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँसे ब्रह्मलोकको चल दिये ॥ १ ॥

एक वार करतल वर बीना । गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥

धीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥

एक वार गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप (मूर्तिमान् वेदान्ततत्व) लक्ष्मीनिवास भगवान् नारायण रहते हैं ॥ २ ॥

हरषि मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिषिहि समेता ॥

बोले विहसि चराचर राया । बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥

रमानिवास भगवान् उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि (नारदजी) के साथ आसनपर बैठ गये। चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—हे मुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की ॥ ३ ॥

काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम वरजि सिवँ राखे ॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥

यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज रक्खा था; तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र भगवान्को कह सुनाया। श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रबल है। जगत्में ऐसा कौन जन्मा है, जिसे वह मोहित न कर दे ॥ ४ ॥

दो०—रूख वटन करि वचन मृदु बोले श्रीभगवान ।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥ १२८ ॥

भगवान् रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले—हे मुनिराज ! आपका स्मरण करनेसे दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं [फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है !] ॥ १२८ ॥

ची०—सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें ॥

ब्रह्मचरज व्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव ॥

जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ।
सेवहिं सकल चराचर ताही । बरइ शीलनिधि कन्या जाही ॥

[लक्षणोंको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि] जो इसे व्याहेगा, वह अमर हो जायेगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा । यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥ २ ॥

लच्छन सब विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥

सब लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख लिया और राजासे कुछ अपनी ओरसे बनाकर कह दिये । राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये । पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि— ॥ ३ ॥

करौं जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥
जप तप कछु न होइ तेहि काला । हे विधि मिलइ कवन विधि बाला ॥

मैं जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ, जिससे यह कन्या मुझे ही वरे । इस समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता । हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी ? ॥ ४ ॥

दो०—एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप विसाल ।

जो बिलोकि शीभै कुअँरि तब मेलै जयमाल ॥ १३१ ॥

इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल (सुन्दर) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी मुझपर रीझ जाय और तब जयमाल [मेरे गलेमें] डाल दे ॥ १३१ ॥

चौ०—हरि सन मागौं सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥

मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥

[एक काम करूँ कि] भगवान्से सुन्दरता माँगूँ, पर भाई ! उनके पास जानेमें तो बहुत देर हो जायगी । किंतु श्रीहरिके समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ ॥

वहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिउँ हरषाने ॥

स्त्री] रति ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हैं । उस नगरमें शीलनिधि नामका राजा रहता था; जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाके समूह (टुकड़ियाँ) थे ॥ १ ॥

सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥
विस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निहारी ॥

उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोंके समान था । वह रूप, तेज, बल और नीतिका धर था । उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ऐसी रूपवती] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मण भी मोहित हो जायें ॥ २ ॥

सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥
करइ स्वयंवर सो नृपवाला । आए तहँ अगणित महिपाला ॥

वह सब गुणोंकी खान भगवान्की माया ही थी । उसकी शोभाका वर्णन कैसे किया जा सकता है । वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आये हुए थे ॥ ३ ॥

मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥
सुनि सब चरित भूपगृहँ आए । करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥

खिलवाड़ी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरवासियोंसे उन्होंने सब हाल पूछा । सब समाचार सुनकर वे राजाके महलमें आये । राजाने पूजा करके मुनिको [आसन-पर] बैठाया ॥ ४ ॥

दो०—आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि ।

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदयँ विचारि ॥१३०॥

[फिर] राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया [और पूछा कि—] हे नाथ ! आप अपने हृदयमें विचारकर इसके सब गुण-दोष कहिये ॥ १३० ॥

चौ०—देखि रूप मुनि विरति विसारी । बड़ी वार लागि रहे निहारी ॥

लच्छन तासु विलोकि भुलाने । हृदयँ हरष नहिं प्रगट बखाने ॥

उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये । उसके लक्षण देखकर मुनि अपने-आपको भी भूल गये और हृदयमें हर्षित पर प्रकटरूपमें उन लक्षणोंको नहीं कहा ॥ १ ॥

निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥
मुनि मन हरष रूप अति मोरें । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें ॥

राजालोग खूब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बैठे थे । मुनि (नारद) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कन्य भूलकर भी दूसरेको न वरेगी ॥ ३ ॥

मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥

कृपानिधान भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका । सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥

दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ ।

विप्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥ १३३ ॥

वहाँ दो शिवजीके गण भी थे । वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे । वे भी बड़े मौजी थे ॥ १३३ ॥

चौ०—जेहिं समाज बैठे मुनि जाई । हृदयँ रूप अहमिति अधिकाई ॥

तहँ बैठे महेस गन दोऊ । विप्रवेष गति लखइ न कोऊ ॥

नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज (पंक्ति) में जाकर बैठे थे, ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बैठ गये । ब्राह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न जान सका ॥ १ ॥

करहिं कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥

रीझिहि राजकुअँरि छवि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि विसेषी ॥

वे नारदजीको सुना-सुनाकर, व्यङ्ग्य वचन कहते थे—भगवान्ने इनको अच्छी 'सुन्दरता' दी है । इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और 'हरि' (वानर) जानकर इन्हींको खास तौरसे वरेगी ॥ २ ॥

मुनिहि मोह मन हाथ पराँँ । हँसहिं संभु गन अति सचु पाँँ ॥

जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी ॥

उस समय नारदजीने भगवान्की बहुत प्रकारसे विनती की । तब लीलामय कृपालु प्रभु [वही] प्रकट हो गये । स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और बे मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा ॥ २ ॥

अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहिँ पावौं ओही ॥

नारदजीने बहुत आर्त (दीन) होकर सब कथा कह सुनायी [और प्रार्थना की कि] कृपा कीजिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये । हे प्रभो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये और किसी प्रकार मैं उस (राजकन्या) को नहीं पा सकता ॥ ३ ॥

जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥
निज माया बल देखि विसाला । हियँ हँसि बोले दीनदयाला ॥

हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिये । मैं आपका दास हूँ । अपनी मायाका विशाल बल देख दीनदयालु भगवान् मन-ही-मन हँसकर बोले— ॥ ४ ॥

दो०—जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार ।

सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृषा हमार ॥१३२॥

हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं । हमारा वचन असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥

चौ०—कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥

एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥

हे योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है । ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ॥१॥

माया विवस भए मुनि मूढ़ा । समुझी नहिँ हरि गिरा निगूढ़ा ॥

गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई ॥

[भगवान्की] मायाके बशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवान्की अगूढ़ (स्पष्ट) वाणीको भी न समझ सके । ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी भूमि बनायी गयी थी ॥ २ ॥

बहुत ही विकल हो गये। मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो। तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कहा—जाकर दर्पणमें अपना मुँह तो देखिये ! ॥ ३ ॥

अस कहि दोउ भागे भयँ भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥
वेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥

ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनिने जलमें झाँककर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया—॥ ४ ॥

दो०—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ ।

हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥ १३५ ॥

तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हँसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५ ॥

चौ०—पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदयँ संतोष न आवा ॥

फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥

मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना (असली) रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मनमें क्रोध [भरा] था; तुरंत ही वे भगवान् कमलापतिके पास चले ॥ १ ॥

देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥

[मनमें सोचते जाते थे—] जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत्में मेरी हँसी करायी। दैत्योंके शत्रु भगवान् हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये। सायमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥ २ ॥

बोले मधुर वचन सुरसाई । मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥

सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥

देवताओंके स्वामी भगवान्ने मीठी वाणीमें कहा—हे मुनि ! व्याकुलकी तरह कहाँ चले ? ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया। मायाके वशीभूत होनेके कारण मनमें चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥

नारदमुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ (मायाके वश) में था । शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे । यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रममें सनी हुई होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं (उनकी बातोंको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे) ॥ ३ ॥

काहुँ न लखा सो चरित विसेषा । सो सरूप नृपकन्याँ देखा ॥
मर्कट वदन भयंकर देही । देखत हृदयँ क्रोध भा तेही ॥

इस विशेष चरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [नारदजीका] वह रूप देखा । उनका बंदरका-सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥

दो०—सखीं संग लै कुअँरि तव चलि जनु राजमराल ।

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥

तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है । वह अपने कमल-जैसे हाथोंमें जयमाला लिये सब राजाओंको देखती हुई धूमने लगी ॥ १३४ ॥

चौ०—जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सोदिसितेहिं नविलोकी भूली ॥

पुनिपुनिमुनिउकसहिं अकुलार्हीं । देखिदसा हरगन मुसुकार्हीं ॥

जिस ओर नारदजी [रूपके गर्वमें] फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका । नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं । उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुसकराते हैं ॥ १ ॥

धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुअँरि हरषि मेलेउ जयमाला ॥

दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥

कृपालु भगवान् भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे । राजकुमारीने हर्षित होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी । लक्ष्मीनिवास भगवान् दुलहिनको ले गये । सारी राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २ ॥

मुनि अति विकल मोहँ मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥

तव हर गन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोकहु जाई ॥

मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [राजकुमारीको]

तुमने हमारा रूप बंदरका-सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। [मैं जिस स्त्रीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर] तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुखी होगे ॥ ४ ॥

दो०—श्राप सीस धरि हरषि हियँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि ।

निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥ १३७ ॥

शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत बिनती की और कृपानिधान भगवान्ने अपनी मायाकी प्रबलता खींच ली ॥ १३७ ॥

ची०—जब हरि माया दूरि निवारी । नहिँतहँ रमा न राजकुमारी ॥

तवमुनिअतिसभीत हरिचरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥

जब भगवान्ने अपनी मायाको हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयीं न राजकुमारी ही। तब मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये और कहा—हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥

मृषा होउ मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥

मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटिहिँ किमि मेरे ॥

हे कृपालु ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय। तब दीनोंपर दया करनेवाले भगवान्ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा [से हुआ] है। मुनिने कहा—मैंने आपको अनेक छोटे वचन कहे हैं। मेरे पाप कैसे मिटेंगे ॥ २ ॥

जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदयँ तुरत विश्रामा ॥

कोउ नहिँ सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥

[भगवान्ने कहा—] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो, इससे हृदयमें तुरंत शान्ति होगी। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना ॥ ३ ॥

जेहि पर कृपा न करहिँ पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥

अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न तुम्हहि माया निअराई ॥

हे मुनि ! पुरारि (शिवजी) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदयमें ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वीपर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ ॥

पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी ॥
मथत सिंधु रुद्रहि वौरायहु । सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु ॥

[मुनिने कहा—] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे इर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावला बना दिया और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४ ॥

दो०—असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारु ।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु ॥ १३६ ॥

असुरोंको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुन्दर [कौस्तुभ] मणि ले ली। तुम बड़े धोखेवाज और मतलबी हो। सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥ १३६ ॥

चौ०—परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई ॥

भलेहि मंद मंदैहि भल करहु । बिसमय हरष न हियँ कछु धरहु ॥

तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मनको भाता है, [स्वच्छन्दतासे] वही करते हो। भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो। हृदयमें हर्ष-विपाद कुछ भी नहीं लाते ॥ १ ॥

डहकि डहकि परिचेहु सब काहु । अति असंक मन सदा उछाहु ॥

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । अब लागि तुम्हहि न काहुँ साधा ॥

सबको ठग-झाकर परक गये हो और अत्यन्त निष्ठुर हो गये हो; इसीसे [ठगनेके काममें] मनमें सदा उत्साह रहता है। शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २ ॥

भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥

बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥

अबकी तुमने अच्छे घर बना दिया है (मेरे-जैसे जबदस्त आदमीसे छेड़खानी की है)। अतः अपने कियेका फल अवश्य पाओगे। जिस शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है ॥ ३ ॥

कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरहँ तुम्ह होव दुख

देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोंको सुख देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवान्ने एक कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था ॥ १३६ ॥

ची०—एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे ॥

कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानाविधि करहीं ॥

इस प्रकार भगवान्के अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्पमें जब-जब भगवान् अवतार लेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं; ॥ १ ॥

तव तव कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥

विविध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥

तब-तब मुनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया है और भाँति-भाँतिके अनुपम प्रसङ्गोंका वर्णन किया है; जिनको सुनकर समझदार (विवेकी) लोग आश्चर्य नहीं करते ॥ २ ॥

हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनिहिं बहुविधि सब संता ॥

रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लगि जाहिं न गाए ॥

श्रीहरि अनन्त हैं (उनका कोई पार नहीं पा सकता) और उनकी कथा भी अनन्त है; सब संतलोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ कल्पोंमें भी गाये नहीं जा सकते ॥ ३ ॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी ॥

प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥

[शिवजी कहते हैं कि] हे पावती ! मैंने यह बतलानेके लिये इस प्रसङ्गको कहा कि शानी मुनि भी भगवान्की मायासे मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी (लीलामय) हैं और शरणागतका हित करनेवाले हैं। वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ और सब दुःखोंके हरनेवाले हैं ॥ ४ ॥

सो०—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल ।

अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि ॥ १४० ॥

देवता, मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान्की महान् बलवती

दो०—बहुविधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तव भए अंतरधान ।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥ १३८ ॥

बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर (ढाड़स देकर) तव प्रभु अन्तर्धान हो गये और नारदजी श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए सत्यलोक (ब्रह्मलोक) को चले ॥ १३८ ॥

दो०—हरगन मुनिहि जातपथदेखी । विगतमोह मन हरप विसेपी ॥

अति सभीत नारद पहिं आए । गहि पद आरत वचन सुनाए ॥

शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें जाते हुए देखा, तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर, दीन वचन बोले— ॥ १ ॥

हर गन हम न विप्र मुनिराया । वड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥

श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥

हे मुनिराज ! हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजीके गण हैं । हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया । हे कृपालु ! अब श्राप दूर करनेकी कृपा कीजिये । दीनोंपर दया करनेवाले नारदजीने कहा— ॥ २ ॥

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । वैभव विपुल तेज बल होऊ ॥

भुजवलविस्वजितव्र तुम्हजहिआ । धरिहहिं विष्णु मनुज तनु तहिआ ॥

तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान् ऐश्वर्य, तेज और बलकी प्राप्ति हो । तुम अपनी भुजाओंके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान् विष्णु, मनुष्यका शरीर धारण करेंगे ॥ ३ ॥

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥

चले जुगल मुनि पद सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥

युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसारमें जन्म नहीं लोगे । वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥ ४ ॥

दो०—एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार ।

सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥ १३९ ॥

वी०—स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा ॥

दंपति धरम आचरन नीका । अजहुँगाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥

स्वायम्भुव मनु और [उनकी पत्नी] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥ १ ॥

नृप उत्तानपाद सुत तासू । ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥

लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही । वेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥

राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [प्रसिद्ध] हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन (मनुजी) के छोटे लड़केका नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं ॥ २ ॥

देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥

आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहिं कपिल कृपाला ॥

पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपालु भगवान् कपिलको गर्भमें धारण किया ॥ ३ ॥

सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥

तेहिं मनुराज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥

तत्त्वोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन (कपिल) भगवान् ने सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन किया, उन (स्वायम्भुव) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवान्की आज्ञा [रूप शास्त्रोंकी मर्यादा] का पालन किया ॥ ४ ॥

सो०—होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन ।

हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥ १४२ ॥

धरमें रहते बुढ़ापा आ गया; परंतु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [इस बातको सोचकर] उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया ॥ १४२ ॥

चो०—वरवस राज सुतहि तव दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥

तीरथ वर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥

तब मनुजीने अपने पुत्रको जबर्दस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको गमन किया। अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्धि देनेवाला तीर्थमें श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है ॥ १ ॥

माया मोहित न कर दे। मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी (प्रेरक) श्री-भगवान्का भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥

चौ०—अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहउँ विचित्र कथा बिस्तारी ॥

जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥

हे गिरिराजकुमारी ! अब भगवान्के अवतारका वह दूसरा कारण सुनो—मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ—जिस कारणसे जन्मरहित, निर्गुण और रूप-रहित (अव्यक्त सच्चिदानन्दघन) ब्रह्म अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरें मुनिवेषा ॥

जासु चरित अवलोकि भवानी । सती शरीर रहिहु बौरानी ॥

जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोंका-सा वेप धारण किये वनमें फिरते देखा था, और हे भवानी ! जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि—॥ २ ॥

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥

लीला कीन्हि जो तेहिँ अवतारा । सो सब कहिहउँ मति अनुसार ॥

अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्हींके भ्रमरूपी रोगके हरण करनेवाले चरित्र सुनो । उस अवतारमें भगवान्ने जो-जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँगा ॥ ३ ॥

भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥

लगे बहुरि बरनै वृषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥

[याज्ञवल्क्यजीने कहा—] हे भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेमसहित मुसकरायीं । फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवान्का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे ॥ ४ ॥

दो०—सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ ।

राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ १४१ ॥

हे मुनीश्वर भरद्वाज ! मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥ १४१ ॥

आँखोंसे देखें, जो निगुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी (ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेत्ता) लोग जिनका चिन्तन किया करते हैं ॥ २ ॥

नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥
संभु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥

जिन्हें वेद 'नेति-नेति' (यह भी नहीं, यह भी नहीं) कहकर निरूपण करते हैं। जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥
जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥

ऐसे [महान्] प्रभु भी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [दिव्य] लीला-विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदोंमें यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ॥४॥

दो०—एहि विधि बीते वरष षट सहस बारि आहार ।

संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥ १४४ ॥

इस प्रकार जलका आहार [करके तप] करते छः हजार वर्ष बीत गये। फिर सात हजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे ॥ १४४ ॥

चौ०—वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥

विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥

दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैरसे खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये ॥ १ ॥

मागहु वर बहु भौंति लोभाए । परम धीर नहिं चलहिं चलाए ॥

अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥

उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर माँगो। पर ये परम धैर्यवान् [राजा-रानी अपने तपसे किसीके] डिगाये नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥ २ ॥

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ।

मागु मागु वरु भै नभ बानी । परम गभीर कृपामृत सानी ।

वसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहँ हियँ हरषि चलेउ मनु राजा ॥

पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ॥

वहाँ मुनियों और सिद्धोंके समूह बसते हैं । राजा मनु हृदयमें हर्षित होकर वहाँ चले । वे धीरे बुद्धिवाले राजा-रानी भागमें जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हों ॥ २ ॥

पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥

आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर नृपरिपि जानी ॥

[चलते-चलते] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे । हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जलमें स्नान किया । उनको धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३ ॥

जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥

कंस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहिं पुराना ॥

जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये । उतका शरीर हुँदल हो गया था, वे मुनियोंकेसे (वलकल) वस्त्र धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे, ॥ ४ ॥

दो०—द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग ।

वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १४३ ॥

और द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का प्रेमसहित जप करते थे । भगवान् वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३ ॥

चौ०—करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥

पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अधार मूल फल त्यागे ॥

वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे । फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलका त्यागकर केवल जलको आधारपर रहने लगे ॥ १ ॥

उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥

अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथवादी ॥

हृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [कंसे] उन परम प्रभुको

इंपति वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥
 गत वछल प्रभु कृपानिधाना । विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥

राजा-रानीके कोमल, विनययुक्त और प्रेमरसमें पागे हुए वचन भगवान्‌को बहुत प्रिय लगे । भक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान (या समस्त विश्वमें व्यापक), सर्वसमर्थ भगवान् प्रकट हो गये ॥ ४ ॥

श्लो०—नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर स्याम ।

लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥

भगवान्‌के नीले कमल, नीलमणि और नीले (जलयुक्त) मेघके समान [कोमल, काशमय और सरस] श्यामवर्ण [चिन्मय] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं ॥ १४६ ॥

श्लो०—सरद मयंक वदन छवि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । विधु कर निकर विनिंदक हासा ॥

उनका मुख शरद् [पूर्णिमा] के चन्द्रमाके समान छविकी सीमास्वरूप था । गाल और ठोड़ी बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान (त्रिरेखायुक्त, बढ़ाव-उतारवाला) था । लाल होठ, दाँत और नाक (अत्यन्त) सुन्दर थे । हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीकी नीचा दिखानेवाली थी ॥ १ ॥

नव अंबुज अंबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावँती जी की ॥

भृकुटि मनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥

नेत्रोंकी छवि नये [खिले हुए] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी लगती थी । टेढ़ी भाँहें कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली थीं । ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥ २ ॥

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥

उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥

कानोंमें मकराकृत (मछलीके आकारके) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित था । टेढ़े (घुंघराले) काले बाल ऐसे सघन थे, मानो भीरोंके झुंड हों । हृदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रत्नजटित हार और मणियोंके आभूषण सुशोभित थे ॥ ३ ॥

सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति (आश्रय) वाले तपस्वी राजा-रानीको 'निज दास' जाना । तब परम गम्भीर और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि 'वर मांगो' ॥३॥

मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंघ होइ उर जब आई ॥

हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । मानहुँ अबहिं भवन ते आए ॥

मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब हृदयमें आयी, तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट हो गये मानो अभी घरसे आये हैं ॥४॥

दो०—श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयँ समात ॥ १४५ ॥

कानोंमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया । तब मनुजी दण्डवत् करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता न था—॥१४५॥

चौ०—सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु । विधि हरि हर बंदित पद रेनु ॥

सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥

हे प्रभो ! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं । आपकी चरण-रजकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वन्दना करते हैं । आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं । आप शरणागतके रक्षक और जड़-चेतनके स्वामी हैं ॥ १ ॥

जौ अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू ॥

जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥

हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि हमलोगोंपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है और जिस [की प्राप्ति] के लिये मुनिलोग यत्न करते हैं ॥ २ ॥

जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुनअगुनजेहि निगम प्रसंसा ॥

देखाहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥

जो काकभुशुण्डिके मन्त्ररूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र भरकर देखें ॥ ३ ॥

हरष विवस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा । तुरत उठाए करुनापुंजा ॥

आनन्दके अधिक वशमें हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि भूल गयी । वे हाथोंसे भगवान्‌के चरण पकड़कर दण्डकी तरह (सीधे) भूमिपर गिर पड़े। कृपाकी राशि प्रभु-
ने अपने करकमलोंसे उनके मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया ॥ ४ ॥

दो०—बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मागहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४८ ॥

फिर कृपानिधान भगवान् बोले—मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी
दानी मानकर, जो मनको भाये वही वर माँग लो ॥ १४८ ॥

ची०—सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली मृदु बानी ॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥

प्रभुके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजाने कोमल वाणी
कही—हे नाथ ! आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गयीं ।

एक लालसा बड़ि उर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥

तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं । अगम लाग मोहि निज कृपनाईं ॥

फिर भी मनमें एक बड़ी लालसा है । उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यन्त
कठिन भी, इसीसे उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी ! आपके लिये तो उसका पूरा करना
बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता (दीनता) के कारण वह अत्यन्त कठिन मालूम
होता है ॥ २ ॥

जथा दरिद्र विबुधतरु पाई । बहु संपति मागत सकुचार्ई ॥

तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । तथा हृदयँ मम संसय होई ॥

जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है,
क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदयमें संशय हो रहा है ॥ ३ ॥

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥

सकुच विहाइ मागु नृप मोही । मोरें नहिं अदेय कछु तोही ॥

हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हैं, इसलिये उसे जानते ही हैं । मेरा वह मनोरथ

केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु विभूपन सुंदर तेऊ ॥

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निपंग कर सर कोदंडा ॥

सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था । भुजाओंमें जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे । हाथीकी सूंडके समान (उतार-चढ़ाववाले) सुन्दर भुजदण्ड थे । कमरमें तरकस और हाथमें वाण और धनुष [शोभा पा रहे] थे ॥ ४ ॥

दो०—तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख वर तीनि ।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीनि ॥ १४७ ॥

[स्वर्ण-वर्णका प्रकाशमय] पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था । पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) थीं । नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भवरोंकी छविको छीने लेती हो ॥ १४७ ॥

चौ०—पद राजीव वरनि नहिं जाहीं । मुनि मन मधुपवसहिंजेन्ह माहीं ॥

वाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥

जिनमें मुनियोंके मनरूपी भारे बसते हैं, भगवान्के उन चरणकमलोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । भगवान्के बायें भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली शोभाकी राशि, जगत्की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं ॥ १ ॥

जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

भृकुटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥

जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लदमी, पार्वती और ब्रह्मणी (त्रिदेवोंकी शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाँहके इशारेसे ही जगत्की रचना हो जाती है, वही [भगवान्की स्वरूपाशक्ति] श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायें ओर स्थित हैं ॥ २ ॥

छविसमुद्र हरि रूप विलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥

चितवहिं सादर रूप अनूपा । वृत्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥

शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट (पलकें) रोके हुए एकटक (स्तब्ध) रह गये । उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और देखते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ ॥

—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।
 सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥

हे प्रभो! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंमें प्रेम, वही ज्ञान
 वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये ॥ १५० ॥

सुनि मृदु गूढ रुचिर वर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु वचना ॥
 जोकलु रुचि तुम्हारे मन माहीं । मैं सोदीन्ह सब संसय नाहीं ॥

[रानीकी] कोमल, गूढ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र
 भगवान् कोमल वचन बोले—तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया,
 इसमें कोई संदेह न समझना ॥ १ ॥

मातु विवेक अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥
 वंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥

हे माता! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु
 भगवान्के चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा—हे प्रभु! मेरी एक विनती और है—॥ २ ॥

सुन विषइक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ
 मनिविनुफनिजिमिजलविनुमीना । ममजीवनतिमि तुम्हहि अधीन

आपके चरणोंमें मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्रके लिये पिताकी होती है,
 मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणिके बिना साँप और जलके
 मछली [नहीं रह सकती], वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे (आपके विन
 रह सके) ॥ ३ ॥

अस वरु मागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहे
 अरु तुम्ह मम अनुसासन मानी । वसहु जाइ सुरपति रजधा

ऐसा वर माँगकर राजा भगवान्के चरण पकड़े रह गये। तब दयाके
 भगवान्ने कहा—ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी र
 (अमरावती) में जाकर वास करो ॥ ४ ॥

सो०—तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कलु काल पुनि ।
 होइहहु अवध भुआल तव मैं होव तुम्हार सुत ॥ १

पूरा कीजिये । [भगवान्ने कहा—] हे राजन् ! मंकोच छोड़कर मुझसे मांगो । तुम्हे न दे सकूँ ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ ।

चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ १४९ ॥

[राजाने कहा—] हे दानियोंके शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! मैं अपने मनका सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभुसे भला क्या छिपाना ! ॥ १४९ ॥

ची०—देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥

आपु सरिस खोजों कहँ जाई । नृप तव तनय होव मैं आई ॥

राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर कर्णानिधान भगवान् बोले—ऐसा ही हों । हे राजन् ! मैं अपने समान [दूसरा] कहाँ जाकर खोजूँ ! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १ ॥

सतरूपहि विलोकि कर जोरें । देवि मागु बरु जो रुचि तोरें ॥

जो बरु नाथ चतुर नृप मागा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥

शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवान्ने कहा—हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर मांग लो । [शतरूपाने कहा—] हे नाथ ! चतुर राजाने जो वर मांगा; हे कृपालु ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ २ ॥

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥

परंतु हे प्रभु ! बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले ! वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है । आप ब्रह्मा आदिके भी पिता (उत्पन्न करनेवाले), जगत्के स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं ॥ ३ ॥

अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥

जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥

ऐसा समझनेपर मनमें संदेह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण (सत्य) है । [मैं तो यह मांगती हूँ कि] हे नाथ ! आपके जो निज जन हैं, वे जो (अलौकिक, अखण्ड) सुख पाते हैं और जिस परम गतिकी प्राप्त होते हैं—॥ ४ ॥

ची०—सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ।

विश्व विदित एक कैकय देसू । सत्यकेतु तहँ बसइ नरेसू ।

हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है । वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता (राज्य करता) था ॥ १ ॥

धरम धुरंधर नीति निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ।

तेहि कें भए जुगल सुत वीरा । सब गुन धाम महा रनधीरा ।

वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था । उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके भण्डार और बड़े ही रणधीर थे ॥ २ ॥

राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ।

अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । भुज बल अतुल अचल संग्रामा ।

राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापभानु था । दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो युद्धमें [पर्वत समान] अटल रहता था ॥ ३ ॥

भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती ।

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ।

भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और छलोंसे रहित [सच्ची प्रीति थी] । राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान् [के भजन] के लिये बनको चल दिया ॥ ४ ॥

दो०—जब प्रतापरवि भयउ नृप फिरी दोहाई देस ।

प्रजा पाल अति वेदविधि कतहँ नहीं अघ लेस ॥ १५३ ॥

जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुहाई फिर गयी । वह वेदमें बतायी हुई विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा । उसके राज्यमें पापका कहीं लेख भी नहीं रह गया ॥ १५३ ॥

ची०—नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समाना ।

सचिव सयान वंधु बलवीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ।

राजाका हित करनेवाला और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान् धर्मरुचि नामक उसका

हे तात ! वहाँ [स्वर्गके] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम अवधके राजा होगे । तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ ॥

चौ०—इच्छामय नरवेष सँवारें । होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें ॥

अंसन्ह सहितदेह धरि ताता । करिहउँ चरित भगत सुखदाता ॥

इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा । हे तात ! मैं अपने अंशोंसहित देह धारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा ॥ १ ॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहहिँ ममता मद त्यागी ॥

आदिसक्ति जेहिँ जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥

जिन (चरित्रों) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता और मद त्यागकर भवसागरसे तर जायेंगे । आदिसक्ति यह मेरी [स्वरूपभूता] माया भी, जिसने जगत्को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी ॥ २ ॥

पुरउव मैं अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥

इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है । कृपानिधान भगवान् बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ ॥

दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहिँ आश्रम निवसे कछु काला ॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासा ॥

वे स्त्री-मुरूप (राजा-रानी) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्को हृदयमें धारण करके कुछ कालतक उस आश्रममें रहे । फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही (बिना किसी कष्टके) शरीरको छोड़कर, अमरावती (इन्द्रकी पुरी) में जाकर वास किया ॥४॥

दो०—यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही तृपकेतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५२ ॥

[याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजी-ने पावंतीसे कहा था । अब श्रीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ ॥

मामपागयण पाँचवाँ विश्राम

धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था। वह राजाके हितके लिये सदा उसकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण—इन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २ ॥

भूप धरम जे वेद बखाने । सकल करइ सादर सुख माने ।
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना । सुनइ सास्त्र वर वेद पुराना ॥

वेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था ॥ ३ ॥

नाना वापीं कूप तड़ागा । सुमन वाटिका सुंदर वागा ॥
विप्रभवन सुरभवन सुहाए । सब तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥

उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ, तालाव, फूलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थोंमें बनवाये ॥ ४ ॥

दो०—जहँ लगी कहे पुरान श्रुति-एक एक सब जाग ।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥ १५५ ॥

वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब यज्ञोंको प्रेमसहित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥

चौ०—हृदयँ न कछु फल अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥

करइ जे धरम करम मन वानी । वासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥

[राजाके] हृदयमें किसी फलकी टोह (कामना) न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान् और जानी था। वह जानी राजा कर्म, मन्त्र और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान् वासुदेवके अर्पित करके करता था ॥ १ ॥

चढ़ि घर दानि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥

शिकारचल मत्तै वन गयउ । मृग पुनीत बहु मारत भयउ ॥

एक बार वह राजा एक अच्छे बोटपर सवार होकर, शिकारका सब सामान लिये, शिकारचलके लिये जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम मृग मारे ॥ २ ॥

मन्त्री था। इस प्रकार बुद्धिमान् मन्त्री और बलवान् तथा वीर भाइके साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था ॥ १ ॥

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सत्र समर जुभारा ॥

सेन विलोकि राट हरपाना । अरु वाजे गहगहे निसाना ॥

साथमें अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमें अनन्त्य योद्धा थे, जो सब-को-सब रणमें जीस मरनेवाले थे। अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे ॥ २ ॥

त्रिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ वजाई ॥

जहँ तहँ परीं अनेक तराई । जीते सकल भूप वरिआई ॥

दिविजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (गुहृत) साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओंको बलपूर्वक जीत लिया ॥ ३ ॥

सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे । लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे ॥

सकल अवनि मंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥

अपनी भुजाओंके बलसे उसने सातों द्वीपों (भूमिखण्डों) को वशमें कर लिया और राजाओंसे दण्ड (कर) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया। सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र (चक्रवर्ती) राजा था ॥ ४ ॥

दो०—स्वयस विस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेसु ।

अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥ १५४ ॥

संसारभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदिके सुखोंका समग्रानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥

चो०—भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥

सत्र दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥

राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु (मनचाही वस्तु देनेवाली) हो गयी। [उसके राज्यमें] प्रजा सब [प्रकारके] दुःखोंसे रहित और सुखी थी और सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ १ ॥

सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीनी ॥

गुर सुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सब के

धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था। वह राजाके हितके लिये सदा उसकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण—इन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २ ॥

भूप धरम जे वेद बखाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना । सुनइ सास्त्र बर वेद पुराना ॥

वेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था ॥ ३ ॥

ज्ञाना त्रापीं कूप तड़ागा । सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥
विप्रभवन सुरभवन सुहाए । सब तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥

उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फूलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थोंमें बनवाये ॥ ४ ॥

दो०—जहँ लगी कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग ।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥ १५५ ॥

वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब यज्ञोंको प्रेमसहित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥

चौ०—हृदयँ न कछु फल अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥

करइ जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥

[राजाके] हृदयमें किसी फलकी टोह (कामना) न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, सब वासुदेवके अर्पित करके करता था ॥ १ ॥

चढ़ि बर बलि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥

विन्धाचल गरीर बन गयऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥

एक बार वह राजा एक अच्छे बाड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब सामान लेकर, विन्धाचलके गरीर जंगलमें गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम किले मारे ॥ २ ॥

फिरत विपिन नृप दीख बराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥

बड़ विधु नहिं समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥

राजाने वनमें फिरते हुए एक सूअरको देखा [दाँतोंके कारण वह ऐसा दीख पड़ता था], मानो चन्द्रमाको प्रसकर (मुँहमें पकड़कर) राहु वनमें आ छिपा हो। चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३ ॥

कोल कराल दसन छवि गाई । तनु विसाल पीवर अधिकाई ॥

धुरुधुरात हय आरौ पाएँ । चकित त्रिलोक्त कान उठाएँ ॥

यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी। [इधर] उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह धुरधुराता हुआ कान उठाये चाँकप्रा होकर देख रहा था ॥ ४ ॥

दो०—नील महीधर सिखर सम देखि विसाल बराहू ।

चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकिन होइ निवाहू ॥ १५६ ॥

नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [शरीरवाले] उस सूअरको देखकर राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर तेजीसे चला और उसने सूअरको ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥

चो०—आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥

तुरत कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिलि गयउ त्रिलोक्त वाना ॥

अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [अपनी तरफ] आता देखकर सूअर पवन-वेगसे भाग चला। राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया। सूअर बाणको देखते ही घर्तनीमें दुबक गया ॥ १ ॥

तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर शरीर बचावा ॥

प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस बस भूप चलेउ संग लागा ॥

राजा तरु-सककर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीरको बचाता जाता है। वह पशु कमी प्रकट होता और कमी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके वश उसके साथ (पीछे) लगा चला जाता था ॥ २ ॥

गयउ दूरि घन गहन बराहू । जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू ॥

अति अकेल बन विपुल क्लेसू । तदपि न मृग मग तजइ नरेसू ॥

सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया, जहाँ हाथी-घोड़ेका निवाह (गम) हीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वनमें क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजाने उस गुरुका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥

गेल विलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥
गम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महावन परेउ भुलाई ॥

राजाको बड़ा धैर्यवान् देखकर; सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफामें जा सा। उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर लौटना पड़ा; पर उस घोर वनमें वह रास्ता भूल गया ॥ ४ ॥

श्लो०—खेद खिन्न ह्युद्धित तृपित राजा बाजि समेत ।

खोजत व्याकुल सरित सर जल विनु भयउ अचेत ॥ १५७ ॥

बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल राजा नदी-तालाव खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया ॥ १५७ ॥

श्लो०—फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट मुनिवेषा ॥

जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ॥

वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर मुद्रसे भाग गया था ॥ १ ॥

समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥

गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥

प्रतापभानुका समय (अच्छे दिन) जानकर और अपना कुसमय (बुरे दिन) अनुमान कर उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिला (मेल किया) ॥ २ ॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसइ तापस के साजा ॥

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहिं तब चीन्हा ॥

दरिद्रकी भाँति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपस्वीके वेषमें वनमें रहता था। राजा (प्रतापभानु) उसीके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप-भानु है ॥ ३ ॥

फिरत विपिन नृप दीख बराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥

बड़ विधु नहिं समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोध वस उगिलत नाहीं ॥

राजाने वनमें फिरते हुए एक सूअरको देखा [दाँतोंके कारण वह ऐसा दीख पड़ता था], मानो चन्द्रमाको प्रसकर (मुँहमें पकड़कर) राहू वनमें आ छिपा हो। चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३ ॥

कोल कराल दसन छवि गाई । तनु विसाल पीवर अधिकाई ॥

धुरुधुरात हय आरौ पाँँ । चकित विलोक्त कान उठाँँ ॥

यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी। [इधर] उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह धुरधुराता हुआ कान उठाये चाँकना होकर देख रहा था ॥ ४ ॥

दो०—नील महीधर सिखर सम देखि विसाल बराहू ।

चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हाँकिन होइ निवाहू ॥ १५६ ॥

नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [शरीरवाले] उस सूअरको देखकर राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर तेजीसे चला और उसने सूअरकी ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥

चौ०—आवत देखि अधिक रव वाजी । चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥

तुरत कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिलि गयउ विलोक्त बाना ॥

अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [अपनी तरफ] आता देखकर सूअर पवन-बैंगसे भाग चला। राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया। सूअर बाणको देखते ही धरतीमें दुबक गया ॥ १ ॥

तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥

प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस वस भूप चलेउ संग लागा ॥

राजा तक-सककर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीरको बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके बश उसके साथ (पीछे) लगा चला जाता था ॥ २ ॥

गयउ दूरि घन गहन बराहू । जहँ नाहिन गज वाजि निवाहू ॥

अति अकेल बन विपुल क्लेसू । तदपि न मृग मग तजइ नरेसू ॥

हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है, कुछ भला होनेवाला है। मुनिने कहा—हे तात ! अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है ॥ ४ ॥

दो०—निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान ।

वसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥

हे सुजान ! सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सबेरा होते ही चले जाना ॥ १५९ (क) ॥

तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलइ सहाइ ।

आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ ॥१५९(ख)॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है ॥ १५९ (ख) ॥

चौ०—भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा । बाँधि तुरग तरु वैठ महीसा ॥

नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥

हे नाथ ! 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ेको बंधने बांधकर राजा बैठ गया। राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणोंकी कन्दना करने अपने भाग्यकी सराहना की ॥ १ ॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करउँ डिठाई ॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥

फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा—हे प्रभो ! आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [धाम] विस्तारसे बतलाइये ॥२॥

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥

बैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥

राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था। राजा तो शुद्ध-हृदय था और वह कपट करनेमें चतुर था। एक तो बैरी, फिर जातिका धरिय, फिर राजा। वह छल-बलमें अपना काम बनाना चाहता था ॥ ३ ॥

राउ तृषित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेप महामुनि जाना ॥

उतरि तुरग तैं कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥

राजा प्यासा होनेके कारण [व्याकुलतामें] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेप देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया । परंतु बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नहीं बतलाया ॥ ४ ॥

दो०—भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ ।

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ ॥ १५८ ॥

राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखावा दिया । हर्षित होकर राजाने घोड़े-सहित उसमें स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥

चो०—गैश्रम सकल सुखी नृपभयउ । निज आश्रम तापस लैं गयउ ॥

आसनदीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥

सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया । तब तपस्वी उसे अपने आश्रममें ले गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [राजाको बैठनेके लिये] आसन दिया । फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला—॥ १ ॥

को तुम्ह कस वन फिरहु अकेलें । सुंदर जुवा जीव परहेलें ॥

चक्रवर्ति के लच्छन तोरें । देखत दया लागि अति मोरें ॥

तुम कौन हो ? सुन्दर युवक होकर जीवनकी परवा न करके, वनमें अकेले क्यों फिर रहे हो ? तुम्हारे चक्रवर्ती राजाकेसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है ॥ २ ॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा ॥

फिरत अहरे परेउं भुलाई । बड़े भाग देखेउं पद आई ॥

[राजाने कहा—] हे मुनीश्वर ! मुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ । शिकारके लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ । बड़े भागसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥

हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हौं कहु भल होनिहारा ॥

कह मुनि तात भयउ अंधियारा । जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥

सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥
मुनु सतिभाउ कहउँ महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला ॥

सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपट तपस्वी) बोला—हे राजन्! मुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥४॥

दो०—अब लागि सोहि न मिलेउ कोउ मै न जनावउँ काहु ।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥

अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क) ॥

सो०—तुलसी देखि सुवेषु भूलहिं मूढ न चतुर नर ।

सुंदर केकिहि पेषु वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(ख)॥

तुलसीदासजी कहते हैं—सुन्दर वेष देखकर मूढ नहीं, [मूढ तो मूढ ही हैं] चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान है और आहार साँपका है ॥ १६१ (ख) ॥

चो०—ताते गुपुत रहउँ जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥

प्रभु जानत सब विनहिं जनाएँ । कहहु क्वनि सिधि लोक रिझाएँ ॥

[कपट-तपस्वीने कहा—] इसीसे मैं जगतमें छिपकर रहता हूँ । श्रीहरिको छोड़कर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता । प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं । फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी ॥ १ ॥

तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें ॥

अब जौ तात दुरावउँ तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥

तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझपर प्रीति और विश्वास है । हे तात ! अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा ॥ २ ॥

जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा । निमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा ॥

देखा स्वयस कर्म मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥

ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, त्यों-ही-त्यों राजाको विश्वास

समुद्धि राजसुख दुखित अराती । अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥
सरल वचन नृप के सुनि काना । वयर सँभारि हृदयँ हरषाना ॥

वह शत्रु अपने राज्य-मुखको समझ करके (स्मरण करके) दुखी था । उसको छाती [कुम्हारके] आँविकी आगकी तरह [भीतर-ही-भीतर] सुलग रही थी । राजाके सरल वचन कानसे सुनकर, अपने बँरको यादकर वह हृदयमें हर्षित हुआ ॥ ४ ॥

दो०—कपट बोरि वानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत ।

नाम हमार भिखारि अब्र निर्धन रहित निकेत ॥ १६० ॥

वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी बोला—अब हमारा नाम भिखारी है; क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत (घर-द्वारहीन) हैं ॥ १६० ॥

चौ०—कह नृप जे विग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलिन अभिमाना ॥

सदा रहहि अपनपाँ दुराएँ । सब त्रिधि कुसल कुवेप बनाएँ ॥

राजाने कहा—जो आपके सदृश विज्ञानके निधान और सर्वथा अभिमानरहित होते हैं, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हैं, क्योंकि कुवेप बनाकर रहनेमें ही मय तरहका कल्याण है (प्रकट संतवेपमें मान होनेकी सम्भावना है और मानके पतनकी) ॥१॥

तेहि तें कहहि संत श्रुति टेरें । परम अकिंचन प्रिय हरि करें ॥

तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत त्रिरांचि सिवहि मंदेहा ॥

इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन (सर्वथा अहंकार, ममता और मानरहित) ही भगवान्को प्रिय पते हैं । आप-नरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको भी मंदेह हो जाता है [कि ये वास्तविक मंत्र हैं या भिखारी] ॥ २ ॥

जोसि सोसि तव चरन नमामी । सो पर कृपा करिअ अब्र स्वामी ॥

सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु विषय विस्वाम्य विसेपी ॥

आप जो हों सो हों (अर्थात् जो कोसे भी हों), मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब मुझपर कृपा कीजिये । अपने ऊपर राजाकी ग्याभावधि प्रीति और अपने विषयमें उसका अधिक विस्वास देखकर—॥ ३ ॥

तपस्वीने कहा—राजन् ! मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥४॥

सो०—सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहहिं नृप ।

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥ १६३ ॥

हे राजन् ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते । तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥

चौ०—नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥

गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥

तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे । हे राजन् ! गुस्की कृपासे मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥

देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥

उपजि परी ममता मन मोरें । कहउँ कथा निज पूछे तोरें ॥

हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन (सरलता), प्रेम, विश्वास और नीतिमें निपुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है; इसीलिये मैं तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥

अव प्रसन्न मैं संसय नाहीं । मागु जो भूप भाव मन माहीं ॥

मुनि सुवचन भूपति हरषाना । गहि पद विनय कीन्हिविधिनाना ॥

अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना । हे राजन् ! जो मनको भावे वही माँग लो । सुन्दर (प्रिय) वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और [मुनिके] पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३ ॥

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें । चारि पदारथ करतल मोरें ॥

प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी । मागि अगम वर होउँ असोकी ॥

हे दयासागर मुनि ! आपको दर्शनसे ही चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) मेरी मुट्ठीमें आ गये । तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर माँगकर [क्यों न] शोकरहित हो जाऊँ ॥ ४ ॥

दो०—जरा मरन दुख रहित तनु समर जितें जनि कोउ ।

एकछत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत होउ ॥ १६४ ॥

उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुलेकी तरह ध्यान लगानेवाले (कपटी) मुनिने राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें जाना, तब वह बोला ॥ ३ ॥

नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥

कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥

हे भाई ! हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा—
मुझे अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥४॥

दो०—आदिसृष्टि उपजी जवहिं तत्र उतपति भै मोरि ।

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ १६२ ॥

[कपटी मुनिने कहा—] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तबसे मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥१६२॥

चो०—जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं ॥

तपवल तें जग सृजइ विधाता । तपवल विष्णु भए परित्राता ॥

हे पुत्र ! मनमें आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपके बलसे ब्रह्मा जगत्को रचते हैं। तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १ ॥

तपवल संभु करहिं संघारा । तप तें अगम न कछु संसारा ॥

भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥

तपहीके बलसे रुद्र संहार करते हैं। संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके। यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ। तब वह (तपस्वी) पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥२॥

करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति विवेका ॥

उदभव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥

कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका निरूपण करने लगा। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन (स्थिति) और संहार (प्रलय) की अपार आश्चर्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३ ॥

सुनि महीप तापस बस भयउ । आपन नाम कहन तत्र लयउ ॥

कह तापस नृप जानउँ तोही । कीन्हेहु कपट लाग भलं मोही ॥

राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा।

हे राजन् ! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १ ॥

यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥
आन उपायँ निधन तव नाहीं। जौं हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥

हे प्रतापभानु ! सुनो, इस बातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोंके शापसे तुम्हारा नाश होगा; और किसी उपायसे चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥

राखइ गुर जौं कोप बिधाता। गुर विरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा—हे स्वामी ! सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरुके क्रोधसे कहिये कौन रक्षा कर सकता है ? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु वचा लेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी बचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥

जौं न चलब हम कहे तुम्हारे। होउ नास नहिं सोच हमारे ॥
एकहिं डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥

यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चलूंगा, तो [भले ही] मेरा नाश हो जाय। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभो ! [केवल] एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बड़ा भयानक होता है ॥ ४ ॥

दो०—होहिं विप्र वस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखउँ कोउ ॥ १६६ ॥

वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइये। हे दीनदयालु ! आपको छोड़कर और किसीको मैं अपना हितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥

चौ०—सुनुनृपविविधजतनजगमाहीं। कष्टसाध्यपुनि होहिं कि नाहीं ॥

अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥

[तपस्वीने कहा—] हे राजन् ! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं (बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं), और इसपर भी सिद्ध हों या न हों (उनकी सफलता निश्चित नहीं है)। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। १।

मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय, मुझे युद्धमें कोई जीत न सके; और पृथ्वीपर मेरा सौ कल्पतक एकच्छत्र अकण्ठक राज्य हो ॥ १६४ ॥

श्री०—कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥

कालउ तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्रकुल छाड़ि महीसा ॥

तपस्वीने कहा—हे राजन् ! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो । हे पृथ्वीके स्वामी ! केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा ॥ १ ॥

तपबल विप्र सदा वरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥

जौं विप्रन्ह वस करहु नरेसा । तौ तुअ वस विधि विष्णु महेसा ॥

तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान् रहते हैं । उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हे नरपति ! यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे ॥ २ ॥

चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई ॥

विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवनेहुँ काला ॥

ब्राह्मणकुलसे जोर-जबदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ । हे राजन् ! सुनो, ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३ ॥

हरषेउ राउ वचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥

तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहूँ सर्व काल कल्याणा ॥

राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा—हे स्वामी ! मेरा नाश अब नहीं होगा । हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥

श्री०—एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि ।

मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि ॥ १६५ ॥

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला [किंतु] तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [कहना नहीं, यदि] कह दोगे, तो हमारा दोष नहीं ॥ १६५ ॥

श्री०—तातेँ मैँ तोहि वरजउँ राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥

छठें श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥

जों नरेस मैं करौं रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥

अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥

हे नरपति ! मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्नको जो-जो खायेगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३ ॥

पुनि तिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ । तव वस होइ भूप सुनु सोऊ ॥

जाइ उपाय रचहु नृप एहू । संवत भरि संकल्प करेहू ॥

यही नहीं, उन (भोजन करनेवालों) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन् ! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा । हे राजन् ! जाकर यही उपाय करो और वर्षभर [भोजन कराने] का सङ्कल्प कर लेना ॥ ४ ॥

दो०—नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार ।

मैं तुम्हारे संकल्प लागि दिनहिं करवि जेवनार ॥ १६८ ॥

नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे सङ्कल्प [के काल अर्थात् एक वर्ष] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥

चौ०—एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें । होइहहिं सकल विप्र वस तोरें ॥

करिहहिं विप्र होम मख सेवा । तेहिं प्रसंग सहजेहिं वस देवा ॥

हे राजन् ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायँगे । ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग (सम्बन्ध) से देवता भी सहज ही वशमें हो जायँगे ॥ १ ॥

और एक तोहि कहउँ लखाऊ । मैं एहिं वेष न आउव काऊ ॥

तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया । हरि आनव मैं करि निज माया ॥

मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि मैं इस रूपमें कभी न आऊँगा । हे राजन् ! मैं अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा ॥ २ ॥

तपवल तेहि करि आपु समाना । रखिहउँ इहाँ वरष परबना ॥

मैं धरि तामु वेषु सुनु राजा । सब विधि तोर सँवारव काजा ॥

तपके बनसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रखूँगा; और हे राजन् ! सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा ॥ ३ ॥

मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई ॥

आजु लगे अरु जब तें भयऊँ । काहू के गृह ग्राम न गयऊँ ॥

हे राजन् ! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता । जबसे पंदा हुआ है, तबसे आजतक मैं किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥ २ ॥

जौं न जाऊँ तव होई अकाजू । वना आइ असमंजस आजू ॥

सुनि महीस बोलेउ मृदु वानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥

परंतु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम विगड़ता है । आज यह बड़ा असमंजस आ गया है । यह सुनकर राजा कोमलवाणीसे बोला—हे नाथ ! वेदोंमें ऐसी नीति कही है कि— ॥ ३ ॥

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं ॥

जलधि अगाध मौलि बह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥

बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं । पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृण (घास) को धारण किये रहते हैं । अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता है और धरती अपने सिरपर सदा धूलिको धारण किये रहती है ॥ ४ ॥

दो०—अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल ।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७ ॥

ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [और कहा—] हे स्वामी ! कृपा कीजिये । आप संत हैं । दीनदयालु हैं । [अतः] हे प्रभो ! मेरे लिये इतना कष्ट [अवश्य] सहिये ॥ १६७ ॥

चो०—जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥

सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥

राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला—हे राजन् ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ; जगत्में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १ ॥

अवसि काज मैं करिहउँ तोरा । मन तन वचन भगत तें मोरा ॥

जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । फलइ तवहिं जत्र करिअ दुराऊ ॥

मैं तुम्हारा काम अवश्य करेगा : [क्योंकि] तुम मन, वाणी और शरीर [तीनों] से मेरे भक्त हो । पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रोंका प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब ये

यन्त्र किया) और जिस प्रकार शत्रुका नाश हो, वही उपाय रचा । भावीवश राजा (प्रताप-
भानु) कुछ भी न समझ सका ॥ ४ ॥

दो०—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु ।

अजहुँ देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥

तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये । जिसका
सिरमात्र बचा था, वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७० ॥

ची०—तापसन्पनिजसखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥

तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने
मित्रको सब कथा कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर बोला—॥ १ ॥

अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा । जौं तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । विनु औषध विआधि बिधि खोई ॥

हे राजन् ! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [इतना] काम कर लिया,
तो अब मैंने शत्रुको काटने कर ही लिया [समझो] । तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो ।
विधाताने विना ही दवाके रोग दूर कर दिया ॥ २ ॥

कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथे दिवस मिलव मैं आई ॥

तापस नृपहि बहून परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥

कुलसहित शत्रुको जड़-मूलसे उखाड़ बहाकर [आजसे] चौथे दिन मैं तुमसे
आ मिलूंगा । [इस प्रकार] तपस्वी राजाको खूब दिलासा देकर वह महामायावी और
अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३ ॥

भानुप्रनापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥

नृपहि नारि पहिं सयन कराई । हयगृहँ बाँधेसि वाजि बनाई ॥

उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित अणभरमें बर पहुँचा दिया । राजाको रानीके
पाल गुनाकर घोड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सानमें बाँध दिया ॥ ४ ॥

दो०—राजा के उपरोहितहि हरि लै गयउ बहोरि ।

लै राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि नति भोरि ॥ १७१ ॥

गै निसि बहुत सयन अब कीजे । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥

मैं तपवल् तोहि तुरग समेता । पहुँचेहउँ सोवतहि निकेता ॥

हे राजन् ! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ । आजसे तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी । तपके वनसे मैं घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें घर पहुँचा दूंगा ॥ ४ ॥

दो०—मैं आउव सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तव मोहि ।

जव एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि ॥ १६६ ॥

मैं वही (पुरोहितका) वेष धरकर आऊँगा । जव एकान्तमें तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँ, तब तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६६ ॥

चौ०—सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छलग्यानी ॥

श्रमित भूप निद्रा अनि आई । सो किमि सोव सोच अधिकआई ॥

राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा । राजा थका था, [उसे-] खूब (गहरी) नीद आ गयी । पर वह कपटी कैसे मोता । उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १ ॥

कालकेतु निसिचर तहँ आवा । जेहिं सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥

परम मित्र तापस नृप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥

[उसी समय] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिम्ने सूकर बनकर राजाको भटकवाया था । वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब छल-प्रपञ्च जानता था ॥ २ ॥

तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥

प्रथमहिं भूप समर सत्र मारे । विप्र संत मुर देखि दुखारे ॥

उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, क्रिमीसे न जीते जानेवाने और देवताओंको दुःख देनेवाले थे । ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुर्ग्य देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था ॥ ३ ॥

तेहिं खल पाछिल वयरु सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा ॥

जेहिं रिपु छयसोइ रचेन्हि उपाऊ । भागी वस न जान कछु राऊ ॥

उस दुष्टने पिछला बर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी (पद-

ची०—उपरोहित जेवनार वनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥

मायामय तेहिं कीन्हि रसोई । बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥

पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोंमें वर्णन है, बनाये । उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥ १ ॥

विविध मृगन्ह कर आमिष राँधा । तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा ॥

भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए । पद पखारि सादर बैठाए ॥

अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया । सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया और चरण धोकर आदरसहित बैठाया ॥ २ ॥

परुसन जवहिं लाग महिपाला । भै अकासवानी तेहि काला ॥

बिप्रवृंद उठि उठि गृह जाहू । है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥

ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल [कालकेतुकृत] आकाशवाणी हुई—हे ब्राह्मणों! उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ । इस [के खाने] में बड़ी हानि है ॥ ३ ॥

भयउ रसोई भूसुर माँसू । सब द्विज उठे मानि विस्वासू ॥

भूप विकल मति मोहँ भुलानी । भावी बस न आव मुख वानी ॥

रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है । [आकाशवाणीका] विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए । राजा व्याकुल हो गया । [परंतु] उसकी बुद्धि मोहमें भूली हुई थी । होनहारवश उसके मुँहसे [एक] बात [भी] न निकली ॥ ४ ॥

दो०—बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार ।

जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥ १७३ ॥

तत्र ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे—उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया—अरे मूर्ख राजा ! तू जाकर परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३ ॥

ची०—छत्रबंधु तैं बिप्र बोलाई । घालै लिए सहित समुदाई ॥

ईस्वर राखा धरम हमारा । जैहकि परिवारा ॥

रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको भोजन कराया था, ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की । अब

॥ फिर वह राजा को पुरोहितको उठा ले गया और माया की बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़की घोड़े में ला खड़ा ॥ १७१ ॥

दो०—आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥

॥ जागेउ नृप अनभाँ विहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥

॥ यह आप पुरोहितका रूप भवनफिर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेता । राजा सवेरा होनेसे पहले ही जोगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना ॥ १ ॥

मुनि महिमा मन महँ अनुमानी । उठेउ गवाँहि जेहि जान न रानी ॥

कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं । पुर नर नारि न जानेउ केहीं ॥

॥ मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जगमें रानी न जान पावे । फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको चला गया । नगरके किंगीभी स्त्री-पुरुषने नहीं जाना ॥ २ ॥

गएँ जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बधावा ॥

उपरोहितहि देखे जव राजा । चकित्तविलोकसुमिरिसोइकाजा ॥

॥ दो पहर घाँत जानेपर राजा आया । घर-घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा । जब राजाने पुरोहितको देखा, तब वह [अपने] उसी कार्यका स्मरण कर उगे आश्चर्यसे देखने लगा ॥ ३ ॥

जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पढ़ रह मति लीनी ॥

समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मते सब कहि समुझावा ॥

राजाको तीन दिन युगके समान होने । उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लगी रही । निश्चित समय जानकर पुरोहित [बना हुआ राक्षस] आया और राजाने माय की हुई गुप्त संलाहके अनुसार [उमने अपने] सब विचार उने समझाकर कह दिये ॥ ४ ॥

दो०—नृप हरपेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत ।

वरे तुरत सन सहस वर विप्र कुटुंब समेत ॥ १७२ ॥

(मंकेतके अनुसार) गुरुको [उस रूपमें] पहचानकर राजा प्रमत्त हुआ । भ्रमवश उसे चेत न रहा [कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस] । उमने तुरत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुटुम्बगहित निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥

न्हि नगर निसान वजाई । विविध भौंति नित होइ लराई ॥
 प्रे सकल सुभट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी ॥

और उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर लिया । नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई
 ने लगी । [प्रतापभानुके] सब योद्धा [शूरवीरोंकी] करनी करके रणमें जूझ मरे ।
 राजा भी भाईसहित खेत रहा ॥ ३ ॥

सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा । विप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥
 रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥

सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा । ब्राह्मणोंका शाप झूठा कैसे हो सकता था ।
 शत्रुको जीतकर नगरको [फिरसे] बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने-
 अपने नगरको चले गये ॥ ४ ॥

दो०—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम ।
 धूरि मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥ १७५ ॥

[याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज ! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं
 तब उसके लिये धूल सुमेरुपर्वतके समान (भारी और कुचल डालनेवाली), पिता यमके
 समान (कालरूप) और रस्ती साँपके समान (काट खानेवाली) हो जाती है ॥ १७५ ॥

चौ०—काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा
 दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा

हे मुनि ! सुनो, समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ
 उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था ॥ १ ॥

भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भयउ सो कुंभकरन बलधामा
 सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयउ विमात्र बंधु लघु तासू

अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम कुंभकर्ण हुआ ।
 जो मन्त्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्णुभगत विग्यान निधा
 रहे जे सुत सेवक नृप करे । भए निसाचर घोर घा

संवत मध्य नास तव होऊ । जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥

नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । भै बहोरि वर गिरा अक्रसा ॥

एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला तक न रहेगा । शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया । फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई—॥२॥

विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहिँ अपराध भूप कहु कीन्हा ॥

चकित विप्र सब सुनि नभवानी । भूप गयउ जहँ भोजन खानी ॥

हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया । आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये । तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ।

तहँ न असन नहिँ विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥

सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अवनी अकुलाई ॥

[देखा तो] वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था । तब राजा मनमें अपार चिन्ता करता हुआ लौटा । उसने ब्राह्मणोंको सब वृत्तान्त सुनाया और [बड़ा ही] भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४ ॥

दो०—भूपति भावी मिटइ नहिँ जदपि न दूषन तोर ।

किँँ अन्यथा होइ नहिँ विप्रश्राप अति घोर ॥ १७४ ॥

हे राजन् ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनेहार नहीं मिटता । ब्राह्मणोंका शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता ॥ १७४ ॥

चो०—अस कहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥

सोचहिँ दूषन देवहि देहीं । विरचत हंस काग किय जेहीं ॥

ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये । नगरवासियोंने [जब] यह समाचार पाया तो वे चिन्ता करने और विघाताको दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते-बनाते कीआ कर दिया (ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता बनाना चाहिये या सो राक्षस बना दिया) ॥ १ ॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खवरि जनाई ॥

तेहिँ खल जहँ तहँ पत्र पठाए । सजि सजिसेन भूप सब धाए ॥

पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर अमुर (कालकेतु) ने [फपटी] तपस्वीको खबर दी । उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [वैरी] राजा सेना सजा-सजाकर [चढ़] दौड़े ॥ २ ॥

जो यह दृष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा । [ऐसा विचारकर] ब्रह्माजीने सरस्वतीकी प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी । [जिससे] उसने छः महीनेकी नौद मांगी ॥ ४ ॥

दो०—गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र वर मागु ।

तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥ १७७ ॥

फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले—हे पुत्र ! वर मांगो । उसने भगवान्‌के चरणकमलोंमें निर्मल (निष्काम और अनन्य) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥

चौ०—तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिधाए । हरषित ते अपने गृह आए ॥

मय तनुजा मन्दोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा ॥

उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे (तीनों भाई) हर्षित होकर अपने वर लौट आये । मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी ॥ १ ॥

सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥

हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दौउ बंधु विआहेसि जाई ॥

मयने उसे लाकर रावणको दिया । उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा होगा । अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह कर दिया ॥ २ ॥

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥

सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा । कनक रचित मनिभवन अपारा ॥

समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था । [महान् मायावी और निपुण कारीगर] मय दानवने उसको फिरसे सजा दिया । उसमें मणियोंसे जड़े हुए सोनेके अनगिनत महल थे ॥ ३ ॥

भोगावति जसि अहिकुल वासा । अमरावति जसि सकनिवासा ॥

तिन्ह तेँ अधिक रम्य अति वंका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥

जैमो नागकुलके रहनेकी [पाताललोकमें] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहने-की [स्वर्गलोकमें] अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और वाँका वह दुर्ग था । जगत्में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥

उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत् जानता है। वह विष्णुमक्त और ज्ञान-विज्ञानका भण्डार था। और जो राजाके पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए ॥

कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥

कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाहिं विस्व परितापी ॥

वे सब अनेकों जातिक, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेकरहित, निर्दयी, हिसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वपन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

दो०—उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप ।

तदपि महीसुर श्राप वस भए सकल अघरूप ॥ १७६ ॥

यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मल और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणोंके शापके कारण वे सब पापरूप हुए ॥ १७६ ॥

चौ०—कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई । परम उग्र नहिं वरनि सो जाई ॥

गयउ निकट तप देखि विधाता । मागहु वर प्रसन्न मैं ताता ।

तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वपन नहीं हो सकता। [उनका उग्र] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोले—हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो ॥ १ ॥

करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥

हम काहू के मरहिं न मारें । वानर मनुज जाति दुइ वारें ॥

रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा—हे जगदीश्वर ! मुनिये, वानर और मनुष्य इन दो जातियोंको छोड़कर हम और किसीके मारे न मरें [यह वर दीजिये] ॥ २ ॥

एवमस्तु तुम्ह वड़ तप कीन्हा । मैं ब्रह्माँ मिलि तेहि वर दीन्हा ॥

पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयउ । तेहि विलोकि मन विसमय भयउ ॥

[शिवजी कहते हैं कि—] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये। उसे देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३ ॥

जौं एहि खल नित करव अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ॥

सारद प्रेरि तामु मति फेरी । मागेसि नीद मास पट केरी ॥

दो०—कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ ।

मनहुँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १७९ ॥

फिर उमने जाकर [एक वार] खिलवाइहीमे कैलास पर्वतको उठा लिया और मानो अपनी भुजाओंका बल तौलकर, बहुत सुख पाकर वह वहाँसे चला आया ॥ १७९ ॥

चाँ०—सुख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥

नित नूतन सब वाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभअधिकाई ॥

सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई—ये सब उसके नित्य नये [वैसे ही] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है ॥ १ ॥

अतिबल कुंभकरन अस भ्राता । जेहिकहुँ नहिं प्रतिभट जगजाता ॥

करइ पान सोवइ षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥

अत्यन्त बलवान् कुम्भकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगत्में पैदा ही नहीं हुआ । वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था । उसके जागते ही तीनों लोकोंमें तहलका मच जाता था ॥ २ ॥

जौं दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई ॥

समर धीर नहिं जाइ बखाना । तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥

यदि वह प्रतिदिन भोजन करता; तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट (खाली) हो जाता । रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [लङ्कामें] उसके-एसे अयंन्य बलवान् वीर थे ॥ ३ ॥

बारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥

जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहिं परावन होई ॥

मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगत्के योद्धाओंमें पहला नंबर था । रणमें कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था । स्वर्गमें तो [उसके भयसे] नित्य भगदड़ मची रहती थी ॥ ४ ॥

दो०—कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय ।

एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १८० ॥

[इसके अतिरिक्त] दुर्भंग, अकम्पन, वज्रवन्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि

दो०—खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव ।

कनक कोट मनि खचित दृढ़ वरनि न जाइ बनाव ॥ १७८(क) ॥

उमें चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है । उस [दुर्ग] के मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिमकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ (क) ॥

हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ जातुधानपति होइ ।

सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत वस सोइ ॥ १७८(ख) ॥

भगवान्की प्रेरणामे जिम कल्पमें जो राक्षसोंका राजा (रावण) होता है, वही सूर, प्रतापी, अनुनित बलवान् अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है ॥ १७८ (ख) ॥

चौ०—रहे तहाँ निसिचर भट भारे । ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥

अव तहँ रहहि सक्र केप्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति करे ॥

[पहले] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे । देवताओंने उन सबको युद्धमें मार डाला । अब इन्द्रकी प्रेरणामे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक (यक्षलोग) रहते हैं—॥ १ ॥

दसमुख कतहुँ खवारि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरोसि जाई ॥

देखि विकट भट बड़ि कटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥

रावणको कहीं ऐसी मन्त्र मिली तब उमने सेना सजाकर विज्जेको जा घेरा । उम वडे विकट योद्धा और उमकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥ २ ॥

फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ विसेपा ॥

सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥

तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा । उनकी [स्थानमध्यन्धी] चिन्ता भिट गयी और उमें बहुत ही सुख हुआ । उम पुरीको स्वाभाविक ही सुन्दर और [बाहर-वालोंके निये] दुर्गम अनुमान करके रावणने वहाँ अपनी राजधानी कायम की ॥ ३ ॥

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥

एक वार कुबेर पर धांवा । पुष्पक जान जीति लै आवा ॥

योग्यताके अनुसार घरोंको बाँटकर रावणने सब राक्षसोंको सुखों किया । एक बार वह कुबेरपर चढ़ दौड़ा और उमने पुष्पकविमानको जीतकर ले लिया ॥ ४ ॥

फिर उनने मेघनादको ब्रुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और [देवताओं के प्रति] वैरभावको उत्तेजना दी । [फिर कहा—] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर और बलवान् हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ १ ॥

तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥
एहि विधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥

उन्हें युद्धमें जीतकर बाँध लाना । वेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया । इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया ॥ २ ॥

चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर रवनी ॥
रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥

रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके गर्भ गिरने लगे । रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी गुफाएँ तकों (भागकर सुमेरुकी गुफाओंका आश्रय लिया) ॥ ३ ॥

दिगपालन्ह के लोक सुहाए । सूने सकल दसानन पाए ॥
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥

दिक्पालोंके सारे सुन्दर लोकोंको रावणने सूना पाया । वह बार-बार भारी सिंह-गजना करके देवताओंको ललकार-ललकारकर गालियाँ देता था ॥ ४ ॥

रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥
रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥

रणके मदमें मतवाना होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्भरमें बीड़ना फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, ॥ ५ ॥

किन्नर सिद्धमनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहिं लागा ॥
ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी । दसमुख बसवतीं नर नारी ॥

किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग—सभीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया (किन्तीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया) । ब्रह्माजीकी सृष्टिमें जहाँतक शरीर-धारी स्त्री-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन हो गये ॥ ६ ॥

ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे ॥ १८० ॥

चौ०—कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥

दसमुख बैठे सभों एक वारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥

गभीरा राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [आमुरी] माया जानते थे । उनके दशमुख स्वप्नमें भी नहीं था। एक बार सभामें बैठे हुए रावणने अपने अधर्मात्त परिवारको देखा ॥ १ ॥

सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥

सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥

पुत्र-पौत्र, कुटुम्बी और सेवक डेर-के-डेर थे । [गारी] राक्षसोंकी जातियोंकी तो गिन ही कौन सकता था ! अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्वमें सनी हुई वाणी बोला— ॥ २ ॥

सुनहुँ सकल रजनीचर जूया । हमरे बैरी विबुध बरूथा ॥

ते सनमुख नहिं करहिं लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥

हे ममस्त राक्षसोंके दलो ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं । वे सामने आकर युद्ध नहीं करते । वनवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥

तेन्ह कर मरन एक विधि होई । कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥

द्विजभोजन मुख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह वाधा ॥

उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ । अब उगे सुनो, [उनके वनको बढ़ानेवाले] ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध—इन सबमें जाकर तुम वाधा डालो ॥ ४ ॥

दो०—छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ ।

तव मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥

भयमें डुबें और बलहीन होकर देवता महजज्ञोम आ मिलेंगे । तब उनको मैं मार डालूँगा अथवा भलीभाँति अपने अधीन करके [सर्वथा पराधीन करके] छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥

चौ०—मेघनाथ कहूँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बलु वयरु बढ़ावा ॥

जे सर सगर धीम नवगन्ध । जिन्ह के लखिये कर भक्षिपाना ॥

सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई । देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥
नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना ॥

[उनके डरसे] कहीं भी शुभ आचरण (ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि) नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्नमें भी सुननेको नहीं मिलते थे ॥ ४ ॥

छं०—जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा ।

आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥

अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना ।

तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥

जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [देवताओके] भाग पानेकी बात रावण कहीं कानोंसे सुन पाता, तो [उसी समय] स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता था।

सो०—वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं ।

हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥ १८३ ॥

राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसापर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना ॥ १८३ ॥

मासपारायण, छठा विश्राम

चो०—बाढ़े खल बहु चोर जुआरा । जे लंपट परधन परदारा ॥

मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥

पराये धन और परायी स्त्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये। लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [की सेवा करना तो दूर रहा, उनटे उन] से सेवा करवाते थे ॥ १ ॥

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्राणी ॥

अतिमय देगि धर्म के ग्लानी । परम सभीन धरा अकृतानी ॥

आयसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥

डरके मारे सभी उमकी आजाका पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणोंमें सिर नवाते थे ॥ ७ ॥

दी०—भुजबल विस्व वस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र ।

मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८२ (क) ॥

उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने दिया । [इस प्रकार] मण्डलीके राजाओंका शिरोमणि (सार्वभौम मग्राट्) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ (क) ॥

देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि ।

जीति वरौ निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारि ॥ १८२ (ख) ॥

देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम स्त्रियोंको उसने अपने भुजाओंके बलसे जीतकर व्याह लिया ॥ १८२ (ख) ॥

ची०—इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥

प्रथमहिं जिन्ह कहँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जोकीन्हा ॥

मेघनादसे उसने जो कुछ कहा उसे उमने (मेघनादने) मानो पहलेसे ही कर खड़ा था (अर्थात् रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर नहीं की) । जिनको [रावणने मेघनादसे] पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें कीं, उन्हें सुनो ॥ १ ॥

देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥

करहिं उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया ॥

सब राक्षसोंके समूह देखनेमें बड़े भयानक, पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले थे । वे असुरोंके समूह उपद्रव करते थे और मायामे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे ॥ २ ॥

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं वेद प्रतिकूला ॥

जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं । नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं ॥

जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब बंदविरोध काम करते थे । जिस स्थानमें वे गौ और ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर, गाँव और पुरखेमें आग लगा

बो०—बैठे सुर सब करहिं विचारा । कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥

पुर बैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई ॥

सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार (फर्याद) करें। कोई बैकुण्ठपुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं ॥ १ ॥

जाके हृदयँ भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती ॥

तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ । अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ ॥

जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ (उसके लिये) सदा उसी रीतिसे प्रकट होते हैं। हे पार्वती ! उस समाजमें मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही—॥२॥

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ॥

देस काल दिसि विदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥

मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान् सब जगह समानरूपसे व्यापक हैं; प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशामें वताबो, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हों ॥३॥

अग जगमय सब रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥

मोर वचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥

वे चराचरमय (चराचरमें व्याप्त) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं (उनकी कहीं आसक्ति नहीं है); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं; जैसे अग्नि। (अग्नि अव्यक्त रूपसे सर्वत्र व्याप्त है; परंतु जहाँ उसके लिये अरणिमन्यनादि साधन किये जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान् भी प्रेमसे प्रकट होते हैं।) मेरी बात सबको श्रिय लगी। ब्रह्माजीने 'साधु-साधु' कहकर बड़ाई की ॥४॥

बो०—सुनि विरंचि मन हरष तन पुलकि नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५ ॥

मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [प्रेमके] आँसू बहने लगे। तब वे धीरवृद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—॥ १८५ ॥

[श्रीशिवजी कहते हैं कि—] हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियोंको राक्षस ही समझना । इस प्रकार धर्मके प्रति [लोगोंकी] अतिशय ग्लानि (अर्चि, अनास्था) देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥

गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥
सकल धर्म देखइ विपरीता । कहि न सकइ रावन भय भीता ॥

[वह सोचने लगी कि] पर्वतों, नदियों और समुद्रोंका बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही (दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला) लगता है । पृथ्वी सारे धर्मोंको विपरीत देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती ॥ ३ ॥

धेनु रूप धरि हृदयँ विचारी । गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥
निज संताप सुनाएसि रोई । काहू तें कछु काज न होई ॥

[अन्तमें] हृदयमें सोच-विचारकर, गौका रूप धारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ सब देवता और मुनि [छिपे] थे । पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना ॥ ४ ॥

छं०—सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोका ।
सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥
ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न वसाई ।
जा करि तैं दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥

तब देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीके लोक (सत्यलोक) को गये । भय और-शोकसे अत्यन्त व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी । ब्रह्माजी सब जान गये । उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलनेका । [तब उन्होंने पृथ्वीसे कहा कि—] जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है ।

सो०—धरनि धरहि मन धीर कह हरिचि हरिपद सुमिर ।

जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥ १८४ ॥

ब्रह्माजीने कहा—हे धरती ! मनमें धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो । प्रभु अपने दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिको नाश करेंगे ।

वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान् हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसारके (जन्म-मृत्युके) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं। हम सब देवताओंके समूह मन, वचन और कर्मसे चतुराई करनेकी वान छोड़कर उन (भगवान्) की शरण [आये] हैं ॥ ३ ॥

सारद श्रुति सेवा रिषय असेषा जा कहूँ कोउ नहिं जाना ।

जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥

भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा ।

मुनि सिद्ध सकलसुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ ४ ॥

सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं; ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्रीभगवान् हमपर दया करें। हे संसार-रूपी समुद्रके [मथनेके] लिये मन्दराचलरूप, सब प्रकारसे सुन्दर, गुणोंके धाम और सुखोंकी राशि नाथ! आपके चरणकमलोंमें मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गंभीर भइ हरनि शोक संदेह ॥ १८६ ॥

देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेहकी हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई—॥ १८६ ॥

चो०—जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ॥

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउँ दिनकर बंस उदारा ॥

हे मुनि, सिद्ध और देवताओंके स्वामियो! डरो मत। तुम्हारे लिये मैं मनुष्यका रूप धारण करूँगा और उदार (पवित्र) सूर्यवंशमें अंशोंसहित मनुष्यका अवतार लूँगा ॥ १९ ॥

कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहूँ मैं पूरव वर दीन्हा ॥

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥

कस्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दसरथ और कौसल्याके रूपमें मनुष्योंके राजा होकर श्रीवयोध्यापुरीमें प्रगट हुए हैं ॥ २ ॥

छं०—जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता ।

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥

पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई ।

जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ १ ॥

हे देवताओंके स्वामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतको रक्षा करनेवाले भगवान् ! आपकी जय हो ! जय हो !! हे गो-ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या- (श्रीलक्ष्मीजी) के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो ! हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभावसे ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हमपर कृपा करें ॥ १ ॥

जय जय अविनासी सब घट वासी व्यापक परमानंदा ।

अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥

जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृंदा ।

निसि वासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ २ ॥

हे अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले (अन्तर्यामी) सर्वव्यापक, परम अनन्दस्वरूप, अज्ञेय, इन्द्रियोंसे परे, पवित्र-चरित्र, मायासे रहित मुकुन्द (मोक्षदाता) ! आपकी जय हो ! जय हो !! [इस लोक और परलोकके सब भोगोंसे] विरक्त तथा ऐसे सर्वथा छूटे हुए (ज्ञानी) मुनिवृन्द भी अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी) बनकर जिनका दिन-दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं, उन सच्चिदानन्दकी

जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।

सो करउ अधारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥

जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरुथा ।

मन वच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ ३ ॥

जिन्होंने विना किसी दूसरे, संगी, अथवा सहायकके अकेले ही [या स्वयं अपनेको] प्र-ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप—बनाकर अथवा विना किसी उपादान कारणके अर्थात् सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनकर] तीन प्रकारकी सृष्टि

वे (वानर) पर्वतों और जंगलोंमें जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर भरपूर छ
गये। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमें छोड़ दिया था। ३
अवधपुरीं रघुकुलमनि राजु । वेद विदित तेहि दसरथ नाऊँ ।
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदयँ भगति मति सारँगपानी ।

अवधपुरीमें रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम वेदोंमें
विख्यात है। वे धर्मधुरन्धर, गुणोंके भण्डार और ज्ञानी थे। उनके हृदयमें शार्ङ्गधनुष धारण
करनेवाले भगवान्की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थी ॥४॥

दो०—कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत ॥ १८८ ॥

उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं। वे [बड़ी] विनीत
और पतिके अनुकूल [चलनेवाली] थीं और श्रीहरिके चरणकमलोंमें उनका दृढ़ प्रेम था। १८८

ची०—एक बार भूपति मन माहीं। भै गलानि मोरें सुत नाहीं।

गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाला।

एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही
गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय की ॥ १ ॥

निज दुखसुख सबगुरहि सुनायउ। कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझायउ।

धरहु धीर होइहहिं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी।

राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। गुरु वसिष्ठजीने उन्हें बहुत प्रकारसे
समझाया [और कहा—] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध
और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥ २ ॥

सृंगी रिषिहि वसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।

भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हें।

वसिष्ठजीने शृङ्गी ऋषिको बुलावाया और उनसे शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। मुनिव
भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमें चरु (हविष्यान्न खीर) लिये प्रकट हुए ॥३॥

जो वसिष्ठ कछु हृदयँ विचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा।

यह हवि वाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई।

तिन्ह केँ गृह अवतरिहउँ जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥

नारद वचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥

उन्हींकेँ घर जाकर मैं रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयोंकेँ रूपमें अवतार लूंगा । नारदकेँ सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति केँ सहित अवतार लूँगा ॥ ३ ॥

हरिहउँ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥

गगन ब्रह्मवानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥

मैं पृथ्वीका सब भार हर लूँगा । हे देववृन्द ! तुम निर्भय हो जाओ । आकाशमें ब्रह्म (भगवान्) की वाणीकी कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट गये । उनका हृदय शीतल हो गया । ४ ।

तव ब्रह्माँ धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जियँ आवा ॥

तव ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया । वह भी निर्भय हुई और उसकेँ जीमें भरोसा (ढाढ़स) आ गया ॥ ५ ॥

दो०—निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ ।

वानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७ ॥

देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर जाकर भगवान्केँ चरणोंकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये ॥ १८७ ॥

चो०—गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा ॥

जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा । हरषे देव विलंब न कीन्हा ॥

सब देवता अपने-अपने लोकको गये । पृथ्वीसहित सबकेँ मनको शान्ति मिली । ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने [वैसा करनेमें] देर नहीं की ॥ १ ॥

वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥

गिरि तरु नख आयुध सब वीरा । हरि मारग चितवहिँ मतिधीरा ॥

पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की । उनमें अपार बल और प्रताप था । सभी शूरवीर थे; पर्वत, वृक्ष और नख ही उनकेँ शस्त्र थे । वे धीर बुद्धिवाले [दानरूप देवता] भगवान्केँ आनेकी राह देखने लगे ॥ २ ॥

गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥

यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो सुनहु जो वीचहिँ

०—जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल ।

चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ १६० ॥

योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये। जड़ और चेतन सब हर्षसे भरे गये [क्योंकि] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है ॥ १६० ॥

०—नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥

मध्यदिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥

पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान्‌का प्रिय अभिजित् मुहूर्त्त था। दोपहरका समय था। न बहुत सरदी थी, न धूप (गरमी) थी। इस पवित्र समय सब लोकोंको शान्ति देनेवाला था ॥ १ ॥

शीतल मंद सुरभि वह बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥

न कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्रवहिं सकल सरिताऽमृतधारा ॥

शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन वह रहा था। देवता हर्षित थे और संतोंके मनमें बड़ा [चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतोंके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे और सारी दियों अमृतकी धारा बहा रही थीं ॥ २ ॥

गो अवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥

गगन विमल संकुल सुर जूथा । गावहिं गुन गंधर्व बरूथा ॥

जब ब्रह्माजीने वह (भगवान्‌के प्रकट होनेका) अवसर जाना, तब [उनके समेत] सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओंके समूहोंसे भर गया। गन्धर्वोंके दल गुणोंका गान करने लगे, ॥ ३ ॥

परषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । गहगहि गगन दुंदुभी बाजी ॥

अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहुविधिलावहिं निज निज सेवा ॥

और सुन्दर अञ्जलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प वरसाने लगे। आकाशमें घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा (उपहार) भेंट करने लगे ॥ ४ ॥

दो०—सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम ।

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम ॥ १६१ ॥

[और दण्डसे बोले—] वसिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया । हे राजन् ! [अब] तुम जाकर इस हविष्यान्न (पायस) को जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग बनाकर बाँट दो ॥ ४ ॥

दो०—तव अदृश्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ ।

परमानंद मगन नृप हरष न हृदयँ समाइ ॥ १८६ ॥

तदनन्तर अग्निदेव सारी सभाको समझाकर अन्तर्दान हो गये । राजा परमानन्दमें मगन हो गये, उनके हृदयमें हर्ष समाता न था ॥ १८६ ॥

चो०—तबहिं रायँ प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आई ॥

अर्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥

उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंको बुलाया । कौमल्या आदि सब [रानियाँ] वहाँ चली आयीं । राजाने [पायसका] आधा भाग कौसल्याको दिया [और शेष] आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥

कैकेई कहँ नृप सो दयऊ । रह्यो सो उभयभाग पुनि भयऊ ॥

कौसल्या कैकेई हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥

वह (उनमेंसे एक भाग) राजाने कैकेयीको दिया । शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कौसल्या और कैकेयीके हाथपर रखकर (अर्थात् उनकी अनुमति लेकर) और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्राको दिया ॥ २ ॥

एहि विधि गर्भसहित सब नारी । भई हृदयँ हरपित सुख भारी ॥

जा दिन तें हरि गर्भहिं आए । सकल लोक सुख संपति छाप ॥

इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुईं, वे हृदयमें बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला । जिस दिनसे श्रीहरि [लीलासे ही] गर्भमें आये, सब लोकोंमें सुख और सम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥

मंदिर महँ सब राजहिं रानीं । सोभा सील तेज की खानीं ॥

सुख जुत कष्टुक काल चलि गयऊ । जेहिं प्रभु प्रगटसो अवसर भयऊ ॥

शोभा, शील और तेजकी खान [बनी हुई] सब रानियाँ महलमें सुगोभित हुईं । इस प्रकार कुछ समय सुपुपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था । ४ ॥

सकराये । वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं । अतः उन्होंने [पूर्वजन्मकी] सुन्दर
क्या कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्रका (वात्सल्य) प्रेम प्राप्त हो (भगवान्के
प्रति पुत्रभाव हो जाय) ॥ ३ ॥

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ।

कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा ।

यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥ ४ ॥

माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह फिर बोली—हे तात ! यह रूप छोड़कर
अत्यन्त प्रिय बाललीला करो, [मेरे लिये] यह सुख परम अनुपम होगा । [माताका] यह
बचन सुनकर देवताओंके स्वामी सुजान भगवान्ने बालक [रूप] होकर रोना शुरू कर
दिया । [तुलसीदासजी कहते हैं—] जो इस चरित्रका गान करते हैं, वे श्रीहरिका पद पाते
हैं और [फिर] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते ॥ ४ ॥

दो०—विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ १६२ ॥

ब्राह्मण, गौ, देवता और संतोंके लिये भगवान्ने मनुष्यका अवतार लिया । वे
[अज्ञानमयी, मलिना] माया और उसके गुण (सत्, रज, तम) और [बाहरी तथा
भीतरी] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका [दिव्य] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [किसी
कर्मबन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थोंके द्वारा नहीं] ॥ १६२ ॥

चौ०—सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥

हरषित जहँ तहँ धाई दासी । आनँद मगन सकल पुरवासी ॥

बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली
बायीं । दासियाँ हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं । सारे पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥ १ ॥

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥

परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥

राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा गये । मनमें

देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुँचे । समस्त लोकोंकी शान्ति देनेवाले, जगदाधार-प्रभु प्रकट हुए ॥ १६१ ॥

छं०—भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी ।

हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥

लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी ।

भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी ॥ १ ॥

दीनोंपर दया करनेवाले कौसल्याजीके हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए । मुनियोंके मनको हरनेवाले उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी । नयनोंको आनन्द देनेवाला, मेघके समान श्याम शरीर था; चारों भुजाओंमें अपने (ग्रास) आयुध [धारण किये हुए] थे; [दिव्य] आमूषण और वनमाला पहने थे, बड़े-बड़े नेत्र थे । इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान् प्रकट हुए ॥ १ ॥

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनंता ।

माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता ॥

करुना सुख सागरसव गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता ।

सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ २ ॥

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी—हे अनन्त ! मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति कहूँ । वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बतलाते हैं । श्रुतियाँ और संतजन दया और सुखका समुद्र, सब गुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान् मेरे कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै ।

मम उरसो वासी यहउपहासी सुनत धीर मतिथिर नरहै ॥

उपजाजव ग्याना प्रभुसुकाना चरितं बहुत विधिकीन्ह चहै ।

काहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ ३ ॥

वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह [भरे] हैं । मैं तुम मेरे गर्भमें रहूँ—इस हँसीकी बातके सुननेपर धीर (विवेकी) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती (विचलित हो जाती है) । जब माताको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु

वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं। मागध,
त, वन्दीजन और गर्वये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं ॥ ३ ॥

र्वस दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥

गमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥

राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया । जिसने पाया उसने भी नहीं रक्खा (लुटा
दिया) । [नगरकी] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच
न्य गयी ॥ ४ ॥

दो०—गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद ।

हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद ॥ १६४ ॥

घर-घर मङ्गलमय वधावा वजने लगा, क्योंकि शोभाके मूल भगवान् प्रकट हुए
हैं । नगरके स्त्री-पुरुषोंके झुंड-के-झुंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो रहे हैं ॥ १६४ ॥

चौ०—कैकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भैं ओऊ ॥

वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥

कैकेयी और सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया । उस सुख, सम्पत्ति,
समय और समाजका वर्णन सरस्वती और सर्पोंके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ १ ॥

अवधपुरी सोहइ एहि भौंती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥

देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥

अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो
और सूर्यको देखकर मानो मनमें सकुचा गयी हो, परंतु फिर भी मनमें विचारकर वह
मानो संध्या बन [कर रह] गयी हो ॥ २ ॥

अगर धूप बहु जनु अँधिआरी । उड़इ अवीर मनहुँ अरुनारी ॥

मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥

अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [संध्याका] अन्धकार है और जो अवीर
उड़ रहा है, वह उसकी ललाई है । महलोंमें जो मणियोंके समूह हैं, वे मानो तारागण हैं ।
राजमहलका जो कलश है, वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥

भवन वेदधुनि अति स्रद्धु बानी । जनु स्वग सुखर समयँ जनु सानी ॥

कौतुक देखि पतंग भुताना । एक मास तेइँ जात न जाना ॥

अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। [आनन्द में अधीर हुईं] बुद्धिको धीरज देकर [और प्रेममें शिथिल हुए शरीरको संभालकर] वे उठना चाहते हैं ॥ २ ॥

जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरें गृह आवा प्रभु सोई ॥

परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ वजावहु वाजा ॥

जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये हैं। [यह सोचकर] राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया। उन्होंने वाजेवालोंको बुलाकर कहा कि वाजा बजाओ ॥ ३ ॥

गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥

अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥

गुरु वसिष्ठजीके पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये। उन्होंने जाकर अनुपम बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४ ॥

दो०—नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह ।

हाटक धेनु वसन मनि नृप त्रिप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥ १६३ ॥

फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना, गौ, वस्त्र और मणियोंका दान दिया ॥ १६३ ॥

चो०—ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥

सुमनवृष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥

ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया। जिस प्रकारसे वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं ॥ १ ॥

चंद्र चंद्र मिलि चलीं लोगाईं । सहज सिंगार किएँ उठि धाईं ॥

कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहिं भूप दुआरा ॥

स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं। स्वभाविक श्रृंगार किये ही वे उठ दीहीं। सोनेका कलश लेकर और थालोंमें मङ्गल द्रव्य भरकर गाती हुईं राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ २ ॥

करि आरति नेवछावरि करहीं । वार वार सिसु चरनन्हि परहीं ॥

मागध सूत वंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं ॥

दो०—मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहिं असीस ।

सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस ॥ १६६ ॥

राजाने सबके मनको संतुष्ट किया । [इसीसे] सब लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदासके स्वामी सब पुत्र (चारों राजकुमार) चिरजीवी (दीर्घायु) हों ॥ १६६ ॥

चौ०—कछुक दिवस बीते एहि भाँती । जात न जानिअ दिन अरु राती ॥

नामकरण कर अचसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते । तब नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजीको बुला भेजा ॥ १ ॥

करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥

इन्ह के नाम अनेक अनूपा । मैँ नृप कहब स्वमति अनुरूपा ॥

मुनिकी पूजा करके राजाने कहा—हे मुनि ! आपने मनमें जो विचार रखे हों, वे नाम रखिये । [मुनिने कहा—] हे राजन् ! इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥ २ ॥

जो आनंद सिंधु सुख रासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥

सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस (आनन्दसिन्धु) के एक कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं, उन (आपके सबसे बड़े पुत्र) का नाम 'राम' है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति देनेवाला है ॥ ३ ॥

विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥

जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्रुहन वेद प्रकासा ॥

जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन (आपके दूसरे पुत्र) का नाम 'भरत' होगा । जिनके स्मरणमात्रसे शत्रुका नाश होता है, उनका वेदोंमें प्रसिद्ध 'शत्रुघ्न' नाम है ॥ ४ ॥

दो०—लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ।

गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ १६७ ॥

जो शुभ लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगत्के आधार हैं, गुरु वसिष्ठजीने उनका 'लक्ष्मण' ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥ १६७ ॥

राजमवनमें जो अति कोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समयसे (समयानुकूल) सनी हुई पक्षियोंकी चहचहाहट है । यह कौतुक देखकर सूर्य भी [अपनी चाल] भूल गये । एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना (अर्थात् उन्हें एक महीना वहीं बीत गया) ॥ ४ ॥

दो०—मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ ।

रथ समेत रवि थाकेउ निसा कवन विधि होइ ॥ १६५ ॥

महीनेभरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नहीं जानता । सूर्य अपने रथसहित वहाँ रुक गये, फिर रात किस तरह होती ॥ १६५ ॥

चो०—यह रहस्य काहूँ नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥

देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन वरनत निज भागा ॥

यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [भगवान् श्रीरामजीका] गुणगान करते हुए चले । यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए अपने-अपने घर चले ॥ १ ॥

औरउ एक कहउँ निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥

काकभुसुंड़ि संग हम दोऊ । मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ ॥

हे पावती ! तुम्हारी बुद्धि [श्रीरामजीके चरणोंमें] बहुत दृढ़ है, इसलिये मैं और भी अपनी एक चोरी (छिपाव) की बात कहता हूँ, सुनो । काकभुसुंड़ि और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परंतु मनुप्यरूपमें होनेके कारण हम कोई जान न सका ॥ २ ॥

परमानंद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥

यह सुभ चरित जान पै सोई । कृपा राम कै जापर होई ॥

परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनों मगन मनसे (मस्त हुए) गलियोंमें [तन-मनकी सुधि] भूले हुए फिरते थे । परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो ॥ ३ ॥

तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥

गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नृप नानाविधि चीरा ॥

उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा लगा, राजाने उसे वही दिया । हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएँ, हीरे और भक्ति-भक्तिके वस्त्र राजाने दिये ॥ ४ ॥

उनके नील कमल और गम्भीर (जलसे भरे हुए) मेघके समान श्याम शरीरमें रोड़ों कामदेवोंकी शोभा है । लाल-लाल चरणकमलोंके नखोंकी [शुभ्र] ज्योति ऐसी लूम होती है जैसे [लाल] कमलके पत्तोंपर मोती स्थिर हो गये हों ॥ १ ॥

ख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥
टि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेहिं देखा ॥

[चरणतलोंमें] वज्र, ध्वजा और अङ्कुशके चिह्न शोभित हैं । नूपुर (पंजनी) की नि सुनकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता है । कमरमें करधनी और पेटपर तीन त्राएँ (त्रिवली) हैं । नाभिकी गम्भीरताको तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है ॥ २ ॥

ज्र विसाल भूषन जुत भूरी । हियँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥
र मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥

बहुतसे आभूषणोंसे सुशोभित विशाल भूजाएँ हैं । हृदयपर वाघके नखकी बहुत निराली छटा है । छातीपर रत्नोंसे युक्त मणियोंके हारकी शोभा और ब्राह्मण (भृगु) चरणचिह्नको देखते ही मन लुभा जाता है ॥ ३ ॥

कुंठ कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥
इ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को वरनै पारे ॥

कण्ठ शङ्खके समान (उतार-चढ़ाववाला, तीन रेखाओं से सुशोभित) है और रोड़ी बहुत ही सुन्दर है । मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही है । दो-दो सुन्दर तुलियाँ हैं, लाल-लाल ओठ हैं । नासिका और तिलक [के सौन्दर्य] का तो वर्णन ही न कर सकता है ॥ ४ ॥

सुन्दर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥
चिकन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥

सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं । मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं । जन्मके समयसे रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है ॥ ५ ॥

पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥
रूप स्वरहिं नहिं कहि श्रुति सेवा । सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा ॥

शरीरपर पीली झंगुली पहनायी हुई है । उनका घुटनों और हाथोंके बल चलना

चौ०—धरे नाम गुर हृदयँ विचारी । वेद तत्व नृप तव सुत चारी ॥

मुनि धन जन सरवस सिव प्राणा । बाल केलि रस तेहिँ सुख माना ॥

गुरुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रखे [और कहा—] हे राजन् ! तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्व (साक्षात् परात्पर भगवान्) हैं । जो मुनियोंके धन, भक्तोंके सर्वस्व और शिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [इस समय तुम लोगोंके प्रेमवश] बाल-लीलाके रसमें सुख माना है ॥ १ ॥

बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥

भरत सत्रुहन दूनउ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥

वचनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितपो स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति जोड़ ली । भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंमें स्वामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥ २ ॥

स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिँ छवि जननों तृन तोरी ॥

चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥

श्याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ तृण तोड़ती हैं [जिसमें दीठ न लग जाय] । यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं ॥ ३ ॥

हृदयँ अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥

कवहुँ उछंग कवहुँ वर पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥

उनके हृदयमें कृपालुपी चन्द्रमा प्रकाशित हैं । उनकी मनको हरनेवाली हँसी उत (कृपालुपी चन्द्रमा) की किरणोंकी सूचित करती है । कभी गोदमें [लेकर] और कभी उत्तम पालनेमें [लिटाकर] माता 'प्यारे ललना !' कहकर दुलार करती है ॥ ४ ॥

दो०—व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या केँ गोद ॥ १६८ ॥

जो सर्वव्यापक, निरञ्जन (मायारहित), निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें [खेल रहे] हैं ॥ १६८ ॥

चौ०—काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥

अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बैठे जनु मो

दो०—प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥

प्रेममें मगन कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं । पुत्रके स्नेहवश माता उनके बालचरित्रोंका गान किया करतीं ॥ २०० ॥

ची०—एक बार जननीं अन्हवाए । करि सिंगार पलनां पौढ़ाए ॥

निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥

एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और श्रृंगार करके पालनेपर पौढ़ा दिया । फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवान्की पूजाके लिये स्नान किया ॥ १ ॥

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा । आपु गई जहँ पाक बनावा ॥

बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई ॥

पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गयी थी । फिर माता वहीं (पूजाके स्थानमें) लौट आयी और वहाँ आनेपर पुत्रको [इष्टदेव भगवान्के लिये चढ़ाये हुए नैवेद्यका] भोजन करते देखा ॥ २ ॥

गै जननी सिसु पहिं भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥

बहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदयँ कंप मन धीर न होई ॥

माता भयभीत होकर (पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर) पुत्रके पास गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा । फिर [पूजा-स्थानमें लौटकर] देखा कि वही पुत्र वहाँ [भोजन कर रहा] है । उनके हृदयमें कंप होने लगा और मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन विसेषा ॥

देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥

[वह सोचने लगी कि—] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे । यह मेरी बुद्धिका भ्रम है या और कोई विशेष कारण है ? प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घबड़ायी हुई देखकर मधुर मुसुकानसे हँस दिया ॥ ४ ॥

दो०—देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥

मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन वेद और शोपजी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्नमें भी देखा हो ॥ ६ ॥

दो०—सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत ।

दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १६६ ॥

जो सुखके पुञ्ज, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं, वे भगवान् दशरथ-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके बश होकर पवित्र बाललीला करते हैं ॥ १६६ ॥

चौ०—एहिविधिरामजगतपितुमाता । कौसलपुर वासिन्ह सुखदाता ॥

जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी । तिन्हकी यह गतिप्रगट भवानी ॥

इस प्रकार [सम्पूर्ण] जगतके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं। जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है, हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [कि भगवान् उनके प्रेमबश बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं] ॥ १ ॥

रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सकइ भव बंधन छोरी ॥

जीव चराचर बस कै राखे । सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥

श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार-बन्धन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवोंको अपने बशमें कर रखा है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है ॥ २ ॥

भृकुटि विलास नचावइ ताही । अस प्रभु छाड़ि भजिअ कहुकाही ॥

मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥

भगवान् उस मायाको भौहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोड़कर कहो, [और] किसका भजन किया जाय। मन, वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ३ ॥

एहि विधि सिसुविनोद प्रभुकीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥

लै उछंग कवहुँक हलरावै । कवहुँ पालने घालि भुलावै ॥

इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बालक्रीड़ा की और समस्त नगरनिवासियोंको सुख दिया। कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-डुलाती और कभी पालनेमें लिटाकर झुत्ताती थीं ॥ ४ ॥

—बालचरितहरिवहुविधिकीन्हा। अति अनंददासन्ह कहँदीन्हा ॥
 कछुक काल बीतें सब भाई। वड़े भए परिजन सुखदाई ॥
 भगवान्ने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकोंको अत्यन्त आनन्द
 पायो। कुछ समय बीतनेपर चारों भाई वड़े होकर कुटुम्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥ १ ॥
 चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥
 परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥
 तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया। ब्राह्मणोंने फिर बहुत-सी दक्षिणा
 पायी। चारों सुन्दर राजकुमार वड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं ॥ २ ॥
 मन क्रम वचन अगोचर जोई। दूसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥
 भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥
 जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे
 हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बालसखाओंके समाजको छोड़-
 कर नहीं आते ॥ ३ ॥
 कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहिं पराई ॥
 निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि धावा ॥
 कौसल्याजी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुकु-ठुमुकु भाग चलते हैं। जिन
 वेद 'नेति' (इतना ही नहीं) कहकर निरूपण करते हैं और शिवजीने जिनका अन्त
 पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये दौड़ती हैं ॥ ४ ॥
 धूसर धूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाए ॥
 वे शरीरमें धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें बैठा लिया ॥
 दो०—भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ।
 भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ २० ॥
 भोजन करते हैं, पर चित्त चञ्चल है। अवसर पाकर मुँह में दही-भात लपटा
 कारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले ॥ २०३ ॥
 चौ०—बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति ॥
 जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए वि

फिर उन्होंने मानाहो आना अथवा अद्भुत मन दिखाना, जितने गुण-गुण रोममें करोड़ों प्रकारके नामे हुए हैं ॥ २०१ ॥

चौ०—अगनिनरविमसिसिवचनुरानन। बहुगिरिसरितसिंधुमहिकानन।

काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। मोड देखा जो सुना न काऊ ॥

अगनिन नम्रं, चन्द्रमा, जिव, ब्रह्मा, बहूक-ने पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, पाल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देणे और ये पदार्थ भी देणे जो कभी नुने भी न थे ॥ १ ॥

देखी गाया सब विधि गादी। अति सभात जोरं वर ठादी ॥

देखा जीव नचावड़ जाही। देवी भगति जो छोरेइ ताही ॥

नव प्रकारके बलवती मायाको देखा कि वह [भगवान् के गगने] अत्यन्त भयभीत हुए जोड़े पड़ी है। जिनको देखा, जिते वह माया नचाती है, और [फिर] भक्तियों देखा, जो उन जीवको [मायामें] छोड़ा देती है ॥ २ ॥

तन पुलकित मुख वचन न आया। नयन मृदि चरनानि सिरु नाया ॥

विसमयव्रंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥

[मानाका] शरीर पुलकित हो गया, मुखमें वचन नहीं निकलता। नय आंगे मूंदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मिर नचाया। मानाहो आश्चर्यचकित देखकर खरके जन्म श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये ॥ ३ ॥

अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुतकरि जाना ॥

हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहुँ कहसि रुनु माई ॥

[मानाहो] स्तुति भी नहीं की जानी। वह इर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माको पुत्र करके जाना। श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे गमनाया [और कहा—] हे माता! सुनो, यह बात कहींपर कहना नहीं ॥ ४ ॥

दो०—बार बार कौसल्या विनय करइ कर जोरि।

अव जनि कयहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥

कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो! मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे ॥ २०२ ॥

जाकर शिकार न्येकते हैं। मनमें पवित्र रामझणकर मृगोंको मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा (वनन्धजी) को निम्नवाने हैं ॥ १ ॥

जे मृग राम बान के मारे । ते ननु राजि सुखलोक सिधारे ॥

अनुज सखा खैय भोजन करहीं । मातु पिता अभ्या अनुसरहीं ॥

जो मृग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और नखाओंके साथ भोजन करते हैं और माता-पिताकी आज्ञात मान्यन करते हैं ॥ २ ॥

जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥

वेद पुराण सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥

जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला) करते हैं। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं।

प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥

आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरपइ मन राजा ॥

श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगरका काम करते हैं। उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े हर्षित होते हैं।

श्लो०—व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप ।

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥

जो व्यापक, अकल (निरवयव) इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं; तथा जिनका न नाम है, न रूप, वही भगवान् भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम (अलौकिक) चरित्र करते हैं ॥ २०५ ॥

श्लो०—यह सब चरित कहा में गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥

विश्वामित्र महामुनि ग्यानी । वसहिं त्रिपिन मुभ आश्रम जानी ॥

यह नव चरित्र मने गाकर (बनानकर) कहा। अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो। जानो महामुनि विश्वामित्रजी वनमें शुभ आश्रम (पवित्र स्थान) जानकर घगते थे, ॥ १ ॥

जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुवाहुहि डरहीं ॥

देखत जग्य निसाचर धावहिं । करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरन. (भोली) और सुन्दर (मनभावनी) बाललौनाओंका सरस्वती, शेषजी, शिवजी और वेदोंने गान किया है। जिनका मन इन लौनाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विवाताने उन मनुष्योंको वञ्चित कर दिया (नितान्त भाम्यहीन बनाया) ॥ १॥

भए कुमार जबहिं सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥
गुरुगृहँ गए पढ़न रघुराई । अल्प काल विद्या सब आई ॥

ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माताने उनका पञ्चोपवीत-संस्कार कर दिया। श्रीरघुनाथजी [भाइयोंसहित] गुरुके घरमें विद्या पढ़ने गये और थोड़े ही समयमें उनको सब विद्याएँ आ गयीं ॥ २ ॥

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥
विद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥

चारों वेद जिनके स्वाभाविक स्वास हैं, वे भगवान् पढ़ें, यह बड़ा कौतुक (अनन्य) है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलमें [बढ़ें] निपुण हैं और नव नृप-लीला सीलाओंके ही खेल-खेलते हैं ॥ ३ ॥

करतल वान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥
जिन्ह बीथिन्ह विहरहिं सब भाई । थकित होहिं सब लोग लुगाई ॥

हाथोंमें बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही नरानर (जड़-चेतन) माँहिन हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गनियोंमें खेलते [हुए निकलते] हैं, उन गनियोंके सभी स्त्री-मृग उनको देखकर स्नेहसे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाने हैं ॥ ४ ॥

चौ०—कोसलपुर वासी नर नारि वृद्ध अरु बाल ।

प्रानहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥

कोसलपुरके रहनेवाले स्त्री; पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको कृपालु श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंमें भी बढ़कर प्रिय लगते हैं ॥ २०४ ॥

चौ०—बंधु सखा मँग लेहिं बोलाई । बन मृगया नित खेलहिं जाई ॥
पावन मृग मारहिं जियँ जानी । दिन प्रति नृपहिं देखावहिं आनी ॥

श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-मित्रोंको बुलाकर साथ में लेते हैं और नित

फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया (उनसे प्रणाम कराया) । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि अपने देहकी सुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके मुखकी शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गये, मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर लुभा गया हो ॥ ३ ॥

तव मन हरषि वचन कह राज । मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ वारा ॥

तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे—हे मुनि ! इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की । आज किस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ? कहिये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा ॥ ४ ॥

असुर समूह सतावहिं मोही । मैं जाचन आयउँ नृप तोही ॥
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मैं होव सनाथा ॥

[मुनिने कहा—] हे राजन् ! राक्षसोंके समूह मुझे बहुत सताते हैं । इसीलिये मैं तुमसे कुछ माँगने आया हूँ । छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षसोंके मारे जानेपर मैं सनाथ (सुरक्षित) हो जाऊँगा ॥ ५ ॥

दा०—देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान ।

धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं इन्ह कहँ अति कल्याण ॥ २०७ ॥

हे राजन् ! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो । हे स्वामी ! इससे तुमको धर्म और सुयज्ञकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा ॥ २०७ ॥

चा०—सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥
चौथेंपन पायउँ सुत चारी । विप्र वचन नहिं कहेहु विचारी ॥

इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय कांप उठा और उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी । [उन्होंने कहा—] हे ब्राह्मण ! मैंने चौथेपनमें चार पुत्र पाये हैं; आपने विचारकर बात नहीं कही ॥ १ ॥

मागहु भूमि धेनु धन कोसा । सर्वस देउँ आजु सहरोसा ॥
देह प्रान ते प्रिय कछु नार्हीं । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥
हे मुनि ! आप पृथ्वी, गी, धन और खजाना माँग लीजिये, मैं आज बड़े हर्षके साथ

जहाँ वे मुनि जग, यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और मुवाहूमे बहुत उन्ने थे ।
यज्ञ उन्ने ही राजम दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाने थे, जिनसे मुनि [यज्ञ] दुःख पाने थे ॥

गाधितनय मन चिंता व्यापी । हरिविनुमरहिं ननिसिचर प्रापी ॥

तव मुनिवर मन कान्ह विचारा । प्रभु अवतरैउ हरन महि भाग ॥

गाधिते पुत्र विद्यामित्रजोके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राजम भगवान्को
[मारे] बिना न मरेंगे । तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भाग
हरनेके लिये अवतार किया है ॥ ६ ॥

एहँ मिस देखीं पद जाई । करि विनती आनीं दौड भाई ॥

ग्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखव भरि नयना ॥

इसी वहाने जाकर मैं उनके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको
ले आऊँ । [अह!] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोंके धाम हैं, उन प्रभुको मैं नेत्र
भरकर देखूँगा ॥ ४ ॥

दो०—बहुविधि करन मनोरथ जात लागि नहि धार ।

करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरवार ॥ २०६ ॥

बहुत प्रकारसे मनोरथ करने हुए जानमें देर नहीं लगी । सरयूजोके जलमें स्नान
करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे ॥ २०६ ॥

ची०—मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ लै विप्र समाजा ॥

करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बैठारैन्हि आनी ॥

राजाने जब मुनिका आना सुना, तब वे श्राद्धणोंके समाजको साथ लेकर मिलने गये
और दण्डवत् करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर बैठाया ॥ १ ॥

चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥

विविध भाँति भोजन करवावा । मुनिवर हृदयँ हरप अति पावा ॥

चरणोंको धोकर बहुत पूजा की और कहा—मेरे समान धन्य आजू दूसरा कोद
नहीं है । फिर अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयमें बहुत ही
हर्ष प्राप्त किया ॥ २ ॥

पुनि चरननि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥

भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि सोभा ॥

१०—अरुननयन उरवाहु विसाला । नील जलज तनु रथाम तमाला ॥

कटि पट पीत कमं वर भाथा । कृचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥

भगवान्‌के लाल नेत्र हैं, नीली छाती और विष्णुभक्त भुजाएँ हैं, नील कमल और पद्मके बुझकी तरह प्यास भरीर हैं, पायरोमें पीताम्बर [पहने] और सुन्दर तरवार लगे हुए हैं। दोनों हाथोंमें [क्रमणः] सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥ १ ॥

प्याम गौर सुन्दर दोड भाई । विस्वामित्र महानिधि पाई ॥

प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना । मोहिनितिपितातजेड भगवाना ॥

प्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विस्वामित्रजीको महान् निधि प्राप्त हो गयी। [ये सोचने लगे—] में जान गया कि प्रभु ब्रह्मन्यदेव (ब्राह्मणोंके राजा) हैं। मेरे लिये भगवान्‌ने अपने पिताको भी छोड़ दिया ॥ २ ॥

चले जान मुनि दीन्हि देखार्द । सुनि ताड़का क्रोध करि धार्द ॥

एकहिं वान प्राण हरि लीन्हा । दीनजानि तेहि निज पद दीन्हा ॥

भागमें चले जाते हुए मुनिने ताड़काको दिखनाथा। गन्ध सुगन्ते ही वह क्रोध करके सीढ़ी। श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकार उसके निजपद (अपना दिव्य स्वरूप) दिया ॥ ३ ॥

नव रिपि निजनाथहिजियँ चीन्ही । विद्यानिधि कहँ विद्या दीन्ही ॥

जाते लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥

तब प्रापि विस्वामित्रने प्रभुको मनमें विश्रवात शण्डार समझते हुए भी [लीला-को पूर्ण करनेके लिये] ऐसी विद्या दी, जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीरमें अतुलित बल और तेजस प्रकाश हो ॥ ४ ॥

१०—आयुध सर्व समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि ।

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०६ ॥

भय अश्र-शरत्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये; और उन्हें परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल और फलना भोजन कराया ॥ २०६ ॥

१०—प्रात कहा मुनि सन रघुरार्द । निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥

होम करन लागे मुनि झारी । आपु रहे मख की रखवारी ॥

अपना सर्वस्व दे दूंगा । देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पलमें दे दूंगा ॥ २ ॥

सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई । राम देत नहिं बनइ गोसाईं ॥

कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुन्दर सुत परम किसोरा ॥

सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभो ! रामको तो [किसी प्रकार भी] देते नहीं बनता । कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्थाके (विल्कुल सुकुमार) मेरे सुन्दर पुत्र ! ॥ ३ ॥

सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदयँ हरप माना मुनि ग्यानी ॥

तव वसिष्ठ बहुविधि समुझावा । तव संदेह नास कहँ पावा ॥

प्रेम-रसमें सानी हुई राजाकी वाणी सुनकर जानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा हर्ष माना । तब वसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका संदेह नाशको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥

अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए ॥

मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥

राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उन्हें शिक्षा दी । [फिर कहा—] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि ! [अब] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥

दो०—सौंपे भूप रिपिहि सुत बहुविधि देइ असीस ।

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥

राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंको श्रृपिके हवाले कर दिया । फिर प्रभु माताके महलमें गये और उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले ॥ २०८ (क) ॥

सो०—पुरुपसिंह दोउ वीर हरपि चले मुनि भय हरन ।

कृपासिंधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥ २०८(ख) ॥

पुरयोमें सिंहरूप दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) मुनिका भय हरनेके लिय प्रसन्न होकर चले । वे कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥ २०८ (ख) ॥

दो०—गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर ।

चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर ॥ २१० ॥

गौतम मुनिकी स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके चरणकमलोंकी धूलि चाहती है। हे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥

छं०—परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही ।

देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥

अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ वचन कही ।

अतिसयबड़भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जलधार वही ॥ १ ॥

श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी। भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीका देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी। अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; उसका शरीर पुलकित हो उठा; मुग्धसे वचन कहनेमें नहीं आते थे। वह अत्यन्त बड़भागीनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे लिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल (प्रेम और आनन्दके आंसुओं) की धारा बहने लगी ॥ १ ॥

धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई ।

अति निर्मल वानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुगई ॥

मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन मुखदाई ।

राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ २ ॥

फिर उसने मनमें धीरज धरकर प्रभुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी कृपासे भक्ति प्राप्त की। तब अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [इस प्रकार] स्तुति प्रारम्भ की— हे जानसे जाननेयोग्य श्रीरघुनाथजी ! आपकी जय हो। मैं [सहज ही] अपवित्र स्त्री हूँ; और हे प्रभु ! आप जगत्को पवित्र करनेवाले, भक्तोंको सुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं। हे कमलनयन ! हे संसार (जन्म-मृत्यु) के भयसे छुड़ानेवाले ! मैं आपकी शरण आयी हूँ; [मेरी] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २ ॥

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।

देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥

गदरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा—आप जाकर निडर होकर राज कीजिये । यह मुनिकर सब मुनि हवन करने लगे । आप (श्रीरामजी) यन्त्री स्ववाली-पर रहे ॥ १ ॥

सुनि मारीच निसाचर क्रोधी । तें सहाय धावा मुनिद्रोही ॥

विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥

यह समाचार सुनकर मुनिनोंका जवू क्रोधी गडस मारीच अपने सहायकोंको लेकर भाड़ा । श्रीरामजीने विना पलवान्ना वाप जगती मारा, जिससे वह गौ योजनके विन्गारखाने समुद्रके पार जा गिरा ॥ २ ॥

पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कट्ठु सँवारा ॥

मारि अगुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि शारी ॥

फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा । इधर छोटे भाई लक्ष्मणजीने नक्षत्रोंको मना-का संहार कर डाला । इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोंको मारकर ब्राह्मणोंको निर्भय कर दिया । तब तारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥

तहँ पुनि कष्टुक दिवसरघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दया ॥

भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥

श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की । भक्तिके कारण ब्राह्मणोंने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु गव जानते थे ॥ ४ ॥

तत्र मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥

धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा । हरपि चले मुनिवर के साथ ॥

तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा—हे प्रभो ! चलकर एक चरित्र देखिये । रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषजग्य [की बात] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विष्वा-मित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले ॥ ५ ॥

आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥

पृष्ठा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा विसेपी ॥

मागमें एक आश्रम दिखायी पड़ा । यहाँ पशु-पक्षी कोई भी जीव-जन्तु नहीं था । पृष्ठाजीने एक पिल्लासे देण्डकर प्रसन्ने पढ़ा । तत्र मुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही ॥ ६ ॥

जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी पृथ्वीपर आयी थीं ॥ १ ॥

तव प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । विविध दान महिदेवन्हि पाए
हरपि चले मुनि वृंद सहाया । बेगि विदेह नगर निअराया ।

तव प्रभुने ऋषियोंसहित [गङ्गाजीमें] स्नान किया । ब्राह्मणोंने भाँति-भाँति
दान पाये । फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरके निक
पहुँच गये ॥ २ ॥

पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत विसेषी ।
वापीं कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ।

श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त
हर्षित हुए । वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृतके समान ज
है और मणियोंकी सीढ़ियाँ [बनी हुई] हैं ॥ ३ ॥

गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा । कूजत कल बहुवरन विहंगा ।
वरन वरन विकसे वनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ।

मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं । रंग-विरंगे [बहुत
से] पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं । रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा (सब ऋतुओंमें)
सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन वह रहा है ॥ ४ ॥

दो०—सुमन वाटिका वाग वन विपुल विहंग निवास ।

फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥ २१२ ॥

पुष्पवाटिका (फुलवारी), वाग और वन, जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है
फूलते-फलते और सुन्दर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥

चौ०—वनइ न बरनत नगर निकार्ई । जहाँ जाइ मन तहँई लोभाई ।

चारु बजारु विचित्र अँवारी । मनिमय विधिजनु स्वकर सँवारी ।

नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं वनता । मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता
(रम जाता) है । सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मण
जन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ १ ॥

धनिक बनिक वर धनद समाना । बैठे सकल वस्तु लै नाना ।

चौहट सुंदर गलीं सुहाई । संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ।

विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागउँ वर आना ।

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ ३ ॥

मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया । मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह [करके] मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाले श्रीहरि (आप) को नेत्र भरकर देखा । इसी (आपके दर्शन) को शंकरजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं । हे प्रभो ! मैं बुद्धिकी बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है । हे नाथ ! मैं और कोई वर नहीं माँगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरणकमलकी रजकी प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥

जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी ।

सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥

एहि भाँति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी ।

जो अति मन भावा सो वरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥

जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजीने सिरपर धारण किया और जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपालु हरि (आप) ने उन्हींको मेरे सिरपर रक्खा । इस प्रकार [स्तुति करती हुई] वार-वार भगवान्के चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा, उस वरको पाकर गौतमकी स्त्री अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिलोकको चली गयी ॥ ४ ॥

दो०—अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल ।

तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ २११ ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबंधु और विना ही कारण दया करनेवाले हैं । तुलसीदासजी कहते हैं, हे शठ [मन] ! तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर ॥ २११ ॥

मासपारायण, सातवाँ विश्राम

चो०—चले राम लछिमन मुनि संग्ता । गए जहाँ जग पावनि गंगा ।

गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥

श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले । वे वहाँ गये जहाँ जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजी थी । महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी

बहुतसे शूरवीर, मन्त्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल-सरीखे ही हैं। नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुतसे राजालोग उत्तरे हुए (डेरा डाले हुए) हैं ॥ २ ॥

देखि अनूप एक अँवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥
कौंसिक कहेउ मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुवीर सुजाना ॥

[वही] आमोंका एक अनुपम वाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुभीते थे और जो सब तरहसे सुहावना था, विश्वामित्रजीने कहा—हे सुजान रघुवीर ! मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाये ॥ ३ ॥

भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनिवृंद समेता ॥
विश्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥

कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी 'बहुत अच्छा, स्वामिन् !' कहकर वहीँ मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये। मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४ ॥

दो०—संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति ।

चले मिलन मुनिनाथकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥ २१४ ॥

तब उन्होंने पवित्र हृदयके (ईमानदार, स्वामिभक्त) मन्त्री, बहुतसे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु (शतानन्दजी) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोंको साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४ ॥

चौ०—कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥

विप्रवृंद सब सादर वंदे । जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥

राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १ ॥

कुसल प्रश्न कहि वारहिं वारा । विश्वामित्र नृपहि बैठारा ॥

तेहि अवसर आए दोउ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥

बार-बार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे ॥ २ ॥

कुंवरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [दुकानों-
में] बँठे हैं। सुन्दर चौराहे और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धसे सिंची रहती हैं ॥ २ ॥

मंगलमय मंदिर सब करें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें ॥

पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥

सबके घर मङ्गलमय हैं और उनपर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवहृषी
चित्रकारने अंकित किया है। नगरके [सभी] स्त्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु स्वभाव-
वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् हैं ॥ ३ ॥

अति अनूप जहँ जनक निवासू। विथकहिं विवुध विलोकि विलासू ॥

होत चकित चित कोट विलोकी। सकल भुवन सोभा जनु रोक़ी ॥

जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम (सुन्दर) निवासस्थान (महल) है, वहाँके
विलास (ऐश्वर्य) को देखकर देवता भी थकित (स्तम्भित) हो जाते हैं। [मनुष्योंकी तो
बात ही क्या !] कोट (राजमहलके परकोटे) को देखकर चित्त चकित हो जाता है,
[ऐसा मालूम होता है] मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभाकी रोक (घेर) रख्या है ॥ ४ ॥

दो०—धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति ।

सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३ ॥

उज्ज्वल महलोंमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके
पदें लगे हैं। सीताजीके रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे जा सकता
है ॥ २१३ ॥

चां०—सुभग द्वारसत्र कुलिसकपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा ॥

वनी विसाल वाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला ॥

राजमहलके सब दरवाजे (फाटक) सुन्दर हैं, जिनमें बच्चके (मजबूत अथवा
हीरोंके चमकते हुए) किवाड़ लगे हैं। वहाँ [मातहत] राजाओं, नटों, मागधों और
भाटोंकी भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियोंके लिये बहूत बड़ी-बड़ी घुड़शालें और
गजशालाएँ (फीलखाने) बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथोंसे भरी
रहती हैं ॥ ५ ॥

सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सरिस सदन सब करे ॥

पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहँ विपुल महीपा ॥

इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मसुखको त्याग दिया है। मुनिने हँसकर कहा—हे राजन् ! आपने ठीक (यथार्थ ही) कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

ए प्रिय सवहि जहाँ लागि प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ॥
रघुकुल मनि दसरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पठाए ॥

जगत्में जहाँतक (जितने भी) प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं। मुनिकी [रहस्य-भरी] वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैं (हँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं)। [तब मुनिने कहा—] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं। मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ भेजा है ॥ ४ ॥

दो०—रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल धाम ।

मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥

ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके धाम हैं। सारा जगत् [इस वातका] साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है ॥ २१६ ॥

चौ०—मुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ ॥

सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आनँदहू के आनँद दाता ॥

राजाने कहा—हे मुनि ! आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥

इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥

मुनिहु नाथ कह मुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव सहज सनेह ॥

इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है; वह मनको बहुत भाती है; पर [वाणीसे] कही नहीं जा सकती। विदेह (जनकजी) आनन्दित होकर कहते हैं—हे नाथ ! सुनिये, ब्रह्म और जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है ॥ २ ॥

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥

मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लवाइ नगर अवनीसू ॥

राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं (दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती)। [प्रेमसे] शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयमें बड़ा उत्साह है। [फिर] मुनिकी

स्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥
उठे सकल जव रघुपति आए । विस्वामित्र निकट बैठाए ॥

सुकुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार नेत्रोंको सुख देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं। जब रघुनाथजी आये तब सभी [उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर] उठकर खड़े हो गये। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया ॥३॥

भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेहु विदेहु विसेषी ॥

दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रोंमें जल भर आया (आनन्द और प्रेमके आँसू उमड़ पड़े) और शरीर रोमाञ्चित हो उठे। रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह (जनक) विशेष रूपसे विदेह (देहकी सुध-चुधसे रहित) हो गये ॥ ४ ॥

दो०—प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि धीर ।

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥

मनको प्रेममें मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर घोरज धारण किया और मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर गदगद (प्रेममयी) गम्भीर वाणीसे कहा—॥ २१५ ॥

बो०—कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुलतिलक किनृपकुलपालक ॥

ब्रह्म जोनिगमनेतिकहिगावा । उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥

हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके आश्रुपण हैं या किसी राज-वंशके पालक ? अथवा जिसका वेदोंने 'नेति' कहकर गान किया है, कहीं यह ब्रह्म तो युगलरूप धरकर नहीं आया है ? ॥ १ ॥

सहज विरागरूप मनु मोरा । धकित होत जिमि चंद चकोरा ॥

ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥

मेरा मन जो स्वभावसे ही वैराग्यरूप [बना हुआ] है, [इन्हें देखकर] इन्हें तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर । हे प्रभो ! इसलिये मैं आपसे (निश्चल) भावसे पूछता हूँ; हे नाथ ! बताइये, छिपाय न कीजिये ॥ २ ॥

इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । वरवस ब्रह्मसुखहि मन ल्हा ॥

कह मुनि विहसि कहेहु नृप नीका । वचन तुम्हार न होइ ॥

यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे—हे राम ! तुम नीतिकी रक्षा कैसे न करोगे; हे तात ! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशीभूत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो ॥ ४ ॥

श्लो०—जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ ।

करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८ ॥

सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुन्दर मुख दिखलाकर सब [नगरनिवासियों] के नेत्रोंको सफल करो ॥ २१८ ॥

श्लो०—मुनिपदकमलबंदिदोउभ्राता । चले लोक लोचन सुख दाता ॥

बालक वृद्ध देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा ॥

सब लोकोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करके चले। बालकोंके झुंड इन [के सौन्दर्य] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये। उनके नेत्र और मन [इनकी माधुरीपर] लुभा गये ॥ १ ॥

पीत वसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥

तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥

[दोनों भाइयोंके] पीले रंगके वस्त्र हैं, कमरके [पीले] दुपट्टोंमें तरकस बंधे हैं। हाथोंमें सुन्दर धनुष-बाण सुशोभित हैं। [श्याम और गौर वर्णके] शरीरोंके अनुकूल (अर्थात् जिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फवे उस पर उसी रंगके) सुन्दर चन्दनकी खोर लगी है। साँवरे और गोरे [रंग] की मनोहर जोड़ी है ॥ २ ॥

केहरि कंधर बाहु विसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥

सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥

सिंहके समान (पुष्ट) गर्दन (गलेका पिछला भाग) है; विशाल भुजाएँ हैं। [चौड़ी] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र हैं। तीनों तापोंसे छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान मुख है ॥ ३ ॥

कानन्हि कनक फूल छवि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥

चितवनि चारु भृकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥

कानोंमें सोनेके कर्णफूल [अत्यन्त] शोभा दे रहे हैं और देखते ही [देखने-

प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें स्त्रिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें निवा चले ॥ ३ ॥

सुन्दर सदनु सुखदा सब काला । तहाँ वासु लै दीन्ह भुआला ॥
करि पूजा सब विधि सेवकाई । गयउ राउ गृह विदा कराई ॥

एक सुन्दर महल जो सब समय (सभी ऋतुओंमें) सुखदायक था, वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर ठहराया । तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा माँगकर अपने घर गये ॥ ४ ॥

दो०—रिपय संग रघुवंस मनि करि भोजनु विश्रामु ।

बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥ २१७ ॥

रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाई नदमणसमेत बैठे । उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥

चौ०—लखन हृदयँ लालसा चिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥

प्रभु भयबहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं ॥

नदमणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें । परन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं । इसलिये प्रकटमें कुछ नहीं कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ १ ॥

राम अनुज मन की गति जानी । भगत बछलना हियँ हुलसानी ॥

परम विनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥

[अन्तर्दामि] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाइँके मनकी दशा जान ली । [तब] उनके हृदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी । वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले—॥ २ ॥

नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं ॥

जों राउर आयसु मैं पावों । नगर देखाइ तुरत लै आवों ॥

हे नाथ ! लदमण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु (आप) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते । यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखनाकर तुरंत ही [आपस] ले आऊँ ॥ ३ ॥

सुनि मुनीसु कह वचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥

धरम सेतु पालक तुम्ह ताना । प्रेम विवस सेवक सुखदा । ॥

—वय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख धाम ।

अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ २२० ॥

इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, साँवले और गोरे रंगके तथा सुखके धाम इनके अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥

०—कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥

कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥

हे सखी ! [भला] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर मोहित हो जाय (अर्थात् यह रूप जड़-चेतन सबको मोहित करनेवाला है) । [तब] कोई दूसरी स्त्री प्रेमसहित कोमल वाणीसे बोली, हे सयानी ! मैंने जो सुना है, उसे सुनो—॥ १ ॥

ए दोऊ दशरथ के ढोटा । बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥

मुनि कौसिक मुख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥

ये दोनों [राजकुमार] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं । बाल राजहंसोंका-सा सुन्दर जोड़ा है । ये मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मैदानमें राक्षसोंको मारा है ।

स्याम गात कल कंज विलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥

कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥

जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहुके मदको चूर करनेवाले और सुखकी खान हैं; और जो हाथमें धनुष-बाण लिये हुए हैं, वे कौसल्याजीके पुत्र हैं; इनका नाम राम है ॥ ३ ॥

गौर किसोर वेषु वर कछें ।

चाप राम के पाछें ॥

लछिमनु नामु राम लघु भ्राता ।

ता माता ॥

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्थाके लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चलनेवाला है । हे सखी ! यही उनकी माता

हाथ

०—विप्रकाजु दोउ

आए

दोनों भाई

वालेके] चित्तको मानो चुरा लेते हैं । उनकी चितवन (दृष्टि) बड़ी मनोहर है और भौंहे तिरछी एवं सुन्दर है । [मायेपर] तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [मूर्ति-मती] शोभापर मुहर लगा दी गयी है ॥ ४ ॥

दो०—रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस ।

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥ २१६ ॥

सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [दिये] हैं, काले और घुंघराले बाल हैं । दोनों भाई नखसे लेकर शिखातक (एड़ीसे चौटीतक) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिये वैसी ही है ॥ २१६ ॥

चौ०—देखन नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥

धाए धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥

जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये हैं, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री [धन-का] खजाना लूटने दौड़े हों ॥ १ ॥

निरख सहज सुंदर दोउ भाई । होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥

जुवतीं भवन झरोखनिह लागीं । निरखहिं राम रूप अनुरागीं ॥

स्वभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोंका फल पाकर सुखी हो रहे हैं । युवती स्त्रियाँ घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ २ ॥

कहहिं परसपर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥

सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं ॥

वे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं—हे सखी ! इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छविको जीत लिया है । देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ ३ ॥

विष्णु चारि भुज त्रिधि मुख चारी । विकट वेष मुख पंच पुरारी ॥

अपर देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥

भगवान् विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्माजीके चार मुख हैं, शिवजीका विकट (भयानक) वेष है और उनके पाँच मुँह हैं । हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छविकी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥

दूसरीने कहा—हे सखी ! तुमने बहुत अच्छा कहा । इस विवाहसे सभीका परम हित है । किसीने कहा—शंकरजीका धनुष कठोर है और ये साँवले राजकुमार कोमल शरीरके बालक हैं ॥ १ ॥

सत्रु असमंजस अहइ सयानी । यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी ॥

सखि इन्ह कहँ कोउकोउअसकहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥

हे सयानी ! सब असमंजस ही है । यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने लगी—हे सखी ! इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है ॥ २ ॥

परसि जासु पद पंकज धूरी । तरी अहल्या कृत अध भूरी ॥

सो कि रहिहि विनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥

जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष विना तोड़े रहेंगे । इस विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥

जेहिं विरंचि रचि सीय सँवारी । तेहिं स्यामल बरु रचेउ विचारी ॥

तासु वचन सुनि सब हरषानीं । ऐसेइ होउ कहहिं मृदु बानीं ॥

जिस ब्रह्माने सीताको सँवारकर (बड़ी चतुराईसे) रचा है, उसीने विचारकर साँवला वर भी रच रक्खा है । उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणीसे कहने लगीं—ऐसा ही हो ॥ ४ ॥

दो०—हियँ हरषहिं वरषहिं सुमन सुमुखि सुलौचनि वृंद ।

जाहिं जहाँ जहँ बन्धु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३ ॥

सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं । जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥

चौ०—पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई । जहँ धनुमख हित भूमि बनाई ॥

अति विस्तार चारु गच ढारी । विमल वेदिका रुचिर सँवारी ॥

दोनों भाई नगरके पूरव ओर गये, जहाँ धनुषयज्ञके लिये [रंग] भूमि बनायी गयी थी । बहुत लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मल बेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥

अहल्याका उद्धार करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुईं ॥

चौ०—देखि राम छवि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह वरु अहई ॥

जौं सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि करइ विवाहू ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक (दूसरी सखी) कहने लगी—यह वर जानकीके योग्य है। हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा ॥ १ ॥

कोउ कह ए भूपति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥

सखि परंतु पनु राउ न तजई । विधि बस हठि अविबेकहि भजई ॥

किसीने कहा—राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहारके वशीभूत होकर हठपूर्वक अविबेकका ही आश्रय लिये हुए है (प्रणपर अड़े रहनेकी मूर्खता नहीं छोड़ता) ॥ २ ॥

कोउ कह जौं भल अहइ विधाता । सब कहँ सुनिअ उचित फल दाता ॥

तौ जानकिहि मिलिहि वरु एहू । नाहिन आलि इहाँ सदेहू ॥

कोई कहती है—यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकीजीको यही वर मिलेगा। हे सखी ! इसमें सदेह नहीं है ॥ ३ ॥

जौं विधि बस अस वनै सँजोगू । तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥

सखि हमरें आरति अति तातें । कबहुँक ए आवाहिं एहि नातें ॥

जो देवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें। हे सखी ! मेरे तो इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥

बो०—नाहिं त हम कहँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि ।

यह संघट्टु तव होइ जव पुन्य पुराकृत भूरि ॥ २२२ ॥

नहीं तो (विवाह न हुआ तो) हे सखी ! सुनो; हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हों ॥ २२२ ॥

बो०—बोलीअपरकहेहु सखिनीका । एहिं विआह अतिहित सबही का ॥

कोउ कह संकर चाप कठोरा । ए स्यामल मृदुगात किंसोरा ॥

[यज्ञभूमिकी] रचना दिखलाते हैं । जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनिमेष (पलक गिरनेके चौथाई समय) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डालती है, ॥ २ ॥

भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला ॥
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंबु त्रास मन माहीं ॥

वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाको चकित होकर (आश्चर्यके साथ) देख रहे हैं । इस प्रकार सब कौतुक (विचित्र रचना) देखकर वे गुरुके पास चले । देर हुई जानकर उनके मनमें डर है ॥ ३ ॥

जासु त्रास डर कहूँ डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई । किए विदा बालक वरिआई ॥

जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [जिसके कारण ऐसे महान् प्रभु भी भयका नाटक करते हैं] दिखला रहे हैं । उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंको जबरदस्ती विदा किया ॥ ४ ॥

दो०—सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥ २२५ ॥

फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलोंमें सिर नवाकर, आज्ञा पाकर बैठे ॥ २२५ ॥

चौ०—निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्यावंदनु कीन्हा ॥

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥

रात्रिका प्रवेश होते ही (संध्याके समय) मुनिने आज्ञा दी, तब सबने संध्यावन्दन किया । फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १ ॥

मुनिवर सयन कीन्हि तव जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥

जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥

नव श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दवाने लगे । जिनके चरणकमलोंके [दर्शन एवं स्पर्शके] लिये वैराग्यवान् पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं, ॥ २ ॥

तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥

बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तव कीन्ही ॥

चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला । रचे जहाँ बैठहिं महिपाला ॥

तेहि पाछें समीप चहुँ पासा । अपर मंच मंडली बिलासा ॥

चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे, जिनपर राजालोग बैठेंगे । उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २ ॥

कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बैठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥

तिन्ह के निकट विसाल सुहाए । धवल धाम बहुवरन बनाए ॥

वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था, जहाँ जाकर नगरके लोग बैठेंगे । उन्हींके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं ॥ ३ ॥

जहँ बैठें देखहिं सब नारी । जथाजोगु निज कुल अनुहारी ॥

पुर बालक कहि कहि मृदु वचना । सादर प्रभुहि देखावहि रचना ॥

जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य (जिसको जहाँ बैठना उचित है) बैठकर देखेंगी । नगरके बालक कोमल वचन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको [यज्ञशालाकी] रचना दिखला रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—सब सिसु एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गात ।

तन पुलकहिं अति हरषु हियँ देखि देखि दौड भ्रात ॥ २२४ ॥

सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अङ्गोंको छूकर शरीरसे पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयोंको देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है ॥ २२४ ॥

चौ०—सिसु सब राम प्रेमवस जाने । प्रीति समेत निकेत वखाने ॥

निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दौड भाई ॥

श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर [यज्ञभूमिके] स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की । [इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे] वे सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और [प्रत्येकके बुलाने-पर] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते हैं ॥ १ ॥

राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥

लव निमेष महुँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥

कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको

[यज्ञभूमिकी] रचना दिखलाते हैं । जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनिमेष (पत गिरनेके चौथाई समय) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डालती है, ॥ २ ॥

भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंबु त्रास मन माहीं

वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाको चकित होकर (आश्चर्यके साथ) देख रहे हैं । इस प्रकार सब कौतुक (विचित्र रचना) देखकर वे गुरुके पास चले । देर हुई जानकर उनके मनमें डर है ॥ ३ ॥

जासु त्रास डर कहूँ डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई । किए बिदा बालक बरिआई ॥

जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [जिसके कारण ऐसे महान् प्रभु भी भयका नाट्य करते हैं] दिखला रहे हैं । उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंको जबरदस्ती विदा किया ॥ ४ ॥

दो०—सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥ २२५ ॥

फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलोंमें सिर नवाकर, आज्ञा पाकर बैठे ॥ २२५ ॥

चौ०—निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा ॥

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥

रात्रिका प्रवेश होते ही (संध्याके समय) मुनिने आज्ञा दी, तब सबने संध्यावन्दन किया । फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १ ॥

मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥

जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥

तब श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे । जिनके चरणकमलोंके [दर्शन एवं स्पर्शके] लिये वैराग्यवान् पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं, ॥ २ ॥

तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥

बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥

वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको दबा रहे हैं। मुनिने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥

चापत चरन लखनु उर लाएँ । समय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता ॥

श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुघका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार कहा—हे तात ! [अब] सो जाओ । तब वे उन चरणकमलोंको हृदयमें धरकर नेट रहे ॥ ४ ॥

दो०—उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान ।

गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥

रात बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे। जगतके स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥

चौ०—सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥

समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दौड भाई ॥

सब शौचक्रियां करके वे जाकर नहाये। फिर [संध्या-अग्निहोत्रादि] नित्य-कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया। [पूजाका] समय जानकर, गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ १ ॥

भूप बागु वर देखेउ जाई । जहँ वसंत रितु रही लोभाई ॥

लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन वर बेलि विताना ॥

उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ बसन्त ऋतु लुभाकर रह गयी है। मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग-विरंगी उत्तम तताओंके मण्डप छाये हुए हैं ॥२॥

नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लंजाए ॥

चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥

नये पत्तों, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिमें कल्पवृक्षको भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी भीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥ ३ ॥

मध्य वाग सरु सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा ॥

विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भुंगा ॥

वागके बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—वागु तड़ागु विलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत ।

परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥ २२७ ॥

वाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हर्षित हुए। यह वाग [वास्तवमें] परम रमणीय है, जो [जगत्को सुख देनेवाले] श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है ॥ २२७ ॥

ची०—चहुँदिसिचितइ पूँछिमालीगन । लगेलेन दल फूल मुदित मन ॥

तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥

चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने लगे। उसी समय सीताजी वहाँ आयीं। माताने उन्हें गिरिजा (पार्वती) जीकी पूजा करनेके लिये भेजा था ॥ १ ॥

संग सखीं सब सुभग सयानीं । गावहिं गीत मनोहर बानीं ॥

सर समीप गिरिजा गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥

साथमें सब सुन्दरी और सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं। सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ २ ॥

मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरि निकेता ॥

पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥

सखियोंसहित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमें गयीं। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा ॥ ३ ॥

एक सखी सिय संगु बिहाई । गई रही देखन फुलवाई ॥

तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहिं आई ॥

एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी बेखने चली गयी थी। उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा और प्रेममें विह्वल होकर वह सीताजीके पास आयी ॥ ४ ॥

वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको दबा रहे हैं। मुनिने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जाकर भयन किया ॥ ३ ॥

चापत चरन लखनु उर लाएँ । सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढे धरि उर पद जलजाता ॥

श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुधका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी उनको दबा रहे हैं । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार कहा—हे तात ! [अब] सो जाओ । तब वे उन चरणकमलोंको हृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४ ॥

दो०—उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान ।

गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥

रात बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगतके स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥

चौ०—सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥

समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥

सब शौचक्रियां करके वे जाकर नहाये । फिर [संध्या-अग्निहोत्रादि] नित्य-कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया । [पूजाका] समय जानकर, गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ १ ॥

भूप बागु वर देखेउ जाई । जहँ वसंत रितु रही लोभाई ॥

लागे विटप मनोहर नाना । बरन बरन वर बेलि विताना ॥

उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ बसन्त ऋतु लुभाकर रह गयी है । मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हैं । रंग-विरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं ॥ २ ॥

नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लजाए ॥

चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥

नये पत्तों, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षकी भी लजा रहे हैं । पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥ ३ ॥

मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा ॥

विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भृंगा ॥

नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर-उधर देख रही हो ॥ २२६ ॥

ची०—कंकण किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखनसन रामु हृदयँ गुनि ॥

मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व विजय कहँ कीन्ही ॥

कंकण (हाथोंके कड़े), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर लक्ष्मणसे कहते हैं—[यह ध्वनि ऐसी आ रही है] मानो कामदेवने विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर चोट मारी है ॥ १ ॥

अस कहि फिरिचितएतेहि ओरा । सियमुख ससि भए नयन चकोरा ॥

भए बिलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचिनिमितजे दिगंचल ॥

ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा । श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा [को निहारने] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये (टकटकी लग गयी) । मानोनिमि (जनकजीके पूर्वज) ने [जिनका सबकी पलकोंमें निवास माना गया है, लड़की-दामादके मिलन-प्रसङ्गको देखना उचित नहीं; इस भावसे] सकुचाकर पलकें छोड़ दीं (पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका गिरना रुक गया) ॥ २ ॥

देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदयँ सराहत बचनु न आवा ॥

जनु विरंचि सब निज निपुनाई । विरचि बिस्व कहँ प्रगटि देखाई ॥

सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया । हृदयमें वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुखसे वचन नहीं निकलते । [वह शोभा ऐसी अनुपम है] मानो ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान् कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥

सुंदरता कहँ सुंदर करई । छबिगृहँ दीपसिखा जनु वरई ॥

सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरौं विदेहकुमारी ॥

वह (सीताजीकी शोभा) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है । [वह ऐसी मालूम होती है] मानो सुन्दरतारूपी घरमें दीपककी लौ जल रही हो । (अबतक सुन्दरतारूपी भवनमें अंधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है ।) सारी उपमाओंके कवियोंने जूठा कर रच्यो है । मैं जनकान्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ ॥

दो०—तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नैन ।

कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब मृदु बैन ॥ २२८ ॥

सखियोंने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें जल भरा है। सब कोमल वाणीसे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता ॥ २२८ ॥

चो०—देखन वागु कुअँर दुइ आए । वय किसोर सब भाँति सुहाए ॥

स्यामगौरकिमि कहाँ बखानी । गिरा अनयन नयन विनु बानी ॥

[उसने कहा—] दो राजकुमार वाग देखने आये हैं। किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रकारसे सुन्दर हैं। वे साँवले और गोरे [रंगके] हैं। उनके सौन्दर्यको मैं कैसे बखानकर कहूँ। वाणी बिना नेत्रकी है और नेत्रोंके वाणी नहीं है ॥ १ ॥

सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हियँ अति उत्कंठा जानी ॥

एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए काली ॥

यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कंठा जानकर सब सपानी सखियाँ प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी—हे सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं ॥ २ ॥

जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥

बरनत छवि जहँ तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगू ॥

और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी ढालकर नगरके स्त्री-पुरुषोंको अपने वशमें कर लिया है। जहाँ-तहाँ सब लोग उन्हींकी छबिका वर्णन कर रहे हैं। अवश्य [चलकर] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हैं ॥ ३ ॥

तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥

चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥

उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलीं। पुरानी प्रीतिको कोई लय नहीं पाता ॥ ४ ॥

दो०—सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत ।

चकित्त विलोकतिसकल दिसिजनु सिसुमृगीसभीत ॥ २२९ ॥

उनके मुखरूपी कमलके छविरूप मकरन्द-रसको भौरैकी तरह पी रहा है ॥ २३१ ॥

चौ०-चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहँ गए नृपकिसोर मनु चिंता ॥

जहँ विलोक मृग सावक नैनी । जनु तहँ बरिस कमलसित श्रेनी ॥

सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं । मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गये । बालमृगनयनी (मृगके छौनेकी-सी आँखवाली) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलोंकी कतार बरस जाती है ॥ १ ॥

लता ओट तव सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥

देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥

तव सखियोंने लताकी ओटमें सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखलाया । उनके रूपको देखकर नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया ॥ २ ॥

थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहूँ परिहरीं निमेषें ॥

अधिक सनेहँ देह भै भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥

श्रीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र चकित (निश्चल) हो गये । पलकोंने भी गिरना छोड़ दिया । अधिक स्नेहके कारण शरीर विह्वल (बेकाबू) हो गया, मानो शरद ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [बेसुध हुई] देख रही हो ॥ ३ ॥

लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥

जब सिय सखिन्ह प्रेमवस जानी । कहि नसकहिं कछु मन सकुचानी ॥

नेत्रोंके रास्ते श्रीरामजीको हृदयमें लाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने पलकोंके किवाड़ लगा दिये (अर्थात् नेत्र मूदकर उनका ध्यान करने लगीं) । जब सखियोंने सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे मनमें सकुचा गयीं; कुछ कह नहीं सकती थीं ॥ ४ ॥

दो०-लताभवन तें प्रकट भै तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ ॥ २३२ ॥

उसी समय दोनों भाई लतामण्डप (कुंज) मेंसे प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादलोंके पर्दों को हटाकर निकले हों ॥ २३२ ॥

चौ०-सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ॥

मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥

दो०—सिय सोभा हियँ वरनि प्रभु आपनि दसा विचारि ।

बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारि ॥ २३० ॥

[इस प्रकार] हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी दशाको विचारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे समयानुसूल वचन बोले ॥ २३० ॥

चौ०—तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥

पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥

हे तात ! यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रहा है । मगियाँ इसे गौरी-पूजनके लिये ले आयी हैं । यह फुलवाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥ १ ॥

जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥

सो सबु कारन जान विधाता । फरकहि सुभद्र अंग सुनु भ्राता ॥

जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है । वह सब कारण (अथवा उसका सब कारण) तो विधाता जानें । किन्तु हे भाई ! सुनो, मेरे मङ्गलदायक (दाहिने) अङ्ग फड़क रहे हैं ॥ २ ॥

रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥

रघुवंशियोंका यह सहज (जन्मगत) स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर पैर नहीं रखता । मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विग्रवाम है कि जिनने [जाग्रतकी कौन कहे] स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली है ॥ ३ ॥

जिन्ह कै लहहिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥

मंगन लहहिं न जिन्ह कै नाहीं । ते नखर थोरे जग माहीं ॥

रणमें शत्रु जिनको पीठ नहीं देख पाते (अर्थात् जो लड़ाईके मैदानमें भागते नहीं), परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं गाँच पातीं और मिश्रारी जिनके यहाँमें 'नाहीं' नहीं पाते (यानी ह्राय नहीं लौटते) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं ॥ ४ ॥

दो०—करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान ।

मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥

यों श्रीरामजी छोटे भाईने बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें

[खड़े] देखा । नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर और फिर पिताका प्रयाद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया ॥ २ ॥

परवस सखिन्ह लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहिं सभीता ।
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ।

जब सखियोंने सीताजीको परवश (प्रेमके वश) देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगीं—बड़ी देर हो गयी [अब चलना चाहिये] । कल इसी समय फिर आर्योगी ऐसा कहकर एक सखी मनमें हँसी ॥ ३ ॥

गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ विलंबु मातु भय मन्नी ।
धरि बड़ि धीर रामु उर आने । फिरी अपनपउ पितु बस जाने ।

सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं । देर हो गयी जा उन्हें माताका भय लगा । बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें ले आर्य और [उनका ध्यान करती हुई] अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट चलीं ॥ ४ ॥

दो०—देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि ।

निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ २३४ ॥

मृग, पक्षी और वृक्षोंको देखनेके वहाने सीताजी बार-बार घूम जाती हैं और श्रीरामजीकी छवि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है (अर्थात् बहुत ही बढ़ता जाता है) ।

चौ०—जानिकठिनसिवचापबिसूरति । चली राखि उरस्यामल मूरति

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी

शिवजीके धनुषको कठोर जानकर वे विसूरती (मनमें विलाप करती) हुई हृदय श्रीरामजीकी साँवली मूर्तिको रखकर चलीं । (शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणामस्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ था ही, इसलिये मनमें विलाप करने लगीं । प्रेमवश ऐश्वर्यविस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवान्के बलका स्मरण आते ही वे हर्षित हो गयीं और साँवली छत्रको हृदयमें धारण करके चलीं । प्रभु श्रीरामजीने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥ १ ॥

परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चाह चित्त भोतीं लिखि लीन्ही
गई भवानी भवन बहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी

दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आभा नीले और पीले कमलकी-सी है। सिरपर सुन्दर मोरपंख मुशोभित है। उनके बीच-बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं।

भाल . तिलक श्रमविंदु सुहाए । श्रवण सुभग भूपन छवि छाए ॥

विकट भृकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥

माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं। कानोंमें सुन्दर भूषणोंकी छवि छापी है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल) नेत्र हैं।

चारु चिबुक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला ॥

मुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥

ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुन्दर है और हँसीकी शोभा मनको मोल लिये लेती है। मुखकी छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं।

उर मनि माल कंबु कल गीवा । काम कलभ कर भुज बलसीवा ॥

सुमन समेत वाम कर दोना । सावँर कुअँर सखी सुठि लोना ॥

वक्षःस्थलपर मणियोंकी माला है। शङ्खके सदृश सुन्दर गला है। कामदेवके हाथीके वच्चेकी सँडके समान (उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं। जिसके बायें हाथमें फूलोंसहित दोना है, हे सखि ! वह साँवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है ॥ ४ ॥

दो०—केहरि कटि पट पीत धर सुपमा सील निधान ।

देखि भानुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥ २३३ ॥

सिंहकी-सी (पतली, लचीली) कमरवाले पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और शीलके भण्डार सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीकी देखकर सखियाँ अपने-आपको भूल गयीं।

चो०—धरि धीरजु एक आलिसयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन् लेहू ॥

एक चतुर सखी घोरज धरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली—गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती ॥ १ ॥

सकुचि सीयँ तव नयन उधारे । सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे ॥

नख सिख देखि राम कै सोभा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा ॥

तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र छोले और रघुकुलके दोनों सिंहाओंको अप

गरीमें निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥

व्रनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥
मादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ । बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ ॥

गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमें हो गयीं। उन [के गले] की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसकरायी। सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद (माला) को सिरपर धारण किया। गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं—॥ ३ ॥

पुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥
नारद बचन सदा सुचि साचा । सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥

हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी। नारदजीका वचन सदा पवित्र (संशय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित) और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा ॥ ४ ॥

छं०—मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो ।
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सियसहित हियँ हरषीं अली ।
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर साँवला वर (श्रीरामचन्द्रजी) तुमको मिलेगा। वह दयाका खजाना और सुजान (सर्वज्ञ) है, तुम्हारे शील और स्नेहको जानता है। इस प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सखियाँ हृदयमें हर्षित हुईं। तुलसीदासजी कहते हैं—भवानीजीको बार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चलीं।

सो०—जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि ।

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६ ॥

गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुन्दर मङ्गलोंके मूल उनके बायें अंग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥

चौ०—हृदयँ सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥

राम कहा सबु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥

तव परम प्रेमकी कोमल स्थाही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी भित्तिपर चित्रित कर लिया । सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गयीं और उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं—॥ २ ॥

जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद्र चकोरी ॥

जय गजवदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥

हे श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती ! आपकी जय हो, जय हो; हे महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी [ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली] चकोरी ! आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले गणेशजी और छः मुखवाले स्वामिकांतिकजीकी माता ! हे जगज्जननी ! हे बिजलीकी-सी कान्तिपुक्त शरीरवाली ! आपकी जय हो ॥ ३ ॥

नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ वेदु नहिं जाना ॥

भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्वबिमोहनि स्ववस बिहारिनि ॥

आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है । आपके असीम प्रभावको वेद भी नहीं जानते । आप संसारको उत्पन्न, पालन और नाश करनेवाली हैं । विश्वको मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं ॥ ४ ॥

दो०—पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख ।

महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥ २३५ ॥

पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें हे माता ! आपकी प्रथम गणना है । आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥

ची०—सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी ॥

देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनिसबहोहिं सुखारे ॥

हे [भक्तोंको मुंहमांगा] वर देनेवाली ! हे त्रिपुरके ऋषु शिवजीकी प्रिय पत्नी ! आपकी सेवा करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं । हे देवि ! आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥

मोर मनोरथु जानहु नीकें । वसहु सदा उर पुर सबही कें ॥

कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं । अस कहि चरन गहे वेदेहीं ॥

मेरे मनोरथको आप भलीभाँति जानती हैं: क्योंकि आप सदा सबको

बैदेही मुख पटतर दीन्हे । होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥
सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी । गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी ॥

अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष लगेगा । इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छविका वर्णन करके बड़ी रात हो गयी जान, वे गुरुजीके पास चले ॥ २ ॥

करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥
बिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥

मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया । रात बीतनेपर श्रीरघुनायजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने लगे— ॥ ३ ॥

उयउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥
बोले लखनु जोरिं जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी ॥

हे तात ! देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है । लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले—

दो०—अरुनोदयँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन ।

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥ २३८ ॥

अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ गया, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥

चौ०—नृप सब नखत करहिं उजिआरी । टारिन सकहिं चाप तम भारी ॥

कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥

सब राजारूपी तारे उजाला (मन्द प्रकाश) करते हैं, पर वे धनुषरूपी महान् अन्धकारको हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, चक्रवा, भौर और नाना प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ॥ १ ॥

ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहिं टूटें धनुष सुखारे ॥

उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥

वैसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे । सूर्य उदय हुआ; बिनु ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश हो गया ॥ २ ॥

हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुह्यजीके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है ॥ १ ॥

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही ॥
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भए सुखारे ॥

फूल पाकर मुनिने पूजा की। फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए ॥ २ ॥

करि भोजनु मुनिवर विग्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥
विगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दौड भाई ॥

श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे। [इतनेमें] दिन बीत गया और गुह्यकी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥ ३ ॥

प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥
वहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं । सीय वदन सम हिमकर नाहीं ॥

[उधर] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके मुखके समान देखकर सुख पाया। फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलंक ।

सिय मुख समता पाव किमि चंदु वापुरो रंक ॥ २३७ ॥

खारे समुद्रमें तो इसका जन्म, फिर [उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण] विष इसका भाई; दिनमें यह मलिन (शोभाहीन, निस्तेज) रहता है और कलझी (काले दागसे युक्त) है। बेचारा गरीब चन्द्रमा सीताजीके मुपकी बराबरी कैसे पा सकता है ? ॥ २३७ ॥

चो०—घटइ बढ़इ विरहिनि दुखदाई । असइ राहु निज संधिहिं पाई ॥

कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥

फिर यह घटता-बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियोंको दुःख देनेवाला है; राहु अपनी सन्धिमें पाकर इसे प्रस लेता है। चकवैकी [चकवैके वियोगका] शोक देनेवाला और कमलका वैरी (उसे मुरझा देनेवाला) है। हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत-से अवगुण हैं [जो सीताजीमें नहीं हैं] ॥ १ ॥

हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥

पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला । देखन चले धनुषमख साला ॥

इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए । सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया । फिर मुनियोंके समूहसहित कृपालु श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञशाला देखने चले ॥ २ ॥

रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥

चले सकल गृह काज बिसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥

दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष—सभी घर और काम-काज को भुलाकर चल दिये ॥ ३ ॥

देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सब लिए हँकारी ॥

तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥

जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकोंको बुलवा लिया और कहा—तुम लोग तुरंत सब लोगोंके पास जाओ और सब किसीको यथायोग्य आसन दो ॥ ४ ॥

दो०—कहि मृदु वचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि ।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ २४० ॥

उन सेवकोंने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, (सभी श्रेणीके) स्त्री-पुरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया ॥ २४० ॥

चौ०—राजकुअँर तेहि अवसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छापे ॥

गुन सागर नागर वर वीरा । सुंदर स्यामल गौर सरीरा ॥

उसी समय राजकुमार (राम और लक्ष्मण) वहाँ आये । [वे ऐसे सुन्दर हैं] मानो साक्षात् मनोहरता ही उनके शरीरोंपर छा रही हो । सुन्दर साँवला और गोरा उनका शरीर है । वे गुणोंके समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं ॥ १ ॥

राज समाज विराजत रुरे । उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे ॥

जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥

वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणोंके बीच दो पूर्ण चन्द्रमा हों । जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी ॥ २ ॥

रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥
तव भुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥

हे रघुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके वहाने सब राजाओंको प्रभु (आप) का प्रताप दिखलाया है । आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित करने (खोलकर दिखाने) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति प्रकट हुई है ॥ ३ ॥

बंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥
नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥

भाइके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर स्वभावसे ही पवित्र श्रीरामजीने शौचसे निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये । आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ ॥

सतानंदु तव जनक बोलाए । कौंसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥

तब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पास भेजा । उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ ५ ॥

दो०—सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहिं जाइ ।

चलहु तात मुनि कहेउ तव पठवा जनक बोलाइ ॥ २३६ ॥

शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा बैठे । तब मुनिने कहा—हे तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा है ॥ २३६ ॥

मासपारायण, आठवाँ विश्राम

नवाह्नपारायण, दूसरा विश्राम

चो०—सीय स्वयंवरु देखिअ जाई । ईसु काहि धौं देइ बड़ाई ॥

लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥

चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये । देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं । लक्ष्मणजीने कहा—हे नाथ ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बढ़ाईका पात्र होगा (धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा) ॥ १ ॥

उस (स्नेह और सुख) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकतीं । फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है । इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा ॥ ४ ॥

दो०—राजत राज समाज महँ कोसलराज किंसोर ।

सुंदर स्यामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥ २४२ ॥

सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको चुरानेवाले कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें [इस प्रकार] सुशोभित हो रहे हैं ॥ २४२ ॥

चौ०—सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥

सरद चंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥

दोनों मूर्तियाँ स्वभावसे ही (विना किसी बनाव-शृंगारके) मनको हरनेवाली हैं । करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ है । उनके सुन्दर मुख शरद [पूर्णिमा] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले (उसे नीचा दिखानेवाले) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १ ॥

चितवनि चारु मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥

कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला ॥

सुन्दर चितवन [सारे संसारके मनको हरनेवाले] कामदेवके भी मनको हरनेवाली है । वह हृदयको बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर गाल हैं, कानोंमें चंचल (झूमते हुए) कुण्डल हैं । ठोड़ी और अधर (ओठ) सुन्दर हैं, कोमल वाणी है ॥ २ ॥

कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा । भृकुटी बिकट मनोहर नासा ॥

भाल विसाल तिलक झलकाहीं । कच बिलोकिअलि अवलि लजाहीं ॥

हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है । भौंहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है । [ऊँचे] चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं (दीप्तिमान् हो रहे हैं) । [काले घुंघराले] वालोंको देखकर भौरोंकी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं ॥ ३ ॥

पीत चौतर्नी सिरन्हि सुहाई । कुसुम कलीं विच बीच बनाई ॥

रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥

देखहिं रूप महा रनधीरा । मनहुँ वीर रसु धरें सरीरा ।
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥

महान् रणधीर [राजालीग] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर-रस शरीर धारण किये हुए हो । कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो ।
रहे असुर छल छोनिप वैषा । तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥
पुरवासिन्ह देखे दौड भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥

छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेषमें [बैठे] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान देखा । नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप और नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा ।
दो०—नारि विलोकहिं हरषि हियँ निज निज रुचि अनुरूप ।

जनु सोहन सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ ॥

स्त्रियाँ हृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो शृंगार-रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ ॥
चौ०—विदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥

जनक जाति अवलोकहिं कैसें । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें ॥

विद्वानोंको प्रभु विराटरूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं । जनकजीके सजातीय (कुटुम्बी) प्रभुको किस तरह (कैसे प्रिय रूपमें) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (सम्बन्धी) प्रिय लगते हैं ॥ १ ॥

सहित विदेह विलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥

जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥

जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका यणन नहीं किया जा सकता । योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वतःप्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीये ।

हरिभगतन्ह देखे दौड भ्राता । इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥

रामहि चितव भायँ जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥

हरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इष्टदेवके समान देखा । सीताजी जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता ॥ ३ ॥

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कवि कोऊ ॥

एहि विधिरहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥

विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिने राजासे कहा—रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर है। [विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४ ॥

दो०—सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल ।
मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥ २४४ ॥

सब मञ्चोंसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था। [स्वयं] राजा-ने मुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥

चौ०—प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥
असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥

प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये (निराश एवं उत्साहीन हो गये) जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। [उनके तेजको देखकर सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे इसमें संदेह नहीं ॥ १]

बिनु भंजेहुँ भव धनुषु बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला
अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई

[इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि] शिवजी विशाल धनुषको [जो सम्भव है न टूट सके] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजी ही गलेमें जयमाल डालेंगी (अर्थात् दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी और विजय चन्द्रजीके हाथ रहेगी)। [यों सोचकर वे कहने लगे—] हे भाई ! ऐसा विचार यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २ ॥

बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिवेक अंध अभिमान
तोरेहुँ धनुषु व्याहु अवगाहा । बिनु तोरें को कुअँरि बिआ

दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात बहुत हैसे। [उन्होंने कहा—] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है (सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे), फिर बिना तोड़े तो राजकी व्याह ही कौन सकता है ॥ ३ ॥

एक बार कालउ किन होऊ । सिय हित समर जितब हम
यह सुनि अवर महिप सुसुकाने । धरमसील हरिभगत स

पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोभित हैं, जिनके बीच-बीचमें फूलोंकी कतियाँ बनायी (काढ़ी) हुई हैं। शंखके समान सुन्दर (गोल) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ हैं, जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा [को बता रही] हैं ॥ ४ ॥

दो०—कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल ।

वृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु विसाल ॥ २४३ ॥

हृदयोंपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे और तुलसीकी मालाएँ सुशोभित हैं। उनके कंधे बलोंके कंधेकी तरह [ऊँचे तथा पुष्ट] हैं, ऐंड़ (खड़े होनेकी शान) सिंहकी-सी है और भुजाएँ विशाल एवं बलकी भण्डार हैं ॥ २४३ ॥

चौ०—कटि तूनीर पीत पट बाँधें । कर सर धनुष वाम वर काँधें ॥

पीत जग्य उपवीत सुहाए । नख सिख मंजु महाछवि छाए ॥

कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँधे हैं । [दाहिने] हायोंमें बाण और बायें सुन्दर कंधोंपर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत (जनेऊ) सुशोभित हैं । नखसे लेकर गिखातक सब अंग सुन्दर हैं, उनपर महान् शोभा छायी हुई है ॥ १ ॥

देखि लोग सब भए सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥

हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तव जाई ॥

उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक (निमेषशून्य) हैं और तारे (पुतलियाँ) भी नहीं चलते । जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये ॥ २ ॥

करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनिसव मुनिहि देखाई ॥

जहँ जहँ जाहिँ कुअँर वर दोऊ । तहँ तहँ चकितचितव सबु कोऊ ॥

बिनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि (यज्ञशाला) दिखलायी । [मुनिके साथ] दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं ॥ ३ ॥

निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोउ न जान कछु मरसु विसेया ॥

भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजाँ मुदिन महासुख लहेऊ ॥

सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुग्ध किये हुए देखा; परंतु

प्रयोग रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिने राजासे कहा—रंगभूमिकी रचना बड़ी है। [विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर] प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४ ॥

—सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल ।

मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥ २४४ ॥

सब मञ्चोंसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था। [स्वयं] राजा-मुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥

०—प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥

असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥

प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये (निराश एवं उत्साहीन हो गये), जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। [उनके तेजको देखकर] सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे इसमें संदेह नहीं ॥ १ ॥

बिनु भंजेहुँ भव धनुषु बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥

अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई ॥

[इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि] शिवजीके विशाल धनुषको [जो सम्भव है न टूट सके] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमें जयमाल डालेंगी (अर्थात् दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी और विजय रामचन्द्रजीके हाथ रहेगी)। [यों सोचकर वे कहने लगे—] हे भाई ! ऐसा विचारक यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २ ॥

बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी

तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरें को कुअँरि बिआहा

दूसरे राजा, जो अबिवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुन बहुत हँसे। [उन्होंने कहा—] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है (अतः सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे), फिर बिना तोड़े तो राजकुमार ब्याह ही कौन सकता है ॥ ३ ॥

एक वार कालउ किन होऊ । सिय हित समर जितव हम सो

यह सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सया

काल ही क्यों न हो एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे । यह घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुसकराये ॥ ४ ॥

सो०—सीय त्रिआहवि राम गरत्र दूरि करि नृपन्ह के ।

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ २४५ ॥

[उन्होंने कहा—] राजाओंके गवं दूर करके (जो धनुष किसीसे नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहेंगे । [रही युद्धकी बात, सो] महाराज दशरथके रणमें बाँके पुरोंको युद्धमें तो जीत ही कौन सकता है ॥ २४५ ॥

चो०—व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई । मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥

सिख हमारि सुनि परमपुनीता । जगदंबा जानहु जियँ सीता ॥

गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है ? हमारी परम पवित्र (निष्कपट) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात् जगज्जननी समझो (उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं लालसा छोड़ दो) ॥ १ ॥

जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥

सुंदर सुखद सकल गुन रासी । ए दोउ बंधु संभु उर वासी ॥

श्रीरघुनाथजीको जगत्का पिता (परमेश्वर) विचारकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो [ऐसा अबसर बार-बार नहीं मिलेगा] । सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमें बसनेवाले हैं (स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं) ॥ २ ॥

सुधा समुद्र समीप त्रिहाई । मृगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥

करहु जाइ जा कहँ जोइ भावा । हम तौ आजु जनम फलु पावा ॥

समीप आये हुए [भगवद्दर्शनरूप] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [जगज्जननी जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशा रूप मिथ्या] मृगजलको देखकर दौड़कर क्यों मरते हो ? फिर [भाई !] जिसको जो अच्छा लगे, वहीं जाकर करो । हमने तो [श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके] आज जन्म लेनेका फल पा लिया (जीवन और जन्मको सफल कर लिया) ॥ ३ ॥

अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप त्रिलोकन ॥

देखहिँ सुर नभ चढ़े विमाना । वरषहिँ सुमन करहिँ

ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे [मनुष्योंकी तो बात ही क्या] देवतालोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—जानि सुअवसरु सीय तव पठई जनक बोलाइ ।

चतुर सर्खीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥ २४६ ॥

तव सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सब चतुर और सुन्दर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चलीं ॥ २४६ ॥

चौ०—सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥

उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥

रूप और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता उनके लिये मुझे [काव्यकी] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं; क्योंकि वे लौकिक स्त्रियोंके अंगोंसे अनुराग रखनेवाली हैं (अर्थात् वे जगत्की स्त्रियोंके अंगोंको दी जाती हैं) [काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगत्से ली-गयी हैं; उन्हें भगवान्की स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है] ॥ १ ॥

सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजसु को लेई ॥

जौं पटतरिअ तीय सम सीया । जग असिजुवति कहाँ कमनीया ॥

सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये और अपयशका भागी बने (अर्थात् सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा) । यदि किसी स्त्रीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय, तो जगत्में ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [जिसकी उपमा उन्हें दी जाय] ॥ २ ॥

गिरा मुखर तन अरध भवानी । रतिअतिदुखितअतनुपतिजानी ॥

विष वारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि वैदेही ॥

[पृथ्वीकी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं, तो उनमें] सरस्वती तो

काल ही क्यों न हो एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे । यह ण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुसकराये ॥ ४ ॥

०—सीय त्रिआहवि राम गरत्र दूरि करि नृपन्ह के ।

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ २४५ ॥

[उन्होंने कहा—] राजाओंके गर्व दूर करके (जो धनुष किसीसे नहीं टूट सकेगा से तोड़कर) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहेंगे । [रही युद्धकी बात, सो] महाराज शरयके रणमें बाँके पुत्रोंको युद्धमें तो जीत ही कौन सकता है ॥ २४५ ॥

०—व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई । मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥

सिख हमारि सुनि परमपुनीता । जगदंबा जानहु जियँ सीता ॥

गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है ? हमारी परम पवित्र (निष्कपट) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात् जगज्जननी समझो (उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं तालसा छोड़ दो) ॥ १ ॥

जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥

सुंदर सुखद सकल गुन रासी । ए दोउ बंधु संभु उर वासी ॥

और श्रीरघुनाथजीको जगत्का पिता (परमेश्वर) विचारकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो [ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा] । सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गुणोंको राशि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमें बसनेवाले हैं (स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं) ॥ २ ॥

सुधा समुद्र समीप विहाई । मृगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥

करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा । हम तो आजु जनम फलु पावा ॥

समीप आये हुए [मगवद्गानरूप] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [जगज्जननी जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशाएँ मिथ्या] मृगजलकी देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर [भाई !] जिसको जो अच्छा लगे, वही जाकर करो । हमने तो [श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके] आज जन्म लेनेका फल पा लिया (जीवन और जन्मको सफल कर लिया) ॥ ३ ॥

अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनप विलो

नेरि मरु मरु जे विमान । म

ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे ।
[मनुष्योंकी तो बात ही क्या] देवतालोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—जानि सुअवसरु सीय तव पठई जनक बोलाइ ।

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥ २४६ ॥

तव सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सब चतुर और सुन्दर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चलीं ॥ २४६ ॥

चौ०—सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥

उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥

रूप और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता । उनके लिये मुझे [काव्यकी] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं; क्योंकि वे लौकिक स्त्रियोंके अंगोंसे अनुराग रखनेवाली हैं (अर्थात् वे जगत्की स्त्रियोंके अंगोंको दी जाती हैं) । [काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगत्से ली-गयी हैं; उन्हें भगवान्की स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है] ॥ १ ॥

सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजसु को लेई ॥

जौं पटतरिअ तीय सम सीया । जग असिजुबति कहाँ कमनीया ॥

सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये और अपयशका भागी बने (अर्थात् सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा) । यदि किसी स्त्रीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय, तो जगत्में ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [जिसकी उपमा उन्हें दी जाय] ॥ २ ॥

गिरा मुखर तन अरथ भवानी । रतिअतिदुखितअतनुपतिजानी ॥

विप वारुनी वंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि वैदेही ॥

[पृथ्वीकी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं, तो उनमें] सरस्वती तो

बहुत बोलनेवाली हैं, पार्वती अर्द्धाङ्गिणी है (अर्थात् अर्द्धनारीनटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अंग स्त्रीका है, शेष आधा अंग पुरुष-शिवजीका है); कामदेवकी स्त्री रति रतिको बिना शरीरका (अनंग) जानकर बहुत दुखी रहती है; और जिनके विष और मद्य-जैसे [समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते] प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो जानकी-जीको कहा ही कैसे जाय ॥ ३ ॥

जौं छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥
सोभा रजु मंदरु सिंगारु । मथै पानि पंकज निज मारु ॥

[जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है, वे निकली थीं धारे समुद्रसे, जिसको मथनेके लिये भगवान्ने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान् विषधर वासुकि नागकी । मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्योंने मिलकर । जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं, उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एवं स्वामाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुईं लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पा सकती हैं । हाँ, इसके विपरीत] यदि छविरूपी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, शृंगार [रस] पवंत हो और [उस छविके समुद्रको] स्वयं कामदेव अपने ही कर-कमलसे मथे, ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि उपजै लच्छि जब सुंदरता सुख मूल ।

तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥

इस प्रकार [का संयोग होनेसे] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कविलोग उसे [बहुत] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे ॥ २४७ ॥

[जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, सौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुईं लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्याति-दिव्य परमदिव्य विग्रह बना है, वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है—

वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेवके मथनमें नहीं आ सकती और वह जानकीजीका स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात् शक्ति शक्तिमान्से अभिन्न अद्वैत तत्त्व है, अतएव अनुपमेय है, यही गूढ़ दार्शनिक तत्त्व भक्त शिरोमणि कविने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है।]

चौ०—चलीं संग लैं सखीं सयानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥

सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारी ॥

सयानी सखियाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुईं चलीं। सीताजीके नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोभित है। जगज्जननीकी महान् छवि अतुलनीय है ॥१॥

भूषण सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥

रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥

सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हैं, जिन्हें सखियोंने अंग-अंगमें भली-भाँति सजाकर पहनाया है। जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर रक्खा, तब उनका [दिव्य] रूप देखकर स्त्री, पुरुष—सभी मोहित हो गये ॥ २ ॥

हरषि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाई ॥

पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥

देवताओंने हर्षित होकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं। सीताजीके करकमलोंमें जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे ॥ ३ ॥

सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा ॥

मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥

सीताजी चकित चितसे श्रीरामजीको देखने लगीं, तब सब राजालोग मोहके वश हो गये। सीताजीने मुनिके पास [बैठे हुए] दोनों भाइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना आना पाकर ललचाकर वहाँ (श्रीरामजीमें) जा लगे (स्थिर हो गये) ॥ ४ ॥

बहुत बोलनेवाली हैं, पार्वती अर्द्धाङ्गिणी हैं (अर्थात् अर्द्धनारीनटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अंग स्त्रीका है, शेष आधा अंग पुरुष-शिवजीका है); कामदेवकी स्त्री रति पतिको बिना शरीरका (अर्तंग) जानकर बहुत दुखी रहती है; और त्रिनके विष और मद्य-जैसे [समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते] प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही कैसे जाय ॥ ३ ॥

जौं छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥
सोभा रज्जु मंदरु सिंगारु । मथै पानि पंकज निज मारु ॥

[जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है, वे निकली थीं धारे समुद्रसे, जिसको मयनेके लिये भगवान्ने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्ती बनायी गयी महान् विषधर वासुकि नागकी । मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्योंने मिलकर । जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं, उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पा सकती हैं । हाँ, इसके विपरीत] यदि छविरूपी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्ती हो, शृंगार [रस] पर्वत हो और [उस छविके समुद्रको] स्वयं कामदेव अपने ही कर-कमलसे मथे, ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि उपजै लच्छि जव सुंदरता सुख मूल ।

तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥

इस प्रकार [का संयोग होनेसे] जव सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कविलोग उसे [बहुत] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे ॥ २४७ ॥

[जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्याति-दिव्य परमदिव्य विग्रह बना है, वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है—

भाटोंने श्रेष्ठ वचन कहा—हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये ।

हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हैं—॥ २४९ ॥

श्री०—नृपभुजबलुविधुसिवधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥

रावनु वानु महाभट भारे । देखि सरासन गवँहि सिधारे ॥

राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुषको देखकर गाँसे (चुपके-से) चलते बने (उसे उठाना तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हुई) ॥ १ ॥

सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥

त्रिभुवन जय समेत बैदेही । विनहिं बिचार बरइ हठि तेही ॥

उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसभामें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हठपूर्वक वरण करेंगी ॥ २ ॥

सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माखे ॥

परिकर बाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥

प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरताके अभिमानी थे, वे मनमें बहुत ही तमत्ताये। कमर कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले ॥ ३ ॥

तमकि ताकितकिसिवधनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति बलु करहीं ॥

जिन्ह के कछु बिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥

वे तमककर (बड़े तावसे) शिवजीके धनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं; करोड़ों भाँतिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओंके मनमें कुछ विवेक है, वे तो धनुषके पास ही नहीं जाते ॥ ४ ॥

श्री०—तमकि धरहिं धनु मूढ़ नृप उठइ न चलहिं लजाइ ।

मनहुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५० ॥

वे मूख राजा तमककर (किटकिटाकर) धनुषको पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठना तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरोंकी भुजाओंका बल पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है ॥ २५० ॥

१०—गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥

परंतु गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयीं । श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर सखियोंकी ओर देखने लगीं ॥ २४८ ॥

१०—राम रूपु अरु सिय छवि देखें । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें ॥

सोचहिं सकल कहत सकुचार्हीं । विधि सनविनयकरहिं मन माहीं ॥

श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर स्त्री-पुरुषोंने पलक मारना शुरू किया (सब एकटक उन्हींको देखने लगे) । सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते कुचते हैं। मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते हैं—॥ १ ॥

रु विधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥

पु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करै विवाहू ॥

हे विधाता ! जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर देह उन्हें दीजिये कि जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें ॥ २ ॥

गु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू ॥

हिं लालसाँ मगन सब लोगू । वरु साँवरो जानकी जोगू ॥

संसार उन्हें भला कहेगा; क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती है । हम जैसे अन्तमें भी हृदय जलेगा । सब लोग इसी लालसामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके वर तो यह साँवला ही है ॥ ३ ॥

वंदीजन जनक बोलाए । विरिदावली कहत चलि जाए ॥

इ न्यु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हियँ हरपु न धोरा ॥

तब राजा जनकने बंदीजनों (भाटों) को बुलाया । वे विरिदावली (बंदी) गाते हुए चले आये । राजाने कहा—जाकर मेरा प्रण सबसे करो । भाट चले, हृदयमें कम आनन्द न था ॥ ४ ॥

बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल ।

पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥ २४९ ॥

प्रव जनि कोउ माखै भट मानी । बीर विहीन मही मैं जानी ॥

मजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि वेंदेहि विवाहू ॥

अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोंसे खाली हो
गयी । अब आजाछोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं । २।

मुकृतु जाइ जौं पनु परिहरऊँ । कुअँरि कुआरि रहउ का करऊँ ॥

जौं जनतेउँ विनु भट भुवि भाई । तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई ॥

यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करूँ, कन्या कुँआरी ही रहे । यदि
मैं जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ॥ ३ ॥

जनक वचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी ॥

माखे लखनु कुटिल भई भौहँ । रदपट फरकत नयन रिसौहँ ॥

जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर-दुखी हुए;
परंतु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भौहँ टैढ़ी हो गयीं । ओठ फड़कने लगे और नेत्र
क्रोधसे लाल हो गये ॥ ४ ॥

दो०—काहि न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बान ।

नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥

श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं; पर जनकके वचन उन्हें बाणसे
लगे । [जब न रह सके तब] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर वे यथार्थ
वचन बोले—॥ २५२ ॥

चो०—रघुवंसिन्ह महँ जहँ कोउ होई । तेहिं समाज अस कहइ न कोई ॥

कही जनकजसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥

रघुवंशियोंमें कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे
अनुचित वचन रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं । १।

सुनहु भानुकुल पंकज भानू । कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥

जौं तुम्हारि अनुसासन पावौं । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ॥

हे सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य ! सुनिये । मैं स्वभावहीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान करके
नहीं; यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा लूँ ॥ २ ॥

चौ०—भूप सहस्र दस एकहि वारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥

डगइ न संभु सरासनु कैसें । कामी वचन सती मनु जैसें ॥

तब दस हजार राजा एक ही वार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजीका वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे सतीका मन [कामी] चलावमान नहीं होता ॥ १ ॥

सब नृप भए जोगु उपहासी । जैसें विनु विराग संन्यासी ॥

कीरति विजय वीरता भारी । चले चाप कर वरवस हारी ॥

सब राजा उपहामके योग्य हो गये। जैसे वैराग्यके विना संन्यासी उपहामके योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ीवीरता—इन सबको वे धनुषके हाथों वरवस हारकर चले गये। २।

श्रीहत भए हारि हियँ राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥

नृपन्ह विलोकि जनकु अकुलाने । बोले वचन रोष जुनु साने ॥

राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन (हतःप्रभ) हो गये और अपने-अपने समाजमें जा बैठे। राजाओंको [अमफल] देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोधमें सने हुए थे ॥ ३ ॥

दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥

देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आए रणधीरा ॥

मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये। देवता और दैत्य भी मनुष्यका शरीर धारण करके आये तथा और भी बहुत-से रणधीर वीर आये ॥ ४ ॥

दो०—कुअँरि मनोहर विजय वडि कीरति अति कमनीय ।

पावनिहार विरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥

परंतु धनुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्तिकों पानेवाला मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥

चौ०—कहहु काहि यहु लाभु न भावा । काहुँ न संकर चाप चढ़ावा ॥

रहउ चढ़ाउव तोरव भाई । तिलु मरि भूमि न सके छड़ाई ॥

कहिये, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता ? परंतु किसनेभी शंकरजीका नहीं चढ़ाया। अरे भाई ! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा

सुनि गुरु वचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कछु उर आवा ॥
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ ॥

गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणोंमें सिर नवाया । उनके मनमें न हर्ष हुआ, न विषाद; और वे अपनी ऐंड़ (खड़े होनेकी शान) से जवान सिंहको भी लजाते हुए सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥

दो०—उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बालपतंग ।

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृंग ॥ २५४ ॥

मञ्चरूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी कमल खिल उठे और नेत्ररूपी भारे हर्षित हो गये ॥ २५४ ॥

नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उल्लूक लुकाने ॥

राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उनके वचनरूपी तारोंके समूहका चमकना बंद हो गया (वे मौन हो गये) । अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये ॥ १ ॥

भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥

गुर पद वंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥

मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये । वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं । प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंके आज्ञा मांगी । सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गापी ॥

चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥

रामस्त जगत्के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मत्तवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभाविक ही चले । श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके गरीर रोमाञ्चसे भर गये ॥ ३ ॥

वंदि पितर सुर सुकृत सँभारे । जौं कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥

तौ सिवधनु मृनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥

उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि

काचे घट जिमि डारों फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥

तव प्रताप महिमा भगवाना । को वापुरो पिनाक पुराना ॥

और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वतको मूर्त्तकी तरह तोड़ गवता हूं। हे भगवन् ! आपके प्रतापकी महिमासे यह ब्रह्मारा पुराना धनुष तो कौन नोज है ॥ ३ ॥

नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुकु करों विलोकिअ सोऊ ॥

कमल नाल जिमि चाप चढावों । जोजन सत प्रमान लै धावों ॥

ऐसा जानकर है नाथ ! आम्ना हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिये । धनुषको कमलकी डंडीकी तरह चढ़ाकर उसे सी योजनतक लिये दीड़ा चला जाऊं ॥ ४ ॥

दो०—तोरीं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ ।

जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ ॥ २५३ ॥

हे नाथ ! आगेके प्रतापके बलसे धनुषको कुकुरमुत्ते (बरसाती छत्ते) की तरह तोड़ दूं । यदि ऐसा न करूं तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकतको कभी हाथमें भी न लूंगा ॥ २५३ ॥

चौ०—लखन सकोप वचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥

सकल लोग सब भूप डेराने । सियहियँ हरषु जनकु सकुचाने ॥

ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंके हाथी कोप गये । सभी लोग और सब राजा डर गये । सीताजीके हृदयमें हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥ १ ॥

गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥

सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे । प्रेम समेत निकट वैठारे ॥

गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न हुए और बार-बार पुलकित होने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया ॥ २ ॥

विश्वामित्र समग्र सुभ जानी । बोले अति सनेहमय वानी ॥

उठहु राम भंजहु भयचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥

विश्वामित्रजी शुभ नगय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले—हे राम ! उठो, निब्रजोका धनुष तोड़ो और हें तात ! जनकका सन्ताप मिटाओ ॥ ३ ॥

कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा । सोषेउ सुजसु सकल संसार
रवि मंडल देखत लघु लागा । उदयँ तासु तिभुवन तम भागा

कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [छोटे-से] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ? जिन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ है। सूर्यमण्डल देखने छोटा लगता है; पर उसके उदय होते ही तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥१४

दो०—मंत्र परम लघु जासु बस बिधिहरि हर सुर सर्व ।

महामत्त गजराज कहँ बस कर अंकुस खर्ब ॥ २५६ ॥

जिसके वशमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा होता है। महान् मतवाले गजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें कर लेता है ॥ २५६ ॥

चौ०—काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवनअपनें बस कीन्हे ॥

देवि तजिअ संसउ अस जानी । भंजव धनुषु राम सुनु रानी ॥

कामदेवने फूलोंका ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वशमें कर रक्खा है। हे देवी ! ऐसा जानकर सन्देह त्याग दीजिये। हे रानी ! सुनिये; रामचन्द्रजी धनुषको अवश्य ही तोड़ेंगे ॥ १ ॥

सखी वचन सुनि भै परतीती । मिटा बिषादु बढी अति प्रीती ॥

तव रामहि बिलोकि बैदेही । सभय हृदयँ विनवति जेहि तेही ॥

सखीके वचन सुनकर रानीको [श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें] विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी भयभीत हृदयसे जिस-तिस [देवता] से विनती कर रही हैं।

मनहीं मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥

करहु सफल आपनि सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥

वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हैं—हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न होइये, मंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुषके शरीरको हर लीजिये ॥ ३ ॥

ननायक वरदायक देवा । आजु लगें कीन्हेउँ तुअ सेवा ॥

र वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥

हे गणोंके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मंने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा

यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाईं ? रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलकी डंडीकी भांति तोड़ डालें ॥ ४ ॥

दो०—रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप वोलाइ ।

सीता मातु स्नेह वस वचन कहइ विलखाइ ॥ २५५ ॥

श्रीरामचन्द्रजीको [वात्सल्य] प्रेमके साथ देखकर और सखियोंको समीप बुलाकर सीताजीकी माता स्नेहवश विलखकर (विलाप करती हुई-सी) ये वचन बोली—॥ २५५ ॥

ची०—सखि सब कौतुकु देखनिहारे । जेउ कहावत हितू हमारे ॥

कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं । ए बालकअसि हठ भलिनाहीं ॥

हे सखी ! ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देपनेवाले हैं । कोई भी [इनके] गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये (रामजी) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं । [जिस धनुषको रावण और बाण-जैसे जगद्विजयी वीर छू तक न सके, दूरसे ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आज्ञा देना और रामजीका उसे तोड़नेके लिये आगे बढ़ना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं ।] ॥ १ ॥

रावन वान छुआ नहि चापा । हार सकल भूप करि दापा ॥

सो धनु राजकुअर कर देहीं । बाल मराल कि मंदर लेहीं ॥

रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं । इसके बच्चे भी वही मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं ॥ २ ॥

भूप, सयानप, सकल सिरानी । सखिविधिगति कहुजातिनजानी ॥

बोली चतुर सखी मृदु वानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥

[और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और शानी हैं, उन्हें तो गुरुको समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परन्तु मालूम होता है] राजाका भी ताश सयानापन समाप्त हो गया । हे सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं आती । यों कहकर रानी चुप हो रहीं] । तब एक चतुर (रामजीके महत्त्वको जाननेवाली) सखी कीमन बाणीसे बोली—हे रानी ! तेजवानको [देखनेमें छोटा होनेपर भी] छोटा नहीं ।

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पृथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चनेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवकी दो मछलियाँ खेल रही हों ॥ २५८ ॥

चौ०—गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी
लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन कर सोना

सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्खा है । लाजरूपी रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है । नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने (कोये) में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कजूसका सोना कोनेमें ही गड़ा रह जाता है ॥ १ ॥

सकुची व्याकुलता बड़ि जानी । धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥
तन मन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥

अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और धीरज धरकर हृदयमें विश्वास ले आयीं कि यदि तन, मन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंमें मेरा चित्त वास्तवमें अनुरक्त है, ॥ २ ॥

तौ भगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर कै दासी ॥
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥

तो सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी आवश्यक बनावेंगे । जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है; वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सबु जाना ॥
सेयहि त्रिलोकि तकेउ धनु कैसें । चितव गरु लघु ब्यालहि जैसें ॥

प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया (अर्थात् यह प्रयत्न कर लिया कि यह शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं) ! कृपानिधान रामजी सब जान गये ! उन्होंने सीताजीको देखकर धनुषकी ओर कैसे ताका, जैसे इन्हीं छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं ॥ ४ ॥

०—लखन लखेउ रघुवंसमनि ताकेउ हर कोदंडु ।
पुलकि गात बोले वचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥ २५९ ॥

की थी। बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये ॥ ४ ॥

दो०—देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर ।

भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २५७ ॥

श्रीरघुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंकी मना रही हैं। उनके नेत्रोंमें प्रेमके आँसू भरे हैं और शरीरमें रोमाञ्च हो रहा है ॥ २५७ ॥

ची०—नीकें निरखिनयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥

अहह तात दारुनि हठ ठानी । समुझत नहिं कछु लाभु न हानी ॥

अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन क्षुब्ध हो उठा। [वे मन-ही-मन कहने लगीं—] अहो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥

सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥

कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ स्यामल मृदुगात किसोरा ॥

मन्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी सभामें यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो बच्चे भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल-शरीर किशोर श्यामसुन्दर ! ॥ २ ॥

विधिकेहि भाँति धरौं उर धीरा । सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा ॥

सकल सभा कै मति भै भोरी । अब मोहि संभुचाप गति तोरी ॥

हे विधाता ! मैं हृदयमें किम तरह धीरज धरूँ; सिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी समाकी बुद्धि भोली (बावली) हो गयी है, अतः हे शिवजीके धनुष ! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है ॥ ३ ॥

निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥

अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥

तुम अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर, श्रीरघुनाथजी [के सुकुमार शरीर] को देखकर [उतने ही] हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप हो रहा है। निमेषका एक लव (अंश) भी सौ युगोंके समान बीत रहा है ॥ ४ ॥

दो०—प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥

उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा । उनका एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा था । यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जानेपर अमृतका तालाव भी क्या करेगा ? ॥ १ ॥

का वरषा सब कृषी सुखानें । समय चुकें पुनि का पछितानें ॥
अस जियँ जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥

सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे क्या लाभ ? जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये ॥ २ ॥

गुराहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा ॥
दमकेउ दामिनिजिमिजबलयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ ॥

मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुर्तीसे धनुषको उठा लिया । जब उसे [हाथमें] लिया, तब वह धनुष विजलीकी तरह चमका और फिर आकाशमें मण्डल-जैसा (मण्डलाकार) हो गया ॥ ३ ॥

लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ें । काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें ॥
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥

लेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं लखा (अर्थात् ये तीनों काम इतनी फुर्तीसे हुए कि धनुषको कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा); सबने श्रीरामजीको [धनुष खींचे] खड़े देखा । उसी क्षण श्रीरामजीने धनुषको-बीचसे तोड़ डाला । भयंकर कठोर ध्वनिसे [सब] लोक भर गये ॥ ४ ॥

छं०—भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले ।

चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं ।

कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

घोर कठोर शब्दसे [सब] लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे । दिग्गज चिंघाड़ने लगे; धरती डोलने लगी; शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे । देवता, राक्षस और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे । तुलसी-

इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषको और ताका है, तो वे शरीरसे पुलकित हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित वचन बोले-

चौ०—दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥

रामु चहहि संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥

हे दिग्गजो ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धीरज धरकर पृथ्वीको घामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे । श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको तोड़ना चाहते हैं । मेरी आज्ञा, सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥ १ ॥

चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥

सब कर संसउ अरु अग्यानु । मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥

श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये, तब सब स्त्री-पुरुषोंने देवताओं और पुष्पोंको मनाया । सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान, ॥ २ ॥

भृगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई ॥

सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥

परशुरामजीके गर्वकी गुस्ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता (भय), सीताजीका सोच, जनकका पश्चात्ताप और रानियोंके दारुण दुःखका दावानल, ॥ ३ ॥

संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥

राम बाहुबल सिंधु अपारु । चहत पारु नहिं कोउ कड़हारु ॥

ये सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा चढ़े । ये श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि ।

चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसोपि ॥ २६० ॥

श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से देखकर फिर कृपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६० ॥

चौ०—देखी विपुल विकल वैदेही । निमिपविहात कल्पसमतेही ॥

तृषित वारि विनुजो तनुत्यागा । मुएँ करइ का सुधा तड़ागा ॥

धीर बुद्धिवाले भाट, मागध और सूतलोग विरुदावली (कीर्ति) का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ ॥

ची०—झाँझि मृदंग संख सहनाई । भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई ॥

वाजहिं बहु वाजने सुहाए । जहँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए ॥

झाँझ, मृदंग, शङ्ख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर वाजे बज रहे हैं। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ १ ॥

सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥

जनक लहेउ सुखु सोचु विहाई । पैरत थकें थाह जनु पाई ॥

सखियोंसहित रानी अत्यन्त हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धानपर पानी पड़ गया हो। जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते-तैरते थके हुए पुरुषने थाह पा ली हो ॥ २ ॥

श्रीहत भए भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥

सीय सुखहि वरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥

धनुष टूट जानेपर राजालोग ऐसे श्रीहीन (निस्तेज) हो गये, जैसे दिनमें दीपककी शोभा जाती रहती है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय, जैसे चातकी स्वातीका जल पा गयी हो ॥ ३ ॥

रामहि लखनु विलोकत कैसें । ससिहि चकोर किसोरकु जैसें ॥

सतानंद तव आयसु दीन्हा । सीताँ गमनु राम पहिं कीन्हा ॥

श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा देख रहा हो। तब शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ ४ ॥

दो०—संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार ।

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ २६३ ॥

सायमें सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही हैं। सीताजी बाल-हंसिनोकी चालसे चलीं। उनके अङ्गमें अपार शोभा है ॥ २६३ ॥

ची०—सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसें । छविगन मध्य महाछवि जैसें ॥

कर सरोज जयमाल सुहाई । विस्व विजय सोभा जेहिं छाई ॥

दासजी कहते हैं, जब [सबको निश्चय हो गया कि] श्रीरामजीने धनुषको तोड़ डाला, तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी 'जय' बोलने लगे ।

सो०—संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवलु ।

वूड़ सो सकल समाजु चढा जो प्रथमहिं मोह वस ॥ २६१ ॥

शिवजीका धनुष जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है । [धनुष टूटनेसे] वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था [जिनका वर्णन ऊपर आया है] ॥ २६१ ॥

सो०—प्रभु दोउ चापखंड महि डारे । देखि लोग सब भए सुखारे ॥

कौंसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥

प्रभुने धनुषके दोनों टुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये । यह देखकर सब लोग सुखी हुए । विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमें, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जन भरा है ॥ १ ॥

रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त वीचि पुलकावलि भारी ॥

बाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहिं करि गाना ॥

रामरूपी पूर्णचन्द्रकी देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं । आकाशमें वड़े जोरसे नगाड़े बजने लगे और देवाङ्गनाएँ गान करके नाचने लगीं ॥ २ ॥

ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहिं असीसा ॥

वरिसहिं सुमन रंग बहु माला । गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥

ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं । वे रंग-विरंगे फूल और मालाएँ बरसा रहे हैं । किन्नरलोग रसाले गीत गा रहे हैं ॥ ३ ॥

रही भुवन भरि जय जय वानी । धनुषभंगधुनि जात न जानी ॥

मुदित कहहिं जहँ तहँ नर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥

सारे ब्रह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती । जहाँ-तहाँ पुरुष-स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला ॥ ४ ॥

सो०—वंदी मागध सूतगन विरुद वदहिं मतिधीर ।

करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥

देवताओंकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं। बार-बार हाथोंसे पुष्पोंकी अञ्जलियाँ छूट रही हैं। जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं और भाटलोग विरुदावली (कुलकीर्ति) बखान रहे हैं।

महि पाताल नाक जासु ब्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥

करहिं आरती पुर नर नारी । देहिं निछावरि बित्त विसारी ॥

पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें यज्ञ फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया और सीताजीको वरण कर लिया। तगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजा (हैसियत) को भुलाकर (सामर्थ्यसे बहुत अधिक) निछावर कर रहे हैं ॥ ३ ॥

सोहति सीय राम कै जोरी । छवि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥

सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥

श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुन्दरता और शृङ्गार-रस एकत्र हो गये हों। सखियाँ कह रही हैं—सीते! स्वामीके चरण छुओ; किंतु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूतीं ॥ ४ ॥

दो०—गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि ।

मन विहसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५ ॥

गौतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणोंको हाथोंसे स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें हैसे ॥ २६५ ॥

चौ०—तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥

उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँ तहँ गाल बजावन लागे ॥

उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मनमें बहुत तमतमाये। वे अभागे उठ-उठकर, कवच पहनकर जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे ॥ ५ ॥

लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ । धरि बाँधहु नृप बालक दोऊ ॥

तोरें धनुषु चाड़ नहिं सरई । जीवत हमहि कुअँरि को बरई ॥

कोई कहते हैं, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो। धनुष तोड़नेसे ही चाह नहीं सरेगी (पूरी होगी)। हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौन ब्याह सकता है? ॥ २ ॥

सखियोंके बीचमें सीताजी बंसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत-सी छवियोंके बीचमें महाछत्रि हो। करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोभा छापी हुई है ॥१॥

तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ प्रेम लखि परइ न काहू ॥

जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुअँरि चित्र अवरखी ॥

सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसीको जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयीं ॥ २ ॥

चतुर सखीं लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥

सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराई न जाई ॥

चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा—सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीताजीने दोनों हाथोंसे माला उठायी, पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥

सौहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभित देत जयमाला ॥

गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सियँ जयमाल राम उर मेली ॥

[उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं] मानो दृष्टियोंसहित दो कमल चन्द्रमाको डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छविको देखकर सखियाँ गाने लगीं। तब सीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला पहना दी ॥ ४ ॥

सो०—रघुवर उर जयमाल देखि देव वरिसहिं सुमन ।

सकुचे सकल भुआल जनु विलोकि रवि कुमुदगन ॥ २६४ ॥

श्रीरघुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा-गण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड़ गया हो ॥२६४॥

चो०—पुर अरु व्योम वाजने वाजे । खल भए मलिन साधु सत्र राजे ॥

सुर किंनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥

नगर और आकाशमें बाजे बजने लगे। दुष्टलोग उदास हो गये और सज्जनलोग सब प्रसन्न हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ १ ॥

नाचहिं गावहिं विबुध बधूटीं । वार वार कुसुमांजलि धूटीं ॥

जहँ तहँ विप्र वेद धुनि करहीं । बंदी विरिदावलि उच्छेदीं ॥

नी (सीताजीकी माता) थीं । श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बखान करते ए स्वाभाविक चालसे गुरुजीके पास चले ॥ ३ ॥

रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अब धौं विधिहि काह करनीया ॥

भूप वचन सुनि इत उत तकहीं । लखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥

रानियोंसहित सीताजी [दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर] सोचके वश हैं कि जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं । राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर जा सकते हैं, किंतु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल नहीं सकते ॥ ४ ॥

ती०—अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप ।

मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥ २६७ ॥

उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओंकी ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियोंका झुंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो ॥ २६७ ॥

चौ०—खरभरु देखि विकल पुर नारीं । सबमिलि देहिं महीपन्ह गारीं ॥

तेहिं अवसर सुनि सिवधनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा ॥

खलबली देखकर जनकपुरकी स्त्रियाँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने लगीं । उसी मौकेपर शिवजीके धनुषका टूटना सुनकर भृगुकुलरूपी कमलके सूर्य परशुरामजी आये ॥ १ ॥

देखि महीप सकल सकुचाने । बाज भूपट जनु लवा लुकाने ॥

गौरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल विसाल त्रिपुंड विराजा ॥

इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटर लुक (छिप) गये हों । गोरे शरीरपर विभूति (भस्म) बड़ी फव रही है और विशाल जलाटपर त्रिपुण्ड विशेष शोभा दे रहा है ॥ २ ॥

सीस जटा ससिवदनु सुहावा । रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥

भृकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते ॥

सिरपर जटा है; सुन्दर मुखचन्द्र क्रोधके कारण कुछ लाल हो आया है । भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोधसे लाल हैं, सहज ही देखते हैं, तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं ॥ ३ ॥

जों विदेहु कछु करै सहाई । जीतहु समर सहित दौड भाई ॥
साधु भूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहि लाज लजानी ॥

यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी जीत लो । ये वचन सुनकर साधु राजा बोले—इस [निर्लज्ज] राजसमाजको देखकर तो लाज भी लजा गयी ॥ ३ ॥

बलु प्रतापु वीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई । असि बुधि तौ विधि मुहँ मसि लाई ॥

अरे ! तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक (प्रतिष्ठा) तो धनुषके साथ ही चली गयी । वही वीरता थी कि अब कहींसे मिली है ? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विघाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी ॥ ४ ॥

दो०—देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिया महु कोहु ।

लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६ ॥

इंष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [की छवि] को देख लो । लक्ष्मणके क्रोधको प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥

चो०—बैनतेय बलि जिमि चह कागू । जिमि ससु चहै नाग अरि भागू ॥

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही ॥

जैसे गहड़का भाग कोआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे ॥ १ ॥

लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥

हरि पद बिमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥

लोभी-लालची सुन्दर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [चाहे तो] क्या पा सकता है ? और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख, मनुष्य परमगति (मोक्ष) चाहे, हे राजाओ ! सीताके लिये तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है ॥ २ ॥

कोलाहलु सुनि सीय सकानी । सर्खी लवाइ गई जहँ रानी ॥

रामु सुभायँ चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥

कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं । तब साधियाँ उन्हें वहाँ ले

सुन्दर जोड़ी देखकर परशुरामजीने आशीर्वाद दिया। कामदेवके भी मदको छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकित (स्तम्भित) हो रहे ॥ ४ ॥

दो०—बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काह अति भीर ।

पूँछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥ २६६ ॥

फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है ? उनके शरीरमें क्रोध छा गया ॥ २६६ ॥

ची०—समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए ॥

सुनत वचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥

जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये । जनकके वचन सुनकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके टुकड़े पृथ्वीपर पड़े हुए दिखायी दिये ॥ १ ॥

अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा ॥

वेगि देखाउ मूढ़ न त आजू । उलटउँ महि जहँ लहि तव राजू ॥

अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले—रे मूर्ख जनक ! बता, धनुष किसने तोड़ा ? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ ! आज मैं जहाँतक तेरा राज्य है, वहाँतककी पृथ्वी उलट दूंगा ॥ २ ॥

अति डरु उतरु देत नृप नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥

सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहिँ सकल त्रास उर भारी ॥

राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते । यह देखकर कुटिल राजा मनमें बड़े प्रसन्न हुए । देवता, मुनि, नाग और नगरके स्त्री-पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय है ॥ ३ ॥

मन पछिताति सीय महतारी । विधि अब सँवरी वात विगारी ॥

भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरध निमेष कल्प सम बीता ॥

सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी वात बिगाड़ दी । परशुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने लगा ॥ ४ ॥

मृषभ कंध उर बाहु बिसाला । चारु जनेउ माल मृगछाला ॥

कटि मुनिवसन तून दुइ बाँधें । धनु सर कर कुठारु कल काँधें ॥

बेलके समान (ऊँचे और पुष्ट) कंधे हैं, छाती और भुजाएँ विशाल हैं । सुन्दर यज्ञो-
पवीत धारण किये, माला पहने और मृगचर्म लिये हैं । कमरमें मुनियोंका वस्त्र (बलकल) और
दो तरफसे बाँधे हैं । हाथमें धनुष-बाण और सुन्दर कंधेपर फरसा धारण किये हैं ॥ ४ ॥

दो०—सांत वेपु करनी कठिन वरनि न जाइ सरूप ।

धरि मुनितनु जनु वीर रसु आयउ जहँ सब भूप ॥ २६८ ॥

शान्त वेपु हैं, परंतु करनी बहुत कठोर है; स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता ।
मानो वीर-रस ही मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब राजालोग हैं, वहाँ आ गया हो ॥ २६८ ॥

दो०—देखत भृगुपति वेपु कराला । उठेसकल भयविकल भुआला ॥

पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥

परशुरामजीका भयानक वेपु देखकर राजा भयसे व्याकुल हो उठ पड़े हुए
और पितासहित अपना नाम कहे-कहकर सब दण्डवत्-प्रणाम करने लगे ॥ १ ॥

जेहि सुभायँ चितवहिं हितु जानी । सो जानइ जनु आइ खुटानी ।

जनक वहोरि आइ सिरु नावा । सीय वोलाइ प्रनामु करावा ॥

परशुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता
है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी । फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको
बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २ ॥

आसिप दीन्हि सर्खीं हरषानीं । निज समाज लै गई सयानीं ॥

विश्वामित्रु मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ।

परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया । सखियाँ हर्षित हुईं और [वहाँ अब अधिक
देर ठहरना ठीकान समझकर] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले गयीं । फिर
विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलोंपर गिराया ॥ ३ ॥

रामु लखनु दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥

रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥

[विश्वामित्रजीने कहा—] मैं राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं । उनकी

—लखन कहा हसि हमरें जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥
का छति लाभु जून धनु तोरें । देखा राम नयन के भोरें ॥

लक्ष्मणजीने हंसकर कहा—हे देव! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष एक-से ही हैं।
राने धनुषके तोड़नेमें क्या हानि-लाभ? श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके धोखेसे देखा था।

जुअत टूट रघुपतिहु न दोसू । मुनि विनु काज करिअ कत रोसू ॥
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥

फिर यह तो छूते ही टूट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि!
आप बिना ही कारण किसलिये क्रोध करते हैं? परशुरामजी अपने फरसेकी ओर देखकर
बोले—अरे दुष्ट! तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना ॥ २ ॥

बालकुबोलि बधउं नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व विदित छत्रियकुल द्रोही ॥

में तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख! क्या तू मुझे निरा मुनि ही जान
हे? मैं बालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ। क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभरमें विख्यात है।
भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही
सहसबाहु भुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमार

अपनी भुजाओंके बलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और बहुत
उसे ब्राह्मणोंको दे डाला। हे राजकुमार! सहस्रबाहुकी भुजाओंको काटनेवाले मैं
फरसेको देख! ॥ ४ ॥

दो०—मातु पितहि जनि सोचवस करसि महीसकिसोर ।
गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥ २७

अरे राजाके बालक! तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरे
बड़ा भयानक है, यह गर्भोंके बन्धोंका भी नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥

चो०—विहसि लखनु बोले मृदु वानी । अहो मुनीसु महा भट
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि

लक्ष्मणजी हंसकर कोमल वाणीसे बोले—अहो, मूनीश्वर तो अपनेको
योद्धा समझते हैं। बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूँकसे पहाड़ उड़ाना च

दो०—सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु ।

हृदय न हरपु विपादु कछु बोले श्रीरघुवीरु ॥ २७० ॥

तब श्रीरामचन्द्रजी सब लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई जानकर बोले—उनके हृदयमें न कुछ हर्ष था न विपाद—॥ २७० ॥

मासपारायण, नवाँ विश्राम

चौ०—नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एकदास तुम्हारा ॥

आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥

हे नाथ ! शिवजीके धनुषको तोड़नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा । क्या आजा है, मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले—॥ १ ॥

सेवकु सो जो करै सेवकाई । अरि करनी करि करिअ तराई ॥

सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥

सेवक वह है जो सेवाका काम करे । शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये । हे राम ! सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा है, वह सहस्रबाहुके समान मेरा शत्रु है ॥ २ ॥

सो विलगाउ विहाइ समाजा । न त मारे जैहहि सब राजा ॥

सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥

वह इस समाजको छोड़कर अलग हो जाय, नहीं तो सभी राजा मारे जायेंगे । मुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले—॥ ३ ॥

वहु धनुहीं तोरीं लरिकाई । कवहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाईं ॥

एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू ॥

हे गोसाईं ! लड़कपनमें हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डालीं, किन्तु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया । इसी धनुषपर इतनी ममता किस कारणसे है ? यह सुनकर भृगुवंशकी ध्वजास्वरूप परशुरामजी कुपित होकर कहने लगे ॥ ४ ॥

दो०—रे नृप वालक काल बस वोलत तोहि न सँभार ।

धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥ २७१ ॥

अरे राजपुत्र ! कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है—मारे संसारमें विख्यात शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान है ? ॥ २७१ ॥

काल कवलु होइहि छन माहीं । कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥

तुम्ह हटकहु जौं चहहु उवारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥

अभी क्षणभरमें यह कालका शास हो जायगा । मैं पुकारकर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है । यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो ॥ २ ॥

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरनै पारा ॥

अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥

लक्ष्मणजीने कहा—हे मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? आपने अपने ही मुँहसे अपनी करनी अनेकोंबार बहुत प्रकारसे वर्णन की है ॥ ३ ॥

नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहु । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहु ॥

वीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा । गारी देत न पावहु सोभा ॥

इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये । क्रोध रोककर असह्य दुःख मत सहिये । आप वीरताका व्रत धारण करनेवाले, धैर्यवान् और क्षोभरहित हैं । गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४ ॥

दो०—सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु ।

विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ॥ २७४ ॥

शूरवीर तो युद्धमें करनी (शूरवीरताका कार्य) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते । शत्रुको युद्धमें उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं । २७४ ।

चौ०—तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा । बार बार मोहिलागि बोलावा ॥

सुनत लखन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥

आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं । लक्ष्मणजीके कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फरसेको सुधारकर हाथमें ले लिया ॥

अव जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुवादी बालकु बधजोगू ॥

बाल विलोकि बहुत मै वाँचा । अव यह मरनिहार भा साँचा ॥

[और बोले—] अब लोग मुझे दोष न दें । यह कड़ुआ बोलनेवाला बालक

इहाँ कुम्हड़वतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥
देखि कुठार सरासन बाना । मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥

यहाँ कोई कुम्हड़ेकी वतिया (छोटा कच्चा फल) नहीं है, जो तरजनी (सबसे आगेकी) उंगलीको देखते ही मर जाती है । कुठार और धनुष-बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमानसहित कहा था ॥ २ ॥

भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी । जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी ॥
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥

भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोधको रोककर सह लेता हूँ । देवता, ब्राह्मण, भगवान्के भक्त और गौ-इनपर हमारे कुलमें बीरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३ ॥

वधें पापु अपकीरति हारें । मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें ॥
कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा ॥

क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती है । इसलिये आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये । आपका एक-एक वचन ही करोड़ों वज्रोंके समान है । धनुष-बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर ।
सुनि सरोष भृगुवंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ २७३ ॥

इन्हें (धनुष-बाण और कुठारको) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा कीजिये । यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले—॥ २७३ ॥

चौ०—कौंसिकसुनहु मंद यहु बालकु । कुटिल कालवस निज कुल घालकु ॥
भानु वंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥

हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है; कालके वश होकर यह अपने कुलका घातक बन रहा है । यह सूर्यवंशस्थी पूर्णचन्द्रका कलङ्क है । यह बिल्कुल उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है ॥ १ ॥

वह मानों हमारे ही मत्ये काढ़ा था। बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये, तो मैं तुरंत धैली खोलकर दे दूँ ॥ २ ॥

सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा ॥
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि बचउँ नृपद्रोही ॥

लक्ष्मणजीके कड़वे वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला। सारी सभा हाय! हाय! करके पुकार उठी। [लक्ष्मणजीने कहा—] हे भृगुश्रेष्ठ! आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं? पर हे राजाओंके शत्रु! मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। (तरह दे रहा हूँ) ॥ ३ ॥

मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े । द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे ॥

आपको कभी रणधीर बलवान् वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मणदेवता! आप घरहीमें बड़े हैं। यह सुनकर 'अनुचित है, अनुचित है' कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ॥ ४ ॥

दो०—लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु ।

बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥

लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान (शान्त करनेवाले) वचन बोले—२७६

चौ०—नाथ करहु बालक पर छोह । सूध दूधमुख करिअ न कोह ॥

जों पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना । तौ कि बरावरि करत अयाना ॥

हे नाथ! बालकपर कृपा कीजिये। इस सीधे और दुधमुँहे बच्चेपर क्रोध न कीजिये। यदि यह प्रभुका (आपका) कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बरावरी करता? ॥ १ ॥

जों तरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥

करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥

बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्दसे

मारे जानेके ही योग्य है। इसे बालक देखकर मने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २ ॥

कौसिक कहा छमिअ अपराधू । बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥
खर कुठार में अकरुन कोही । आगेँ अपराधी गुरुद्रोही ॥

विश्वामित्रजीने कहा—अपराध क्षमा कीजिये । बालकोंके दोष और गुणको साधु-लोग नहीं गिनते । [परशुरामजी बोले—] तीखी धारका कुठार, में दयारहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने—॥ ३ ॥

उतर देत छोड़उँ विनु मारें । केवल कौसिक सील तुम्हारेँ ॥
न त एहिं काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें ॥

उत्तर दे रहा है । इतनेपर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र ! केवल तुम्हारे शील (प्रेम) से । नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुरुसे उच्छ्रण हो जाता ॥ ४ ॥

दो०—गाधिसूनु कह हृदयँ हँसि मुनिहि हरिअरइ सूझ ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न वूझ अवूझ ॥ २७५ ॥

विश्वामित्रजीने हृदयमें हँसकर कहा—मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है (अर्थात् सबत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं) । किंतु यह लोहमयी (केवल फौलादकी बनी हुई) खाँड़ (खाँड़ा—खट्वा) है, ऊखकी (रसकी) खाँड़ नहीं है, [जो मुँहमें लेते ही गल जाय । खेद है,] मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं; इनके प्रभावको नहीं समझ रहे हैं ॥ २७५ ॥

चौ०—कहेउलखन मुनि सीलुतुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारा ॥

माता पितहि उरिन भए नीकें । गुररिनु रहा सोचुवड़ जी कें ॥

लक्ष्मणजीने कहा—हे मुनि ! आपके शीलको कौन नहीं जानता ? वह संसार-भरमें प्रसिद्ध है । आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उच्छ्रण ही हो गये; अब गुरुका ऋण रहा, जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है ॥ १ ॥

सो जनु- हमरेहि भाये काढ़ा । दिन चलि गए व्याज वड़ वाढ़ा ॥

अब आनिअ व्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ मैं थैली खोली ॥

थर थर काँपहिं पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरइ होइ बल हानी ॥

जनकपुरके स्त्री-पुरुष थर-थर काँप रहे हैं [और मन-ही-मन कह रहे हैं कि] छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है । लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है और उनके बलकी हानि हो रही है (उनका बल घट रहा है) ॥३॥

बोले रामहि देइ निहोरा । बचउँ विचारि बंधु लघु तोरा ॥
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें । विष रस भरा कनक घट्टु जैसें ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले—तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ । यह मनका मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, जैसे विषके रसमें भरा हुआ सोनेका घड़ा ! ॥ ४ ॥

दो०—सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम ।

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी वाम ॥ २७८ ॥

यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे । तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजीके पास चले गये ।

चो०—अति विनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिअ नहिं काना ॥

श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी बोले—हे नाथ ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं । आप बालकके वचनपर कान न कीजिये (उसे सुना-अनसुना कर दीजिये) ॥ १ ॥

बररै बालकु एक सुभाऊ । इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥

तेहिं नाहीं कछु काज विगारा । अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥

वरें और बालकका एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते । फिर उसने (लक्ष्मणने) तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो मैं हूँ ।

कृपा कोपु बधु बँधव गोसाईं । मो पर करिअ दास की नाईं ॥

कहिअ वेगि जेहि विधि रिस जाईं । सुनिनायक सोइ करौं उपाईं ॥

भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं ॥ २ ॥

राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकांने ॥
हँसत देखि नखसिखरिस व्यापी । राम तोर भ्राता बड़ पापी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकरा दिये। उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक (सारे शरीरमें) क्रोध छा गया। उन्होंने कहा—हे राम! तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३ ॥

गौर सरीर स्याम मन माहीं । कालकूटमुख पयमुख नाहीं ॥
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही ॥

यह शरीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला है। यह विषमुग्ध है, दुधमुंहा नहीं। स्वभावसे ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता (तेरे-जैसा शीलवान् नहीं है)। यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता ॥ ४ ॥

दो०—लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल ।

जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकूल ॥ २७७ ॥

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे मुनि! सुनिये, क्रोध पापका मूल है। जिसके वशमें होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकूल चलते (सबका अहित करते) हैं।

चो०—मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दायया ॥

टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । बैठिअ होइहिं पाय पिराने ॥

हे मुनिराज! मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्यागकर दया कीजिये। टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेमें जुड़ नहीं जायगा। गड़े-गड़े पैर दुग्धने लगे होंगे, बैठ जायें ॥ १ ॥

जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥

बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥

यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी (कारीगर) को बुलाकर जुड़ा दिया जाय। लक्ष्मणजीके बोलनेमें जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं—बस, चुप रहिये, अनुचित बोलना अच्छा नहीं ॥ २ ॥

वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥
बिहसे लखनु कहा मन माहीं । मूढ़ें आँखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥

इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते ? यह राजपुत्र देखनेमें छोटा है, पर है बड़ा खोटा । लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा—आँख मूढ़ लेनेपर कहीं कोई नहीं है ॥

दो०—परसुरामु तव राम प्रति बोले उर अति क्रोधु ।

संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २८० ॥

तव परशुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले—अरे शठ ! तू शिवजीका धनुष तोड़कर उलटा हमीको ज्ञान सिखाता है ! ॥ २८० ॥

चा०—बंधु कहइ कटु संमत तोरें । तू छल विनय करसि कर जोरें ॥

करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहिं त छाइ कहाउव रामा ॥

तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता है और तू छलसे हाथ जोड़कर विनय करता है । या तो युद्धमें मेरा संतोष कर; नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १ ॥

छलु तजि करहिसमरु सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारउँ तोही ॥

भृगुपति वकहिं कुठार उठाएँ । मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ ॥

अरे शिवद्रोही ! छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर; नहीं तो भाईसहित तुझे मार डालूंगा । इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ २ ॥

गुनह लखन कर हम पर रोषू । कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू ॥

टेढ़ जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ॥

[श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा—] गुनाह (दोष) तो लक्ष्मणका और क्रोध मुझपर करते हैं । कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है । टेढ़ा जानकर सब लोग किमीकी भी वन्दना करते हैं; टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता ॥ ३ ॥

राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगेँ यह सीसा ॥

जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥

श्रीरामचन्द्रजीने [प्रकट] कहा—हे मुनीश्वर ! क्रोध छोड़िये । आपके हाथमें

अतः हे स्वामी ! कृपा, क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी तरह
(अर्थात् दास समझकर) मुझपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो,
हे मुनिराज ! बताइये, मैं वही उपाय करूँ ॥ ३ ॥

कह मुनि राम जाइ रिस कैसें । अजहुँ अनुज तव चितव अनैसैं ॥
एहि कैं कंठ कुठारु न दीन्हा । तो मैं काह कोपु करि कीन्हा ॥

मुनिने कहा—हे राम ! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक
रहा है । इसकी गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या ?

दो०—गर्भ स्रवहिँ अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर ।

परसु अछत देखउँ जिअत वैरी भूपक्त्सोर ॥ २७६ ॥

मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर पड़ते हैं,
उसी फरसेके रहते मैं इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ ॥ २७६ ॥

चौ०—बहइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥

भयउ वाम विधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ ॥

हाथ चलता नहीं, क्रोधसे छाती जली जाती है । [हाय !] राजाओंका घातक
यह कुठार भी कुंठित हो गया ! विघाता विपरीत हो गया; इससे मेरा स्वभाव बदल
गया; नहीं तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा कैसे ? ॥ १ ॥

आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिरु नावा ॥

बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत वचन झरत जनु फूला ॥

आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है । यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर
सिर नवाया [और कहा—] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूल ही है;
वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं ॥ २ ॥

जौँ पै कृपाँ जरिहिँ मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख विधाता ॥

देखु जनक हठि बालकु एहू । कीन्ह चहत जइ जमपुर गेहू ॥

हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होनेपर तो
शरीरकी रक्षा विघाता ही करेंगे । [परशुरामजीने कहा—] हे जनक ! देख, यह मूर्ध
वालक हठ करके यमपुरीमें घर (निवास) करना चाहता है ॥ ३ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको बार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा । तब भृगु-पति (परशुरामजी) कुपित होकर [अथवा क्रोधकी हँसी हँसकर] बोले—तू भी अपने भाईके समान ही टेढ़ा है ॥ २८२ ॥

चौ०—निपटहिं द्विज करि जानहि मोही । मैं जस विप्र सुनावउँ तोही ॥

चाप सुवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥

तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है ? मैं जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ ! धनुषको सुवा, बाणको आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १ ॥

समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पसु आई ॥

मैं एहिं परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥

चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ (यज्ञमें जलायी जानेवाली लकड़ियाँ) हैं । बड़े-बड़े राजा उसमें आकर बलिके पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है । ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं (अर्थात् जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है) ॥ २ ॥

मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरें । बोलसि निदरि विप्र के मोरें ॥

भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा । अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा ॥

मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है । धनुष तोड़ डाला; इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है । ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा है ॥ ३ ॥

राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बड़िलघु चूक हमारी ॥

छुअतहिं टूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करौं अभिमाना ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे मुनि ! विचारकर बोलिये ! आपका क्रोध बहुत बढ़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है । पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया । मैं किस कारण अभिमान करूँ ? ॥

दो०—जौं हम निदरहिं विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ ।

तौ अस को जग सुभट्टु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८३ ॥

हे भृगुनाथ ! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिये, फिर संसारमें ऐसा कौन योद्धा है, जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें ॥ २८३ ॥

कुठार है और मेरा यह सिर आगे है । जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे स्वामी ! वही कौजिये । मुझे अपना अनुचर (दास) जानिये ॥ ४ ॥

दो०—प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु ।

वेषु विलोकें कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥ २८१ ॥

स्वामी और सेवकमें युद्ध कैसा ? हे ब्राह्मणथेष्ट ! क्रोधका त्याग कौजिये ! आपका [वीरों का-सा] वेष देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था; वास्तवमें उसका भी कोई दोष नहीं है ॥

चौ०—देखि कुठार वान धनु धारी । भैलरिकहि रिस वीरु विचारी ॥

नामुजान पै तुम्हहि न चीन्हा । वंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा ॥

आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको क्रोध आ गया । वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं । अपने वंश (रघुवंश) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥

जौं तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥

छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥

यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी ! बालक आपके चरणोंकी धूलि सिरपर रखता । अनजानकी भूलको क्षमा कर दीजिये । ब्राह्मणोंके हृदयमें बहुत अधिक दया होनी चाहिये ॥ २ ॥

हमहि तुम्हहिसरिवरिकसिनाथा । कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥

राम मात्र लघु नाम हमारा । परसुसहित बड़ नाम तोहारा ॥

हे नाथ ! हमारी और आपकी बराबरी कैसी ? कहिये न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परशुमहित बड़ा नाम ! ॥ ३ ॥

देव एकु गुनु धनुष हमारें । नव गुन परम पुनीत तुम्हारें ॥

सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे ॥

हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और अस्मितता—ये] नौ गुण हैं । हम तो सब प्रकारसे आपसे हारे हैं । हे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कौजिये ॥ ४ ॥

दो०—वार वार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम ।

वोले भृगुपति सरुष हसि तहँ वंधु सम वान ॥ २८२ ॥

हे रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाले अग्नि ! आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौका हित करनेवाले ! आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रमके हरनेवाले ! आपकी जय हो ॥ १ ॥

विनय सील करुणा गुण सागर । जयतिवचन रचना अति नागर ॥
सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय शरीर छवि कोटि अनंगा ॥

हे विनय, शील, कृपा आदि गुणोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! आपकी जय हो। हे सेवकोंको सुख देनेवाले ! सब अंगोंसे सुन्दर और शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी छवि धारण करनेवाले ! आपकी जय हो ॥ २ ॥

करोँ काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस मन मानस हंसा ॥
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥

मैं एक मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूँ ? हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस ! आपकी जय हो। मैंने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे। हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये ॥ ३ ॥

कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भृगुपति गए वनहि तप हेतू ॥
अपभयँ कुटिल महीप डेराने । जहँ तहँ कायर गवँहि पराने ॥

हे रघुकुलके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुरामजी तपके लिये वनको चले गये। [यह देखकर] दुष्ट राजालोग विना ही कारणके (मनःकल्पित) डरसे (रामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें इस व्यर्थके डरसे) डर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये ॥ ४ ॥

दो०—देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर वर्षहिं फूल ।
हरषे पुर नर नारि सब मिठी मोहमय सूल ॥ २८५ ॥

देवताओंने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरके स्त्री-पुरुष सब हर्षित हो गये। उनका मोहमय (अज्ञानसे उत्पन्न) शूल मिट गया ॥ २८५ ॥

त्रो०—अति गहगहे वाजने वाजे । सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥
जूथजूथ मिलिसुमुखिसुनयनीं । करहिं गान कल कोकिलवयनीं ॥

चो०—देव दनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होउ बलवाना ॥

जौं रन हमहि पचारै कोऊ । लरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥

देवता, दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा वे चाहे बलमें हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान् हों, यदि रणमें हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो ॥ १ ॥

छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहिं पावँर आना ॥

कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन रघुवंसी ॥

क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कलङ्क लगा दिया । मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करने नहीं कि रघुवंशी रणमें कालसे भी नहीं डरते ॥ २ ॥

विप्रवंस कै असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥

सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥

ब्राह्मणवंशकी ऐसी ही प्रभुता (महिमा) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है [अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है] । श्रीरघुनाथजीके कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुल गये ॥ ३ ॥

राम रमापति कर धनु लेहू । खँचहु मिटै मोर संदेहू ॥

देत चापु आपुहिं चलि गयऊ । परसुराम मन विसमय भयऊ ॥

[परशुरामजीने कहा—] हे राम ! हे लक्ष्मोपति ! धनुषको हाथमें [अथवा लक्ष्मी-पति विष्णुका धनुष] लीजिये और इसे खींचिये जिससे मेरा संदेह मिट जाय । परशुरामजी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया । तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥

दो०—जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात ।

जोरि पानि बोले वचन हृदयँ न प्रेम अमात ॥ २८४ ॥

तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [जिसके कारण] उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया । वे हाथ जोड़कर वचन बोले । प्रेम उनके हृदयमें समाता न था—

चो०—जय रघुवंस वनज वन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥

जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमारी ॥

बहुरि महाजन सकल बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥

हाट वाट मंदिर सुखासा । नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा ॥

फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया ।

[राजाने कहा—] बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ । २।

हरषि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥

रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥

महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने नौकरोंको बुला भेजा [और उन्हें आज्ञा दी कि] विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो । यह सुनकर वे सब राजाके बचन सिरपर धरकर और सुख पाकर चले ॥ ३ ॥

पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसल सुजाना ॥

विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के खंभा ॥

उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशल और चतुर थे । उन्होंने ब्रह्माकी वन्दना करके कार्य आरम्भ किया और [पहले] सोनेके केलके खंभे बनाये ॥४॥

दो०—हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥

हरी-हरी मणियों (पत्रे) के पत्ते और फल बनाये तथा पद्मराग मणियों (माणिक) के फूल बनाये । मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया ॥२८७॥

चो०—वेनु हरितमनिमयसब कीन्हे । सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हे ॥

कनक कलित अहिवेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥

बाँस सब हरी-हरी मणियों (पत्ते) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते थे [कि मणियोंके हैं या साधारण] । सोनेकी सुन्दर नागवेलि (पानकी लता) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी ॥ १ ॥

तेहि के रचि पचि बंध बनाए । विच विच मुकुता दाम सुहाए ॥

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥

उसी नागवेलिके रचकर और पन्चीकारी करके बन्धन (बाँधनेकी रस्ती) बनाये । बीच-बीचमें मोतियोंकी सुन्दर शालरें हैं । माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे—इन रत्नों-

खूब जोरसे बाजे वजने लगे । समीने मनोहर मङ्गल-साज सजे । सुन्दर मुख
और सुन्दर नेत्रोंवाली तथा कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ झुंठ-की-झुंठ मिल-
कर सुन्दर गान करने लगीं ॥ १ ॥

सुखु विदेह कर वरनि न जाई । जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु विधु उदयँ चकोरकुमारी ॥

जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मका दरिद्री धनका
खजाना पा गया हो । सीताजीका भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चन्द्रमाके उदय
होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥ २ ॥

जनक कीन्ह कौंसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाईं ॥

जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [और कहा—] प्रभुहीकी कृपासे
श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है । दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर दिया । हे स्वामी ! अब
जो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाहु चाप आधीना ॥
दूटतहीं धनु भयउ विवाहू । सुर नरनाग विदित सब काहू ॥

मुनिने कहा—हे चतुर नरेश ! सुनो । यों तो विवाह धनुषके अधीन था ; धनुषके
दूटते ही विवाह हो गया । देवता, मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है ॥ ४ ॥

दो०—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा वंस व्यवहारु ।

बृद्धि विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित आचारु ॥ २८६ ॥

तथापि तुम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके वृद्धों और
गुरुओंसे पूछकर और वेदोंमें वर्णित जैसा आचार हो, वंसा करो ॥ २८६ ॥

चौ०—दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोलाई ॥

मुदितराउकहि भलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥

जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरथको बुना लावें । राजाने-समझ होकर
कहा—हे कृपाल ! बहुत अच्छा और उसी समय दूतोंको बलाकर भेज ॥ १ ॥

हे तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी ॥
संपदा नीच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥

उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपुरमें उसके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र भी मोहित होता था ॥ ४ ॥

१०—बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेषु ।

तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥

जिस नगरमें साक्षात् लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हैं, उसकी शोभाका वर्णन करनेमें सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं ॥ २८९ ॥

१०—पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥

भूप द्वार तिन्ह खवरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥

जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामें पहुँचे । सुन्दर नगर देखकर वे हर्षित हुए । राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दशरथजीने सुनकर उन्हें बुला लिया ॥ १ ॥

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥

वारि विलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥

दूतोंने प्रणाम करके चिट्ठी दी । प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया । चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रोंमें जल (प्रेम और आनन्दके आँसू) छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आयी ॥ २ ॥

रामु लखनु उर कर बर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥

पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥

हृदयमें राम और लक्ष्मण हैं, हाथमें सुन्दर चिट्ठी है, राजा उसे हाथमें लिये ही रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी कह न सके । फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी । सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गयी ॥ ३ ॥

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई ॥

पृष्ठत अति सनेहँ सकुचाई । तात कहाँ तें पाती आई ॥

को चीरकर, कोरकर और पन्चीकारी करके, इनके [लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंगके] कमल बनाये ॥ २ ॥

किए भृंग बहुरंग विहंगा । गुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा ॥
सुर प्रतिमा खंभन गढि कार्दी । मंगल द्रव्य लिएँ सब ठाढी ॥

भौर और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये, जो हवाके सहारे गुंजते और कूजते थे । चंभों-पर देवताओंकी मूर्तियाँ गढ़कर निकालीं, जो सब मङ्गलद्रव्य लिये घड़ी थी ॥ ३ ॥

चौकेँ भाँति अनेक पुराई । सिंधुर मनिमय सहज सुहाई ॥
गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौके पुराये ॥ ४ ॥

दो०—सौरम पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि ।

॥ हेम वौर मरकत धवरि लसत पाटमय डोरि ॥ २८८ ॥

नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये । सोनेके वौर (आमके फूल) और रेशमकी डोरीसे बंधे हुए पत्तेके बने फलोंके गुच्छे सुशीमित हैं ॥ २८८ ॥

चौ०—रचे रुचिर वर वंदनिवारे । मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे ॥

मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥

ऐसे सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंद सजाये हों । अनेकों मङ्गल-कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चँवर बनाये ॥ १ ॥

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न वरनि त्रिचित्र त्रिताना ॥

जेहि मंडप दुलहिनि वैदेही । सो वरनेँ असि मति कवि केही ॥

जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । जिस मण्डपमें श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥

दूलहु रामु रूप गुन सागर । सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥

जनक भवन कै सोभा जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥

जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे, वह मण्डप तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होगा ही चाहिये । जनकजीके महलकी जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है ॥ ३ ॥

[दूतोंने कहा—] हे राजाओंके सुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके विभूषण हैं ॥ २६१ ॥

ची०—पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥
जिन्ह के जस प्रतापके आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥

आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं । वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशस्वरूप हैं ।
जिनके यशके आगे चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १ ॥

तिन्ह कहँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥

सीय स्वयंवर भूप अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥

हे नाथ ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना ! क्या सूर्यको हाथमें दीपक लेकर देखा जाता है ! सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, ॥ २ ॥

संभु सरासनु काहुँ न टारा । हारे सकल वीर बरिआरा ॥

तीनि लोक सहँ जे भटमानी । सभ के सकति संभु धनु भानी ॥

परंतु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका । सारे बलवान् वीर हार गये ।
तीनों लोकोंमें जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३ ॥

सकइ उठाइ सरासुर मेरू । सोउ हिथँ हारि गयउ करि फेरू ॥

जेहिं कौतुक सिवसैलु उठावा । सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥

वाणासुर, जो सुमेरुको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके चला गया; और जिसने खेलसे ही कैलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥

दो०—तहाँ राम रघुवंसमनि सुनिअ महा महिपाल ।

भंजेउ चाप प्रयास विनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २६२ ॥

हे महाराज ! सुनिये, वहाँ (जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये) रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने बिना ही प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी रंडीको तोड़ डालता है ॥ २६२ ॥

भरतजी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्नके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर आ गये। बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते हैं—पिताजी! चिट्ठी कहाँसे आयी है? ॥ ४ ॥

दो०—कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहिं देस ।

सुनि सनेह साने बचन वाची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥

हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई कहिये, सकृपाल तो हैं और वे किस देशमें हैं? वेहसे सने ये बचन सुनकर राजाने फिरसे चिट्ठी पढ़ी ॥ २९० ॥

ती०—सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥

प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभौं सुखु लहेउ विसेपी ॥

चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समात्ता नहीं। भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुघ पाया ॥ १ ॥

मधु नृप दूत निकट बैठारे । मधुर मनोहर वचन उचारे ॥

भैया कहहु कुसल दोउ वारे । तुम्ह नीकें निज नयन निहारे ॥

तब राजा दूतोंको पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले, भैया! कहो, दोनों कुशलसे तो हैं? तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न? ॥ २ ॥

स्यामल गौर धरें धनु भाथा । वय किसोर कौसिक मुनि साथी ॥

पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ ॥

साँवले और गोरे शरीरवाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं। किंगोर प्रवस्था है, विश्वामित्र मुनिके साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार इस प्रकार कह (पूछ) रहे हैं ॥ ३ ॥

जा दिन तैं मुनि गए लवाई । तब तैं आजु साँचि सुधि पाई ॥

कहहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥

[भैया !] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर पायी है। कहो तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना ! ये प्रिय (प्रेमभरे) वचन सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ ॥

दो०—सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ ।

रामु लखनु जिन्हके तनय त्रिस्व विभूपन दोउ ॥ २९१ ॥

सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले—पुण्यात्मा पुरुषके लिये
वी सुखोंसे छायी हुई है। जैसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं, यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना
हीं होती, ॥ १ ॥

ममि सुख संपति विनहिं बोलाएँ । धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ ॥

तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥

वैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास
जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, वैसे ही पवित्र
कौसल्या देवी भी हैं ॥ २ ॥

पुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥

तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें । राजन राम सरिस सुत जाकें ॥

तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत्में न कोई हुआ, न है और न होनेका ही है। हे
राजन्! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं ॥ ३ ॥

वीर विनीत धरम व्रत धारी । गुन सागर वर बालक चारी ॥

तुम्ह कहूँ सर्व काल कल्याणा । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥

और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्मका व्रत धारण करनेवाले और गुणोंके
समुद्र समुद्र हैं। तुम्हारे लिये सभी कालोंमें कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात
सजाओ ॥ ४ ॥

श्री०—चलहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ ।

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥ २६४ ॥

और जल्दी चलो। गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर
और सिर नवाकर तथा दूतोंको डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये ॥ २६४ ॥

श्री०—राजा सबु रनिवास बोलाई । जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥

सुनि संदेसु सकल हरषानीं । अपर कथा सब भूप बखानीं ॥

राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी। समाचार
सुनकर सब रानियाँ हर्षसे भर गयीं। राजाने फिर दूसरी सब बातोंका (जो दूतोंके मुखसे
सुनी थीं) वर्णन किया ॥ १ ॥

श्री०—सुनि सरोष भृगुनायक आए । बहुत भौंति तिन्ह आँखि देखाए ॥

देखिरामवलु निजधनु दीन्हा । करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा ॥

धनुष टूटनेकी बात सुनकर परशुरामजी क्रोधभरे आये और उन्होंने बहुत प्रकारसे आँखें दिखलायीं । अन्तमें उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके बनको गमन किया ॥ १ ॥

राजन राम अतुलबल जैसें । तेज निधान लखनु पुनि तैसें ॥

कंपहिं भूप विलोकत जाकें । जिमि गज हरि किसोर के ताकें ॥

हे राजन ! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान-फिर लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंहके बच्चेके साँकनेसे काँप उठते हैं ॥ २ ॥

देव देखि तव बालक दोऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥

दूत वचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप वीर रस पागी ॥

हे देव ! आपके दोनों बालकोंको देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता ही नहीं, (हमारी दृष्टिपर कोई चढ़ता ही नहीं) ॥ प्रेम, प्रताप और वीर-रसमें पगी हुई दूतोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी ॥ ३ ॥

सभा समेत राउ अनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥

कहि अनीति ते मूढ़हिं काना । धरमु विचारि सबहिं सुखु माना ॥

सभासहित राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूतोंको निछावर देने लगे । [उन्हें निछावर देते देखकर] यह नीतिविरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथोंसे फान मूढ़ने लगे ! धर्मको विचारकर (उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर) सभीने सुख माना ॥ ४ ॥

श्री०—तव उठि भूप वसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ ।

कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥ २६३ ॥

तब राजाने उठकर वसिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २६३ ॥

श्री०—सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई ॥

जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं । जद्यपि ताहि कामना ॥

होगा । यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियों सजाने लगे ॥ २ ॥

जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥
तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥

यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मङ्गलमयी पवित्र पुरी है; तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥

ध्वज पताक पट चामर चारु । छावा परम विचित्र बजारु ॥
कनक कलस तोरण धनि जाता । हरद दूब दधि अच्छत माला ॥

ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चँवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है । सोनेके कलश, तोरण, मणियोंकी झालरें, हलदी, दूब, दही, अक्षत और मालाओंसे— ॥ ४ ॥

दो०—मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ ।

बीथीं सींचीं चतुरसम चौके चारु पुराइ ॥ २६६ ॥

लोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय बना लिया । गलियोंको चतुरसमसे सींचा और [द्वारोंपर] सुन्दर चौक पुराये । [चन्दन, केशर, कस्तूरी और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हैं ।] ॥ २६६ ॥

चौ०—जहँ तहँ जूथजूथ मिलि भामिनि । सजिनवसप्त सकल दुति दामिनि ॥

विधुवदनीं मृग सावक लोचनि । निज सरूप रति मानु विमोचनि ॥

विजलीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, हरिनके वच्चेके-से नेत्रोंवाली और अपने सुन्दर रूपसे कामदेवकी स्त्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ सभी सोलहों शृङ्गार सजकर जहाँ-तहाँ झुंड-की-झुंड मिलकर, ॥ १ ॥

गावहिं मंगल मंजुल वानीं । सुनि कल रव कलकंठि लजानीं ॥

भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहन रचेउ विताना ॥

मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयलें भी लज्जा जाती हैं । राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है ॥ २ ॥

प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥
मुदित असीस देहिं गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारीं ॥

प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलोंकी गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं । बड़ी-बूढ़ी [अथवा गुरुओंकी] स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं । माताएँ अत्यन्त आनन्दमें मग्न हैं ॥ २ ॥

लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदयँ लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥
राम लखन कै कीरति करनी । बारहिं वार भूपवर वरनी ॥

उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें लेकर सब हृदयसे लगाकर छाती पीतल करती हैं । राजाओंमें श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीर्ति और करनीका बारंबार वर्णन किया ॥ ३ ॥

मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए ॥
दिए दान आनंद समेता । चले विप्रवर आसिष देता ॥

'यह सब मुनिकी कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले आये । तब रानियोंने ब्राह्मणोंको बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये । श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले ॥ ४ ॥

सो०—जाचक लिए हैंकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि ।

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रवर्ति दसरथ्य के ॥ २६५ ॥

फिर भिक्षुओंको बुलवाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं । चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हों ॥ २६५ ॥

सो०—कहत चले पहिरें पट नाना । हरपि हने गहगहे निसाना ॥

समाचार सब लोगन्ह पाए । लागे घर घर होन बधाए ॥

यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले । आनन्दित होकर नगाड़ेवालोंने बड़े जोरसे नगाड़ोंपर चोट लगायी । सब लोगोंने जब यह समाचार पाया, तब घर-घर बधावे होने लगे ॥ ५ ॥

भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुवीर विआहू ॥

सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गलीं सँवारन लागे ॥

चौदहों लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका

सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी (चाल) के हैं । वे घरतीपर ऐसे पर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । [ऐसी तेज चालके हैं] मानो हवाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं ॥३॥

तिन्ह सब छयल भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥
सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥

उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैल-छवीले राजकुमार सवार हुए । वे सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं । उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं तथा कमरमें भारी तरकस बँधे हैं ॥ ४ ॥

दो०—छरे छवीले छयल सब सूर सुजान नवीन ।

जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥ २६८ ॥

सभी चुने हुए छवीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं । प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलानेकी कलामें बड़े निपुण हैं ॥ २६८ ॥

चौ०—बाँधे विरद वीर रन गाढ़े । निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥

फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनवनिसाना ॥

शूरताका वाना धारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए । वे चतुर अपने घोड़ोंको तरह-तरहकी चालोंसे फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़की आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १ ॥

रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मणि भूषन लाए ॥

चवँर चारु किंकिनि धुनि करहीं । भानु जान सोभा अपहरहीं ॥

सारथियोंने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणोंको लगाकर रथोंको बहुत विलक्षण बना दिया है । उनमें सुन्दर चवँर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं । वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूर्यके रथकी शोभाको छीने लेते हैं ॥ २ ॥

सावँकरन अगणित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥

सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोहे ॥

अगणित श्यामकण घोड़े थे । उनको सारथियोंने उन रथोंमें जोत दिया है, जो

मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत वाजत विपुल निसाना ॥
कतहुँ विरिद बंदी उच्चरहीं । कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं ॥

अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुतसे नगाड़े बज रहे हैं । कहीं भाट विरदावली (कुलकीर्ति) का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं ॥ ३ ॥

गावहि सुंदरि मंगल गीता । लै लै नामु रामु अरु सीता ॥
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहु ओरा ॥

सुन्दरी स्त्रियाँ श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गलगीत गा रही हैं । उत्साह बहुत है और महल अत्यन्त ही छोटा है । इससे [उसमें न समाकर] मानो वह उत्साह (आनन्द) चारों ओर उमड़ चला है ॥ ४ ॥

दो०—सोभा दसरथ भवन कइ को कवि वरनै पार ।

जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ २६७ ॥

दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओंके शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है ॥ २६७ ॥

चौ०—भूप भरत पुनि लिए बोलाई । हय गय स्थंदन साजहु जाई ॥

चलहु वेगि रघुवीर वराता । सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥

फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ; जल्दी रामचन्द्रजीकी वारातमें चलो । यह सुनते ही दोनों भाई (भरतजी और शत्रुघ्नजी) आनन्दवश पुलकसे भर गये ॥ १ ॥

भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए ॥

रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन वरन वर वाजि विराजे ॥

भरतजीने सब साहनी (घुड़सालके अध्यक्ष) बुलाये और उन्हें [घोड़ोंको सजानेकी] आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दीड़े । उन्होंने रुचिके साथ (यथायोग्य) जीनें कसकर घोड़े सजाये । रंग-रंगके उत्तम घोड़े शोभित हो गये ॥ २ ॥

सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥

नाना जाति न जाहिं बखाने । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥

कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले । उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है । सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले । ४।

दो०—सब कें उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर ।

कबहिं देखिबे नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ३०० ॥

सबके हृदयमें अपार हर्ष है और शरीर पुलकसे भरे हैं । [सबको एक ही लालसा लगी है कि] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे ॥ ३०० ॥

ची०—गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव वाजि हिंस चहु ओरा ॥

निदरि घनहि घुर्मरहिं निसाना । निज पराइ कछु सुनिअन काना ॥

हायी गरज रहे हैं, उनके घंटोंकी भीषण ध्वनि हो रही है । चारों ओर रथोंकी धरधराहट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो रही है । बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं । किसीको अपनी-परायी कोई बात कानोसे सुनायी नहीं देती ॥ १ ॥

महा भीर भूपति के द्वारें । रज होइ जाइ पषान पवारें ॥

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारीं । लिएँ आरती मंगल थारीं ॥

राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाय तो वह भी पिसकर धूल हो जाय । अटारियोंपर चढ़ी स्त्रियाँ मङ्गल-थालोंमें आरती लिये देख रही हैं ॥ २ ॥

गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना ॥

तव सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी । जोते रवि हय निंदक बाजी ॥

और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं । उनके अत्यन्त आनन्दका बखान नहीं हो सकता । तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको भी मात करने-वाले घोड़े जोते ॥ ३ ॥

दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने । नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥

राज समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अति भ्राजा ॥

दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन सरस्वतीसे भी नहीं हो सकता । एक रथपर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥ ४ ॥

सभी देखनेमें सुन्दर और गहनोंसे सजाये हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियोंके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥ ३ ॥

जे जल चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूढ़ वेग अधिकाई ॥

अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥

जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें नहीं डूवती। अस्त्र-शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियोंने रथियोंको बुला लिया ॥ ४ ॥

दो०—चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुन वरात ।

होत सगुन सुंदर सवहि जो जेहि कारज जात ॥ २६६ ॥

रथोंपर चढ़-चढ़कर वारात नगरके बाहर जुटने लगी। जो जिस कामके लिये जाता है, सभीको सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २६६ ॥

चो०—कलित करिवरन्हि परीं अँवारीं । कहि न जाहिं जेहि भाँति सँवारीं ॥

चले मत्त गज घंट विराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥

श्रेष्ठ हाथियोंपर सुन्दर अँवारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर (घंटे बजाते हुए) चले, मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह [गरजते हुए] जा रहे हों ॥ १ ॥

वाहन अपर अनेक विधाना । सिधिका सुभग सुखासन जाना ॥

तिन्ह चढ़ि चले विप्रवर वृंदा । जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ॥

सुन्दर पालकियाँ, सुपसे बँठने योग्य तामजान (जो कुर्सीनुमा होते हैं) और रथ आदि और भी अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हैं। उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर धारण किये हुए हों ॥ २ ॥

मागध सूत वांदि गुनगायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥

वेसर ऊँट वृषभ बहु जाती । चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥

मागध, सूत, भाट और गुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य थे, वैसे सवारीपर चढ़कर चले। बहुत जातियोंके घञ्चर, ऊँट और बैल असांख्यों प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले ॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । विविध वस्तु को वरनें पारा ॥

चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु

सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको जन्हींके अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं, चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं ॥ ३०२ ॥

चौ०—वनइ न बरनत बनी बराता । होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ॥
 चारा चाषु बाम दिसि लेई । मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥

बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता । सुन्दर शुभदायक शकुन हो रहे हैं । नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूर्ण मङ्गलोंकी सूचना दे रहा हो ।

दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥
 सानुकूल बह त्रिविध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥

दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है । नेवलेका दर्शन भी सब किसीने पाया । तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित) हवा अनुकूल दिशामें चल रही है । श्रेष्ठ (सुहागिनी) स्त्रियाँ भरे हुए घड़े और गोदमें बालक लिये आ रही हैं ।

लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥
 मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥

लोमड़ी फिर-फिरकर (बार-बार) दिखायी दे जाती है । गायें सामने खड़ी बछड़ोंको दूध पिलाती हैं । हरिनोंकी टोली [बायीं ओरसे] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया ॥ ३ ॥

क्षेमकरी कह छेम विसेषी । श्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥
 सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥

क्षेमकरी (सफेद सिरवाली चील) विशेषरूपसे क्षेम (कल्याण) कह रही है । श्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी । दही, मछली और दो विद्वान् ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ४ ॥

दो०—मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार ।

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०३ ॥

सभी मङ्गलमय, कल्याणमय और मनोवाञ्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये एक ही माय हो गये ॥ ३०३ ॥

दो०—तेहिं रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ हरपि चढ़ाइ नरेसु ।

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ ३०१ ॥

उस सुन्दर रथपर राजा वसिष्ठजीको हृष्यपुत्रक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी (पार्वती) और गणेशजीका स्मरण करके [दूसरे] रथपर चढ़े ॥ ३०१ ॥

चौ०—सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसें । सुर गुर संग पुरंदर जैसें ॥

करि कुल रीति वेद विधि राऊ । देखि सवहि सव भौंति बनाऊ ॥

वसिष्ठजीके साथ [जाते हुए] राजा दशरथजी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों। वेदकी विधिसे और कुलकी रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १ ॥

सुमिरि रामु गुर आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥

हरपे विबुध विलोकि वराता । वरपहिं सुमन सुमंगल दाता ॥

श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, गुरुकी आज्ञापाकर पृथ्वीपति दशरथजी शह्व बजाकर चले। वारात देखकर देवताहर्षित हुए और सुन्दर मङ्गलदायक फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥

भयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम वरात वाजने वाजे ॥

सुर नर नारि सुमंगल गाई । सरस राग वाजहिं सहनाई ॥

बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाशमें और वारातमें [दोनों जगह] वाजे बजने लगे। देवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गलगान करने लगीं और रसीले रागसे शहनाइयाँ बजने लगीं ॥ ३ ॥

घंट घंटी धुनि वरनि न जाहीं । सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥

करहिं विद्रूपक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥

घंटे-घंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता। पेंदल चलनेवाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरतके खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं (आकाशमें ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं)। हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर गानेमें चतुर विद्रूपक (मसखरे) तरह-तरहके तमाशे कर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—तुरग नचावहिं कुअँर वर अकनि मृदंग निसान ।

नागर नट चितवहिं चक्ति डगहिं न ताल बंधान ॥ ३०२ ॥

[दूध, शर्वत, ठंडाई, जल आदिसे] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सब पकवानोंसे भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन, ॥ १ ॥

फल अनेक वर वस्तु सुहाई । हरषि भेंट हित भूप पठाई ।
भूषन बसन महामनि नाना । खगमृगहयगयबहुविधि जाना ।

उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर भेंटके लिये भेजीं । गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मूल्यवान् मणियाँ (रत्न), पक्षी, पशु, घोड़े, हाथ्य और बहुत तरहकी सवारियाँ, ॥ २ ॥

मंगल सगुन सुगंध सुहाए । बहुत भाँति महिपाल पठाए ।
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ।

तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गलद्रव्य और सगुनके पदार्थ राजाने भेजे । दही, चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें काँवरोमें भर-भरकर कहार चले ॥ ३ ॥

अगवानन्ह जब दीखि बराता । उर आनंदु पुलक भर गाता ।
देखि वनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ।

अगवानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द छ गया और शरीर रोमाञ्चसे भर गया । अगवानोंको सज-धजके साथ देखकर बरातियोंमें प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥

दो०—हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल ।

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥ ३०५ ॥

[बराती तथा अगवानोंमेंसे] कुछ लोग परस्पर मिलनेके लिये हर्षके मारे वाग छोड़कर (सरपट) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानों आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों ॥ ३०५ ॥

चा०—वरषिसुमनसुरसुंदरिगावहिं । मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं ।

वस्तु सकल राखीं नृप आगें । विनयकीन्हि तिन्ह अति अनुरागें ।

देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगा बजा रहे हैं । [अगवानीमें आये हुए] उन लोगोंने सब चीजें दशरथजीके आगे रख दी और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १ ॥

ची०—मंगल सगुन सुगम सब ताकें । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें ॥

रामसरिसवरुदुलहिनि सीता । समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥

स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं, उसके लिये सब मङ्गल शकून सुत्तम हैं । जहाँ श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दुल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा दशरथजी और जनकजी-जैसे पवित्र समधी हैं ॥ १ ॥

सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे विरंचि हम साँचे ॥

एहि विधि कीन्हे वरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥

ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकून नाच उठे [और कहने लगे—] अब ब्रह्माजीने हमको सच्चा कर दिया । इस तरह वारातने प्रस्थान किया । घोड़े, हाथी गरज रहे हैं और नगाहोंपर चोट लग रही है ॥ २ ॥

आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक वैंधाए सेतू ॥

बीच बीच वर वास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाप ॥

सूर्यवंशके पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोंपर पुल बंधवा दिये । बीच-बीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर (पड़ाव) बनवा दिये, जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छापी है ॥ ३ ॥

असन सयन वर वसन सुहाए । पावहिं सब निज निज मन भाए ॥

नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्हे मंदिर भूले ॥

और जहाँ वारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहायने उत्तम भोजन, विस्तर और वस्त्र पाते हैं । मनके अनुकूल नित्य नये सुखोंको देखकर सभी वरातियोंको अपने घर भूल गये ॥ ४ ॥

दो०—आवत जानि वरात वर सुनि गहगहे निसान ।

सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥

बड़े जोरसे बजते हुए नगाहोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ वारातकी आती हुई जानकर अगवानी करनेवाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर वारात लेने चले ॥ ३०४ ॥

मासपारायण, दसवाँ विश्राम

ची०—कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥

भरे सुधासम सब पकवाने । नाना भाँति न जाहिं बखाने ॥

हृदयमें हर्षित हुए। पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके हृदयमें महान् आनन्द समाता न था ॥ २ ॥

सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥
विश्वामित्र विनय बड़ि देखी । उपजा उर संतोषु बिसेषी ॥

संकोचदश वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे। परंतु मनमें पिताजीके दर्शनोंकी लालसा थी। विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके हृदयमें बहुत संतोष उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥

हरषि बंधु दोउ हृदयँ लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए ॥
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहुँ सरोवर तकेउ पिआसे ॥

प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको हृदयसे लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें (प्रेमाश्रुओंका) जल भर आया। वे उस जनवासेको चले, जहाँ दशरथजी थे। मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो ॥ ४ ॥

दो०—भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत ।

उठे हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥ ३०७ ॥

जब राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुखके समुद्रमें थाह-सी लेते हुए चले ॥ ३०७ ॥

चौ०—मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद रज धरि सीसा ॥
कौसिक राउ लिए उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई ॥

पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत्-प्रणाम किया। विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १ ॥

पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक शरीर प्राण जनु भेटे ॥

फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्-प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें सुख समाया नहीं। पुत्रोंको [उठाकर] हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने [वियोगजनित] दुःखको मिटाया। मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों ॥ २ ॥

प्रेम समेत रायँ सबु लीन्हा । भै वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥

करि पूजा मान्यता वड़ाई । जनवासे कहूँ चले लवाई ॥

राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले लीं । फिर उनकी बरुशीघे होने लगी और वे माचकोंकी दे दी गयीं । तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥ २ ॥

वसन विचित्र पाँवड़े परहीं । देखि धनदु धन महु परिहरहीं ॥

अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहँ सब कहूँ सब भाँति सुपासा ॥

विलक्षण वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुवेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं । बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबका सब प्रकारका सुभीता था ॥ ३ ॥

जानी सियँ वरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥

हृदयँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥

सीताजीने वारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करनेके दिखलायी । हृदयमें स्मरणकर सब सिद्धियोंको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये भेजा ॥ ४ ॥

दो०—सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास ।

लिऐँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ ३०६ ॥

सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरीके भोगविलासको लिये हुए गयीं ॥ ३०६ ॥

चौ०—निज निजवास विलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥

विभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिँ बखाना ॥

वरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देये तो वहाँ देवताओंके सब सुग्रींको सब प्रकारसे सुलभ पाया । इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान न सका । सब जनकजीकी बड़ाई कर रहे हैं ॥ ५ ॥

सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदयँ हेतु पहिचानी ॥

पितु आगमनु सुनत दोउ भाई । हृदयँ न अति आनंदु अमाई ॥

श्रीरघुनायजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर

प्रथम वरात लगन तें आई । तातें पुर प्रमोदु अधिकाई ॥
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं । बढहुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥

वारात लगनके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा है । सब लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात बढ जायँ (बड़े हो जायँ) ॥ ४ ॥

दो०—रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज ।

जहँ तहँ पुरजन कहहिँ अस मिलि नर नारि समाज ॥ ३०६ ॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा हैं, जहाँ-तहाँ जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्ठे हो-होकर यही कह रहे हैं ॥ ३०६ ॥

ची०—जनक सुकृत मूरति बैदेही । दसरथ सुकृत रामु धरें देही ॥

इन्ह सम काहुँ नसिव अवराधे । काहुँ न इन्ह समान फल लाधे ॥

जनकजीके सुकृत (पुण्यकी) मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथजीके सुकृत देह धारण किये हुए श्रीरामजी हैं । इन [दोनों राजाओं] के समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की और न इनके समान किसीने फल ही पाये ॥ १ ॥

इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं । है नहिँ कतहुँ होनेउ नाहीं ॥

हम सब सकल सुकृत कै रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥

इनके समान जगत्में न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है । हम सब भी सम्पूर्ण पुण्योंकी राशि हैं, जो जगत्में जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए ॥ २ ॥

जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥

पुनि देखव रघुवीर. विआहू । लेव भली विधि लोचन लाहू ॥

और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखी है । हमारे-सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा । और अब हम श्रीरघुनाथजीका विवाह देखेंगे और भलीभाँति नेत्रोंका लाभ लेंगे ॥ ३ ॥

कहहिँ परसपर कोकिलवयनीं । एहि विआहँ बड़ लाभु सुनयनीं ॥

बड़ें भाग विधि वात बनाई । नयन अतिथि होइतनिं तोउ भाई ॥

कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ, एहि विवाहसे बड़ी लाभ सुनयनीं ॥ १ नेत्रों-

पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए ॥
विप्र वृंद वंदे दुहुँ भाई । मनभावती असीसें पाई ॥

फिर उन्होंने वसिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठने प्रेमके आनन्द में उन्हें हृदयसे लगा लिया। दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी बन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये ॥ ३ ॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥

भरतजीने छोटे भाई शत्रुघ्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया। लक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए और प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले ॥ ४ ॥

दो०—पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत ।
मिले जथाविधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥
तदनन्तर परम कृपालु और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियों, कुटुम्बियों, जातिके लोगों, याचकों, मन्त्रियों और मित्रों—सभीसे यथायोग्य मिले ॥ ३०८ ॥

चौ०—रामहि देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥
नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई (रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो आग जल रही थी, वह शान्त हो गयी)। प्रीतिकी रीतिका बधान नहीं हो सकता। राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों ॥ १ ॥

सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विसेपी ।
सुमन वरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं नाचहिं करि गाना ॥

पुत्रोंसहित दशरथजीको देखकर नगरके स्त्री-पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। [आकाशमें] देवता फूलोंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं।

सतानंद अरु विप्र सचिव गन । मागध सूत विदुष वंदीजन ॥
सहित बरात राउ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥

अगवानीमें आये हुए सतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, विद्वान् और भाटोंने बारातसहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया। फिर आजा लेकर वे वापस सोटे।

छं०—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहैं ।
बल विनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं ॥
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं ।
व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥

दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद (विद्वान्) कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है; बल, विनय, विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरकी सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विद्याताको यह वचन (विनती) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो और हम सब सुन्दर मङ्गल गावें।

सो०—कहहिं परस्पर नारि वारि बिलोचन पुलक तन ॥

सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११ ॥

नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमें कह रही हैं कि हे सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।

जो०—एहि विधिसकल मनोरथ करहीं। आनँद उमगि उमगि उर भरहीं ॥

जे नृप सीय स्वयंवर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥

इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमंग-उमंगकर (उत्साहपूर्वक) आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया ॥ १ ॥

कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥

गए वीति कछु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥

श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान् यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित हैं ॥ २ ॥

मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहनु मासु सुहावा ॥

ग्रह तिथि नखतु जोगु वर वारु । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारु ॥

मङ्गलोंका मूल लगनका दिन आ गया। हेमन्त ऋतु और सुहावना अगहनका महोत्सव था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन (मुहूर्त) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥ ३ ॥

वाली ! इस विवाहमें बड़ा लाभ है । बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है; ये दोनों भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४ ॥

दो०—वारहिं वार सनेह वस जनक बोलाउव सीय ।

लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥

जनकजी स्नेहवश वार-वार सीताजीकी बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई सीताजीको लेने (विदा कराने) आया करेंगे ॥ ३१० ॥

चौ०—विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥

तव तव राम लखनहि निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥

तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी । सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी ? तब-तब हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुची होंगे ॥ १ ॥

सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥

स्याम गौर सब अंग सुहाए । ते सब कहहिं देखि जे आए ॥

हे सखी ! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और भी हैं । वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं, उनके भी सब अङ्ग बहुत सुन्दर हैं । जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहते हैं ॥ २ ॥

कहा एक मैं आजु निहारे । जनु विरंचि निज हाथ सँवारे ॥

भरतु रामही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥

एकने कहा—मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुन्दर हैं, मानो ब्रह्माजीने उन्हें अपने हाथों सँवारा है । भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-मूरतके हैं । स्त्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते ॥ ३ ॥

लखनु सत्रुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥

मन भावहिं मुख वरनि न जाहीं । उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाहीं ॥

लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनोंका एक रूप है । दोनोंके नयसे शिघ्रातक सभी अङ्ग अनुपम हैं । मनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुपसे उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी उपमाके योग्य तीनों लोकोंमें कोई नहीं है ॥ ४ ॥

०—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहै ।
बल विनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहै ॥
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं ।
व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥

दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद (विद्वान्) कहते हैं, इनकी उपमा ही कोई नहीं है; बल, विनय, विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं। नकपुरकी सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाताको यह वचन (विनती) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो और हम सब सुन्दर मङ्गल गावें।

सो०—कहहिं परस्पर नारि वारि बिलोचन पुलक तन ॥

सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११ ॥

नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमें कह रही कि हे सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।

सो०—एहिबिधिसकलमनोरथकरहीं। आनँद उमगि उमगि उर भरहीं ॥

जे नृप सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥

इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमंग-उमंगकर (उत्साहपूर्वक) आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंबरमें जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया ॥ १ ॥

कहत राम जसु विसद बिसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥

गए वीति कछु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥

श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान् यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित हैं ॥ २ ॥

मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहनु मासु सुहावा ॥

ग्रह तिथि नखतु जोगु वर बारू । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥

मङ्गलोंका मूल लगनका दिन आ गया। हेमन्त ऋतु और सुहावना अगहनका महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन (मुहूर्त) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥ ३ ॥

पठै दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥

सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहिं जोतिपी आहिं बिधाता ॥

और उस (लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाथ [जनकजीके यहाँ] भेज दिया । जनकजीके ज्योतिषियोंने भी वही गणना कर रक्की थी । जब सब नोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने लगे—यहाँके ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं ॥ ४ ॥

दो०—धेनुधूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल ।

विप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥

निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंकी मूल गोधूलिकी पवित्र बेला आ गयी और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ ॥

चो०—उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विलंब कर कारनु काहा ॥

सतानंद तव सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥

तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है । तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंको बुलाया । वे सब मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १ ॥

संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥

सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहिं वेद धुनि विप्र पुनीता ॥

शाहू, नगाड़े, डोल और बहुतसे बाजे बजने लगे तथा मङ्गल-कलश और शुभ शकुनकी वस्तुएँ (दधि, दूर्वा आदि) सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं ॥ २ ॥

लेन चले सादर एहि भाँती । गए जहाँ जनवास बराती ॥

कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥

सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोंका जन-वासा था, वहाँ गये । अवधपति दशरथजीका समाज (वैभवं) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३ ॥

भयउ समउ अब धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥

गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥

[उन्होंने जाकर विनती की—] समय हो गया, अब पधारिये । यह सुनते ही

नगाड़ोंपर चोट पड़ी। गुरु वसिष्ठजीसे पूछकर और कुलकी सब रीतियोंको करके राजा दशरथजी मुनियों और साधुओंके समाजको साथ लेकर चले ॥ ४ ॥

दो०—भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि ।

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥ ३१३ ॥

अवधनरेश दशरथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने लगे ॥ ३१३ ॥

चौ०—सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । बरषहिं सुमन बजाइ निसाना ॥

सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा । चढे विमानन्हि नाना जूथा ॥

देवगण सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर, नगाड़े वजा-बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्माजी आदि देववृन्द यूथ (टोलियाँ) बना-बनाकर विमानोंपर जा चढ़े ॥ १ ॥

प्रेम पुलक तन हृदयँ उछाहू । चले बिलोकन राम विआहू ॥

देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहिं लघु लागे ॥

और प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले। जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ ॥

चितवहिं चकित विचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥

नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुशील सुजाना ॥

विचित्र भण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर देख रहे हैं। नगरके स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं ॥ ३ ॥

तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं । भए नखत जनु विधु उजिआरीं ॥

विधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥

उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके उजियालेमें तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी (रचना) तो कहीं देखी ही नहीं ॥ ४ ॥

दो०—सिवँ समुझाए देव सब जानि आचरज भुलाहू ।

हृदयँ विचारहू धीर धरि सिय रघुवीर विआहू ॥ ३१४ ॥

पठै दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥

सुनी सकल लोगन्ह यह वाता । कहहिं जोतिपी आहिं विधाता ॥

और उस (लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाथ [जनकजीके यहाँ] भेज दिया । जनकजीके ज्योतिषियोंने भी वही गणना कर रखी थी । जब सब लोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने लगे—यहाँके ज्योतिषी भी प्रह्ला ही हैं ॥ ४ ॥

दो०—धेनुधूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल ।

विप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥

निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंकी मूल गोधूलिकी पवित्र बेला आ गयी और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ ॥

चो०—उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विलां व कर कारनु काहा ॥

सतानंद तव सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥

तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है । तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंको बुलाया । वे सब मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १ ॥

संख निसान पनव बहु वाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥

सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहिं वेद धुनि विप्र पुनीता ॥

शङ्ख, नगाड़े, ढोल और बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मङ्गल-कलश और शुभ शकुनकी वस्तुएँ (दधि, दूर्वा आदि) सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं ॥ २ ॥

लेन चले सादर एहि भौंती । गए जहाँ जनवास वराती ॥

कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥

सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोंका जन-वासा था, वहाँ गये । अवधपति दशरथजीका समाज (वंशव) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३ ॥

भयउ समउ अब धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥

गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥

[उन्होंने जाकर विनती की—] समय हो गया, अब पधारिये । यह \ हो

नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजी सहित श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र [प्रेमाश्रुओंके] जलसे भर गये ॥३१५॥

चौ०—केकि कंठ दुति स्यामल अंगा । तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ॥

ब्याह विभूषन विविध बनाए । मंगल सब सब भाँति सुहाए ॥

रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हरिताभ] श्याम शरीर है । बिजलीका अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत] रंगके वस्त्र हैं । सब मङ्गलरूप और सब प्रकारसे सुन्दर भाँति-भाँतिके विवाहके आभूषण शरीरपर सजाये हुए हैं । १ ॥

सरद विमल विधु बदन सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥

सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥

उनका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और [मनोहर] नेत्र नवीन कमलको लजानेवाले हैं । सारी सुन्दरता अलौकिक है (मायाकी बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानन्दमयी है), वह कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है ।

बंधु मनोहर सोहहिं संग । जात नचावत चपल तुरंगा ॥

राजकुअँर वर बाजि देखावहिं । बंस प्रसंसक विरिद सुनावहि ॥

साथमें मनोहर भाई शोभित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं । राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंको (उनकी चालको) दिखला रहे हैं और वंशकी प्रशंसा करनेवाले (मागध-भाट) विरुदावली सुना रहे हैं ॥ ३ ॥

जेहि तुरंग पर रामु विराजे । गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥

कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि वेषु जनु काम बनावा ॥

जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी [तेज] चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं । उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है, मानो कामदेवने ही घोड़ेका वेष धारण कर लिया हो ॥ ४ ॥

छं०—जनु बाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई ।

आपनें वय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥

जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे ।

किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥

तब शिवजीने सब देवताओंको समझाया कि तुमलोग आश्चर्यमें मत भूलो। हृदयमें धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [भगवान्की महामहिमामयी निजशक्ति] श्रीसीताजीका और [अखिल ब्रह्माण्डोंके परम ईश्वर साक्षात् भगवान्] श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है ॥

चो०—जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं । सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥

करतल होहिं पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥

जिनकी नाम लेते ही जगत्में सारे अमङ्गलोंकी जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मुट्ठीमें आ जाते हैं, ये वही [जगत्के माता-पिता] श्रीसीतारामजी हैं, कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा ॥ १ ॥

एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि आगें वर वसह चलावा ॥

देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥

इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बंल नन्दीश्वरको आगे बढ़ाया। देवताओंने देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं ॥ २ ॥

साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरें करहिं सुख सेवा ॥

सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥

उनके साथ [परम हर्षयुक्त] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों मुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हैं, मानो सम्पूर्ण मोक्ष (सालोक्य, सामीप्य, मारुप्य, मायुज्य) शरीर धारण किये हुए हों ॥ ३ ॥

मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि सुरन्ह भैं प्रीति न थोरी ॥

पुनि रामहि विलोकि हिथैं हरपे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह वरपे ॥

मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कम प्रीति नहीं हुई (अर्थात् बहुत ही प्रीति हुई)। फिर रामचन्द्रजीको देखकर ये हृदयमें (अत्यन्त) हर्षित हुए और राजाकी सराहना करके उन्होंने फूल बरसाये ॥ ४ ॥

दो०—राम रूपु नख सिख सुभग वारहिं वार निहारि ।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५ ॥

सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [और कह रहे हैं] कि आज इन्द्रके मान भाग्यवान् दूसरा कोई नहीं है। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा रहा है ॥ ४ ॥

६०—अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी ।
वरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥
एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं ।
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥

दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे तगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो' कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं।

दो०—सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि ।

चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३१७ ॥

अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मङ्गलद्रव्योंको यथायोग्य सजाकर गजगामिनी (हाथीकी-सी चालवाली) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चलीं ॥ ३१७ ॥

चौ०—विधुबदनीं सबसबमृगलोचनि । सबनिजतनछबिरतिमदुमोचनि ॥

पहिरें बरन बरन बर चीरा । सकल विभूषन सजें सरीरा ॥

सभी स्त्रियाँ चन्द्रमुखी (चन्द्रमाके समान मुखवाली) और सभी मृगलोचनी (हरिणकी-सी आँखोंवाली) हैं, और सभी अपने शरीरकी शोभासे रतिके गर्वको छुड़ाने-वाली हैं। रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं और शरीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं ॥ १ ॥

सकल सुमंगल अंग बनाएँ । करहिं गान कलकंठि लजाएँ ॥

कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं । चालि विलोकि काम गजलाजहिं ॥

समस्त अङ्गोंको सुन्दर मङ्गल पदार्थोंसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई [मधुर स्वरसे] गान कर रही हैं। कंकन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियोंकी चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हैं ॥ २ ॥

मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेप बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है । वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा है । सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य लगे हुईं जड़ाऊ जौन ज्योतिसे जगमगा रहा है । उसको सुन्दर घुंघरू लगी ललित लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं ।

दो०—प्रभु मनसहिं लयलीन मनु चलत वाजि छवि पाव ।

भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु वर धरहि नचाव ॥ ३१६ ॥

प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा विजलीसेअलङ्कृत मेघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥ ३१६ ॥

चौ०—जेहिं वर वाजि रामु असवारा । तेहि सारदउ न वरनें पारा ॥

संकरु राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥

जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं कर सकतीं । शंकरजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे ॥ १ ॥

हरि हितं सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥

निरखि राम छवि विधि हरपाने । आठइ नयन जानि पछिताने ॥

भगवान् विष्णुने जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा, तब वे [रमणीयताकी मूर्ति] श्रीलक्ष्मीजीके पति श्रीलक्ष्मीजीसहित मोहित हो गये । श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे ॥ २ ॥

सुर सेनप उर बहुत उछाहू । विधि ते डेवद लोचन लाहू ॥

रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित माना ॥

देवताओंके सेनापति स्वामिकातिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्माजीसे डघोड़े अर्थात् वारह नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहे हैं, सुजान इन्द्र [अपने हजार नेत्रोंसे] श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हैं और गौतमजीके शापको अपने लिये परम हितकर मान रहे हैं ॥ ३ ॥

देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥

मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुहुँ हरपु विसेपी ॥

मङ्गल अवसर जानकर नेत्रोंके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं। वेदोंमें कहे हुए तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने भलीभाँति किये ॥ १ ॥

पंच सवद धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े परहिं विधि नाना ॥
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥

पञ्चशब्द (तन्त्री, ताल, झाँझ, नगारा और तुरही—इन पाँच प्रकारके वाजोंके शब्द), पञ्चध्वनि (वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शङ्खध्वनि और हुलूध्वनि) और मङ्गलगान हो रहे हैं। नाना प्रकारके वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने (रानीने) आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन किया ॥ २ ॥

दशरथु सहित समाज विराजे । विभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥
समयँ समयँ सुर बरषहिं फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥

दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए। उनके वैभवको देखकर लोकपाल भी लजा गये। समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्तिपाठ करते हैं ॥ ३ ॥

नम अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुनइ न कोई ॥
एहि विधि रामु मंडपहिं आए । अरघु देइ आसन बैठाए ॥

आकाश और नगरमें शोर मच रहा है। अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये और अर्घ्य देकर आसनपर बैठाये गये ॥ ४ ॥

छं०—बैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं ।

मनि बसन भूषन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ॥

ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष बनाइ कौतुक देखहीं ।

अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं ॥

आसनपर बैठाकर, आरती करके दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही हैं। वे डेर-के-डेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करने-वाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं ॥

वाजहि वाजने विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥
सच्ची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥

अनेक प्रकारके बाजे वज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर मङ्गल-
चार हो रहे हैं। शची (इन्द्राणी), सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभावसे ही पवित्र
और सयानी देवाङ्गनाएँ थीं ॥ ३ ॥

कपट नारि वर बेप बनाई । मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥
करहि गान कल मंगल वानी । हरष विवस सब काहुँ न जानीं ॥

वे सब कपटसे सुन्दर स्त्रीका बेप बनाकर रनिवासमें जा मिलीं और मनोहर वाणीसे
मङ्गलगान करने लगीं। सब कोई हृषिके विशेष वश थे, अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं ॥४॥

छ०—को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली ।

कल गान मधुर निसान वरपहि सुमन सुर सोभा भली ॥

आनंदकंदु विलोकि दूलहु सकल हियँ हरषित भई ।

अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥

कौन किसे जाने-पहचाने ! आनन्दके वश हुईं सब दूलह बने हुए ब्रह्मका परछन
करने चलीं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा
रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनन्दकन्द दूलहको देखकर सब स्त्रियाँ हृदयमें हर्षित
हुईं। उनके कमल-सरीखे नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंका जल उमड़ आया और सुन्दर अंगोंमें पुलका-
वली छाँ गयीं।

दो०—जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम वर वेपु ।

सो न सकहि कहि कल्प सत सहस सारदा सेपु ॥ ३१८ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका वरवेप देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख
हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेषजी सौ कल्पोंमें भी नहीं कह सकते [अथवा लाखों
सरस्वती और शेष लाखों कल्पोंमें भी नहीं कह सकते] ॥ ३१८ ॥

चो०—नयन नीरु हटि मंगलजानी । परिछनि करहि मुदित मन रानी ॥

बेद बिहित अरुकुल आचारु । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु ॥

कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिष लही ।

कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥

मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोंके मन भी हरे गये (मोहित हो गये) । सुजान जनकजीने अपने हाथोंसे ला-लाकर सबके लिये सिंहासन तैयार किये। उनहीं अपने कुलके इष्ट देवताके समान वसिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके श्रीरामदेवकी पूजा किये। जिश्वामित्रजीकी पूजा करके समयकी परम प्रीतिकी रीति

दशरथ आदिक ऋषिय पूजे मुदित महीस ।
दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३२ ॥
दशरथजी आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की । सभीको दिव्य आसन

मनि वसन भूषन भारि
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छ
आसनपर बैठकर, आरती करके दूलहको ढेर-ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मन्त्र देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं । वे रघुजीके सवैले श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सफ

छं-वैठारि आसन आरती
मनि वसन भूषन भारि
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छ
आसनपर बैठकर, आरती करके दूलहको ढेर-ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मन्त्र देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं । वे रघुजीके सवैले श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सफ

दो०—नाऊ-वारी भाट नट राम निछावरि पाइ ।

मुदित असीसहिं नाइ सिर हरपु न हृदयँ समाइ ॥ ३१६ ॥

नाइ, वारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर प्राकर आगन्धित हो गिर नवाकर आशिष देते हैं; उनके हृदयमें हृषं नमाना नहीं है ॥ ३१६ ॥

चौ०—मिले जनकुदसरथु अनि प्रीतीं । करि वैदिक लौकिक सब रीतीं ॥

मिलत महा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥

वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी वड़े प्रेमसे मिले । दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिये जाना-सोझ-गोजार लजा गये ॥ १ ॥

लही न कनहुँ हारि हियँ मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥

सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥

जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं । नमधियोंका मिनाए सा परस्पर सम्बन्ध देवत्तर देवता अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर उनका यश गाते लगे ॥ २ ॥

जगु विरंचि उपजावा जब तें । देखे सुने व्याह बहु तत्र तें ॥

सकल भौंति सम साजु समाजु । सम समधी देखे हम आजु ॥

[वे कहने लगे—] जबसे ब्रह्माजीने जगत्को उत्पन्न किया, तबसे हमने बहुत विवाह देखे-सुने; परन्तु सब प्रकारसे सगल साज-समाज और बराबरके (पूर्ण समता-युक्त) समधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥

देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची ॥

देत पाँवड़े अरघु सुहाए । सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥

देवताओंकी सुन्दर सत्य वाणी सुनकर दोनों और अनौकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर पाँवड़े और अर्घ्य देते हुए जनकजी दशरथजीकी आदरपूर्वक मण्डपमें ले आये ॥ ४ ॥

छं०—मंडपु विलोकि विचित्र रचनां रुचिरतां मुनि मन हरे ।

निज पानि जनक मुजांन सब कहँ आनि सिंघासन धरे ।

नारि वेष जे सुर वर वामा । सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा ।
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारीं । विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं ।

श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं, सभी स्वभावसे ही सुन्दर और श्यामा (सोलह वर्षकी अवस्थावाली) हैं । उनको देखकर रनिवासकी स्त्रिय सुख पाती हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं ॥ ३ ॥

वार वार सनमानहिं रानी । उमा रमा सारद सम जानी ।
सीय सँवारि समाजु बनाई । मुदित मंडपहिं चलीं लवाई ।

उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीके समान जानकर रानी वार-वार उनका सम्मान करती हैं । [रनिवासकी स्त्रियाँ और सखियाँ] सीताजीका शृङ्गार करके मण्डल बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिवा चलीं ॥ ४ ॥

छं०—चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं ।
नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं ।
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं ॥

सुन्दर मङ्गलका साज सजकर [रनिवासकी] स्त्रियाँ और सखियाँ आदरगर्हित सीताजीको लिवा चलीं । सभी सुन्दरियाँ सोलहों शृङ्गार किये हुए मत्तवाले हाथियोंके चालसे चलनेवाली हैं । उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देने हैं और काम देवकी कोयलें भी लजा जाती हैं । पायजेव, पैजनी और सुन्दर कंकण तालकी गतिप वड़े सुन्दर वज रहे हैं ।

दो०—सोहति वनिता वृंद महुँ सहज सुहावनि सीय ।

छवि ललना गन मध्य जनु सुपमा तिय कमनीय ॥ ३२२ ॥

सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियोंके समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि लली ललनाओंके समूहके बीच साक्षात् परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो ॥ ३२२ ॥

चो०—सिय सुंदरता वरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरनाई ।
आवत दीखि वरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भौंति पुनीता ।

सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता; क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और

कपट विप्र वर वेप बनाएँ । कौतुक देखहिं अति सच पाएँ ॥

पूजे जनक देव सम जानें । दिए सुआसन विनु पहिचानें ॥

वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेप बनाये बहुत ही सुघ्र पाते हुए सब लीला देख रहे थे । जनकजीने उनको देवताओंके समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥ ४ ॥

छं०—पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई ।

आनन्द कंटु विलोकि दूलहु उभय दिसि आनन्दमई ॥

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए ।

अवलोकित सीलु सुमाउ प्रभु को विवुध मन प्रमुदित भए ॥

कौन किसको जाने-पहिचाने ! सबको अपनी ही सुघ्र भूली हुई है । आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है । सुजान (सबज) श्रीराम-चन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये । प्रभुका शील-स्वभाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए ।

दो०—रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर ।

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर ॥ ३२१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आदर-पूर्वक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है (अर्थात् बहुत है) ॥ ३२१ ॥

चौ०—समउ विलोकि वसिष्ठ बोलाए । सादर सतानंदु सुनि आए ॥

वेगि कुअँरि अब आनहु जाई । चले मुद्रित मुनि आयसु पाई ॥

समय देखकर वसिष्ठजीने सतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके साथ आये । [वसिष्ठजीने कहा—] अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइये । मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १ ॥

रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥

विप्र बधू कुलवृद्ध बोलाइँ । करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥

बुद्धिमती रानी उपरोहितको वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रसन्न हुई । ब्राह्मणोंकी विधियों और कलकी नयी विधियोंको बतलाकर उन्होंने कुलरीति परसे सुन्दर सुमंगल गाई ।

कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर कियो ।
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परै ।
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसें करै ॥ २ ॥

स्वयं सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदर-पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोंने सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया। श्रीसीताजी और श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणीसे भी परे है, उसे कवि क्योंकर प्रकट करे ! ॥ २ ॥

दो०—होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं ।

विप्र बेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहिं ॥ ३२३ ॥

हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणका बेष धरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं ॥ ३२३ ॥

चौ०—जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥

सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥

जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत (पुण्य), सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें सँवारकर तैयार किया है ॥ १ ॥

समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥

जनक वाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥

समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आयीं। सुनयनाजी (जनकजीकी पटरानी) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हैं, मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हों ॥ २ ॥

कनक कलस मनि कोपर रुरे । सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥

निज कर मुदित रायँ अरु रानी । धरे राम के आगें आनी ॥

मनोहरता बहुत बढ़ी है। रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीकी बरतियोंने आते देखा ॥ १ ॥

सबहि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरनकामा ॥
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनँदु जेता ॥

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी पूर्ण-काम (कृतकृत्य) हो गये। राजा दशरथजी पुरांसहित हर्षित हुए। उनके हृदयमें जितना आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥

सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । मुनिअसीस धुनि मंगल मूला ॥
गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥

देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मङ्गलोंकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं ॥ ३ ॥

एहि विधि सीय मंडपहिं आई । प्रमुदित सांति पढ़हिं मुनिराई ॥
तेहि अवसर करं विधि व्यवहारु । दुहुँ कुल्लगुर सब कीन्ह अचारु ॥

इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयीं। मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओंने किये ॥ ४ ॥

छं०—आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावर्ही ।
सुर प्रगाटे पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावर्ही ॥
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महूँ चहैं ।
भरे कनक कोपर कलस सो तव लिएहिं परिचारक रहैं ॥ १ ॥

कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा करा रहे हैं [अथवा ब्राह्मणोंके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं]। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी माङ्गलिक पदार्थको मुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करके सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोंमें और कलशोंमें भरकर उन पदार्थोंको लिये रहते हैं ॥ १ ॥

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो ।

करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥ ३ ॥

दोनों कुलोंके गुरु वर और कन्याकी हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणि-ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये। सुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दसे उमंग उठा। राजाओंके अनङ्कारस्वरूप महाराज जनकजीने लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥३॥

हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई ।

तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥

क्यों करै विनय विदेहु कियो विदेहु मूरनि सावँरीं ।

करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरीं ॥ ४ ॥

जैसे हिमवान्ने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान् विष्णुको लक्ष्मीजी दी थीं, वैसे ही जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं, जिससे त्रिव्रतमें सुन्दर नवीन कीर्ति छा गयी। विदेह (जनकजी) कैसे विनती करें! उम साँवली मूर्तिने तो उन्हें सचमुच विदेह (देहकी मुध-बुधसे रहित) ही कर दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गयी और भाँवरें होने लगीं ॥ ४ ॥

चो०—जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान ।

सुनि हरषहिं वरषहिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥

जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्षके फूलोंको बरसा रहे हैं ॥ ३२४ ॥

चो०—कुअँरुकुअँरि कल भावँरि देहीं । नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥

जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहौं सो थोरी ॥

वर और कन्या सुन्दर भाँवरें दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक [उन्हें देखकर] नेत्रोंका परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता; जो कुछ उपमा कहें वही थोड़ी होगी ॥ १ ॥

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खंभन माहीं ॥

मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु अनूपा ॥

पवित्र, सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर परातें राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोंसे लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रखीं ॥३॥

पढ़हिं वेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन भरि अवसरु जानी ॥

बहु विलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥

मुनि मङ्गलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशसे फलोंकी झड़ी लग गयी है। दूल्हकी देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पवित्र चरणोंकी पखारने लगे।

छं०—लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली ।

नभनगरगान निसान जयधुनि उमगि जनु चहुँदिसि चली ॥

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं ।

जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ॥१॥

वे श्रीरामजीके चरणकमलोंको पखारने लगे, प्रेमसे उनके शरीरमें पुलकावली छा रही है। आकाश और नगरमें होनेवाली गान, नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनि मानो चारों दिशाओंमें उमड़ चली। जो चरणकमल कामदेवके शत्रु श्रीशिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मनमें निमलता आ जाती है और कलियुगके सारे पाप भाग जाते हैं, ॥ १ ॥

जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई ।

मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥

कारि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहें ।

ते पद पखारत माग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥२॥

जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्त्री अहत्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी, जिन चरणकमलोंका मकरन्दरस (मङ्गाजी) शिवजीके भस्तकपद विराजमान है, जिसकी देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाञ्छित गति प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणोंको भाग्यके पात्र (बड़भागी) जनकजी धो रहे हैं, यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे हैं ॥ २ ॥

वर कुँअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें ।

भयो पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥

तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारि कै ।
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुअँरि लई हँकारि कै ॥
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई ।
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ २ ॥

तब बसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी, कीर्तिजी और उर्मिलाजी—इन तीनों राजकुमारियोंको बुला लिया। कुशध्वजकी बड़ी या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और शोभाकी रूप ही थीं, राजा जनकने प्रेम-वक सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया ॥ २ ॥

जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै ।
सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल विधि सनमानि कै ॥
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी ।
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥

जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर उस कन्याको, सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुतकीरति है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुखवाली, सब गुणोंकी खान और रूप तथा शीलमें उजागर हैं, उनको राजाने शत्रुघ्नको ब्याह दिया ॥ ३ ॥

अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचहियँ हरषहीं ।
सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं ॥
सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं ।
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहीं ॥ ४ ॥

दुलह और दुलहिन परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचहियँ हृदयमें हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर दुल्होंके साथ एक ही मण्डप शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और अपने चारों स्वामियों (विश्व, तैजस, प्राज्ञ और ब्रह्म) सहित विराजमान हैं।

दो०—मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि ।
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥

श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाही मणियोंके चंभोंमें जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुतसे रूप धारण करके श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं ॥=॥

दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥
भए मगन सब देखनिहारे । जनक समान अपान बिसारे ॥

उन्हें (कामदेव और रतिको) दर्शनकी लालसा और मंत्रोच दोनों ही कम नहीं हैं (अर्थात् बहुत हैं); इमीनिये वे मानो धार-धार प्रगट होने और छिपते हैं। सब देखनेवाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी भाँति सभी अपना मुँह भूल गये ॥ ३ ॥

प्रमुदित मुनिन्ह भावैरौं फेरौं । नेगसहित सब रीति निवेरौं ॥
राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहिन जाति विधि केहीं ॥

मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरे फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया। श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं; यह सोभा किमी प्रकार भी कही नहीं जाती ॥=॥

अरुन पराग जलजु भरि नीकें । ससिहि भूप अहि लोभ अमी कें ॥
बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । वह दुलहिनि बैठे एक आसन ॥

मानो कमलको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके मोँभसे साँप चन्द्रमाको भूपित कर रहा है। [यहाँ श्रीरामके हाथको कमलकी, सिंदूरको परागकी, श्रीरामकी श्याम भुजाको साँपकी और सीताजीके मुँहको चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है।] फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी, तब दूबह और दुर्लभिन एक आसनपर बैठे ॥ ५ ॥

७०—बैठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए ।

तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥

भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सबहीं कहा ।

केहि भाँति वरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥ १ ॥

श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत आनन्दित हुए। अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमें नये फल [आये] देखकर उनका शरीर धार-धार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवनोंमें जगमग भर गया, सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया। जो भी एक है और यह मङ्गल महान् है; फिर भला, वह वर्णन करने किसे प्रसन्न समझ किसे न समझा है! ॥ १ ॥

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ ।

सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ॥ १ ॥

आदर, दान, विनय और वड़ाईके द्वारा सारी वारातका सम्मान कर राजा जनकने महान् आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर (लाड़ करके) मुनियोंके समूहकी पूजा एवं वन्दना की। सिर नवाकर, देवताओंकी मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं (वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुभावोंको कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है) ; क्या एक अञ्जलि जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है ? ॥ १ ॥

कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों ।

बोले मनोहर बचन सानि सनेह शील सुभाय सों ॥

संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब विधि भए ।

एहि राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गथ लए ॥ २ ॥

फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, शील और सुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर वचन बोले—हे राजन् ! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये। इस भावपाटसहित हम दोनोंको आप विना हमके लिये हुए सेवक ही समझियेगा ॥ २ ॥

सब पुत्रोंको बहुओंसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं मानो वे राजाओंके शिरोमणि क्रियाओं (यज्ञक्रिया, श्रद्धाक्रिया, योगक्रिया और ज्ञानक्रिया) सहित चारों फल (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) पा गये हों ॥ ३२५ ॥

चौ०—जसिरघुवीरव्याह विधिवरनी । सकल कुअँर व्याहे तेहि करनी ॥
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये । दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने और मणियोंसे भर गया ॥ १ ॥

कंबल वसन विचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥

बहुतसे कंबल, वस्त्र और भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके न थे (अर्थात् बहुमूल्य थे) तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और गहनोंसे सजी हुई कामधेनु-सारीखी गायें—॥ २ ॥

वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥

[आदि] अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाय । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं । उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा गये । अवधराज दशरथजीने सुख मानकर प्रसन्न चित्तसे सब कुछ ग्रहण किया ॥ ३ ॥

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उवरा सो जनवासेहि आवा ॥
तव कर जोरि जनकु मृदु वानी । बोले सब वरात सनमानी ॥

उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया । जो बच रहा, वह जनवासेमें चला आया । तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४ ॥

छ०—सनमानि सकल वरात आदर दान विनय वड़ाइ कै ।

प्रमुदित महा मुनि वृंद वंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै ॥

पिअर उपरना काखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥
नयन कमल कल कुंडल काना । बढनु सकल सौंदर्ज निधाना ॥

पीला दुपट्टा काँखासोती (जनेऊकी तरह) शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर मणि और मोती लगे हैं । कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं; कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ ॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥
सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥

सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है । ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है । जिसमें मङ्गलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है ॥ ५ ॥

छं०—गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं ।

पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥

मनि बसन भूषण वारि आरति करहिं मंगल गावहीं ।

सुर सुमन वरिसहिं सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥

सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गुंथी हुई हैं, सभी अङ्ग चित्तको चुराये लेते हैं । सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूल्हको देखकर तिनका तोड़ रही हैं (उनकी बलैयाँ ले रही हैं) और मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मङ्गलगान कर रही हैं । देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं ॥१॥

कोहवरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै ।

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै ॥

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं ।

रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥ २ ॥

सुहागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको कोहवर (कुलदेवताके स्थान) में लायीं और अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगीं । पाबंतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर (वर-वधूका परस्पर ग्रास देना) सिखाती हैं और सरस्वतीजी सीताजीको सिखाती हैं । रनिवास हास-विलासके आनन्दमें मग्न है, [श्रीराम-जी और सीताजीको देख-देखकर] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ ॥

तव सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै ।

दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कै ॥ ४ ॥

देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासेको चले । नगाड़ेकी ध्वनि, जय-ध्वनि और वेदकी ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें सूब कीतूहल हो रहा है (आनन्द छा रहा है) । तत्र मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुल-हिनींसहित दूल्होंको लीवाकर कोहबरको चलीं ॥ ४ ॥

दो०—पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचनि मनु सकुचै न ।

हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥

सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं सकुचाता ! प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छविको हर रहे हैं ॥ ३२६ ॥

मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

चो०—स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥

जावक जुन पद कमलसुहाए । मुनिमनमधुप रहत जिन्ह छाए ॥

श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवोंको नजानेवाली है । महावरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिनपर मुनियोंके मनरूपी भोरे सदा छाये रहते हैं ॥ १ ॥

पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल रत्रि दामिनि जोती ॥

कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु विसाल विभूपन सुंदर ॥

पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकासके, सूर्य और बिजलीकी ज्योतिको हरे संती है । कमरमें सुन्दर किंकिणी और कटिसूत्र हैं । विसाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोभित है ।

पीत जनेऊ महाछवि देई । कर मुद्रिका चौरि चितु लेई ॥

सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उरमूपन राजे ॥

पीला जनेऊ महान् शोभा दे रहा है । हाथकी अँगूठी चित्तको घुरा संती है । व्याहके सब साज सजे हुए ये शोभा पा रहे हैं । चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं ॥ ३ ॥

पेअर उपरना काखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥
मयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल सौंदर्ज निधाना ॥

पीला दुपट्टा काँखासोती (जनेऊकी तरह) शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर मणि और मोती लगे हैं । कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं; कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ ॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥
सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥

सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है । ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है । जिसमें मङ्गलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है ॥ ५ ॥

छं०—गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं ।

पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥

मनि वसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं ।

सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥

सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गुंथी हुई हैं, सभी अङ्ग चित्तको चुराये लेते हैं । सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूल्हको देखकर तिनका तोड़ रही हैं (उनकी बलैयाँ ले रही हैं) और मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मङ्गलगान कर रही हैं । देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं ॥ १ ॥

कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै ।

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै ॥

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं ।

रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥ २ ॥

सुहागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको कोहबर (कुलदेवताके स्थान) में लायीं और अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगीं । पाबंतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौरि (वर-वधूका परस्पर ग्रास देना) सिखाती हैं और सरस्वतीजी सीताजीको सिखाती हैं । रनिवास हास-विलासके आनन्दमें मग्न है, [श्रीराम-जी और सीताजीको देख-देखकर] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ ॥

निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की ।

चालति नभुजवल्ली विलोकनि विरह भय वस जानकी ॥

कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहिं अलीं ।

वर कुअँरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३ ॥

अपने हायकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाही दीप रही है। यह देखकर जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी लताकी और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं है। उस समयके हँसी-पेल और विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनन्तर वर-कन्याओंको सब सुन्दर सखियाँ जनवासेको लवा चलीं ॥ ३ ॥

तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनँदु महा ।

चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारयो मुदित मन सवहाँ कहा ॥

जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी ।

चले हरषिवरषि प्रसून निज निजलोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥

उस समय नगर और आकाशमें, जहाँ सुनिये वही आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही है और महान् आनन्द छाया है। सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारो जोदियाँ चिरंजीवी हों। योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुंदुभी वजायी और हर्षित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 'जय हो, जय हो, जय हो' कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले ॥ ४ ॥

दो०—सहित बधूटिन्ह कुअँर सव तव आए पितु पास ।

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७ ॥

तब सब (चारों) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये। ऐसा मानूम होता था मानो शोभा, मङ्गल और आनन्दमें भरकर जनवाग्ना उमड़ पड़ा हो ॥ ३२७ ॥

चो०—पुनि जेवनार भई बहु भाँती । पठए जनक बोलाइ वरानी ॥

परत पाँवड़े वसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥

फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी। जनकजीने बरातियोंको बना भेजा। राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित गमन किया। अनुपम वस्त्रोंके पाँवड़े पहते जाते हैं ॥ १ ॥

सादर सब के पाय पखारे । जथाजोगु पीढ़न्ह वैठारे ॥
धोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥

आदरके साथ सबके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया । तब जनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण धोये । उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥

बहुरि राम पद पंकज धोए । जे हर हृदय कमल महँ गोए ॥
तीनिउ भाइ राम सम जानी । धोए चरन जनक निज पानी ॥

फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको धोया, जो श्रीशिवजीके हृदय-कमलमें छिपे रहते हैं । तीनों भाइयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण अपने हाथोंसे धोये ॥ ३ ॥

आसन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥
सादर लगे परन पनवारे । कनक कील मनि पान सँवारे ॥

राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये और सब परसनेवालोंको बुला लिया । आदरके साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियोंके पत्तोंसे सोनेकी कील लगाकर बनायी गयी थीं ॥ ४ ॥

दो०—सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत ।
छन महँ सब के परसि गे चतुर सुआर विनीत ॥ ३२८ ॥

चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात और गायका [सुगन्धित] घी क्षणभरमें सबके सामने परस गये ॥ ३२८ ॥

चौ०—पंच कवल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥
भाँति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥

सब लोग पंचकौर करके (अर्थात् 'प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा' इन मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए पहले पाँच ग्रास लेकर) भोजन करने लगे । गालीका गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये । अनेकों तरहके अमृतके समान (स्वादिष्ट) पकवान परसे गये, जिनका बखान नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

परुसन लगे सुआर सुजाना । विंजन विविध नाम को जाना ॥
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥

चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसाने लगे, उनका नाम कीन जानता है । चार प्रकारके (चर्व, चोप्य, लेह्य, पेय अर्थात् चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य) भोजनकी विधि कही गयी है । उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदायं बने ये कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥

छरस रुचिर विंजन बहु जाती । एक एक रस अंगनित भाँती ॥
जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी । लै लै नाम पुरुष अरु नारी ॥

छहों रसोंके बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) व्यञ्जन हैं । एक-एक रसके अंगनितों प्रकारके बने हैं । भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियोंके नाम ले-लेकर स्त्रियों मधुर ध्वनिसे गाली दे रही है (गाली गा रही है) ॥ ३ ॥

समय सुहावनि गारि विराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥
एहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥

समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है । उसे मुनकर समाजसहित राजा दशरथजी हँस रहे हैं । इस रीतिसे सभीने भोजन किया और तब सबको आदरसहित आचमन (हाथ-मुँह धोनेके लिये जल) दिया गया ॥ ४ ॥

दो०—देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज ।

जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥ ३२६ ॥

फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया । सब राजाओंके सिरमोर (चक्रवर्ती) श्रीदशरथजी प्रमत्त होकर जनवासेको बने ॥ ३२६ ॥

चौ०—नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिप सरिस दिन जामिनि जाहीं
बड़े भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लागे ॥

जनरूपमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं । दिन और रात पलके ममान बात जाते हैं । बड़े सबेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे । याचक उनके गुण-सामूहका गान करने लगे ॥ ५ ॥

कुअँर वर वधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोढु मन जेता ॥
 क्रिया करि गे गुरु पाहीं । महाप्रमोढु प्रेसु मन माहीं ॥

चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओंसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है, वह प्रकार कहा जा सकता है? वे प्रातःक्रिया करके गुरु वसिष्ठजीके पास गये । उनके महान् आनन्द और प्रेम भरा है ॥ २ ॥

रे प्रनासु पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी ॥
 म्हरी कृपाँ सुनहु सुनिराजा । भयउँ आजु मैँ पूरनकाजा ॥

राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमें डुबोयी हुई वाणी बोले—हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपासे आज मैं पूर्णकाम हो गया ॥ ३ ॥

अव सब विप्र बोलाइ गोसाईँ । देहु धेनु सब भौँति बनाई ॥
 सुनि गुर करि महिपाल वड़ाई । पुनि पठए सुनि वृंद बोलाई ॥

हे स्वामिन् ! अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [गहनों-कपड़ों] से सजी हुई गायें दीजिये । यह सुनकर गुरुजीने राजाकी वड़ाई करके फिर मुनिगणोंको बुलवा भेजा ॥

दो०—वामदेउ अरु देवरिषि वालमीकि जाबालि ।
 आए मुनिवर निकर तव कौसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥

तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियोंके समूह-के-समूह आये ॥ ३३० ॥

चौ०—दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे
 चारि लच्छ वर धेनु मगाईँ । कामसुरभि सम सील सुहाईँ

राजाने सबको दण्डवत्-प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आदिये । चार लाख उत्तम गायें मँगवायीं, जो कामधेनुके समान अच्छे स्वभाववाली सुहावनी थीं ॥ १ ॥

सब विधि सकलअलंकृत कीन्हीं । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं
 करत विनय बहु विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन ला

उन सबको सब प्रकारसे [गहनों-कपड़ोंसे] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको दिया । राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगत्में मैंने आज ही नाम पाया ॥ २ ॥

परसन लगे सुआर सुजाना । विंजन विविध नाम को जाना ॥
चारि भौंति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥

चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है । चार प्रकारके (चर्च्य, चोप्य, लेह्य, पेय अर्थात् चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य) भोजनकी विधि कही गयी है । उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥

छरस रुचिर विंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भौंती ॥
जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी । लै लै नाम पुरुष अरु नारी ॥

छहों रसोंके बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) व्यञ्जन है । एक-एक रसके अनगिनती प्रकारके बने हैं । भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियोंके नाम ले-लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनिसे गाली दे रही है (गाली गा रही हैं) ॥ ३ ॥

समय सुहावनि गारि विराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥
एहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥

समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है । उसे मुनकर ममाजसहित राजा दशरथजी हँस रहे हैं । इस रीतिसे सभीने भोजन किया और तब सबको आदरसहित आचमन (हाथ-मुँह धोनेके लिये जल) दिया गया ॥ ४ ॥

दो०—देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज ।

जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरनाज ॥ ३२६ ॥

फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया । तब राजाओंके सिरमोर (चक्रवर्ती) श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासियों चले ॥ ३२६ ॥

चां०—नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिप सरिस दिन जामिनि जाहीं
बड़े भौर भूपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लागे ॥

जनकपुरमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं । दिन और रात पतके ममान बात जाने हैं । बड़े सबरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे । याचक उनके गुण-सम्बन्धका गान करने लगे ॥ १ ॥

इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बँध गये हैं । तब विष्ण्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा—॥ ३ ॥

अब दसरथ कहँ आयसु देह । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥

भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥

यद्यपि आप स्नेह [वश उन्हें] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा दीजिये । 'हे नाथ ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्त्रियोंको बुलवाया । वे आये और 'जय जीव' कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥

दो०—अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ ।

भए प्रेमवस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥ ३३२ ॥

[जनकजीने कहा—] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं; भीतर (रनिवासमें) खबर कर दो । यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद् और राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये ॥ ३३२ ॥

ची०—पुरवासी सुनि चलिहि बराता । बूझत विकल परस्पर बाता ॥

सत्यगवनु सुनि सब विलखाने । मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने ॥

जनकपुरवासियोंने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुल होकर एक-दूसरेसे बात पूछने लगे । जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये, मानो सन्ध्याके समय कमल सकुचा गये हों ॥ १ ॥

जहँ जहँ आवत वसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥

विविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ बखाना ॥

आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रसोईका सामान) भेजा गया । अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती—॥ २ ॥

भरि भरि बसहुँ अपार कहारा । पठई जनक अनेक सुसारा ॥

तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥

अनगिनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर (लाद-लादकर) भेजी गयी । साथ ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्याएँ (पलंग) भेजीं । एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सब नगरो शिवातक (ऊपरसे नीचेतक) सजाये हुए ॥ ३ ॥

पाइ असीस महीसु अनंदा । लिए वोलि पुनि जाचक वृंदा ॥

कनक वसन मनि ह्य गय स्यंदन । दिए वृद्धि रुचि रविकुलनंदन ॥

[ब्राह्मणोंसे] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर यानकोंके गमूहोंको बुलवा लिया और सबको जनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ (जिसने जो चाहा सो) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥

चले पढ़त गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥

एहि विधि राम विआह उछाहू । सकइ न वरनि सहस मुख जाहू ॥

वे सब गुणानुवाद गाते और 'सूर्यकुलके स्वामीकी जय हो, जय हो, जय हो' कहते हुए चले । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ । जिन्हें सहस्र मुग्य है वे शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ ४ ॥

दो०—वार वार कौंसिक चरन सीसु नाइ कह राउ ।

यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ प्रसाउ ॥ ३३१ ॥

वार-वार विश्वामिश्रजीके चरणोंमें मिर नवाकर राजा कहते हैं—हे मुनिराज ! यह सब सुग्य आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ ३३१ ॥

चौ०—जनक सनेहु सीलु करतूती । नृपु सब भौंति सराह विभूती ॥

दिनउठि विदा अवधपतिमागा । राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥

राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारसे सराहना करते हैं । प्रतिदिन [सबेरे] उठकर अयोध्यानरेश विदा मांगते हैं, पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रथ लेते हैं ॥ १ ॥

नित नूतन आदरु अधिकार्इ । दिन प्रति सहस भौंति पहुनाई ॥

नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥

आदर नित्य नया बढ़ता जाता है । प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती है । नगरमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना किसीको नहीं मुहाता ॥२॥ बहुत दिवस बीते एहि भौंती । जनु सनेह रजु बंधे वराती ॥

कौंसिक सतानंद तव जाई । कहा विदेह नृपहि

इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बँध गये हैं । तब
वैश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा—॥ ३ ॥

अब दशरथ कहँ आयसु देहू । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू ॥

भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥

यद्यपि आप स्नेह [वश उन्हें] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा
दीजिये । 'हे नाथ ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्त्रियोंको बुलवाया । वे आये और
'जय जीव' कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥

दो०—अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ ।

भए प्रेमवस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥ ३३२ ॥

[जनकजीने कहा—] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं; भीतर (रनिवासमें) खबर
कर दो । यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद् और राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये ॥ ३३२ ॥

ची०—पुरवासी सुनि चलिहि बराता । बूझत विकल परस्पर बाता ॥

सत्यगवनु सुनि सब विलखाने । मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने ॥

जनकपुरवासियोंने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुल होकर एक-दूसरेसे
बात पूछने लगे । जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये, मानो सन्ध्याके समय
कमल सकुचा गये हों ॥ १ ॥

जहँ जहँ आवत बसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥

विविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ बखाना ॥

आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रसोईका
सामान) भेजा गया । अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी
नहीं जा सकती—॥ २ ॥

भरि भरि बसहँ अपार कहारा । पठई जनक अनेक सुसारा ॥

तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥

अनगिनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर (लाद-लादकर) भेजी गयी । साथ
ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्याएँ (पलंग) भेजीं । एक लाख घोड़े और पचीस हजार
रथ सब नगसे शिखातक (ऊपरसे नीचेतक) सजाये हुए ॥ ३ ॥

मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे ॥
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना ॥

दस हजार मजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियोंमें भर-भरकर सोना, वस्त्र और रत्न (जवाहिरात) और भ्रम, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं ॥ ४ ॥

दो०—दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह विदेहैं बहोरि ।

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥ ३३३ ॥

[इस प्रकार] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालोंके लोकोंकी सम्पदा भी छोड़ी जान पड़ती थी ॥ ३३३ ॥

चौ०—सबु समाजु एहि भौंति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥

चलिहि बरात सुनत सब रानीं । विकल मीनगनजनु लघु पानीं ॥

इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया । बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं, मानो धोड़े जनमें मछनियाँ छटपटा रही हों ॥ १ ॥

पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । देइ असीस सिखावनु देहीं ॥

होएहु संतत पिचहि पिआरी । चिरु अहिवात असीस हमारी ॥

वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं—तुम सदा अपने पतिकी प्यारी होओ, तुम्हारा सोहाग अनन्य हो; हमारी मही आश्रिण है ॥२॥

सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पतिरुखलखिआयसु अनुसरेहू ॥

अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी ॥

सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना । पतिका रूय देखकर उनकी आश्रय पानन करना । सयानी साँघियाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे स्त्रियोंके धर्म सिखलाती हैं ॥३॥

सादर सकल कुँअरि समुझाई । रानिन्ह वार वार उर लाई ॥

बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं । कहहिं विरंचि रचीं कत नारीं ॥

आदरके साथ सब पुत्रियोंको [स्त्रियोंके धर्म] समझाकर रानियोंने बार-बार उन्हें हृदयसे लगाया । माताएँ फिर-फिर भेटती और कहती हैं कि ब्रह्माने स्त्रीजातिको क्यों रचा ।

दो०—तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल्ल केतु ।

चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु ॥ ३३४ ॥

उसी समय सूर्यवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चले ॥ ३३४ ॥

चौ०—चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए । नगर नारि नर देखन धाए ॥

कोउ कह चलन चहत हहिं आजू । कीन्ह बिदेह विदा कर साजू ॥

स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दौड़े । कोई कहता है—आज ये जाना चाहते हैं । विदेहने विदाईका सब सामान तैयार कर लिया है ॥ १ ॥

लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥

को जानै केहिं सुकृत सयानी । नयनअतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥

राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [मनोहर] रूपको नेत्र भरकर देख लो । हे सयानी ! कौन जाने किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ?

मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥

पाव नारकी हरिपदु जैसें । इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसें ॥

मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय और नरकमें रहनेवाला (या नरकके योग्य) जीव जैसे भगवान्के परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥ ३ ॥

निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू ॥

एहि विधिसबहिनयन फलु देता । गए कुअँर सब राज निकेता ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें धर लो । अपने मनको साँप और इनकी मूर्तिको मणि बना लो । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहलमें गये ॥ ४ ॥

दो०—रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु ।

करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३३५ ॥

रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा । सासुएँ महान् प्रसन्न मनसे निछावर और आरती करती हैं ॥ ३३५ ॥

चौ०—देखिराम छवि अति अनुरागीं । प्रेमविवस पुनि पुनि पद लागीं ॥

रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु वरनि किमि जाई ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयी और प्रेमके विशेष वश होकर बार-बार चरणों लगीं । हृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नहीं रह गयी । उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १ ॥

भाइन्ह सहित उवटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥

बोले रामु सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥

उन्होंने भाइयोंसहित श्रीरामजीको उवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे पट्टरस भोजन कराया । सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह और संकोचभरी वाणी बोले—

राउ अवधपुर चहत सिधाए । विदा होन हम इहाँ पठाए ॥

मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करव नित नेहू ॥

महाराज अयोध्यापुरीको चतना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है । हे माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ३ ॥

सुनत वचन विलखेउ रनिवासू । बोलि न सकहिं प्रेमवस सासू ॥

हृदयँ लगाइ कुआँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौँपि विनती अति कीन्ही ॥

इन वचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया । सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकतीं । उन्होंने सब कुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उनके पतिमोको सौंपकर बहुत विनती की ।

छं०—करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै ।

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सब की अहै ॥

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिवी ।

तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥

विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा—हे तात ! हे गुजान ! मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति (हान) भालूम है । परिवारको, पुरवासियोंको, भुक्तको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा । हे तुलसीके स्वामी ! इसके शील और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा ।

सो०—तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय ।

जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥

तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भावप्रिय हो (तुम्हें प्रेम-प्यारा है)। हे राम ! तुम भक्तोंके गुणोंको ग्रहण करनेवाले, दोषोंको नाश करनेवाले और दयाके धाम हो ॥ ३३६ ॥

चो०—अस कहि रही चरन गहिरानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥

सुनि सनेहसानी बर बानी । बहुविधि राम सासु सनमानी ॥

ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [चुप] रह गयीं। मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो। स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥

राम विदा मागत कर जोरी । कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥

पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार-बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयोंसहित श्रीरघुनाथजी चले ॥ २ ॥

मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥

पुनि धीरजु धरि कुअँरि हँकारीं । बार बार भेटहिँ महतारीं ॥

श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे शिथिल हो गयीं। फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ बारंबार उन्हें [गले लगाकर] भेटने लगीं ॥ ३ ॥

पहुँचावहिँ फिरि मिलहिँ बहोरी । बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥

पुनि पुनि मिलत सखिन्ह विलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥

पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्परमें कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी (वर्थात् बहुत प्रीति बढ़ी)। बार-बार मिलती हुई माताओंको सखियोंने अलग कर दिया। जैसे हालकी व्यायी हुई गायको कोई उसके बालक बछड़े [या बछिया] से अलग कर दे ॥ ४ ॥

दो०—प्रेमविवस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु ।

मानहुँ कीन्ह विदेहपुर करुनाँ बिरहँ निवासु ॥ ३३७ ॥

चौ०—देखिराम छवि अति अनुरागीं । प्रेमविवस पुनि पुनि पद लागीं ॥
रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष वश होकर बार-बार चरणों लगीं । हृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नहीं रह गयी । उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १ ॥

भाइन्ह सहित उवटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥
बोले रामु सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥

उन्होंने भाइयोंमहित श्रीरामजीको उवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे पट्टरस भोजन कराया । सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह और संकोचभरी वाणी बोले—

राउ अवधपुर चहत सिधाए । विदा होन हम इहाँ पठाए ॥
मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करव नित नेहू ॥

महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है । हे माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ३ ॥

सुनत बचन विलखेउ रनिवासू । बोलि न सकहिं प्रेमवस सासू ॥
हृदयँ लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौँपि विनती अति कीन्ही ॥

इन बचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया । सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकतीं । उन्होंने सब कुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उनके पतियोंको सौंपकर बहुत विनती की ।

छं०—करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै ।
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सब की अहै ॥
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिवी ।
तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥

विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा—हे तात ! हे सुजान ! मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति (हाल) मालूम है । परिवारको, पुरवाभियोंको, मुझको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा । हे तुलसीके स्वामी ! इसके शील और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा ।

श्री०—बहुविधि भूप सुता समुझाई । नारिथरमु कुलरीति सिखाई ॥
दासी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिंगे करें ॥

रामाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें सेवकों का धर्म और बुराई सीखी सिखायी । बहुतसे दासों-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और निम्न-स्वभाव सेवक थे ॥ १ ॥

सीय चलत व्याकुल पुरवासी । होहिं मगुन सुभ मंगल रासी ॥
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चलें पहुँचावन राजा ॥

सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये । नङ्गुनी राम भूप बनकन हो रहे हैं । ब्राह्मण और मन्त्रियोंके समानसहित राजा जनकजी उन्हें पहुँचानेके लिये जाय चले ॥ २ ॥

समय विलोकि वाजने वाजे । रथ राज बाजि क्रातिक्र साजे ॥
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्है । दान मान परिपूरन कीन्है ॥

समय देखकर वाजे वजने लगे । बरातियोंके रथ, हाथी और घोड़े सबसे दसरथीने सब ब्राह्मणोंको बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानके परिपूर्ण कर दिया ॥

चरन सरोज धूरि धरि सीसा । मुदित मर्हीपति पाइ

सब स्त्री-पुरुष और सखियोंसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है, [ऐसा लगता है] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७ ॥

श्लो०—सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए ॥

व्याकुल कहहिं कहाँ वैदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥

जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कह रहे हैं—वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे बचनोंको सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा (अर्थात् सबका धैर्य जाता रहा) ॥ १ ॥

भए धिकल खग मृग एहि भाँती । मनुज दसा कैसें कहि जाती ॥

बंधु समेत जनकु तव आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥

जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंको दया कैसे कही जा सकती है! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये। प्रेमसे उमड़कर उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया ॥ २ ॥

सीय विलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम विरागी ॥

लीन्हि रायँ उर लाई जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की ॥

वे परम वैराग्यवान् कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया। [प्रेमके प्रभावसे] ज्ञानकी महान् मर्यादा मिट गयी (ज्ञानका बाँध टूट गया) ॥ ३ ॥

समुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह विचारु न अवसर जाने ॥

वारहिं वार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकीं मगाई ॥

सब बुद्धिमान् मन्त्रो उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विपाद करनेका समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियोंको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुईं पालकियों मँगवायीं ॥४॥

श्लो०—प्रेमविवस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस ।

कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८ ॥

सारा परिवार प्रेममें विवश है। राजाने सुन्दर भूहतं जानकर सिद्धिसहित गणेश-जीका स्मरण करके कन्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया ॥ ३३८ ॥

करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥

व्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥

योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर योगसाधन करते हैं; जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अबिनाशी, चिदानन्द, निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं; ॥३॥

मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥

महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥

जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं; कोई तर्कना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति' कहकर वर्णन करता है और जो [सच्चिदानन्द] तीनों कालोंमें एकरस (सर्वदा और सर्वथा निर्विकार) रहते हैं ॥४॥

दो०—नयन विषय मो कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल ।

सबइ लाभु जग जीव कहँ भएँ ईसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥

वे ही समस्त सुखोंके मूल [आप] मेरे नेत्रोंके विषय हुए । ईश्वरके अनुकूल होनेपर जगत्में जीवको सब लाभ-ही-लाभ है ॥ ३४१ ॥

चो०—सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥

होहिं सहस दस सारद सेवा । करहिं कल्प कोटिक भरि लेखा ॥

आपने मुझे सभी प्रकारसे बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया । यदि दस हजार सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पोंतक गणना करते रहें ॥१॥

मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥

मैं कछु कहउँ एक बल मोरें । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें ॥

तो भी हे रघुनाथजी ! सुनिये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर तमाप्त नहीं की जा सकती । मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक ही बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥

वार वार मागउँ कर जोरें । मनु परिहरै चरन जनि भोरें ॥

पुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकाम रामु परितोषे ॥

मैं वार-वार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों-

वार वार विरिदावलि भापी । फिरे सकल रामहि उर राखी ॥

बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं । जनकु प्रेमवस फिरै न चहहीं ॥

वे सब बारंबार विरुदावली (कुलकीर्ति) बखानकर और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर लींटे । कोसलाधीश दशरथजी बार-बार लीटनेको कहते हैं, परंतु जनकजी प्रेमवश लीटना नहीं चाहते ॥ २ ॥

पुनि कह भूपति वचन सुहाए । फिरिअ महीस दूरि वड़ि आए ॥

राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े । प्रेम प्रवाह विलोचन वाढ़े ॥

दशरथजीने फिर सुहावने वचन कहे—हे राजन् ! बहुत दूर आ गये, अब लीटिये । फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये । उनके नेत्रोंमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया (प्रेमाश्रुओंकी धारा बह चली) ॥ ३ ॥

तव विदेह बोले कर जोरी । वचन सनेह सुधौं जनु बोरी ॥

करौं कवन विधि विनय वनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥

तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुबोकर वचन बोले—मैं किस तरह वनाकर (किन शब्दोंमें) विनती करूँ । हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ॥४॥

दो०—कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति ।

मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदयँ समाति ॥ ३४० ॥

अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका गव प्रकारसे सम्मान किया । उनके आपसके मिलनेमें अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदयमें समाती न थी ॥३४०॥

चो०—मुनिमंडलिहि जनक सिरुनावा । आसिरवादु सबहि सन पावा ॥

सादर पुनि भेटे जामाता । रूप सील गुननिधि सब भ्राता ॥

जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया । फिर आदरके साथ वे रूप, शील और गुणोंके निधान सब भाइयोंसे—अपने दामादोंमें मिले; ॥१॥

जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले वचन प्रेम जनु जाए ॥

राम करौं केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥

और सुन्दर कमलके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मुनिप्रेममें ही जन्मे हों ! हे रामजी ! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ । आप मुनि महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस हैं ॥ २ ॥

चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहिं सुखारी

इंका बजाकर बारात चली । छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं । [रास्तेके गाँवोंके स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥

दो०—बीच बीच बर वास करि मग लोगन्ह सुख देत ।

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥

बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख देती हुई बारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥

चौ०—हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे

झाँझि विरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई

नगाडोंपर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर डोल बजने लगे । भेरी और शङ्खकी बरात आवाज हो रही है, हाथी-घोड़े गरज रहे हैं । विशेष शब्द करनेवाली झाँझें, सुहावने डफनियाँ तथा रसीले रागसे सहनाइयाँ बज रही हैं ॥ ५ ॥

पुर जन आवत अकनि बराता । मुदित सकल पुलकावलि गाता
निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट वाट चौहट पुर द्वारे

बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । सबके शरीरोंपर पुलक बली छा गयी । सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर द्वारोंको सजाया ॥ २ ॥

गलीं सकल अरगजाँ सिंचाई । जहँ तहँ चौकें चारु पुराई
बना बजारु न जाइ बखाना । तोरन केतु पताक विताना

सारी गलियाँ अरगजेसे सिंचायी गयीं; जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । तोरण ध्वजा-पताकाओं और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे वकुल कदंब तमाला
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलवाल कल करनी

फलमहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमालके वृक्ष लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष [फलोंके भारसे] पृथ्वीको छू रहे हैं । उनके मणियोंके धारा बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं ॥ ४ ॥

को न छोड़े । जनकजीके श्रेष्ठ वचनोंको सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए थे, पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी संतुष्ट हुए ॥ ३ ॥

करि वर विनय ससुर सनमाने । पितु कौंसिक वसिष्ठ सम जाने ॥
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेमु पुनि आसिप दीन्ही ॥

उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु वसिष्ठजीके समान जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥

दो०—मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस ।

भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥

फिर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । ये परस्पर प्रेमके वश होकर बार-बार आपसमें सिर नवाने लगे ॥ ३४२ ॥

चौ०—बार बार करि विनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥

जनक गहे कौंसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई ॥

जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयोंके साथ चले । जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजकी सिर और नेत्रोंमें लगाया ॥ १ ॥

सुनु मुनीस वर दरसन तोरें । अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें ॥

जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥

[उन्होंने कहा—] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है; मेरे मनमें ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपात चाहते हैं; परंतु [असम्भव समझकर] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचते हैं ॥ २ ॥

सोसुखुसुजसुसुलभमोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥

कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई । फिरे महीसु आसिया पाई ॥

हे स्वामी ! यही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनोंकी अनुगामिनी अर्थात् पीछे-पीछे चलनेवाली हैं । इस प्रकार बार-बार विनती की और सिर नवाकर तथा जनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक सोटे ॥ ३ ॥

गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥

चौ०—मोद प्रमोद विवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता ॥

राम दरस हित अति अनुरागीं। परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥

सुख और महान् आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिल हो गये हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान सजाने लगीं ॥ १ ॥

विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्राँ साजे ॥

हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला ॥

अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे। सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मङ्गल-साज सजाये। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मङ्गलकी मूल वस्तुएँ, ॥ २ ॥

अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥

छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥

तथा अक्षत (चावल), अँखुए, गोरोचन, लावा और तुलसीकी सुन्दर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगोंसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम होते हैं, मानो कामदेवके पक्षियोंने घोंसले बनाये हों ॥ ३ ॥

सगुन सुगंध न जाहिं बखानी। मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥

रचीं आरतीं बहुत विधाना। मुदित करहिं कल मंगल गाना ॥

शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं। सब रानियाँ सम्पूर्ण मङ्गल-साज सज रही हैं। बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगलगान कर रही हैं।

दो०—कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिएँ मात।

चलीं मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६ ॥

सोनेके थालोंको माङ्गलिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान (कोमल) हाथोंमें लिये हुए माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं।

चौ०—धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ ॥

सुरतरु सुमन माल सुर वरषहिं। मनहुँ बलाक अवलि मनु करषहिं ॥

दो०—विविध भौंति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि ।

सुर ब्रह्मादि सिंहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥ ३४४ ॥

अनेक प्रकारके मङ्गल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। श्रीरघुनाथजीकी पुरी (अयोध्या) को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिंहाते हैं ॥ ३४४ ॥

चौ०—भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥

मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥

उस समय राजमहल [अत्यन्त] शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेवका भी मन मोहित हो जाता था। मङ्गलगुण, मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख, सुहावनी सम्पत्ति, ॥ १ ॥

जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथ गृहँ छाए ॥

देखन हेतु राम वैदेही । कहहु लालसा होहि न केही ॥

और सब प्रकारके उत्साह (आनन्द) मानो सहज सुन्दर शरीर घर-घरकर दशरथजीके घरमें छा गये हैं। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके लिये भक्ता कहिये, किसे लालसा न होगी ! ॥ २ ॥

जूथजूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छवि निदरहिं मदन विलासिनि ॥

सकल सुमंगल सजें आरती । गावहिं जनु बहु वेप भारती ॥

सुहागिनी स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छविसे कामदेवकी स्त्री रतिका भी निरादर कर रही हैं। सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत-से वेप धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥

भूपति भवन कोलाहलु होई । जाइ न वरनि समउ मुखु सोई ॥

कौसल्यादि राम महतारीं । प्रेमविवस तन दसा विसारीं ॥

राजमहलमें [आनन्दके मारे] शोर मच रहा है। उस समयका और सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष पक्ष होनेसे शरीरकी सुघ भूल गयी ॥ ४ ॥

दो०—दिए दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि ।

प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥

परम प्रकाशस्वरूप) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हैं। जयध्वनि तथा वेदकी निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मङ्गलसे सनी हुई दसों दिशाओंमें सुनायी पड़ रही है ॥ १ ॥

विपुल वाजने वाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥
बने बराती बरनि न जाहीं । महा मुदित मन सुख न समार्हीं ॥

बहुत-से वाजे बजने लगे। आकाशमें देवता और नगरमें लोग सब प्रेममें मग्न हैं। बराती ऐसे बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २ ॥

पुरवासिन्ह तब राय जोहारे । देखत रामहि भए सुखारे ॥
करहिं निछावरि मनिगन चीरा । बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥

तब अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार (वन्दना) की। श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी हो गये! सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओं-का] जल भरा है और शरीर पुलकित है ॥ ३ ॥

आरति करहिं मुदित पुर नारी । हरषहिं निरखि कुअँर वर चारी ॥
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥

नगरकी स्त्रियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियोंके सुन्दर परदे हटा-हटाकर वे दुलहिनोंको देखकर सुखी होती हैं ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर ।

मुदित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥

इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये। माताएँ आनन्दित होकर बहुओं-सहित कुमारोंका परछन कर रही हैं ॥ ३४८ ॥

चौ०—करहिं आरती बारहिं बारा । प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा ॥

अपन मनि पट नाना । करहिं निछावरि अगनित भाँती ॥

हे। अन
कर रही

आरती कर रही
रत आ

और महान् आनन्दको कौन कह सकता
अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर

धूपके धूपसे आकाश ऐसा काला हो गया है, मानो सावनके वादन घुमड़-घुमड़-कर छा गये हों । देवता कल्पवृक्षके फूलोंकी मानाएँ बरमा रहे हैं । ये ऐसी लगती हैं, मानो बगुलोंकी-पाँति मनको [अपनी ओर] खींच रही हो ॥ १ ॥

मंजुल मनिमय वंदनिवारै । मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारै ॥

प्रगटहिँ दुरहिँ अटन्ह परभामिनि । चारुचपलजनु दमकहिँ दामिनि ॥

सुन्दर मणियोंसे बने वंदनवार ऐसे मालूम होते हैं, मानो इन्द्रधनुष सजाये हों । अटारियोंपर सुन्दर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं (धाती-जाती हैं) ; वे ऐसी जान पड़ती हैं, मानो विजलियाँ चमक रही हों ॥ २ ॥

दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥

सुर सुगंध सुचि वरपहिँ वारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥

नगाइँकी ध्वनि मानो बादलोंकी घोर गर्जना है, जाचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं । देवता पवित्र सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेतोंके समान नगरके मय स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं ॥ ३ ॥

समउ जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेशु रघुकुलमनि कीन्हा ॥

सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति सहित समाजा ॥

[प्रवेशका] समय जानकर गुरु वसिष्ठजीने आज्ञा दी । तब रघुगुनमनि महाराज दशरथजीने शिवजी, पावंतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसहित आनन्दित होकर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

दो०—होहिँ सगुन वरपहिँ सुमन सुर दुंदुर्भी वजाइ ।

विवुध बंधू नाचहिँ सुदित मंजुल मंगल गाइ ॥ ३४७ ॥

शकून हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी वजाकर फूल बरसा रहे हैं । देवताओंकी स्त्रियाँ आनन्दित होकर सुन्दर मंजुलगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ॥

चौ०—मागध सूत वंदि नट नागर । गावहिँ जसु निहु लोक उजागर ॥

जय धुनि विमल वेद वर वानी । दस दिसि सुनिज सुमंगल मानी ॥

मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंके उजागर (गवकों प्र) गाने

फिर वेदकी विधिके अनुसार मङ्गलोंके निधान दूल्ह और दुल्हिनीकी धूप, दीप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजा की। माताएँ बारंबार आरती कर रही हैं और वर-वधुओंके सिरोंपर सुन्दर पंखे तथा चैंबर ढल रहे हैं ॥ २ ॥

वस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं ॥
पावा परम तत्व जनु जोगीं । अमृतु लहेउ जनु संतन रोगीं ॥

अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगीने परम तत्त्वको प्राप्त कर लिया। सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया ॥ ३ ॥

जनम रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥
मूक बदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सूर जय पाई ॥

जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ। गूंगेव मुखमें मानो सरस्वती आ विराजीं और शूरवीरने मानो युद्धमें विजय पा ली ॥ ४ ॥

दो०—एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु ।

भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३५०(क)॥

इन सुखोंसे भी सी करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हैं; क्योंकि रघुकुलचंद्रमा श्रीरामजी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये हैं ॥ ३५० (क) ॥

लोकरीति जननीं करहिं वर दुलहिनि सकुचाहिं ।

मोडु विनोदु विलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहि ॥३५०(ख)॥

माताएँ लोकरीति करती हैं और दूल्ह-दुल्हिनें सकुचाते हैं। इस महान् आनन्द और विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ ३५० (ख) ॥

ची०—देव पितर पूजे विधि नीकी । पूजीं सकल दासना जी की ।

सवहि बंदि मागहिं बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याणा ।

मनकी सभी दासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका भलीभाँति पूजन किया सबकी वन्दना करके माताएँ यही बरदान माँगती हैं कि भाइयोंसहित श्रीरामजीका कल्याण हो

अंतरहित सुर आसिष देहीं । मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ।

भूपति वोलि वरानी लीन्हे । जान वसन मनि भूपन दीन्हे ।

देवता छिपे हुए [अन्तरिक्षसे] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्द

वधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥

पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥

॥ बहुओंसहित चारों पुत्रोंको देखकर माताएँ परमानन्दमें मग्न हो गयीं । सीताजी और श्रीरामजीकी छबिको बार-बार देखकर वे जगत्में अपने जीवनकी सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं ॥ २ ॥

सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥

बरपहिं सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥

सखियाँ सीताजीके मुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई गान कर रही हैं । देवता क्षण-क्षणमें फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ ॥

देखि मनोहर चारिउ जोरीं । सारद उपमा सकल ढँढोरीं ॥

देत न बनहिं निपट लघु लागीं । एकटक रहाँ रूप अनुरागीं ॥

॥ चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको घोज डाला; पर कोई उपमा देते नहीं बनी; क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ीं । तब हारकर वे भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥

दो०—निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत ।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ॥ ३४६ ॥

वेदकी विधि और कुलकी रीति करके अर्घ्य-पाँवड़े देती हुई बहुओंसमेत सब पुत्रोंको परछन करके माताएँ महलमें लिवा चलीं ॥ ३४६ ॥

चो०—चारि सिंघासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥

तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥

स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे । उनपर माताओंने राजकुमारियों और राजकुमारोंको बैठाया और आदरके साथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ १ ॥

धूप दीप नैवेद वेद विधि । पूजे वर दुलहिनि मंगल निधि ॥

वारहिं वार आरती करहीं । व्यजन चारु चामर तिर ढरहीं ॥

मेरे समान घन्य दूसरा कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥

भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मन जोगवत रह नृपु रनिवासू ॥

पूजे गुर पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥

उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे (अर्थात् जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें)। फिर राजाने गुरु वसिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की। उनके हृदयमें कम प्रीति न थी (अर्थात् बहुत प्रीति थी) ॥ ४ ॥

दो०—वधुन्ह समेत कुमार सब रनिन्ह सहित महीसु ।

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२ ॥

बहुओंसहित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२ ॥

चौ०—विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आगे ॥

नेगु भागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत विधि दीन्हा ॥

राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर उन्हें स्वीकार करनेके [लिये] विनती की। परंतु मुनिराजने [पुरोहितके नाते] केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया ॥ ५ ॥

उर धरि रामहि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥

विप्रवधू सब भूप बोलाई । चैल चारु भूषन पहिराई ॥

फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वसिष्ठजी हर्षित होकर अपने स्थानको गये। राजाने सब ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥

बहुरि बोलाई सुआसिनि लीन्हीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥

नेगी नेग जोग सब लेहीं । रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥

फिर सब सुआसिनियों (नगरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदि) को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर [उसीके अनुसार] उन्हें पहिरावनी दी। नेगी

हो अंचल भरकर ले रही हैं। तदनन्तर राजाने वरातियोंको बुलवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि (रत्न) और आभूषणादि दिये ॥ २ ॥

आयसु पाइ राखि उर रामहि । मुदित गए सब निज निज धामहि ॥
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर वाजन लगे बधाए ॥

आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने पर गये। नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े और गहने पहनाये। घर-घर बधावे बजने लगे।

जाचक जन जाचहि जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥
सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन किए दान सनमाना ॥

जाचकलोग जो-जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं। सम्पूर्ण सेवकों और बाजेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे संतुष्ट किया ॥ ४ ॥

दो०—देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ ।

तव गुर भूसुर सहित गृहं गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५१ ॥

सब जोहार (वन्दन) करके आशिष देते हैं और गुणगमनोंकी कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणोंसहित राजा दशरथजीने महलमें गमन किया ॥ ३५१ ॥

चो०—जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥

भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥

वसिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साथ उठीं।

पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूजि भली विधि भूप जेवाँए ॥

आदर दान प्रेम परिपोषे । देत असीस चले मन तोषे ॥

चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने भलीभाँति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे संतुष्ट मनमें आशीर्वाद देते हुए चले। २।

बहु विधि कीन्ह गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥

कीन्ह प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्ह पग धूरी ॥

राजाने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की और कहा—हे नाथ !

मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥

भीतर भवन दीन्ह बर वासू । मन जोगवत रह नृपु रनिवासू ॥

पूजे गुर पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥

उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे (अर्थात् जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें)। फिर राजाने गुरु वसिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की। उनके हृदयमें कम प्रीति न थी (अर्थात् बहुत प्रीति थी) ॥ ४ ॥

दो०—बधुन्ह समेत कुमार सब रनिन्ह सहित महीसु ।

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२ ॥

बहुओंसहित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२ ॥

चौ०—विनय कीन्हि उर अति अनुरागें । सुत संपदा राखि सब आगें ॥

नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत विधि दीन्हा ॥

राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर उन्हें स्वीकार करनेके [लिये] विनती की। परंतु मुनिराजने [पुरोहितके नाते] केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥

उर धरि रामहि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥

विप्रवधू सब भूप बोलाई । चैल चारु भूपन पहिराई ॥

फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वसिष्ठजी हर्षित होकर अपने स्वामको गये। राजाने सब ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥

बहुरि बोलाई सुआसिनि लीन्हीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥

नेगी नेग जोग सब लेहीं । रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥

फिर सब सुआसिनियों (नगरकी सीभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदि) को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर [उसीके अनुसार] उन्हें पहिरावनी दी। नेगी

लोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥

प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भली भौति सनमाने ॥
देव देखि रघुवीर विवाह । वरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ॥

जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजाने भलीभाँति सम्मान किया । देवगण श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए—॥४॥

दो०—चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदयँ समाइ ॥ ३५३ ॥

नगाड़े बजाकर और [परम] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले । वे एक-दूसरेसे श्रीरामजीका यश कहते जाते हैं । हृदयमें प्रेम समाता नहीं है ॥ ३५३ ॥

चौ०—सब विधिसबहि समदि नरनाहू । रहा हृदयँ भरि पूरि उछाहू ॥

जहँ रनिवासु तहाँ पगु धारे । सहितवहूटिन्ह कुअँरनिहारे ॥

सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथ-जीके हृदयमें पूर्ण उत्साह (आनन्द) भर गया । जहाँ रनिवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारीको देखा ॥ १ ॥

लिए गोद करि भोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥

बधू-सप्रेम गोद बैठारि । बार-बार-हियँ हरषि दुलारि ॥

राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया । उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है । फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर बार-बार हृदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका दुत्तार (साह-चाव) किया ॥ २ ॥

देखि समाजु मुदित रनिवासू । सब कें उर अनंद कियो वासू ॥

कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥

यह समाज (समारोह) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर लिया । तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा । उने गुन-गुनकर सब किसीको हर्ष होता है ॥ ३ ॥

जनक राज गुण सीलु बड़ाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥

राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुईं ।

दो०—सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुर ग्याति ।

भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गइ राति ॥ ३५४ ॥

पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुटुम्बियोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये । [यह सब करते-करते] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥

ची०—मंगलगान करहिं वर भामिनि । मै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥

अँचइ पान सब काहूँ पाए । स्वग सुगंध भूषित छबि छाए ॥

सुन्दर स्त्रियाँ मङ्गलगान कर रही हैं । वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी हो गयी । सबने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब शोभासे छा गये ॥ १ ॥

रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥

प्रेमु प्रमोदु विनोदु बड़ाई । समउ समाजु मनोहरताई ॥

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको चले । वहाँके प्रेम, आनन्द, विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको—॥ २ ॥

कहि न सकहिं सत सारद सेसू । वेद बिरंचि महेस गनेसू ॥

सो मै कहौं कवन विधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥

सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते । फिर भला मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ? कहीं केंचुआ भी धरतीको सिरपर ले सकता है ? ॥ ३ ॥

नृप सब भाँति सवहि सनमानी । कहि मृदु वचन बोलाई रानी ॥

बधू लरिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥

राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, कोमल वचन कहकर रानियोंको बुलाया और कहा—बहुएँ अमी बच्ची हैं, पराये घर आयी हैं; इनको इस तरहसे रखना

लोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥

प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भली भौति सनमाने ॥
देव देखि रघुबीर विवाह । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ॥

जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजाने भलीभाँति सम्मान किया । देवगण श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए—॥४॥

दो०—चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदयँ समाइ ॥ ३५३ ॥

नगाड़े बजाकर और [परम] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंकी चले । वे एक-दूसरेसे श्रीरामजीका यश कहते जाते हैं । हृदयमें प्रेम समाता नहीं है ॥ ३५३ ॥

चौ०—सब बिधिसबहि समदिनरनाह । रहा हृदयँ भरि पूरि उछाह ॥

जहँ रनिवासु तहाँ पगु धारे । सहितवहूटिन्ह कुत्रैरनिहारे ॥

सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथ-जीके हृदयमें पूर्ण उत्साह (आनन्द) भर गया । जहाँ रनिवास था, वे यहाँ पधारें और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोंको देखा ॥ १ ॥

लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥

बधू सप्रेम गोद बैठारीं । बार बार हियँ हरषि दुलारीं ॥

राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया । उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है । फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर बार-बार हृदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका दुतार (साङ्-चाप) किया ॥ २ ॥

देखि समाजु मुदित रनिवासू । सब कें उर अनंद कियो वासू ॥

कहेउ भूप जिमि भयउ बिवाह । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥

यह समाज (समारोह) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर लिया । सब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा । उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष होता है ॥ ३ ॥

जनक राज गुन सीलु बड़ाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥

महुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥

राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने माटकी तरह बहुत प्रकारसे किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुईं ।

श्री०—सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुर ग्याति ।

भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गइ राति ॥ ३५४ ॥

पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुटुम्बियोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये । [यह सब करते-करते] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥

श्री०—मंगलगान करहिं बर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥

अँचइ पान सब काहँ पाए । स्रग सुगंध भूषित छवि छाए ॥

सुन्दर स्त्रियाँ मङ्गलगान कर रही हैं । वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी हो गयी । सबने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब शोभासे छा गये ॥ १ ॥

रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥

प्रेमु प्रमोदु बिनोदु बड़ाई । समउ समाजु मनोहरताई ॥

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको चले । वहाँके प्रेम, आनन्द, बिनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताकी—॥ २ ॥

कहि न सकहिं सत सारद सेसू । बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥

सो मैं कहौं कवन विधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥

सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते । फिर भला मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ? कहीं केंचुआ भी धरतीको सिरपर ले सकता है ? ॥ ३ ॥

नृप सब भौंति सवहि सनमानी । कहि मृदु वचन बोलाई रानी ॥

बधू लरिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥

राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, कोमल वचन कहकर रानियोंको बुलाया और कहा—बहएँ अभी बच्ची हैं, पराये घर आयी हैं; इनको इस तरहसे रखना

जैसे नेत्रोंकी पलकें रखती हैं (जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना) ॥ ४ ॥

दो०—लारिका श्रमित उनीद, बस सयन करावहु जाइ ।

अस कहि गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥

नङ्कके थके हुए नींदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ । ऐसा कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये ॥ ३५५ ॥

चौ०—भूप वचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥

सुभग सुरभिपय फेनसमाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥

राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [रानियोंने] मणियोंसे जड़े सुवर्णके पलंग बिछवाये ।— [गहोंपर] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछायीं ॥ १ ॥

उपवरहन वर वरनि न जाहीं । स्रग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥

रतनदीप सुठि चारु चँदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥

सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता । मणियोंके मन्दिरमें फूलोंकी मालाएँ और सुगन्धद्रव्य सजे हैं । सुन्दर रत्नोंके दीपकों और सुन्दर चँदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती । जिसने उन्हें देखा हो, वही जान सकता है ॥ २ ॥

सेज रुचिर रचि रामु उठाए-। प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥

अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥

इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [माताओंने] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पलंगपर पौढाया । श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी । तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओंपर सो गये ॥ ३ ॥

देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहहि सप्रेम वचन सब माता ॥

मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताड़का मारी ॥

श्रीरामजीके साँवले सुन्दर कोमल अङ्गोंको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही हैं—हे तात ! मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राधाजीकी किन प्रकारसे मारा ? ॥ ४ ॥

दो०—घोर निसाचर विकट भट समर गनहिं नहिं काहु ।

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥

बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने कैसे मारा ? ॥ ३५६ ॥

दो०—मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ॥

मख रखधारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥

हे तात ! मैं बलैया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको टाल दिया । दोनों भाइयोंने यज्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ पायीं ॥ १ ॥

मुनितिय तरी लगत पग धूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥

कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नृप समाज महुँ सिव धनु तोरा ॥

चरणोंकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विश्वभरमें यह कीर्ति पूर्णरीतिसे व्याप्त हो गयी । कच्छपकी पीठ, वज्र और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया ! ॥ २ ॥

विस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥

सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक कृपाँ सुधारे ॥

विश्वविजयके यश और जानकीको पाया, और सब भाइयोंको ब्याहकर घर आये । तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं (मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं), जिन्हें केवल विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है (सम्पन्न किया है) ॥ ३ ॥

आजु सुफल जग जनमु हमारा । देखि तात विधुबदन तुम्हारा ॥

जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें ॥

हे तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगत्में जन्म लेना सफल हुआ । तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावें (हमारी आयुमें शामिल न करें) ॥ ४ ॥

दो०—राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत बर बैन ।

सुमिरि संभु गुर विप्र पद किए नीदवस नैन ॥ ३५७ ॥

विनयभरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको संतुष्ट किया ।

वैसे नेत्रोंको पलकें रखती हैं (जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रखा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना) ॥ ४ ॥

दो०—लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ ।

अस कहि गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥

नइके यके हुए नींदके वश ही रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये ॥ ३५५ ॥

चौ०—भूप वचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥

सुभग सुरभिपय फेनसमाना । कोमल कलित सुपेर्ति नाना ॥

राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [रानियोंने] मणियोंसे जड़े सुवर्णके पलंग बिछवाये ।— [गहोंपर] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछायीं ॥ १ ॥

उपवरहन वर वरनि न जाहीं । स्रग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥

रतनदीप सुठि चारु चँदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥

सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियोंके मन्दिरमें फूलोंकी मालाएँ और सुगन्धद्रव्य सजे हैं। सुन्दर रत्नोंके दीपकों और सुन्दर चँदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो, वही जान सकता है ॥ २ ॥

सेज रुचिर रचि रामु उठाए । प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए ॥

अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥

इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [माताओंने] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पलंगपर पौढ़ाया। श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी। तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओंपर सो गये ॥ ३ ॥

देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहहि सप्रेम वचन सब माता ॥

मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताड़का मारी ॥

श्रीरामजीके साँवले सुन्दर कोमल अङ्गोंको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही हैं—हे तात ! मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा ? ॥ ४ ॥

बी०—भूप बिलोकि लिए उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥
देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥

राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा लिया । तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गये । श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्रोके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी (अर्थात् सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये) ॥ १ ॥

पुनि वसिष्ठु मुनि कौंसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे ॥

फिर मुनि वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये । राजाने उनको सुन्दर आसनोपर बैठाया और पुत्रोंसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे । दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेममें मृग्य हो गये ॥ २ ॥

कहहिं वसिष्ठु धरम इतिहासा । सुनहिं महीसु सहित रनिवासा ॥
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित वसिष्ठु विपुल विधि वरनी ॥

वसिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं । जो मुनियोंके मनको भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको वसिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ३ ॥

बोले वामदेउ सब साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥

वामदेवजी बोले—ये सब बातें सत्य हैं । विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकोंमें छायी हुई है । यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ । श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें अधिक उत्साह (आनन्द) हुआ ॥ ४ ॥

दो०—मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति ।

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५६ ॥

नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते हैं । अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती ही जा रही है ॥ ३५६ ॥

फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरणकर नेत्रोंको नींदके बग किया (अर्थात् वे सो रहे) ॥ ३५७ ॥

चौ०—नीदउँ बदन सोह सुठि लोना । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥

घर घर करहिं जागरन नारीं । देहिं परसपर मंगल गारीं ॥

नीदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्याके समय-का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियाँ घर-घर जागरण कर रही हैं और आपसमें (एक-दूसरीको) मङ्गलमयी गालियाँ दे रही हैं ॥ १ ॥

पुरी विराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं विलोकहु सजनी ॥

सुंदर बधुन्ह सासु लें सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥

रानियाँ कहती हैं—हे सजनी ! देखो, [आज] रात्रिकी कंसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है ! [यों कहती हुई] सासुएं सुन्दर बहूओंको लेकर सो गयीं, मानो सर्पोंने अपने सिरकी मणियोंको हृदयमें छिपा लिया है ॥ २ ॥

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । अरुनचूड़ वर बोलन लागे ॥

बाँदि मागधन्दि गुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥

प्रातःकाल पवित्र ब्राह्मणमूर्तमें प्रभु जागे। मुर्गे सुन्दर बोलने लगे। भाट और मागधोंने गुणोंका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये ॥ ३ ॥

बाँदि बिप्र सुर गुर पितु माता । पाइ असीस मुदित सब भ्राता ॥

जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पगु धारे ॥

ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओंने आदरके साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजाके साथ दरवाजे (बाहर) पधारे ॥ ४ ॥

दो०—कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ ।

प्रातक्रिया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ ॥ ३५८ ॥

स्वभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शौचादिसे निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदीमें स्नान किया और प्रातःक्रिया (संध्या-वन्दनादि) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥

नवाह्नपारायण, तीसरा विश्राम

दो०—राम रूपु भूपति भगति व्याहु उछाहु अनंदु ।

जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६० ॥

गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, [चारों भाइयोंके] विवाह और [सबके] उत्साह और आनन्दको मन-ही-मन सराहते जाते हैं ॥ ३६० ॥

ची०—वामदेव रघुकुल गुरु ग्यानी । बहुरिगाधिसुत कथा बखानी ॥

सुनि सुनि सुजसु मनहिं मन राज । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥

वामदेवजी और रघुकुलके गुरु ज्ञानी वसिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा बखानकर कही। मुनिका सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रभावका बखान करने लगे ।

बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति गृहँ गयऊ ॥

जहँ तहँ राम व्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहँ छावा ॥

आज्ञा हुई तब सब लोग [अपने-अपने घरोंको] लौटे । राजा दशरथजी भी पुत्रोंसहित महलमें गये । जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोंमें छा गया ॥ २ ॥

आए व्याहि रामु घर जब तें । बसइ अनंद अवध सब तब तें ॥

प्रभु विवाहँ जस भयऊ उछाहू । सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥

जदसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा । प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पोंके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥

कविकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥

तेहि ते मै कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥

श्रीसीतारामजीके यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलोंकी खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ (थोड़ा-सा) बखानकर कहा है ।

ध०—निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कद्यो ।

रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कौनें लद्यो ॥

चो-सुदिन सोधि कल कंकन छोरे । मंगल मोद विनोद न थोरे ॥

नितनवसुखसुरदेखिसिहाहीं । अवधजन्मजाचहिंविधिपाहीं ॥

अच्छा दिन (शुभ मुहूर्त) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले गये । मङ्गल, आनन्द और विनोद कुछ कम नहीं हुए (अर्थात् बहुत हुए) । इस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म पानेके नित्य ब्रह्माजीसे याचना करते हैं ॥ १ ॥

विश्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रेम विनय बस रहहीं ॥

दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह महामुनिराऊ ॥

विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना) चाहते हैं, पर रामचन्द्रजीके स्नेह और विनयवश रह जाते हैं । दिनोंदिन राजाका सांगुना भाव (प्रेम) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते हैं ॥ २ ॥

मागत विदा राउ अनुरागे । सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥

नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मैं सेवकु समेत सुत नारी ॥

अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा मांगी, तब राजा प्रेममग्न हो गये और पुत्रों-सहित आगे पड़े हो गये । [वे बोले—] हे नाथ ! यह सारी सम्पदा आपकी है । मैं तो स्त्री-पुत्रोंसहित आपका सेवक हूँ ॥ ३ ॥

करव सदा लरिक्न्ह पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोहू ॥

अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आव न बानी ॥

हे मुनि ! लड़कोंपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । ऐसा कहकर पुत्रों और रानियोंसहित राजा दण्डरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े, [प्रेमविह्वल हो जानेके कारण] उनके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥

दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥

रामु सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥

ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और ये चल पड़े, प्रीतिकी रीति कही नहीं जाती । सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लौटे ॥ ५ ॥

केवटके भाग्य



अति आनंद उमगि अनुरागा ।
चरन सरोज पखारन लागा ॥

उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ।

वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं ॥

अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यज्ञ कहा है । [नहीं तो] श्रीरघुनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया है ? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे ।

सो०—सिय रघुवीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ।

तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥ ३६१ ॥

श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसङ्गको जो लोग प्रेमपूर्वक गायें-सुनेंगे, उनके लिये सदा उत्साह (आनन्द)-ही-उत्साह है; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यज्ञ मङ्गलका धाम है ॥ ३६१ ॥

मासपारायण, वारहवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सप्तसप्ततिरुत्तरुत्तरिम्बंत्तने प्रथमः सोपानः समाप्तः ।

कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ ।

(बालकाण्ड समाप्त)



नीले कमलके समान श्याम और कोमल जिनके अङ्ग हैं, श्रीसीताजी जिनके वामभागमें विराजमान हैं और जिनके हाथोंमें [क्रमशः] अमोघ बाण और सुन्दर धनुष है, उन रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

दो०—श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।

वरलउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि ॥

श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके मैं श्रीरघुनाथजीके उस निर्मल यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फलोंको (धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको) देनेवाला है।

चौ०—जब तें रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद वधाए ॥

भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ वरषहिँ सुख वारी ॥

जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [अयोध्यामें] नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं और आनन्दके वधावे बज रहे हैं। चौदहों लोकरूपी बड़े भारी पर्वतोंपर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल वरसा रहे हैं ॥ ५ ॥

रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥

मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥

ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें आ मिलीं। नगरके स्त्री-पुरुष अच्छी जातिके मणियोंके समूह हैं जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं ॥ २ ॥

कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु एतनिअ विरंचि करतूती ॥

सब विधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी ॥

नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्माजीकी फारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३ ॥

मुदित मातु सब सखीं सहेली । फलित विलोकि मनोरथ बेली ॥

राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ । प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥

सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

श्रीरामचरितमानस

द्वितीय सोपान

अयोध्याकाण्ड

श्लोक

यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्थोरसि व्यालराट् ।

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा

शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥ १ ॥

जिनकी गोदमें हिमाचलसुता पार्वतीजी, मस्तकपर गङ्गाजी, ललाटपर द्वितीयाका
चन्द्रमा, कण्ठमें हलाहल विष और वदःस्थलपर संपराज शेषजी सुशोभित हैं, ये भस्मसे
विभूषित, देवताओंमें श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता [या भक्तोंके पापनाशक], सर्वव्यापक,
कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान शुभ्रवर्ण श्रीभगकरजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ १ ॥

प्रसन्नतां या न गताभिपेक्षतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।

मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ २ ॥

रघुकुलकी आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्याभिषेकसे
(राज्याभिषेककी बात सुनकर) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके दुःखसे
मलिन ही हुई, यह (मुखकमलकी छवि) मेरे लिये सदा सुन्दर मङ्गलकी देनेवाली हो ॥ २ ॥

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ३ ॥

दो०—यह विचार उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ ।

प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ ॥ २ ॥

हृदयमें यह विचार लाकर (युवराज-पद देनेका निश्चय कर) राजा दशरथजीने
 गुप्त दिन और सुन्दर समय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे गुरु
 सिंघासनको जा सुनाया ॥ २ ॥

ती०—कहइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक । भए राम सब विधिसब लायक ॥

सेवक सचिव सकल पुरवासी । जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥

राजाने कहा—हे मुनिराज ! [कृपया यह निवेदन] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अब
 सब प्रकारसे सब योग्य हो गये हैं । सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी और जो हमारे शत्रु,
 मित्र या उदासीन हैं—॥ १ ॥

सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥

विप्र सहित परिवार गोसाईं । करहिं छोहु सब रौरिहि नाई ॥

सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं । [उनके रूपमें] आपका
 आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है । हे स्वामी ! सारे ब्राह्मण
 परिवारसहित, आपके ही समान उनपर स्नेह करते हैं ॥ २ ॥

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥

मोहि सम यहु अनुभयउ नदूजें । सबु पायउँ रज पावनि पूजें ॥

जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त
 ऐश्वर्यको अपने वशमें कर लेते हैं । इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया ।
 आपकी पवित्र चरणरजकी पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया ॥ ३ ॥

अत्र अभिलाषु एकु मन मोरें । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें ॥

मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेश रजायसु देहू ॥

अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा है । हे नाथ ! वह भी आपहीके अनुग्रहसे पूरी
 होगी । राजाका सहज प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा—नरेश ! आज्ञा दीजिये
 (कहिये, क्या अभिलाषा है ?) ॥ ४ ॥

आनन्दित हैं । श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको देख-सुनकर राजा दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते हैं ॥ ४ ॥

दो०—सब कें उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु ।

आप अछत जुवराज पद रामहि देउ नरेसु ॥ १ ॥

सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवजीको मनाकर (प्रार्थना करके) कहते हैं कि राजा अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दें ॥ १ ॥

चौ०—एकसमयसबसहितसमाजा । राजसभौं रघुराजु विराजा ॥

सकल सुकृत मूरति नरनाहू । रामसुजसुसुनिअतिहिउछाहू ॥

एक समय रघुकूलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसभामें विराजमान थे । महाराज समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ १ ॥

नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करहिं प्रीति रख राखें ॥

तिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रथको रथते हुए (अनुकूल होकर) प्रीति करते हैं । [पृथ्वी, आकाश, पाताल] तीनों भुवनोंमें और [भूत, भविष्य, वर्तमान] तीनों कालोंमें दशरथजीके समान बड़भागी [और] कोई नहीं है ॥२॥

मंगलमूल राम सुत जासू । जो कछु कहिअ थोर सवु तासू ॥

रायँ सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा । वदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा ॥

मङ्गलके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब योड़ा है । राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुटको सीधा किया ॥ ३ ॥

श्रवन समीप भए सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥

नृप जुवराजु राम कहुँ देहू । जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥

[देखा कि] कानोंके पास वाल सकेद हो गये हैं; मानो बड़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मगा साथ क्यों नहीं लेते ॥ ४ ॥

दो०—वेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु ।

सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु ॥ ४ ॥

हे राजन् ! अब देर न कीजिये, शीघ्र सब सामान सजाइये । शुभ दिन और सुन्दर मङ्गल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायँ (अर्थात् उनके अभिषेकके लिये सभी दिन शुभ और मङ्गलमय हैं) ॥ ४ ॥

चौ०—सुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ॥

कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए । भूप सुमंगल वचन सुनाए ॥

राजा आनन्दित होकर महलमें आये और उन्होंने सेवकोंको तथा मन्त्री सुमन्त्रको बुलवाया । उन लोगोंने 'जय-जीव' कहकर सिर नवाये । तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय वचन (श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव) सुनाये ॥ ५ ॥

जौं पाँचहि मत लागै नीका । करहु हरषि हियँ रामहि टीका ॥

[और कहा—] यदि पंचोंको (आप सबको) यह मत अच्छा लगे, तो हृदयमें हर्षित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥ २ ॥

मन्त्री सुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत विरवँ परेउ जनु पानी ॥

विनती सचिव करहिं कर जोरी । जिअहु जगतपति वरिस करोरी ॥

इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर पानी पड़ गया हो । मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पति ! आप करोड़ों वर्ष जियें ॥ ३ ॥

जग मंगल भल काजु विचारा । वेगिअ नाथ न लाइअ बारा ॥

नृपहि मोटु सुनि सचिव सुभाषा । बढन बाँड जनु लही सुसाखा ॥

आपने जगत्भरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा है । हे नाथ ! शीघ्रता कीजिये, देर न लगाइये । मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥

दो०—कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ ।

राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥

दो०—राजन राउर नामु जसुं सब अभिमत दातार ।

फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलापु तुम्हार ॥ ३ ॥

हे राजन् ! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला है ।

हे राजाओंके मुकुटमणि ! आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है (अर्थात् आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है) ॥ ३ ॥

चौ०—सबविधिगुरुप्रसन्नजियँजानी । बोलेउ राउ रहँसि मृदु वानी ॥

नाथ रामु करिअहिं जुवराजू । कहिअकृपाकरिकरिअसमाजू ॥

अपने जीमें गुरुजीको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हर्षित होकर राजा कोमल वाणीसे बोले—हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये । कृपा करके कहिये (आशा दीजिये) तो तैयारी की जाय ॥ १ ॥

मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लहहिं लोग सब लोचन लाहू ॥

प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं । यह लालसा एक मन माहीं ॥

मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [जिनसे] सब लोग अपने नेत्रोंकी लाम प्राप्त करें । प्रभु (आप) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निवाह दिया (सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं) केवल यही एक लालसा मनमें रह गयी है ॥ २ ॥

पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ ॥

सुनि मुनि दसरथ वचन सुहाए । मंगल मोद मूल मन भाए ॥

[इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर] फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाय, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो । दशरथजीके मङ्गल और आनन्दके मूल मुन्दर वचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥

सुनु नृप जासु विमुख पछिताहीं । जासु भजन विनु जरनि न जाहीं ॥

भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥

[वसिष्ठजीने कहा—] हे राजन् ! सुनिये, जिनसे विमुग्ध होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी (भवन्तीकमहेम्बर) श्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं । [श्रीरामजी पवित्र प्रेमके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं] ॥ ४ ॥

दो०—वेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु ।

सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुवराजु ॥ ४ ॥

हे राजन् ! अब देर न कीजिये, शीघ्र सब सामान सजाइये । शुभ दिन और सुन्दर मङ्गल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायँ (अर्थात् उनके अभिषेकके लिये सभी दिन शुभ और मङ्गलमय हैं) ॥ ४ ॥

ची०—मुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ॥

कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए । भूप सुमंगल वचन सुनाए ॥

राजा आनन्दित होकर महलमें आये और उन्होंने सेवकोंको तथा मन्त्री सुमन्त्रको बुलवाया । उन लोगोंने 'जय-जीव' कहकर सिर नवाये । तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय वचन (श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव) सुनाये ॥ १ ॥

जौ पाँचहि मत लागै नीका । करहु हरषि हियँ रामहि टीका ॥

[और कहा—] यदि पंचोंको (आप सबको) यह मत अच्छा लगे, तो हृदयमें हर्षित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥ २ ॥

मन्त्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवँ परेउ जनु पानी ॥

विनती सचिव करहिं कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥

इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर पानी पड़ गया हो । मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पति ! आप करोड़ों वर्ष जियें ॥ ३ ॥

जग मंगल भल काजु बिचारा । वेगिअ नाथ न लाइअ बारा ॥

नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बौँड जनु लही सुसाखा ॥

आपने जगत्भरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा है । हे नाथ ! शीघ्रता कीजिये, देर न लगाइये । मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥

दो०—कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ ।

राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥

राजाने कहा—श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज वसिष्ठजीकी जो-जो आज्ञा हो, आपलोग वही सब तुरंत करें ॥ ५ ॥

चौ०—हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥

औषध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥

मुनिराजने हर्षित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीर्थोंका जल से आओ । फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों माङ्गलिक वस्तुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १ ॥

चामर चरम वसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥

मनिगन मंगल वस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥

चेंबर, मृगचर्म, बहुत प्रकारके वस्त्र, अमंख्यों जातियोंके ऊनी और रेशमी कपड़े, [नाना प्रकारकी] मणियाँ (रत्न) तथा और भी बहुत-सी मङ्गल-वस्तुएँ, जो जगत्में राज्याभिषेकके योग्य होती हैं, [सबको मँगानेकी उन्होंने आज्ञा दी] ॥ २ ॥

वेद बिदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर विविध विताना ॥

सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु वीधिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥

मुनिने वेदोंमें कहा हुआ सब विधान बताकर कहा—नगरमें बहुत-से मण्डप (बंदोबे) सजाओ । फलोंसमेत आम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो ॥ ३ ॥

रचहु मंजु मनि चौकें चारू । कहहु वनावन वेगि वजारू ॥

पूजहु गनपति गुर कुलदेवा । सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥

सुन्दर मणियोंके मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारको तुरंत सजानेके लिये कह दो । श्रीगणेशजी, गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो ।

दो०—ध्वज पताक तोरण कलस सजहु तुरग रथ नाग ।

सिर धरि मुनिवर वचन सबु निज निज काजहिं लाग ॥ ६ ॥

ध्वजा, पताका, तोरण, कनक, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ-जीके वचनोंकी शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें लग गये ॥ ६ ॥

चौ०—जोमुनीसजेहि आयसुदीन्हा । सोतेहिं काजु प्रथमजनु कीन्हा ॥

विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा ॥

मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [इतनी शीघ्रतासे कर डाला कि] मानो पहलेसे ही कर रक्खा था । राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंको पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये सब मङ्गलकार्य कर रहे हैं ॥ १ ॥

सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा ॥

राम सीय तन सगुन जनाए । फरकहिं मंगल अंग सुहाए ॥

श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमें बड़ी धूमसे बधावे वजने लगे । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी शुभ शकुन सूचित हुए । उनके सुन्दर मङ्गल अङ्ग फड़कने लगे ॥ २ ॥

पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं । भरत आगमनु सूचक अहहीं ॥

भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥

पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सब शकुन भरतके आनेकी सूचना देनेवाले हैं । [उनको मामाके घर गये] बहुत दिन हो गये; बहुत ही अवसेर आ रही है (बार-बार उनसे मिलनेकी मनमें आती है) शकुनोंसे प्रिय (भरत) के मिलनेका विश्वास होता है ॥ ३ ॥

भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं ॥

रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥

और भरतके समान जगत्में [हमें] कौन प्यारा है । शकुनका वस, यही फल है, दूसरा नहीं । श्रीरामचन्द्रजीको [अपने] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुएका हृदय अंडोंमें रहता है ॥ ४ ॥

दो०—एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु ।

सोभत लखि विधु बढ़त जनु वारिधि वीचि विलासु ॥ ७ ॥

इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चन्द्रमाको बढ़ते देखकर समुद्रमें लहरोंका विलास (आनन्द) सुशोभित होता है ॥ ७ ॥

चौ०—प्रथमजाइ जिन्ह वचन सुनाए । भूषन वसन भूरि तिन्ह पाए ॥

प्रेम पुलकितन मन अनुरागीं । मंगल कलस सजन सब लागीं ॥

सबसे पहले [रनिवासमें] जाकर जिन्होंने ये वचन (समाचार) सुनाये,

साये । रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा और
मङ्गलकण्ठ सजाने लगीं ॥ १ ॥

नी । मनिमय विविध भौंति अति रूरी ॥

नी । दिए दान बहु विप्र हँकारी ॥

रनीं) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर
शारामन्दरजीकी माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोंको बुलाकर

नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥

वानू । देहु दया करि सो वरदानू ॥

रना और नागोंकी पूजा की और फिर बलि भेंट देनेको
फिर पूजा करनेकी मनोती मानी) ; और प्रार्थना की कि
कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३ ॥

क्यनीं । बिधुबदनीं मृगसावकनयनीं ॥

नीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके बन्धने-
करने लगीं ॥ ४ ॥

पिकु सुनि हियँ हरये नर नारि ।

राजन सब विधि अनुकूल विचारि ॥ ८ ॥

प्राभियेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयमें हर्षित हो उठे और
सुनकर सब सुन्दर मङ्गल-भाज सजाने लगे ॥ ८ ॥

सिष्ठु बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए ॥

त रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माथा ॥

बुलाया और शिक्षा (ममयोनित उपदेश) देनेके लिये
। गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर
बुलाया ॥ १ ॥

र आने । सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥

होरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥

आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घरमें लाये और पौडशोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों हाथोंको जोड़कर श्रीरामजी बोले—॥ २ ॥

सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल अमंगल दमनू ॥
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥

यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मङ्गलोंका मूल और अमङ्गलोंका नाश करने-वाला होता है, तथापि हे नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है ॥ ३ ॥

प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥
आयसु होइ सो करौँ गोसाईँ । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाईँ ॥

परंतु प्रभु (आप) ने प्रभुता छोड़कर (स्वयं यहाँ पधारकर) जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाईँ ! [अब] जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामीकी सेवामें ही सेवकका लाभ है ॥ ४ ॥

दो०—सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस ।

राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ६ ॥

[श्रीरामचन्द्रजीके] प्रेममें सने हुए वचनोंको सुनकर मुनि वसिष्ठजीने श्रीरघुनाथ-जीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम ! भला, आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंशके भूषण जो हैं ॥ ६ ॥

चौ०—वरनि राम गुन सीलु सुभाऊ । बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥

भूप सजेउ अभिवेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखान कर मुनिराज प्रेमसे पुलकित होकर बोले—[हे रामचन्द्रजी !] राजा (दशरथजी) ने राज्याभिवेककी तैयारी की है। वे आपको युवराज-पद देना चाहते हैं ॥ १ ॥

राम करहु सब संजम आजू । जौँ विधि कुसल निबाहै काजू ॥

गुरु सिख देइ राय पहिँ गयऊ । राम हदयँ अस बिसमउ भयऊ ॥

[इसलिये] हे रामजी ! आज आप [उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक] सब संयम

उन्होंने बहुत-से आभूषण और वस्त्र पाये । रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा और मन प्रेममें मग्न हो गया । वे सब मङ्गलकलश सजाने लगीं ॥ १ ॥

चौके चारु सुमित्राँ पूरी । मनिमय विविध भौँति अति रूरी ॥
आनँद मगन राम महतारी । दिए दान बहु विप्र हँकारी ॥

सुमित्राजीने मणियों (रत्नों) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर चीक पूरे । आनन्दमें मग्न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुत दान दिये ॥ २ ॥

पूजाँ ग्रामदेवि सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥
जेहि विधि होइ राम कल्याणु । देहु दया करि सो बरदानु ॥

उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर बलि भेंट देनेकी कहा (अर्थात् कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनोती मानी); और प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, दया करके वही बरदान दीजिये ॥ ३ ॥

गावहिँ मंगल कोकिलवयनीं । विधुवदनीं मृगसावकनयनीं ॥
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुग्धवाली और हिरनके बच्चेने-से नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मङ्गलगान करने लगीं ॥ ४ ॥

दो०—राम राज अभिपेकु सुनि हियँ हरपे नर नारि ।

लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारि ॥ ८ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-मुख्य हृदयमें हर्षित हो उठे और विधाताको अपने अनुकूल समझकर सब सुन्दर मङ्गल-साज सजाने लगे ॥ ८ ॥

चौ०—तव नरनाहँ वसिष्ठु बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए ॥

गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माथा ॥

तब राजाने वसिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा (समयोगिन उपदेश) देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके महानमें भेजा । गुरका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ १ ॥

सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भौँति पूजि सनमाने ॥

गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर

कनक सिंघासन सीय समेता । बैठहिं रामु होइ चित चैता ।
सकल कहहिं कव होइहि काली । विघ्न मनावहिं देव कुचाली ।

जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी मुवर्णके सिंहासनपर विराजेगे और हमारा मनचीता होगा (मनःकामना पूरी होगी) । इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कल होगा, उधर कुचली देवता विघ्न मना रहे हैं ॥ ३ ॥

तिन्हहि सोहाइ न अवध बधाया । चोरहि चंदिनि राति न भावा ।
मारद बोलि विनय सुर करहीं । वारहिं वार पाय लै परहीं ।

उन्हें (देवताओंको) अवधके बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं भाती । सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं ॥ ४ ॥

श्लो०—विपति हमारि विलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु ।

रामु जाहिं वन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥

[वे कहते हैं—] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये । त्रिमं श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जायें और देवताओंका सब कार्य निवृत्त हो ॥ ११ ॥

श्लो०—मुनि सुरविनय ठाढ़ि पछिताती । भइउँ सरोज विपिन हिमराती ॥

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [हाय ! मैं कमलवनके नियं हेमन्त ऋतुकी रात हुई । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे—हे माता ! इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ ॥

विममय हरप रहित खुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ।

जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥

श्रीगुरुनाथजी विपाद और हरपसे रहित हैं । आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावकी जानता ही हैं । जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है । अतएव देवताओंके हितके नियं आप श्रयोध्या जाइये ॥ २ ॥

कोजिये, जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस कामको निबाह दें (सफन कर दें) । गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये । श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [यह मुनकर] इस बातका खेद हुआ कि—॥ २ ॥

जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकारि ॥
करनवेध उपवीत विआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥

हम सब भाई एक ही साथ जन्मे; खाना, सोना, लड़कपनके खेल-कूद, बनछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए ॥ ३ ॥

विमल वंस यहु अनुचित एकू । बंधु विहाइ वड़ेहि अभिषेकू ॥
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन कै कुटिलाई ॥

पर इस निमल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयोंको छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़ेका ही (मेरा ही) होता है । [तुलसीदासजी कहते हैं कि] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण करे ।

दो०—तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद ।

सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकुल कैरव चंद ॥ १० ॥

उसी समय प्रेम और आनन्दमें मगन लक्ष्मणजी आये । रघुकुलरूपी कुमुदके घिमाने-वाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ १० ॥

चो०—वाजहिं वाजने विविध विधाना । पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥

भरत आगमनु सकल मनावहिं । आवहुँ बेगि नयन फलु पावहिं ॥

बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं । नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो सक्ता । सब लोग भरतजीका आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी भीष्ट्र आवें और [राज्याभिषेकका उत्सव देखकर] नेत्रोंका फल प्राप्त करें ॥ १ ॥

हाट वाट घर गलीं अथाई । कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥

कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि विधि अभिलापु हमारा ॥

वाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर (जहाँ-तहाँ) पुरुष और स्त्री आपसमें यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन (मुहूर्त) कितने समय है जब विधाता हमारी अभिनाया पूरी करेगा ॥२॥

कनक सिंघासन सीय समेता । वैठहिं रामु होइ चित चेटा ॥
सकल कहहिं कव होइहि काली । विघन मनावहिं देव कुचाली ॥

जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा (मनःकामना पूरी होगी) । इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कव होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं ॥ ३ ॥

तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥
सारद बोलि विनय सुर करहीं । बारहिं बार पाय लै परहीं ॥

उन्हें (देवताओंको) अवधके बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं भाती । सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं ॥ ४ ॥

दो०—विपति हमारि विलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु ।

रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥

[वे कहते हैं—] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर बनको चले जायँ और देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो ॥ ११ ॥

ची०—सुनिसुर विनय ठाढ़ि पछिताती । भइउँ सरोज विपिन हिमराती ॥

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [हाय !] मैं कमलवनके लिये हेमन्त ऋतुकी रात हुई । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे—हे माता ! इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ ॥

विसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥

जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥

श्रीरघुनाथजी विपाद और हर्षसे रहित हैं । आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं । जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है । अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २ ॥

वार वार गहि चरन सँकोची । चली विचारि बिबुध मति पोची ॥
ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहिँ पराइ बिभूती ॥

बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया । तब वह यह विचार कर चली कि देवताओंकी बुद्धि ओछी है । इनका निवास तो ऊँचा है, पर इनकी करनी नीची है । ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं देख सकते ॥ ३ ॥

आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहिँ चाह कुसल कवि मोरी ॥
हरापि हृदयँ दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥

परंतु आगेके कामका विचार करके (श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा, जिससे सारा जगत् सुखी हो जायगा) चतुर कवि [श्रीरामजीके वनवागके चरित्रोंका वर्णन करनेके लिये] मेरी चाह (कामना) करेंगे । ऐसा विचारकर सरस्वती हृदयमें हर्षित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यामें आयी, मानो दुःसह दुःख देनेवाली कोई ग्रहदशा आयी हो ॥ ४ ॥

दो०—नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइ केरि ।

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२ ॥

मन्थरा नामकी कँकेयीकी एक मन्दबुद्धि दासी थी, उसे अपव्ययकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धिको फेरकर चली गयीं ॥ १२ ॥

चो०—दीख मंथरा नगरु बनावा । मंजुल मंगल वाज बधावा ॥

पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू ॥

मन्थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है । सुन्दर मङ्गलमय वधाये बज रहे हैं । उसने लोगोंसे पूछा कि कंसा उत्सव है ? [उनसे] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा ॥ १ ॥

करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु क्यनि विधि राती ॥

देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि भाँती ॥

वह दुर्बुद्धि नीच जातिवाली दाम्नी विचार करने लगी कि किन प्रकारसे यह काम रात-ही-रातमें बिगड़ जाय, जैसे कोई कुटिल भोलनी शहदका छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरहसे उछाड़ लूं ॥ २ ॥

मातु पहिं गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥
 देइ न लेइ उसासू । नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥
 वह उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी । रानी कैकेयीने हँसकर
 तू उदास क्यों है ? मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी साँस ले रही है और
 चरित्र करके आँसू ढरका रही है ॥ ३ ॥
 स कह रानि गालु बड़ तोरें । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥
 वहुँ न बोल चेरि बड़ि पापनि । छाड़इ स्वास कारि जनु साँपनि ॥
 रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं (तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली
 है) । मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है (दण्ड दिया है) । तब भी
 वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती । ऐसी लंबी साँस छोड़ रही है, मानो काली
 नागिन [फुफकार छोड़ रही] हो ॥ ४ ॥
 दो०—सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु ।
 लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३ ॥
 तब रानीने ढरकर कहा—अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण
 भरत और शत्रुघ्न कुशलसे तो हैं ? यह सुनकर कुबरी मन्थराके हृदयमें बड़ी है
 पीड़ा हुई ॥ १३ ॥
 ची०—कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाई
 रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू । जेहि जनेसु देइ जुवराजू
 [वह कहने लगी—] हे माई ! हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका
 पाकर गाल कहेगी (बढ़-बढ़कर बोलूंगी) । रामचन्द्रको छोड़कर आज और किसकी
 है, जिन्हें राजा युवराजपद दे रहे हैं ॥ १ ॥
 भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहि
 देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छे
 आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने (अनुकूल) हुए हैं; यह
 उनके हृदयमें गर्व समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख ले
 देखकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ है ॥ २ ॥

पूतु विदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हहु वस नाहु हमारे ॥
 नौद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न मूप कपट चतुराई ॥

तुम्हारा पुत्र परदेगने है, तुम्हें कुछ सोच नहीं । जानती हो कि स्वामी हमारे वगने है । तुम्हें तो ठोकर-भरकर पड़े-पड़े नौद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी कान्ठमरी चतुराई तुम नहीं देखती ॥ ३ ॥

सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी । झुकी राति अब रहु अरगानी ॥
 पुनि अस कवहुँ कहति घरफोरी । तव धरि जीभ कड़ावउँ तोरी ॥

नन्दराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसकी मनकी मंती जानकर रानी झुककर (डाँटकर) बोली—बन्ध, अब चुप रह, घरसोड़ी कहींसी ! जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी ॥ ४ ॥

दो०—काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि ।

तिय त्रिसेपि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥ १४ ॥

रानी, लंगडों और बूबडोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये । उनमें भी स्त्री और खालकर दासी ! इतना बहकर भरतजीकी माता बँकेकी मुसकय दी ॥ १४ ॥

चौ०—प्रियवादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहुँतो पर कोपुनमोही ॥

सुदिनु सुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुरजेहिदिनहोई ॥

[और फिर बोली—] हे प्रिय वचन कहनेवाली नन्दरा ! मैंने तुम्हको यह सोच दी है (गिनाके लिपे इतनी बात कही है) । मुझे तुम्हपर स्वप्नमें भी क्रोध नहीं है । सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेंच कहना सत्य होगा (वर्षात् श्रीरामका राज्यवित्तक होगा) ॥ १ ॥

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति मुहाई ॥

राम तिलकु जौं सौंचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली ॥

बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है । यह सूर्यवंशी मुहम्मदी रीति ही है । यदि सबकुच मन ही श्रीरामका वित्तक है तो हे सूर्य ! तेरे मनकी अच्छी सगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी ॥ २ ॥

कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभायँ पिआरी ॥
सो पर करहिं सनेहु विसेषी । मैं करि प्रीति परीछा देखी ॥

रामको सहज स्वभावसे सब माताएँ कौसल्याके समान ही प्यारी हैं । मुझपर तो वे विशेष प्रेम करते हैं । मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ ३ ॥

जौं विधि जनमु देइ करि छोहू । होहुँ राम सिय पूत पुतोहू ॥
प्राण तैं अधिक राहु प्रिय मोरैं । तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरैं ॥

जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो [यह भी दें कि] श्रीरामचन्द्र पुत्र और सीता बहू हों । श्रीराम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । उनके तिलकसे (उनके तिलककी बात सुनकर) तुझे क्षोभ कैसा ? ॥ ४ ॥

दो०—भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ ।

हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५ ॥

तुझे भरतकी सौगंध है, छल-कपट छोड़कर सच-सच कह । तू हर्षके समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना ॥ १५ ॥

चौ०—एकहिं वार आस सब पूजी । अब कछु कहव जीभ करि दूजी ॥

फोरैं जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रउरोहि लागा ॥

[मन्थराने कहा—] सारी आशाएँ तो एक ही वार कहनेमें पूरी हो गयीं । अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी । मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है ॥ १ ॥

कहहिं झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुइ मैं माई ॥

हमहुँ कहवि अव ठकुरसोहाती । नाहिं त मौन रहव दिनु राती ॥

जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ । अब मैं भी ठकुरसोहाती (मुंहदेखी) कहा करूंगी । नहीं तो दिन-रात चुप रहूंगी ॥ २ ॥

करि कुरूप विधि परवस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥

कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अव होव कि रानी ॥

विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया । [दूसरेको क्या दोष] जो

युतु विदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हहु वस नाहु हमारे ॥

नीद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥

तुम्हारा पुत्र परदेशमें है, तुम्हें कुछ सोच नहीं । जानती हो कि स्वामी हमारे यहाँ हैं । तुम्हें तो तोशक-पलंगपर पड़े-पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी कपटमरी चतुराई तुम नहीं देखती ॥ ३ ॥

सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥

पुनि अस कत्रहुँ कहसि घरफोरी । तत्र धरि जीभ कढ़ावउँ तोरी ॥

मन्यराके प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मनकी मंली जानकर रानी झुककर (डांटकर) बोली—वस, अब चुप रह, घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी ॥ ४ ॥

दो०—काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि ।

तिय त्रिसेपि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥ १४ ॥

कानों, लंगड़ों और कुबड़ोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये । उनमें भी स्त्री और खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता कंकेयी मुसकरा दीं ॥ १४ ॥

चो०—प्रियवादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहुँतो पर कोपुनमोही ॥

सुदिनु सुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुरजेहि दिनहोई ॥

[और फिर बोलीं—] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्यरा ! मैंने तुमको यह सीखा ही है (शिवाके लिये इतनी बात कही है) । मुझे तुमपर स्वप्नमें भी क्रोध नहीं है । सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेरा रहस्य सत्य होगा (चम्पई श्रीरामका राज्यतिलक होगा) ॥ १ ॥

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर हल राने तुहाई ॥

राम तिलकु जौं साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन सबन काली ॥

बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है । यह दिनकर हल राने तुहाई ही है । यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक है तो हे राने ! दे दे सबन काली यही वस्तु माँग ले, मैं दूंगी ॥ २ ॥

भानु कमल कुल पोषनिहारा । विनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूँधहु करि उपाउ बर बारी ॥

सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है; पर विना जलके वही सूर्य उनको (कमलोंको) जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपायरूपी श्रेष्ठ वाड़ (घेरा) लगाकर उसे रूँध दो (सुरक्षित कर दो) ॥४॥

दो०—तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ ।

मन मलीन सुह मीठ न्यु राउर सरल सुभाउ ॥ १७ ॥

तुमको अपने सुहागके [झूठे] बलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने वशमें जानती हो। किंतु राजा मनके मँले और मुँहके मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है (आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं) ॥ १७ ॥

चौ०—चतुर गँभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सँवारी ॥

पठए भरतु भूप ननिअउरें । राम मातु मत जानव रउरें ॥

रामकी माता (कौसल्या) बड़ी चतुर और गम्भीर है (उसकी थाह कोई नहीं पाता)। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजाने जो भरतको ननिहाल भेज दिया, उसमें आप, बस, रामकी माताकी ही सलाह समझिये ! ॥ १ ॥

सेवाहिं सकल सवति मोहि नीकें । गरवित भरत मातु बल पी कें ॥

सालु तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥

[कौसल्या समझती है कि] और सब सौतों तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरतकी माँ पतिके बलपर गर्वित रहती है। इसीसे हे माई ! कौसल्याको तुम बहुत ही साल (खटक) रही हो। किंतु वह कपट करनेमें चतुर है, अतः उसके हृदयका भाव जाननेमें नहीं आता (वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है) ॥ २ ॥

राजहि तुम्ह पर प्रेमु विसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥

रचि प्रपंच भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥

राजाका तुमपर विशेष प्रेम है। कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती। इसीलिये उसने जाल रचकर, राजाको अपने वशमें करके, [भरतकी अनुपस्थितिमें] रामके राजतिलकके लिये लगन निश्चय करा लिया ! ॥ ३ ॥

बोया मो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ । कोई भी राजा हो, हमारो क्या हागि है ? दामो छोड़कर क्या अब में रानी होऊंगी ! (अर्थात् रानी तो होनेने रही) ॥ ३ ॥

जारे जोगु सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥
तातें कछुक वात अनुसारी । छमिअ देवि बड़ि चूक हमारी ॥

हमारा स्वभाव तो जताने ही योग्य है; क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता । इसीलिये कुछ वात चलायी थी । किन्तु हे देवि ! हमारी बड़ी भूल हुई, धमा करो ॥ ४ ॥

दो०—गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अधरवृधि रानि ।

सुरमाया वस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६ ॥

आधाररहित (अस्थिर) बुद्धिकी स्त्री और देवताओंकी मायाके वशमें होनेके कारण रहस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचनोंको सुनकर रानी कैकेयीने बैरिन मन्वराको अपनी सुहृद् (अर्हंतुक हित करनेवाली) जानकर उमका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥

चौ०—सादर पुनि पुनि पँछति ओही । सवरी गान मृगी जनु मोही ॥

तसिमतिफिरीअहइजसिभावी । रहसी चेरि घात जनु फावी ॥

बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीतनीके गानसे हिरनी मोहित हो गयी हो । जैसी भावी (होनहार) हैं, वैसी ही बुद्धि भी फिर गयी । दासो अपना दाँव लगा जानकर हर्षित हुई ॥ १ ॥

तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ । धरेहु मोर घरफोरी नाऊँ ॥

सजि प्रतीति बहुविधि गढ़ि छोली । अवध सादसाती तव बोली ॥

तुम पूँछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ; क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर-फोड़ी रख दिया है । बहुत तरहसे गढ़-छोल्कर, युध विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्याकी सादसाती (शनिनी साढ़े सात वर्षकी दशारूपी मन्वरा) बोली—॥ २ ॥

प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी ॥

रहा प्रथम अब ते दिन बीते । समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते ॥

हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय है और रामको तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है । परंतु यह बात पहले थी, ये दिन अब बीत गये, समय फिर जाने रिपु भी तब से जाते हैं ॥ ३ ॥

कवी हो गयीं ! (जैसे दूधमें पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही हमें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे) जो पुत्रसहित [कौसल्याकी] चाकरी जाओगी, तो घरमें रह सकोगी; [अन्यथा घरमें रहनेका] दूसरा उपाय नहीं ॥ ४ ॥

दो०—कद्रूं विनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिलाँ देव ।

भरतु वंदिगृह सेइहहिं लखनु राम के नेव ॥ १६ ॥

कद्रूने विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देगी । भरत कारागारका सेवन करेंगे (जेलकी हवा खायेंगे) और लक्ष्मण रामके नायब (सहकारी) होंगे ! ॥१६॥

ती०—कैकयसुता सुनत कटु बानी । कहि नसकइ कछुसहमिसुखानी ॥

तनपसेउकदलीजिमिकाँपी । कुबरीं दसन जीभ तव चाँपी ॥

कैकेयी मन्थराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती । गरीरमें पसीना हो आया और वह केलेकी तरह काँपने लगी । तब कुबरी (मन्थरा) ने अपनी जीभ दाँतों-तले दवायी (उसे भय हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर कैकेयीके हृदयकी गति न रुक जाय, जिससे उलटा सारा काम ही बिगड़ जाय) ॥ १ ॥

कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥

फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहइ मानि मराली ॥

फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि धीरज रक्खो । कैकेयीका भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी । वह बगुलीको हंसिनी मानकर (वैरिनको हित मानकर) उसकी सराहना करने लगी ॥ २ ॥

सुनु मंथरा वात फुरि तोरी । दाहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥

दिन प्रति देखउँ राति कुसपने । कहउँ न तोहि मोह वस अपने ॥

कैकेयीने कहा—मन्थरा ! सुन, तेरी बात सत्य है । मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है । मैं प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हूँ; किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं ।

काह करौं सखि सूध सुभाऊ । दाहिन वाम न जानउँ काऊ ॥

सखी ! क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है । मैं दायीं-बायाँ कुछ भी नहीं जानती ॥४॥

यह कुल उचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥
आगिलि वात समुझि डरु मोही । देउ दैउ फिरि सो फलु ओही ॥

रामको तिलक हो, यह कुल (रघुकुल) के उचित ही है और यह बात सभीको सुहाती है; और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगेकी बात विचारकर डर लगता है; देव उलटकर इसका फल उसी (कोसल्या) को दे ॥ ४ ॥

दो०—रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हिसि कपट प्रबोधु ।

कहिसि कथा सत सवति कै जेहि विधि वाढ़ विरोधु ॥ १८ ॥

इस तरह करोड़ों कुटिलपनकी बातें गढ़-छोलकर मन्यराने कंकेशीको उलटा-सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतोंकी कहानियाँ इस प्रकार [बना-बनाकर] कहीं जिन प्रकार विरोध बढ़े ॥ १८ ॥

चौ०—भावी वस प्रतीति उर आई । पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥

का पूँछहु तुम्ह अवहूँ न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥

होनहारवश कंकेशीके मनमें विश्वास हो गया। रानी फिर सौगन्ध दिनाकर पूछने लगी। [मन्यरा बोली—] क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले-बुरेको (अथवा मित्र-शत्रुको) तो पशु भी पहचान लेते हैं ॥ १ ॥

भयउ पाखु दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥

खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहे नहि दोषु हमारे ॥

पूरा पद्यवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने प्यवर पायी है आज मुझसे ! मैं तुम्हारे राजमें घाती-पहनती हूँ, इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है ॥ २ ॥

जौँ असत्य कछु कहव बनाई । तौ विधि देइहि हमहि सजाई ॥

रामहि तिलक कालि जौँ भयउ । तुम्ह कहूँ विपति वीजु विधि वयउ ॥

यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा। यदि कल रामको राजतिलक हो गया तो [समझ रखना कि] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बीज बीज दिया ॥ ३ ॥

रेख खँचाइ कहउँ वलु भापी । भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥

जौँ सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥

मैं यह बात लकीर घोंचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी ! तुम तो अब दूधपनी

[कैकेयीने कहा—] मैं तेरे कहनेसे कुँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हितके लिये उसे क्यों न करूँगी ? ॥ २१ ॥

ची०—कुवरीं करि कबुली कैकेई । कपट छुरी उर पाहन टेई ॥
लखइ न रानि निकटदुखु कैसैं । चरइ हरिततिन बलिपसु जैसैं ॥

कुवरीने कैकेयीको [सब तरहसे] कबूल करवाकर (अर्थात् बलिपशु बनाकर) कपट-रूप छुरीको अपने [कठोर] हृदयरूपी पत्थरपर टेया (उसकी धारको तेज किया)। रानी कैकेयी अपने निकटके (शीघ्र आनेवाले) दुःखको कैसे नहीं देखती, जैसे बलिका पशु हरी-हरी घास चरता है। [पर यह नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही है] ॥१॥

सुनत बात मृदु अंत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वामिनिकहिहु कथा मोहि पाहीं ॥

मन्यराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर (भयानक) हैं। मानो वह शहदमें घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है—हे स्वामिनि ! तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं ? ॥ २ ॥

दुइ वरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥
सुताहि राजु रामहि बनवासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू ॥

तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे माँगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्रको राज्य और रामको बनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥३॥

भूपति राम सपथ जब करई । तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई ॥
होइ अकाजु आजु निसि वीतें । बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥

जब राजा रामकी सौगन्ध खा लें, तब वर माँगना, जिससे बचन न टलने पावे। आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा। मेरी बातको हृदयसे प्रिय [या प्राणोंसे भी प्यारी] समझना ॥ ४ ॥

दो०—बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहँ जाहु ।

काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥

दो०—अपनें चलत न आजु लागि अनभल काहुक कीन्ह ।

केहिं अघ एकहि द्वार मोहि दैअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥ २० ॥

अपनी चलते (जहाँतक मेरा वश चला) मैंने आजतक कभी किसीका बुरा नहीं किया । फिर न जाने किस पापसे देवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया ॥ २० ॥

चौ०—नैहर जनमु भरव वरु जाई । जिअतनकरविसवतिसेवकाई ॥

अरि वस दैउ जिआवतजाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥

मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी । पर जीते-जी सोतकी चाकरी नहीं करूँगी । देव जिसको शत्रुके वशमें रखकर जिलाता है, उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है ॥ १ ॥

दीन वचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुवरीं तियमाया ठानी ॥

अस कस कहहु मानि मन उना । सुखु सोहागुतुम्ह कहँ दिन दूना ॥

रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे । उन्हें सुनकर कुवरीने त्रियाचरित्र फँलाया । [वह बोली—] तुम मनमें ग्लानि मानकर ऐसा क्या कह रही हो, तुम्हारा सुख-सुहाग दिन-दिन दूना होगा ॥ २ ॥

जेहिं राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका ॥

जब तें कुमत सुना मैं स्वामिनि । भूख न वासर नीद न जामिनि ॥

जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाममें यह (बुराईरूप) फल पायेगी । हे स्वामिनि ! मैंने जबसे यह कुमत सुना है, तबसे मुझे न तो दिनमें कुछ भूख लगती है और न रातमें नींद ही आती है ॥ ३ ॥

पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहिं यह साँची ॥

भामिनि करहु त कहीं उपाऊ । है तुम्हरीं सेवा वस राऊ ॥

मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेखा घोंचकर (गणित करके अथवा निम्नय-पूर्वक) कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है । हे भामिनि ! तुम करो, तो उपाय मैं बताऊँ । राजा तुम्हारी सेवाके वशमें है ही ॥ ४ ॥

दो०—परउँ कूप तुअ वचन पर सकउँ पूत पति त्यागि ।

कहसि मोर दुखु देखि वड़ कस न करव हित लागि ॥ २१ ॥

चौ०—बाल सखा सुनि हियँ हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पहिँ जाहीं ॥

प्रभु आदरहिँ प्रेसु पहिचानी । पूछहिँ कुसल खेम मृदु बानी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके बालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं। वे दस-पाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूछते हैं ॥ १ ॥

फिरहिँ भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥

को रघुबीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निवाहनिहारा ॥

अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्रजीकी वड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं—संसारमें श्रीरघुनाथजीके समान शील और स्नेहको निवाहनेवाला कौन है! ॥ २ ॥

जेहिँ जेहिँ जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥

सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निवाहू ॥

भगवान् हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्में, वहाँ-वहाँ (उस-उस योनिमें) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों; और यह नाता अन्ततक निभ जाय ॥ ३ ॥

अस अभिलाषु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदयँ अति दाहू ॥

को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥

नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलाषा है। परंतु कैकेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता? नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥

दो०—साँझ समय सानंद नृपु गयउ कैकई गेहँ ।

गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २४ ॥

संध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेयीके महलमें गये। मानो साक्षात् स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरताके पास गया हो! ॥ २४ ॥

चौ०—कोपभवन सुनि सकुचेउ राज । भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥

सुरपति बसइ बाहँबल जाकेँ । नरपति सकल रहहिँ रुख ताकेँ ॥

पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा—कोपभवनमें जाओ। सब काम बड़ी सावधानीसे बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना (उनकी बातोंमें न आ जाना) ! ॥

चौ०—कुवरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । वार वार बड़ि बुद्धि बखानी ॥

तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कइ भइसि अधारा ॥

कुवरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका बखान किया और बोली—संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है ॥ १ ॥

जौं विधि पुरव मनोरथु काली । करौं तोहि चख पूतरि आली ॥

बहुविधि चेरिहि आदरु देई । कोपभवन गवनी कैकेई ॥

यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सप्यो ! मैं तुझे आँखोंकी पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैकेयी कोपभवनमें चली गयीं ॥ २ ॥

विपति बीजु वरषा रितु चेरी । भुइँ भइ कुमति कैकेई केरी ॥

पाइ कपट जलु अंकुर जामा । वरदोउ दल दुख फल परिनामा ॥

विपत्ति (कलह) बीज है, दासी वर्षा-श्रुतु है, कैकेयीकी कुबुद्धि [उस बीजके बोनेके लिये] जमीन हो गयी। उसमें कपटरूपी जल पाकर अद्भुत फूट निकला। दोनों वरदान उस अद्भुतके दो पत्ते हैं और अन्तमें इसके दुःपरूपी फल होगा ॥ ३ ॥

कोप समाजु साजि सबु सोई । राजु करत निज कुमति विगोई ॥

राउर नगर कोलाहलु होई । यह कुचालि कछु जान न कोई ॥

कैकेयी कोपका सब साज सजकर [कोपभवनमें] जा सोयी। राज्य भरती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धिसे नष्ट हो गयी। राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रही है। इस कुचालको कोई कुछ नहीं जानता ॥ ४ ॥

दो०—प्रसुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार ।

एक प्रविसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरवार ॥ २३ ॥

वड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्त्री-पुरुष शुभ मङ्गलाचारके साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है ॥ २३ ॥

ची०—बाल सखा सुनि हियँ हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं ॥

प्रभु आदरहिं प्रेसु पहिचानी । पूछहिं कुसल खेम मृदु बानी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके बालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं । वे दस-पाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं । प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूछते हैं ॥ १ ॥

फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥

को रघुवीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निवाहनिहारा ॥

अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं—संसारमें श्रीरघुनाथजीके समान शील और स्नेहको निवाहनेवाला कौन है ! ॥ २ ॥

जेहिं जेहिं जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥

सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निवाहू ॥

भगवान् हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्में, वहाँ-वहाँ (उस-उस योनिमें) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों; और यह नाता अन्ततक निभ जाय ॥ ३ ॥

अस अभिलाषु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदयँ अति दाहू ॥

को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मतें चतुराई ॥

नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलाषा है । परंतु कैकेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही है । कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता ? नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥

दो०—साँझ समय सानंद नृपु गयउ कैकई गेहँ ।

गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २४ ॥

संध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेयीके महलमें गये । मानो साक्षात् स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरताके पास गया हो ! ॥ २४ ॥

ची०—कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ । भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥

सुरपति बसइ बाहँवल जाकेँ । नरपति सकल रहहिं रुख ताकेँ ॥

कोपमवनका नाम सुनकर राजा सहम गये। डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके बलपर [राक्षसोंसे निर्भय होकर] बसता है और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं ॥ १ ॥

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बढ़ाई ॥
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥

वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सच गये। कामदेवका प्रताप और महिमा तो देखिये। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदिकी चोट अपने अङ्गोंपर सहनेवाले हैं वे रतिनाथ कामदेवके पुष्पवाणसे मारे गये ! ॥ २ ॥

सभय नरेसु प्रिया पहिं गयउ । देखि दसा दुखु दारुन भयउ ॥
भूमि सयन पट्ट मोट पुराना । दिए डारि तन भूपन नाना ॥

राजा डरत-डरते अपनी प्यारी कंकेशीके पास गये। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। कंकेशी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीरके नाना आमूषणोंको उतारकर फेंक दिया है ॥ ३ ॥

कुमतिहि कसि कुवेपता फावी । अनअहिवातु सूच जनु भावी ॥
जाइ निक्कट नृपु कह मृदु वानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥

उस दुर्बुद्धि कंकेशीको यह कुवेपता (घुरा घेप) कंसी फव रही है, मानो भावी विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले—हे प्राणप्रिये ! किसलिये रिसाई (रुठी) हो ? ॥ ४ ॥

छं०—केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई ।
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि विपम भाँति निहारई ॥
दोउ वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई ।
तुलसी नृपति भवतव्यता वस काम कौतुक लेखई ॥

'हे रानी ! किसलिये रुठी हो ?' यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पृशं करते हैं तो यह उनके हाथको [झटककर] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टिसे देख रही हो। दोनों [वरदानोंकी] यासनाएँ उम नागिनकी दो जीभों हैं और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान देय रही हैं। तुलसी कहते

हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे (इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनकी भाँति देखनेको) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं ।

सो०—वार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि ।

कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५ ॥

राजा वार-वार कह रहे हैं—हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलवयनी ! हे गजगामिनी ! मुझे अपने क्रोधका कारण तो सुना ॥ २५ ॥

चो०—अनहिततोर प्रिया केइँ कीन्हा । केहि दुइ सिरकेहि जमु चह लीन्हा ॥

कहु केहि रंकहि करौं नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासौं देसू ॥

हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? किसके दो सिर हैं ? यमराज किसको लेना (अपने लोकको ले जाना) चाहते हैं ? कह, किस कंगालको राजा कर दूँ या किस राजाको देशसे निकाल दूँ ? ॥ १ ॥

सकउँ तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥

जानसि मोर सुभाउ बरोरू । मनु तव आनन चंद चकोरू ॥

तेरा शत्रु अमर (देवता) भी हो तो मैं उसे भी मार सकती हूँ । बेचारे कीड़े-मकोड़े-सरीखे नर-नारी तो चीज ही क्या हैं । हे सुन्दरि ! तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है ॥ २ ॥

प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा सकल बस तोरें ॥

जौं कछु कहाँ कपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥

हे प्रिये ! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वस्व (सम्पत्ति), पुत्र, यहाँतक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वशमें (अधीन) हैं । यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊँ तो हे भामिनी ! मुझे सौ वार रामकी सौगंध है ॥ ३ ॥

विहसि मागु मनभावति वाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥

घरी कुघरी समुझि जियँ देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू ॥

तू हँसकर (प्रसन्नतापूर्वक) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर अंगोंको आभूषणोंसे सजा । मौका-बेमौका तो मनमें विचारकर देख । हे प्रिये ! जल्दी इस बुरे बेषको त्याग दे ॥ ४ ॥

कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये। डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके बलपर [राधासाँसे निभंय होकर] बसता है और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रूच देखते रहते हैं ॥ १ ॥

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥

वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूय गये। कामदेवका प्रताप और महिमा तो देखिये। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदिकी चोट अपने अङ्गोंपर सहनेवाले हैं वे रतिनाथ कामदेवके पुष्पवाणसे मारे गये ! ॥ २ ॥

सभय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥
भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिए डारि तन भूपन नाना ॥

राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कँकेयीके पास गये। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। कँकेयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीरके नाना आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया है ॥ ३ ॥

कुमतिहि कसि कुवेपता फावी । अनअहिवातु सूच जनु भावी ॥
जाइ निकट नृपु कह मृदु वानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥

उस दुर्बुद्धि कँकेयीको यह कुवेपता (बुरा वेप) कँसी फव रही है, मानो भावी विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले—हे प्राणप्रिये ! किसलिये रिसाई (हठी) हो ? ॥ ४ ॥

छं०—केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई ।

मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥

दोउ वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई ।

तुलसी नृपति भवतव्यता वस काम कौतुक लेखई ॥

'हे रानी ! किसलिये हठी हो ?' यह कहकर राजा उसे हायसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके हायको [झटककर] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई नागिन श्रूर दृष्टिसे देख रही हो। दोनों [वरदानोंकी] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीभें हैं और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदासजी कहते

हे प्रियतम ! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं । आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें संदेह है ॥ २७ ॥

चाँ०—जानेउँ भरमु राउ हँसि कहई । तुम्हहि कोहाव परम प्रियअहई ॥

थाती राखि न स्यागिहु काऊ । विसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥

राजाने हँसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म (मतलब) समझा । मान करना तुम्हें परम प्रिय है । तुमने उन वरोंको याती (धरोहर) रखकर फिर कभी माँग ही नहीं और मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुझे भी वह प्रसङ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥

झूठेहूँ हमहि दोषु जनि देहू । दुइ कै चारि मागि मकु लेहू ॥

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाहूँ वरु वचनु न जाई ॥

मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो । चाहे दोके बदले चार माँग लो । रघुकुलमें सदासे यह रीति चली आयी है कि प्राण भले ही चले जायँ, पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥

नहिँ असत्य सम पातक पुंजा । गिरिसम होहिँ कि कोटिक गुंजा ॥

सत्यमूल सब सुकृत सुहाए । वेद पुरान विदित मनु गाए ॥

असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं है । क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़के समान हो सकती हैं ? 'सत्य' ही समस्त उत्तम सुकृतों (पुण्यों) की जड़ है । यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥

तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥

वात ददाइ कुमति हँसि बोली । कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ॥

उसपर मेरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी (मुंहसे निकल पड़ी) । श्रीरघुनायजी मेरे सुकृत (पुण्य) और स्नेह की सीमा हैं । इस प्रकार वात पक्की कराके दुर्वृद्धि कैकेयी हँसकर बोली । मानो उसने कुमत (बुरे विचार) रूपी द्रुष्ट पक्षी (वाज) [को छोड़नेके लिये उस] की कुलही (आँखोंपरको टोपी) खोल दी ॥ ४ ॥

दो०—भूप मनोरथ सुभग वनु सुख सुविहंग समाजु ।

भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति वचनु भयंकरु वाजु ॥ २८ ॥

राजाका मनोरथसुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है । उसपर भोलनीकी तरह कैकेयी अपना वचनरूपी भयंकर वाज छोड़ना चाहती है ॥ २८ ॥

मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम

दो०—यह सुनि मन गुनि सपथ वड़ि विहसि उठी मतिमंद ।

भूपन सजति बिलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २६ ॥

यह सुनकर ओर मनमें रामजीकी वड़ी सौगंधको विचारकर मन्दबुद्धि कैकेयी हँसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तैयार कर रही हो ॥ २६ ॥

बो०—पुनि कह राउ सुहृद जियँजानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल वानी ॥

भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद वधावा ॥

अपने जीमें कैकेयीको सुहृद जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमल और सुन्दर वाणीसे फिर बोले—हे भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया । नगरमें घर-घर आनन्दके वधावे बज रहे हैं ॥ १ ॥

रामहि देउँ कालि जुवराजू । सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥

दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू ॥

मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ । इसलिये हे सुनयनी ! तू मङ्गलसाज सज । यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा (फटने लगा) । मानो पका हुआ बालतोड़ (फोड़ा) छू गया हो ॥ २ ॥

ऐसिउ पीर विहसि तेहिं गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥

लखाहिं न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥

ऐसी भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती (जिसमें उसका भेद न खुल जाय) । राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं लय रहे हैं; क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी शिरोमणि गुरु मन्यराकी पढ़ायी हुई है ॥ ३ ॥

जद्यपि नीति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि अवगाहू ॥

कपट सनेहु वढ़ाइ बहोरी । बोली विहसि नयन मुहु मोरी ॥

यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं, परंतु त्रियाचरित्र अयाह समूद्र है । फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर (ऊपरसे प्रेम दियाकर) नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुई बोली—॥४॥

दो०—मागु मागु पै कहहु पिय कत्रहुँ न देहु न लेहु ।

देन कहेहु वरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥ २७ ॥

किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगकी सिद्धिरूपी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २६ ॥

श्री०—एहि विधिराउमनहिंमन झारखा । देखि कुभाँति कुमति मन माखा ॥

भरतु कि राउर पूत न होंही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥

इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं । राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुई । [और बोली—] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाये हैं ? (क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ ?) ॥ १ ॥

जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँभारे ॥

देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥

जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात क्यों नहीं कहते ? उत्तर दीजिये—हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये । आप रघुवंशमें सत्य प्रतिज्ञावाले [प्रसिद्ध] हैं ॥ २ ॥

देन कहेहु अब जनि बरु देहु । तजहु सत्य जग अपजसु लेहु ॥

सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि मागि चवेना ॥

आपने ही वर देनेको कहा था, अब भले ही न दीजिये । सत्यको छोड़ दीजिये और जगत्में अपयश लीजिये । सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था । समझा था कि यह चवेना ही माँग लेगी ! ॥ ३ ॥

सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥

अति कटु बचन कहति कैकेई । मानहुँ लोन जरे पर देई ॥

राजा शिवि, दधीचि और बलिन जो कुछ कहा, शरीर और धन त्यागकर भी उन्होंने अपने वचनकी प्रतिज्ञाको निवाहा । कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४ ॥

श्री०—धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रायँ ।

सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३० ॥

धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर

बो०—सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक वर भरतहि टीका ॥

मागउँ दूसर वर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥

[वह बोली—] हे प्राणप्यारे ! सुनिये । मेरे मनको मानेवाला एक वर तो दीजिये भरतको राजतिलक; और हे नाथ ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिये—॥ १ ॥

तापस वेप विसेपि उदासी । चौदह वरिस रामु बनवासी ॥

सुनि मृदु वचन भूप हियँ सोकू । ससिकर छुअतविकलजिमिकोकू ॥

तपस्वियोंके वेपमें विशेष उदासीन भावसे (राज्य और कुटुम्ब आदिकी ओरसे भलीभाँति उदासीन होकर विरक्त मुनियोंकी भाँति) राम चौदह वर्षतक वनमें निवास करें । कैंकेयीके कोमल (विनययुक्त) वचन सुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चकवा विकल हो जाता है ॥ २ ॥

गयउसहमि नहिँ कछु कहि आवा । जनु सचान वन झपटेउ लावा ॥

विवरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू ॥

राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना, मानो वाज वनमें बटेरपर झपटा हो । राजाका रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़के पेड़को बिजलीने मारा हो (जैसे ताड़के पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है; वही हाल राजाका हुआ) । ३ ।

माथें हाथ मूढि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥

मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरतकरिनिजिमि हतेउ समूला ॥

माथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात् सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो । [ये सोचते हैं—हाथ !] मेरा मनोरथ-रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था परंतु फलते समय कैंकेयीने हयनीकी तरह उसे जड़समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥

अवध उजारि कीन्हि कैकेई । दीन्हिसि अचल विपति कैनेई ॥

कैंकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़) नींव डाल दी ।

बो०—कवने अवसर का भयउ गयउँ नारि विस्वास ।

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २६ ॥

चौ०—राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ । राममातु कछु कहेउ न काऊ ।

मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पँछें । तेहि तें परेउ मनोरथु छूछें ।

रामकी सौ बार सौगन्ध खाकर मैं स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी मात (कौसल्या) ने [इस विषयमें] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । अवश्य ही मैंने तुम्हें बिना पूछे यह सब किया । इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया ॥ १ ॥

रिस परिहरु अब मंगल साजू । कछु दिन गएँ भरत जुबराजू ।

एकहि बात मोहि दुखु लागा । बर दूसर असमंजस मागा ।

अब क्रोध छोड़ दे और मङ्गल-साज सज । कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायेंगे । एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका माँगा ॥ २ ॥

अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा ।

कहु तजि रोषु राम अपराधू । सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू ।

उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा है । यह दिल्लीमें, क्रोधमें अथवा सचमुच ही (वास्तवमें) सच्चा है ? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता । सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं ॥ ३ ॥

तुहँ सराहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ संदेहू ।

जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ।

तू स्वयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी । अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है [कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे] । जिसका स्वभाव शत्रुको भी अनुकूल है, वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा ? ॥ ४ ॥

दो०—प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि विवेकु ।

जेहिं देखौँ अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ३२ ॥

हे प्रिये ! हँसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक (उचित-अनुचित) विचारकर वर माँग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सकूँ ॥ ३२ ॥

चौ०—जिए मीन वरु वारि विहीना । मनि बिनु फनिकु जिए दुखदीना ।

कहउँ सुभाउन छलु मनमाहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ।

मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुखी

धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इमने मुझे बड़े कुठोर मारा (ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया) ॥ ३० ॥

चौ०—आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहुँ रोष तरवारि उधारी ॥

मूठि कुबुद्धि धार निठुराई । धरी कूवरी सान बनाई ॥

प्रचण्ड क्रोधसे जलती हुई कंकयी सामने इस प्रकार दिग्यायी पड़ी मानो क्रोध-रूपी तलवार नंगी (ध्यानसे बाहर) खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवारकी मूठ हैं निष्ठुरता धार हैं और वह कुबरी (मन्वरा) रूपी सानपर धरकर तेज की हुई है ॥ १ ॥

लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥

बोले राउ कठिन करि छाती । वानी सविनय तासु सोहाती ॥

राजाने देखा कि यह (तलवार) बड़ी ही भयानक और कठोर है [और सोचा—] क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही नम्रताके साथ उसे (कंकयीकी) प्रिय लगनेवाली वाणी बोले— ॥ २ ॥

प्रिया वचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥

मोरें भरतु रामु दुइ आँखी । सत्य कहउँ करि संकरु साखी ॥

हे प्रिये ! हे भीरु ! विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे कह रही हो । मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँधे (अर्थात् एक-सं) हैं । यह मैं शंकरजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३ ॥

अवसि दूतु मैं पठइव प्राता । ऐहहिं वेगि सुनत दोउ भ्राता ॥

सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहूँ राजु वजाई ॥

मैं अवश्य सबेरे ही दूत भेजूंगा । दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) सुनते ही तुरंत आ जायेंगे । अच्छा दिन (शुभ मुहूर्त) शोधवाकर, सब तैयारी करके यंत्रा बजाकर मैं भरतको राज्य दे दूंगा ।

दो०—लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति ।

मैं बड़ छोट बिचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३१ ॥

रामको राज्यका लोभ नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है । मैं ही अपने मनमें बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिक पालन कर रहा था (बड़ेको राजतिलक देने का प्रस्ताव था) ।

प्रेम वर कूल कठिन हठ धारा । भँवर कूवरी वचन प्रचारा ॥

ग्राहत भूपरूप तरु मूला । चली विपति बारिधि अनुकूला ॥

दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं, कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी [तीव्र] धारा है और कुवरी (मन्वरा) के वचनोंकी प्रेरणा ही भँवर है। [वह क्रोधरूपी नदी] राजा शरयरूपी वृक्षको जड़-मूलसे ढहाती हुई विपतिरूपी समुद्रकी ओर [सीधी] चली है ॥२॥

तखी नरेस वात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥

गहि पद विनय कीन्ह बैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥

राजाने समझ लिया कि बात सचमुच (वास्तवमें) सच्ची है, स्त्रीके बहाने [तेरी] मृत्यु ही सिरपर नाच रही है। [तदनन्तर राजाने कैकेयीके] चरण प्रकड़कर उसे बैठकर विनती की कि तू सूर्यकुल [रूपी वृक्ष] के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ३ ॥

मागु माथ अबहीं देउँ तोही । राम बिरहँ जनि मारसि मोही ॥

राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती । नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती ॥

तू मेरा मस्तक माँग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ। पर रामके विरह में मुझे मत मार। जैस किसी प्रकारसे हो, तू रामको रख ले। नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥४॥

दो०—देखी ब्याधि असाध नृपु परेउ धरनि धुनि माथ ।

कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ ॥

राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे 'हा राम ! हा राम ! हा रघुनाथ !' कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४ ॥

चौ०—व्याकुल राउ सिथिल सबगाता । करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता ॥

कंठु सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥

राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मानो हथिनीने कल्प-वृक्षको उखाड़ फेंका हो। कण्ठ सूख गया, मुखसे वात नहीं निकलती। मानो पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥ १ ॥

पुनि कह कटु कठोर कैकेई । मनहुँ घाय महुँ माहुर देई ॥

जों अंतहुँ अस करतवु रहेऊ । मागु मागु तुम्ह केहिं बल कहेऊ ॥

होकर जीता रहे। परंतु मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमें [जरा भी] छल रखकर मारी,
कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है ॥ १ ॥

समुझि देखु जियँ प्रिया प्रवीणा । जीवनु राम दरस आधीना ॥
सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई । मनहुँ अनल आहुति घृत पार ॥

हे चतुर प्रिये ! जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके आधीना है।
कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि फँकेयी अत्यन्त जल रही है, मानो अग्निमें पड़ी
पड़ रही है ॥ २ ॥

तोर कलंकु मोर पछिताऊ । मुएहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥
अव तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठु मुहु गोई ॥

केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जायगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ (अर्थात् मेरे सामनेसे हट जा, मुझे मुंह न दिखा) ॥ ३ ॥

जब लागि जिऔं कहउँ कर जोरी । तब लागि जनि कछु कहसि बहोरी ॥
फिरि पछितैहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी ॥

मैं हाय जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ तबतक फिर कुछ न कहना (अर्थात् मुझसे न बोलना) । अरी अभागिनी ! फिर तू अन्तमें पछतायेगी, जो तू नहारू (ताँत) के लिये गायको मार रही है ॥ ४ ॥

दो०—परेउ राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु ।

कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु ॥ ३६ ॥

राजा करोड़ों प्रकारसे (बहुत तरहसे) समझाकर [और यह कहकर] कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वीपर गिर पड़े। पर कपट करनेमें चतुर कँकेयी कुछ बोलती नहीं। मानो [मौन होकर] मसान जगा रही हो (श्मशानमें बैठकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो) ।

चौ०—राम राम रट विकल भुआलू । जनु विनु पंख विहंग बेहालू ॥

हृदयँ मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाइ कहै जनि कोई ॥

राजा 'राम-राम' रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंखके बिना बेहाल हो। वे अपने हृदयमें मनाते हैं कि सबेरा न हो और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे।

उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर । अवध विलोकि सूल होइहि उर ॥

भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥

हे रघुकुलके गुरु (बड़ेरे, मूल पुरुष) सूर्यमगवान् ! आप अपना उदय न करें। अवोध्याको [बेहाल] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी। राजाकी प्रीति और कँकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्माने सीमातक रचकर बनाया है। (अर्थात् राजा प्रेमकी सीमा हैं और कँकेयी निष्ठुरताकी) ॥ २ ॥

कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर रही हो । [बहती है—] जो अन्तमें ऐसा ही करना था तो आपने 'माँग, माँग' किस बलपर कहा था ? ॥२॥

दुइ कि होइ एक समय भुआला । हँसव ठठाइ फुलाउव गाला ॥

दानि कहाउव अरु कृपनाई । होइ कि खेम कुसल रौताई ॥

हे राजा ! ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं ? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना ? क्या रजपूतीमें क्षेम-कृपण भी रह सकती है ? (लड़ाईमें बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे) ॥ ३ ॥

छाड़हु वचनु कि धीरजु धरहू । जनि अवला जिमि करुना करहू ॥

तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहूँ वृन सम वरनी ॥

या तो वचन (प्रतिज्ञा) ही छोड़ दीजिये या धर्म धारण कीजिये । यों असहाय स्त्रीकी भाँति रोइये-पीटिये नहीं । सत्यव्रतीके लिये तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनकेके बराबर कहे गये हैं ॥ ४ ॥

दो०—मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर ।

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५ ॥

कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है । मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है ।

चो०—चहत न भरत भूपतहि भोरें । विधिवस कुमतिवसी जिय तोरें ॥

सो सबु मोर पाप परिनामू । भयउ कुठाहर जेहि विधि वामू ॥

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते । होनहारवश तेरे ही जोमें कुमति आ बसी । यह सब मेरे पापोंका परिणाम है, जिससे कुसमयमें (बेमौके) विघाता विपरीत हो गया ॥१॥

सुवस वसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥

करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥

[तेरी उजाड़ी हुई] यह सुन्दर अयोध्या फिर भनीभाँति बसेगी और समस्त गुणोंके धाम श्रीरामकी प्रभुता भी होगी । सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों सौभाग्यों श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥

जय-जीव' कहकर, सिर नवाकर (वन्दना करके) बैठे और राजाकी दशा देखकर तो वे सूख ही गये ॥ ३ ॥

सोच विकल विवरन महि परेऊ । मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥
मचिउ समीत सकइ नहिं पूँछी । बोली असुभ भरी सुभ छूछी ॥

[देखा कि—] राजा सोचसे व्याकुल हैं; चेहरेका रंग उड़ गया है, जमीनपर ऐसे पड़े, मानो कमल जड़ छोड़कर (जड़से उखड़कर) [मुझिया] पड़ा हो। मन्त्री मारे डरके कुछ छ नहीं सकते; तब अशुभसे भरी हुई और शुभसे विहीन कँकेयी बोली—॥ ४ ॥

दो०—परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु ।

रामु रामु रटि भोरु किय कहइ न मरसु महीसु ॥ ३८ ॥

राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने 'राम-राम' रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥

दो०—आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तव पूँछेहु आई ॥

चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥

तुम जल्दी रामको बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १ ॥

सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥

उर धरि धीरजु गयउ दुआरें । पूँछहिं सकल देखि मनु मारें ॥

सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता (आगे बढ़ा नहीं जाता) [सोचते हैं—] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे? किसी तरह हृदयमें धीरज धरकर वे द्वारपर गये। सब लोग उनको मनमारे (उदास) देखकर पूछने लगे ॥ २ ॥

समाधानु करि सो सबही का । गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥

राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥

सब लोगोंका समाधान करके (किसी तरह समझा-बुझाकर) सुमन्त्र वहाँ गये जहाँ सूर्यकुलके तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा, तो पिताके समान समझकर उनका आदर किया ॥ ३ ॥

विलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा ॥

पढ़हिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक ॥

विनाप करते-करते ही राजाको सबेरा हो गया । राजद्वारपर बीना, घोंसुते और शहूकी ध्वनि होने लगी । भाट लोग विछदावली पढ़ रहे हैं और गवये गुणोका गान कर रहे हैं । मुननेपर राजाको वे श्राण-जमे लगते हैं ॥ ३ ॥

मंगल सकल सोहाहिं न कैसें । सहगामिनिहि विभूषन जैसें ॥

तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥

राजाको ये सब मङ्गल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली स्त्रीको आभूषण ! श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनको सालसा और बत्साहके कारण उस रात्रिमें किसीको भी नीद नहीं आयी ॥ ४ ॥

दो०—द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रवि देखि ।

जागेउ अजहुँ न अवध्रपति कारनु कवनु विसेपि ॥ ३७ ॥

राजद्वारपर मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ लगी है । वे सब मूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा मौन-सा विज्ञेय कारण है कि अवध्रपति, दनारथजी, अभीतक नहीं जागे ॥ ३७ ॥

चो०—पछिले पहर भूपु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥

जाहु सुमंत्र जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥

राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है । हे सुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाको जगाओ । उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे ।

गए सुमंत्रु तव राउर माहीं । देखि भयावन जात डेराहीं ॥

धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहुँ विपति विपाद वसेरा ॥

तब सुमन्त्र रावले (राजमहल) में गये । पर महलको भयानक देखकर वे जाते हुए-उर रहे हैं । [ऐसा-लगतता है] मानो दौड़कर फाट पावना; उक्तकी ओर देखा भी नहीं जाता । मानो विपत्ति और विपादने वहाँ डेरा डाल रखा हो ॥ २ ॥

पूछें कोउ न उतरु देई । गए जेहिं भवन भूप केकेई ॥

कहि जयजीव बैठ सिरु नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥

पूछनेपर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महलमें गये जहाँ राजा और कंबोयी थे ।

इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजाके हृदयमें सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥४॥

दो०—सुत सनेहु इत वचनु उत संकट परेउ नरेसु ।

सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० ॥

इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन (प्रतिज्ञा); राजा इसी धर्म-संकटमें पड़ गये हैं। यदि तुम कर सकते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशको मिटाओ।

ती०—निधरकवैठिकहइ कटुवानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥

जीभकमानवचनसरनाना । मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना ॥

कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यन्त व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत-से तीर हैं और मानो राजा ही तोमल निशानेके समान हैं ॥ १ ॥

जनु कठोरपनु धरें सरीरु । सिखइ धनुषविद्या वर वीरु ॥

सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । वैठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥

[इस सारे साज-सामानके साथ] मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण करके धनुषविद्या सीख रहा है। श्रीरघुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ॥

मन मुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधानू ॥

बोले वचन विगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग विभूषन ॥

सूर्यकुलके सूर्य, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर सब दूषणोंसे रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही थे—॥

सुनु जननी सोइ सुतु वड़भागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥

तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥

हे माता ! सुनो, वही पुत्र वड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी (पालन करनेवाला) है। [आज्ञापालनके द्वारा] माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हे जननी ! सारे संसारमें दुर्लभ है ॥ ४ ॥

निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥

रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं । देखिलोग जहँ तहँ बिलखाहीं ॥

श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीको [अपने साथ] लिवा चले । श्रीरामचन्द्रजी मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे (बिना किसी लवाजमेके) जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ-तहाँ विपाद कर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—जाइ दीख रघुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु ।

सहमि परेउ लखि सिंधिनिहिं मनहुँ वृद्ध गजराजु ॥ ३६ ॥

रघुवंसमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाँकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हासतमें पड़े हैं, मानो सिंहनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३६ ॥

चौ०—सूखहिं अधर जरइ सत्रु अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू ॥

सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई ॥

राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिके बिना सोप दुखी हो रहा हो । पास ही क्रोधसे भरी कंकयीको देखा, मानो [साक्षात्] मृत्यु ही बँटी [राजाके जीवनकी अन्तिम] घड़ियाँ गिन रही हो ॥ १ ॥

करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥

तदपि धीर धरि समउ विचारी । पूँछी मधुर वचन महतारी ॥

श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है । उन्होंने [अपने जीवनमें] पहली बार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना भी न था । तो भी समयका विचार करके, हृदयमें धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनोंसे माता कंकयीसे पूछा—॥ २ ॥

मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहिं होइ निवारन ॥

सुनहु राम सत्रु कारनु एहु । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहु ॥

हे माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, तानि जितसे उमका निवारण हो (दुःख दूर हो) वह यत्न किया जाय । [कंकयीने कहा—] हे राम ! सुनो, गारा कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है ॥ ३ ॥

देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥

सो सुनि भयउ भूप उर सोचू । छाड़ि न सकहिं तुम्हार सँकोच ॥

दो०—सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान ।

चलइ जाँक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२ ॥

रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे बचनोंको दुर्वृद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता है; परंतु जाँक उसमें टेढ़ी चालसे ही चलती है ॥ ४२ ॥

चौ०—रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनार्द्र ॥

सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कछु जाना ॥

रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली—तुम्हारी सपथ और भरतकी सौगंध है, मुझे राजाके दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है ॥ १ ॥

तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥

राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥

हे तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो (तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े, यह सम्भव नहीं) । तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाले हो । हे राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है । तुम पिता-माताके बचनों [के पालन] में तत्पर हो ॥२॥

पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥

तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥

मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको रामझाकर वही बात कहो जिससे चौथेंपन (बुझाये) में इनका अपयण न हो । जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ ३ ॥

लागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे । मगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥

रामहि मातु बचन सब भाए । जिमि सुरसरिगतसलिल सुहाए ॥

कैकेयीके बुरे मुखमें ये शुभ बचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ । श्रीरामचन्द्रजीकी माता कैकेयीके सब बचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गङ्गाजीमें जाकर [अच्छे-बुरे सभी प्रकारके] जल शुभ, सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—गढ़ मुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह ।

सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥

श्री०—मुनिगन मिलनु विसेपि वन सवहि भौंति हित मोर ।

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥

वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है। उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है ॥ ४१ ॥

श्री०—भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । विधिसवविधिमोहिसनमुखआजू ॥

जौंन जाउँ वन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा ॥

और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे । [इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि] आज विद्याता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख है (मेरे अनुकूल है) । यदि ऐसे कामके लिये भी मैं वनको न जाऊँ तो मूर्खोंके समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये ॥ १ ॥

सेवहिं अरँडु कल्पतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहिं विपु मागी ॥

तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं । देखु विचारि मातु मन माहीं ॥

जो कल्पवृक्षको छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विप माँग लेते हैं, हे माता ! तुम मनमें विचारकर देखो, वे (महामूर्ख) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे ॥ २ ॥

अंव एक दुखु मोहि विसेपी । निपट विकल नरनायकु देखी ॥

थोरिहिं वात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥

हे माता ! मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याकुल देखकर। इस धोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता ! मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता ॥ ३ ॥

राउ धीर गुन उदधि अगाधू । भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥

जातें मोहि न कहत कछु राऊ । मोरि सपय तोहि कछु सतिभाऊ ॥

क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणोंके अदाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सीगंध है, माता ! तुम सच-सच कहो ॥ ४ ॥

दो०—सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान ।

चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२ ॥

रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनोंको दुर्बुद्धि कैंकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता है; परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चालसे ही चलती है ॥ ४२ ॥

चौ०—रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनार्द ॥

सपथ तुम्हार भरत कै आना । हेतु न दूसर मैं कछु जाना ॥

रानी कैंकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली—तुम्हारी शपथ और भरतकी सौगंध है, मुझे राजाके दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है ॥ १ ॥

तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥

राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु वचन रत अहहू ॥

हे तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो (तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े, यह सम्भव नहीं) । तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाले हो। हे राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है। तुम पिता-माताके वचनों [के पालन] में तत्पर हो ॥२॥

पिताहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥

तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥

मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन (बुढ़ापे) में इनका अपयश न हो। जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ ३ ॥

लागहिं कुमुख वचन सुभ कैसे । मगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥

रामहि मातु वचन सब भाए । जिमि सुरसरिगतसलिल सुहाए ॥

कैंकेयीके बुरे मुखमें ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ । श्रीरामचन्द्रजीको माता कैंकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गङ्गाजीमें जाकर [अच्छे-बुरे सभी प्रकारके] जल शुभ, सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—गइ मुरुछ रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह ।

सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥

इतनेमें राजाकी मूर्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ('राम! राम!' बहकर) फिरकर करवट ली। मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयांनुकूल विनती की ॥४३॥

चौ०—अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तव नयन उधारे ॥
सचिवँ सँभारि राउ बैठारे । चरन परत नृप रामु निहारे ॥

जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारें हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र गीले। मन्त्रीने सँभालकर राजाको बैठाया। राजाने श्रीरामचन्द्रजीकी अपने चरणोंमें पड़ते (प्रणाम करते) देखा ॥ १ ॥

लिए सनेह विकल उर लाई । गेमनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला विलोचन वारि प्रवाहू ॥

स्नेह से विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया। मानो साँपने अपनी ग्योयी हुई मणि फिरसे पा ली हो। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये। उनके नेत्रोंमें आँसुओंकी धारा बह चली ॥ २ ॥

सोक विवस कछु कहै न पारा । हृदयँ लगावत वारहिँ वारा ॥
विधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिँ रघुनाथ न कानन जाहीं ॥

शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे श्रीरघुनाथजी वनको न जायें ॥ ३ ॥

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥
आसुतोष तुम्ह अवडर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥

फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं—हे सदानिव! आप मेरी विनती सुनिये। आप आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) और अवडरदानी (मुहमांगा दे डालनेवाले) हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ॥ ४ ॥

दो०—तुम्ह प्रेरक सब के हृदयँ सो मति रामहि देहु ।

वचनु मोर तजि रहहिँ घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥

आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमें हैं। आप श्रीरामचन्द्रजी ऐसी वृद्धि दीजिये जिनमें वे मेरे वचनको लक्षण कर और सीलु-स्नेहको श्लोककर धरतीमें दूध जामें ॥ ४४ ॥

ची०—अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ । नरक परौं बरु सुरपुरु जाऊ ॥

सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनिहोही ॥

जगत्में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय । चाहे [नया पाप होनेसे] मैं नरकमें गिहूँ, अथवा स्वर्ग चला जाय (पूर्व पुण्योंके फलस्वरूप मिलनेवाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले) । और भी सब प्रकारके दुःसह दुःख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्रीराम-चन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों ॥ १ ॥

अस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥

रघुपति पितहि प्रेमवस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥

राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं । उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोल रहा है । श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वंश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी [तो पिताजीको दुःख होगा]—॥ २ ॥

देस काल अवसर अनुसारी । बोले वचन विनीत विचारी ॥

तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई । अनुचितु छमव जानि लरिकार्ई ॥

देश, काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहे—हे तात ! मैं कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ । इस अनीचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा गा ॥ ३ ॥

अति लघु वात लोगि दुखु पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥

देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥

इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया । मुझे किसीने पहले कहकर यह बात नहीं जनायी । स्वामी (आप) को इस दशामें देखकर मैंने मातासे पूछा । उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतल हो गये (मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई) ॥ ४ ॥

दो०—मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात ।

आयसु देइअ हरषि हियँ कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५ ॥

हे पिताजी ! इस मङ्गलके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिये और हृदयमें प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिये । यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाङ्ग पुलकित हो गये ॥ ४५ ॥

इतनेमें राजाकी मूर्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ('राम ! राम !' कहकर) फिरकर करवट ली । मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आवाज कहकर समयांकूल विनती की ॥४३॥

चौ०—अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तत्र नयन उधारे ॥
सचिवँ सँभारि राउ बैठारे । चरन परत नृप रामु निहारे ॥

जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र घोले । मन्त्रीने सँभालकर राजाको बैठाया । राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पड़ते (प्रणाम करते) देखा ॥ १ ॥

लिए सनेह विकल उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला विलोचन बारि प्रवाहू ॥

स्नेह से विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया । मानो साँपने अपनी घोषी हुई मणि फिरसे पा ली हो । राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये । उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह चली ॥ २ ॥

सोक विवस कछु कहै न पारा । हृदयँ लगावत वारहिँ वारा ॥
विधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिँ रघुनाथ न कानन जाहीं ॥

शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे श्रीरघुनाथजी वनको न जायें ॥ ३ ॥

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥
आसुतोष तुम्ह अवठर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥

फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं—हे सदाशिव! आप मेरी विनती सुनिये । आप आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) और अवठरदानी (मुंहमाँगा दे डालनेवाले) हैं । अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ॥ ४ ॥

दो०—तुम्ह प्रेरक सब के हृदयँ सो मति रामहि देहु ।

बचनु मोर तजि रहहिँ घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥

आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमें हैं । आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे

सब मेल मिल गये थे (सब संयोग ठीक हो गये थे), इतनेमें ही विधाताने बात त्रिगाड़ दी। जहाँ-तहाँ लोग कैकेयीको गाली दे रहे हैं। इस पापिनको क्या सूझ पड़ा, जो इसने छाये घरपर आग रख दी ॥ १ ॥

निज कर नयन काढि चह दीखा । डारि सुधा विषु चाहत चीखा ॥

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुवंस बेनु बन आगी ॥

यह अपने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर (आँखोंके बिना ही) देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है ! यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंशरूपी बाँसके वनके लिये अग्नि हो गयी ! ॥ २ ॥

पालव बैठि पेडु एहिं काटा । सुख महँ सोक ठाटु धरि ठाटा ॥

सदा रामु एहि प्राण समाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥

पत्तेपर बैठकर इसने पेड़को काट डाला। सुखमें शोकका ठाट ठटकर रख दिया ! श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी ॥ ३ ॥

सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ । सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥

निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥

कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह और भेदभरा होता है। अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भाई ! स्त्रियोंकी गति (चाल) नहीं जानी जाती ॥ ४ ॥

दो०—काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ ।

का न करै अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७ ॥

आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ! अबला कहानेवाली प्रबल स्त्री [जाति] क्या नहीं कर सकती ! और जगत्में काल किसको नहीं खाता ! ॥ ४७ ॥

चौ०—का सुनाइ विधि काह सुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥

एक कहहिं भल भूप न कीन्हा । वरु बिचारि नहिंकुमतिहि दीन्हा ॥

विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है ! एक कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयीको विचारकर वर नहीं दिया ॥ १ ॥

श्री०—धन्य जनमुजगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥

चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥

[उन्होंने फिर कहा—] इस पृथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताको परम आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) उमके करतलगत (मुट्टीमें) रहते हैं ॥ १ ॥

आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐहउँ वेगिहि होउ रजाई ॥

विदा मातु सन आवउँ मागी । चलिहउँ वनहि वहुरि पग लागी ॥

आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिये । मातासे विदा माँग आता हूँ । फिर आपके पैर नगकर (प्रणाम करके) वनको चलूँगा ॥ २ ॥

अस कहि राम गवनु तव कीन्हा । भूप सोक वस उतरु न दीन्हा ॥

नगर व्यापि गइ वात सुतीछी । छुअत चढी जनु सब तन वीछी ॥

ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी यहाँसे चल दिये । राजाने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया । वह बहुत ही तीखी (अप्रिय) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी, मानो डंक मारते ही बिच्छूका बिप सारे शरीरमें चढ़ गया हो ॥ ३ ॥

सुनि भए विकल सकल नर नारी । बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥

जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड़ विपादु नहिँ धीरजु होई ॥

इस बातकी सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे ध्याकुल हो गये जैसे शयानत (यन्में आग लगी) देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं । जो जहाँ सुनता है वह वही गिर धुनने (पीटने) लगता है । बड़ा विपाद है, किन्तुको धीरज नहीं बंधता ॥ ४ ॥

श्री०—मुख सुखाहिँ लोचन स्रवहिँ सोकु न हृदयँ समाइ ।

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४६ ॥

सबके मुख सूखे जाते हैं, आँसुमें आँसू बहते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता । मानो कदणारमकी सेना अघघपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥

श्री०—मिलेहि माझ विधि वात वेगारी । जहँ तहँ देहिँ कैकइहि गारी ॥

एहि पापिनिहि वृद्धि का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥

विप्रवधू कुलमान्य जठरी । जे प्रिय परम कैकई करी ॥
 लगीं देन सिख सीलु सराही । बचन बानसम लागहिं ताही ॥

ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ, कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो कंकैयीकी परम प्रिय थीं,
 वे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके वचन बाणके समान
 लगते हैं ॥ २ ॥

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यहु सबु जगु जाना ॥
 करहु राम पर सहज सनेहू । केहिं अपराध आजु बनु देहू ॥

[वे कहती हैं—] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको
 भरत भी प्यारे नहीं हैं; इस बातको सारा जगत् जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम
 स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो । आज किस अपराधसे उन्हें वन देती हो ? ॥ ३ ॥

कवहुँ न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सबु देसू ॥
 कौसल्याँ अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥

तुमने कभी सीतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको
 जानता है । अब कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे
 नगरपर वज्र गिरा दिया ॥ ४ ॥

दो०—सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम ।

राजु कि भूँजव भरत पुर नपु कि जिइहि बिनु राम ॥ ४६ ॥

क्या सीताजी अपने पति (श्रीरामचन्द्रजी) का साथ छोड़ देंगी ? क्या लक्ष्मण-
 जी श्रीरामचन्द्रजीके बिना घर रह सकेंगे ? क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या-
 पुरीका राज्य भोग सकेंगे ? और क्या राजा श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीवित रह सकेंगे ?
 (अर्थात् न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे, न भरतजी राज्य करेंगे और न राजा
 ही जीवित रहेंगे; सब उजाड़ हो जायगा) ॥ ४६ ॥

चो०—अस बिचारि उर छाड़हु कोहू । सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥

भरतहि अवसि देहु जुवराजू । कानन काह राम कर काजू ॥

हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलङ्ककी कोठी मत बनो ।
 भरतको अवश्य युवराजपद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है ? ॥ १ ॥

जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अवलाविवस ग्यानु गुनु गाजनु ॥

एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु नहि देहि सयाने ॥

जो हठ करके (कंकेयोकी बातको पूरा करनेमें अड़े रहकर) स्वयं सब दुष्टोंके पात्र हो गये। स्त्रीके विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक (दूसरे) जो धर्मकी मर्यादाको जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २ ॥

सिवि दधीचि हरिचंद्र कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥

एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भायँ सुनि रहहीं ॥

वे शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्रकी कथा एक दूसरेसे बयानकर कहते हैं। कोई एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भावसे रह जाते हैं (कुछ बोलते नहीं) ॥ ३ ॥

कान मूदि कर रद गहि जीहा । एक कहहिं यह बात अलीहा ॥

सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहँ प्रानपिआरे ॥

कोई हाथोंसे कान मूंदकर और जीभको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेंगे। भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥

दो०—चंद्रु चवै बरु अनल कन सुधा होइ विपतूल ।

सपनेहुँ कवहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥

चन्द्रमा चाहे [शीतल किरणोंकी जगह] आगकी चिनगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विषके समान हो जाय, परंतु भरतजी स्वप्नमें भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ ॥

चौ०—एक विघातहि दूपनु देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह विपु जेहीं ॥

खरभरु नगर सोचु सत्र काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥

कोई एक विघाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिव्याकर विष दे दिया। नगरभरमें घनबली मच गयी, सब किसीको सोच हो गया। हृदयमें दुःख जनन हो गयी, आनन्द-उत्साह मिट गया ॥ १ ॥

इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें हितकारी थी ।
पर कुटिला कुबरीकी सिखायी-पढायी हुई कैकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥५०॥
चौ०—उतरुन देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु वाधिनि भूखी ॥
व्याधिअसाधिजानितिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥

कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी (बेमुरब्बत) हो रही है ।
ऐसे देखती है मानो भूखी वाधिन हरिनियोंको देख रही हो । तब सखियोंने रोगको असाध्य
समझकर उसे छोड़ दिया । सब उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं ॥ १ ॥

राजु करत यह दैअँ बिगोई । कीन्हैसि अस जस करइ न कोई ॥
एहि विधि विलपहिं पुर नर नारीं । देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं ॥

राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया । इसने जैसा कुछ किया,
वैसा कोई भी न करेगा । नगरके सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस
कुचाली कैकेयीको करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं ॥ २ ॥

जरहिं विषम जर लैहिं उसासा । कवनि राम विनु जीवन आसा ॥
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥

लोग विषमज्वर (भयानक दुःखकी आग) से जल रहे हैं । लंबी साँसें लेते हुए
वे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आशा है । महान् वियोग [की
आशङ्का] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी है, मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीवोंका
समुदाय व्याकुल हो ! ॥ ३ ॥

अति विषाद बस लोग लोगार्इ । गए मातु पहिं रामु गोसाईं ॥
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । मिटा सोचु जनि राखै राऊ ॥

सभी पुरुष और स्त्रियाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं । स्वामी श्रीरामचन्द्रजी
माता कौसल्याके पास गये । उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चौगुना चाव (उत्साह)
है । यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें । [श्रीरामजीको राजतिलककी
वात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक
क्यों होता है । अब माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन सम्मति पाकर वह सोच
मिट गया ।] ॥ ४ ॥

नाहिन रामु राज के भूखे । धरम धुरीन विषय रस रूखे ॥

गुरु गृह बसहुँ रामु तजि गेहू । नृप सन अस बरू दूसर लेहू ॥

श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भये नहीं हैं। वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले और विषयरससे रूखे हैं (अर्थात् उनमें विषयमासक्ति है ही नहीं)। [इसलिये-तुम यह शब्दा न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विघ्न करेंगे; इतनेपर भी मन न माने तो] तुम राजासे दूसरा ऐसा (यह) बर ले लो कि श्रीराम घर छोड़कर गुरुके घर रहे ॥ २ ॥

जौं नहिं लागिहहु कहे हमारे । नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥

जौं परिहास कीन्हि कछु होई । तौ कहि प्रगट जनाबहु सोई ॥

जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हँसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [कि मैंने दित्तलगी की है] ॥ ३ ॥

राम सरिस सुत कानन जोगू । काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥

उठहु बेगि सोइ करहु उपाई । जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई ॥

राम-सरोषा पुत्र क्या वनके योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे! जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलङ्कका नाश हो ॥ ४ ॥

छं०—जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही ।

हठि फेरु रामहि जात वन जनि वान दूसरि चालही ॥

जिमि भानु विनु दिनु प्रान विनु तनु चंद विनु जिमि जामिनी ।

तिमि अवघ तुलसीदास प्रभु विनु समुझि धौं जियँ मामिनी ॥

जिस तरह [नगरभरका] शोक और [तुम्हारा] कलङ्क मिटे, वही उपाय करके कुलकी रक्षा कर। वन जाते हुए श्रीरामजीको हठ फेरके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदासजी कहते हैं—जैसे सूर्यके बिना दिन, प्राणके बिना शरीर और चन्द्रमाके बिना रात [निर्जीव तथा शोभाहीन ही जाती है], वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या ही जायगी; हे मामिनी! तू अपने हृदयमें इस बातको समझ (विचारकर देख) तो सही।

सो०—सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित ।

तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥

तथा जिस (लग्न) को सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे इस प्रकार चाहते हैं प्रकार प्याससे चातक और चातकी शरद्-ऋतुके स्वातिनक्षत्रकी वर्षाको चाहते हैं ॥५२॥

—तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥

पितु समीप तव जाएहु भैया । भइ बड़ि बार जाइ बलि मैआ ॥

हे तात ! मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे, कुछ मिठाई लो । भैया ! तब पिताके पास जाना । बहुत देर हो गयी है, माता बलिहारी जाती है ॥१॥

मातु वचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥

सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भवँरु न भूला ॥

माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर—जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्षके फूल थे, जो सुखरूपी मकरन्द (पुष्परस) से भरे थे और श्री (राजलक्ष्मी) के मूल थे—ऐसे वचनरूपी फूलोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भौरा उनपर नहीं भूला ॥२॥

धरम धुरीन धरम गति जानी । कहेउ मातु सन अति मृदु वानी ॥

पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥

धर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणी कहा—हे माता ! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा क बननेवाला है ॥ ३ ॥

आयसु देहि सुदित मन माता । जेहिँ सुद मंगल कानन जाता

जनि सनेह बस डरपसि भोरें । आनँदु अंब अनुग्रह तों

हे माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्रामें आनन्द- हो । मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं । हे माता ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा

दो०—वर्ष चारिदस विपिन बसि करि पितु वचन प्रमान ।

आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥

चौदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित (सत्य) कर फिर तेरे चरणोंका दर्शन करूँगा, तू मनको म्लान (दुखी) न कर ॥ ५३ ॥

चौ०—वचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर

सहमिसूखिसुनि सीतलिवानी । जिमि जवास परें पावस

दो०—नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान ।

छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान, ॥ ५१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिनक उस हाथीके बाँधनेकी काँटेदार लोहेकी चेड़ीके समान है । 'वन जाना है' यह सुनकर अपनेको बन्धनसे छूटा जानकर उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया है ॥ ५१ ॥

श्री०—रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नाथउ माथा ॥

दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हि । भूपन वसन निछावरि कीन्हि ॥

रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें सिर नवाया । माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा निमा और उनपर गहने तथा कपड़े न्योछावर किये ॥ १ ॥

वार वार मुख चुंवति माता । नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥

गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए । स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए ॥

माता वार-वार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं । नेत्रोंमें प्रेमका जल भर आया है और सब अङ्ग पुलकित हो गये हैं । श्रीरामकी अपनी गोदमें बैठकर फिर हृदयसे लगा लिया । सुन्दर स्तन प्रेमरस (दूध) बहाने लगे ॥ २ ॥

प्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई । रंक धनद पदवी जनु पाई ॥

सादर सुंदर वदनु निहारी । बोली मधुर वचन महंतारी ॥

उनका प्रेम और महान् आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । मानो कंगालने गुयेगा पद पा लिया हो । बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली—॥ ३ ॥

कहहु तात जननी बलिहारी । कवहिँ लगन मुद मंगलकारी ॥

सुकृत सीम सुख सीवँ सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥

हे-तात ! माता बलिहारी जाती है, कहो यह आनन्द-मङ्गलकारी सग्न वचन है, जो मेरे पुण्य, शील और गुणकी सुन्दर सीमा है और जन्म लेनेके नाभकी पूर्णतम अवधि है; ॥ ३ ॥

दो०—जेहि चाहत नर नारि सत्र अति आरत एहि भाँति ।

जिमि चातक चातकि तृपित तृष्टिसरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥

हृदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा है । [मनमें सोचती हूँ कि देखो—] विधाताकी चाल सदा सबके लिये टेढ़ी होती है । लिखने लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु ।

धरम सनेह उभयँ मति घेरी । भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥

राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू । धरमु जाइ अरु बंधु विरोधू ॥

धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया । उनकी दशा साँप-छुछुंदरकी-सी हो गयी । वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध (हठ) करके पुत्रको रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता है ॥ २ ॥

कहउँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच विवस भइ रानी ॥

वहुरि ससुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥

और यदि बन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है । इस प्रकारके धर्म-संकटमें पड़कर रानी विशेषरूपसे सोचके वश हो गयीं । फिर बुद्धिमती कौसल्याजी स्त्री-धर्म (पाति-व्रत-धर्म) को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रोंको समान जानकर—॥ ३ ॥

सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥

तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥

सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर बचन बोलीं— हे तात ! मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया । पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोंका शिरोमणि धर्म है ॥ ४ ॥

दो०—राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु ।

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥

राज्य देनेको कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है । [दुःख तो इस बातका है कि] तुम्हारे विना भरतको, महाराजको और प्रजाको बड़ा भारी क्लेश होगा ॥ ५५ ॥

चौ०—जौं केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥

जौंपितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥

हे तात ! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताको (पितासे) बड़ी

रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये बहुत ही नम्र और मोठे वचन माताके हृदयमें बाणके समान लगे और कसकने लगे । उस शीतल बाणीको सुनकर कौसल्या बंसे ही सहमकर सूख गयीं जैसे बरसातका पानी पड़नेसे जवासा सूख जाता है ॥ १ ॥

कहि न जाइ कछु हृदय विपादू । मनहुँ मृगी सुनि केहरि नादू ॥
नयन सजल तन थर थर काँपी । माजहि खाइ मीन जनु मापी ॥

हृदयका विपाद कुछ कहा नहीं जाता । मानो सिंहनी गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गयी हो । नेत्रोंमें जल भर आया, शरीर थर-थर काँपने लगा । मानो मछली माँजा (पहली वर्षाका फेन) घाकर बढहवास हो गयी हो ! ॥ २ ॥

धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद वचन कहति महतारी ॥
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥

धीरज धरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगीं—हे तात ! तुम तो पिताको प्राणोंके समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रोंको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥

राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान वन केहि अपराधा ॥
तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥

राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था । फिर अब किस अपराधसे वन जानेको कहा ? हे तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ । मृत्युवंश [रूपी वन] को जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया ? ॥ ४ ॥

दो०—निरखि राम रूख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ ।

सुनि प्रसंगु रहि मूकं जिमि दसा वरनि नहिं जाइ ॥ ५४ ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीका रूप देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर कहा । उस प्रसङ्गको सुनकर वे गुंभी-जैसी (चुप) रह गयीं, उनकी दगाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५४ ॥

धो०—राखिनसकइनकहिसकजाहू । दुहूँ भौंति उर दारुन दाहू ॥

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । त्रिधिगति वाम सदा सबकाहू ॥

न रघु हो सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ । दोनों ही

अस विचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जिअत जेहिं भेंटहु आई ॥
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ । करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥

ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो । मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवारवालों और नगरभरको अनाथ करके सुखपूर्वक बनको जाओ । २

सब कर आजु सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालु विपरीता ॥
बहुविधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥

आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया । कठिन काल हमारे विपरीत हो गया [इस प्रकार] बहुत विलाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं ॥ ३ ॥

दारुन दुसह दाहु उर व्यापा । बरनि न जाहिं विलाप कलापा ॥
राम उठाइ मातु उर लाई । कहि मृदु वचन बहुरि समुझाई ॥

हृदयमें भयानक दुःसह सन्ताप छा गया । उस समयके बहुविध विलापका वर्णन नहीं किया जा सकता । श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया ॥ ४ ॥

दो०—समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ ।

जाइ सासु पद कमल जुग बांदि बैठि सिरु नाइ ॥ ५७ ॥

उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासुके पास जाकर उनके दोनों चरणकमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ ॥

चौ०—दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥

बैठि नमितमुखसोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥

सासुने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया । वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठीं । रूपकी राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोच रही हैं ॥ १ ॥

चलन चहत बन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥

की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥

जीवननाथ (प्राणनाथ) बनको चलना चाहते हैं । देखें किस पुण्यवान्से उनका

जानकर वनको मत जायो। किंतु यदि पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो, तो वन तुम्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १ ॥

पितु वनदेव मातु वनदेवी । खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥

अंतहुँ उचित नृपहि वनव्राम् । वय विलोकि हियँ होइ हराँसु ॥

वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी। वहाँके पशु-पक्षी तुम्हारे चरणकमलोंके सेवक होंगे। राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी [सुकुमार] अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है ॥ २ ॥

वड़भागी वनु अवध अभागी । जो रघुवंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥

जौं सुत कहीं संग मोहि लेहु । तुम्हरे हृदयँ होइ संदेहु ॥

हे रघुवंशके तिलक ! वन वड़ा भाग्यवान् है और यह अवध अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र ! यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें गंदेह होगा [कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है] ॥ ३ ॥

पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्राण प्राण के जीवन जी के ॥

ते तुम्ह कहहु मातु वन जाऊँ । मैं सुनि वचन वैठि पछिताऊँ ॥

हे पुत्र ! तुम सबीके परम प्रिय हो। प्राणीके प्राण और हृदयने जीवन हो। वही (प्राणाधार) तुम कहते हो कि माता ! मैं वनको जाऊँ और मैं तुम्हारे वचनोंको सुनकर बैठी पछताती हूँ ॥ ४ ॥

दो०—यह विचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ ।

मानि मातु कर नात बलि सुरति विसरि जनि जाइ ॥ ५६ ॥

यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेया ! मैं बसैया संतो हूँ, माताका नाता मानकर मेरी सुध मूल न जाना ॥ ५६ ॥

चौ०—देव पितर सब तुम्हहि गोसाइँ । राखहुँ पलक नयन की नाइँ ॥

अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥

हे गोसाइँ ! सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रखा करें जैसे पत्तक आँगोकी रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासकी अवधि (चौदह वर्ष) जल है, प्रियजन और मृतुम्बो मछली हैं। तुम दयाकी घान और धर्मकी धुरीकी धारण करनेवाले हो ॥ १ ॥

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥

जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप वाति नहिं टारन कहऊँ ॥

सीताने पर्यङ्कपृष्ठ (पलंगके ऊपर), गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर पृथ्वीपर कभी पैर नहीं रक्खा । मैं सदा संजीवनी जड़ीके समान [सावधानीसे] इनकी रखवाली करती रही हूँ । कभी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं कहती ॥ ३ ॥

सोइ सिय चलन चहति वन साथ । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥

चंद्र किरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥

वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है । हे रघुनाथ ! उसे क्या आज्ञा होती है ? चन्द्रमाकी किरणोंका रस (अमृत) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है ॥ ४ ॥

दो०—करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु वन भूरि ।

विष वाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ ५६ ॥

हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं । हे पुत्र ! क्या विषकी वाटिकामें सुन्दर संजीवनी वृद्धी शोभा पा सकती है ? ॥ ५६ ॥

चौ०—वन हित कोल किरात किसोरी । रचीं विरंचि विषय सुख भोरी ॥

पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥

वनके लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल और भीलोंकी लड़कियोंको रचा है, जिनका पत्थरके कीड़े-जैसा कठोर स्वभाव है । उन्हें वनमें कभी क्लेश नहीं होता ।

कै तापस तिय कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥

सिय वन वसिहि तात केहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥

अथवा तपस्त्रियोंकी स्त्रियाँ वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग तज दिये हैं । हे पुत्र ! जो तस्वीरके बंदरको देखकर डर जाती हैं वे सीता वनमें किस तरह रह सकेंगी ॥ २ ॥

सुरसर सुभग वनज वन चारी । डारव जोगु कि हंसकुमारी ॥

अस विचारि जस आयसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ॥

साथ होगा—शरीर और प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल प्राणहीसे इनका साथ होगा ? विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २ ॥

चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी ॥
मनहुँ प्रेम बस विनती करहीं । हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥

सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे धरती कुरेद रही हैं । ऐसा करते समय नूपुरोंका जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेमके बश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजीके चरण कभी हमारा त्याग न करें ॥ ३ ॥

मंजु विलोचन मोचति वारी । बोली देखि राम महतारी ॥
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहिं पिआरी ॥

सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल बहा रही हैं । उनकी यह दशा देखकर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी बोलीं—हे तात ! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर और कुटुम्बी सभीको प्यारी हैं ॥ ४ ॥

दो०—पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु ।

पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥

इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुलके सूर्य हैं और पति सूर्यकुलरूपी कुमुदवनको खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं ॥ ५८ ॥

चौ०—मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥

नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई ॥

फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी है । मैंने इन (जानकी) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं ॥ ५९ ॥

कल्पवेलि जिमि बहुविधि लाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥

फूलत फलत भयउ विधि वामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥

इन्हें कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े लाड़-चावके भाव स्नेहरूपी जलसे सींचकर पाला है । अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये । कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा ॥ २ ॥

तव तव तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी ॥
कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ॥

हे सुन्दरी ! तव-तव तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना ।
हे सुमुखि ! मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभावसे ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माताके
लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—गुरु श्रुति संमत धरम फलु पाइअ विनहिं कलेस ।
हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१ ॥

[मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे] गुरु और वेदके द्वारा सम्मत धर्म [के
आचरण] का फल तुम्हें बिना ही क्लेशके मिल जाता है । किंतु हठके वश होकर गालव
मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे ॥ ६१ ॥

चौ०—मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरबसुनुसुमुखि सयानी ॥
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥

हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, मैं भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा ।
दिन जाते देर नहीं लगेगी । हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १ ॥

जौं हठ करहु प्रेम बस वामा । तौ तुम्ह दुखु पाउव परिनामा ॥
काननु कठिन भयंकरु भारी । घोर घामु हिम वारि बयारी ॥

हे वामा ! यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी । वन बड़ा कठिन
(क्लेशदायक) और भयानक है । वहाँकी धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं ॥ २ ॥

कुस कंटक मग काँकर नाना । चलव पयादेहिं विनु पदत्राना ॥
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे ॥

रास्तेमें कुश, काँटे और बहुत-से कंकड़ हैं । उनपर बिना जूतेके पैदल ही चलना
होगा । तुम्हारे चरणकमल कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं ॥ ३ ॥

कंदर खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहिं निहारे ॥
भालु बाघ बृक केहरि नागा । करहिं नाद सुनि धीरजु भागा ॥

पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह (दरें), नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं

देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ियों (तलियों) में रहनेके योग्य है? ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ ॥ ३ ॥

जौं सिय भवन रहै कह अंवा । मोहि कहँ होइ बहुत अवलंवा ॥

सुनि रघुवीर मातु प्रिय वानी । सील सनेह सुधाँ जनु सानी ॥

माता कहती हैं—यदि सीता घरमें रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय । श्रीरामचन्द्रजीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो भानो शील और स्नेहपूर्ण अमृतसे सुनी हुई थी, ॥४॥

॥ दो०—कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोष ।

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष ॥ ६० ॥

विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया । फिर वनके गुण-दोष प्रकट करके वे जानकीजीको समझाने लगे ॥ ६० ॥

मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम

चौ०—मातु समीप कहत सकुचार्हीं । बोले समउ समुझि मन माहीं ॥

राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाँति जियँ जनि कछु गुनहू ॥

माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं; पर मनमें यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले—हे राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो । मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना ॥ १ ॥

आपन मोर नीक जौं चहहू । वचनु हमार मानि गृह रहहू ॥

आयसु मोर सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥

जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो । हे भामिनी ! मेरी आज्ञाका पालन होगा, सासकी सेवा वन पड़ेगी । घर रहनेमें सभी प्रकारसे भलाई है ॥

एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ।

जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति ॥

आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा) करनेसे बढ़कर और भी धर्म नहीं है । जब-जब माता मुझे याद करेगी और प्रेमसे व्याकुल होनेके कारण भोली हो जायगी (वे अपने-आपको भूल जायेंगी) ॥ ३ ॥

सहज सुहृद् गुर स्वामि सिख जो न करइ सिरमानि ।
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३ ॥
स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढाकर नहीं
गये, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥ ६३ ॥
—सुनि मृदु वचन मनोहर पियके । लोचन ललित भरे जल सियके ॥
सीतल सिख दाहक भइ कैसें । चकइहि सरद चंद निसि जैसें ॥

प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर
गये । श्रीरामजीकी यह शीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुई, जैसे चकवीको शरद-
ऋतुकी चाँदनी रात होती है ॥ १ ॥

उतरु न आव विकल बैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥
बरवस रोकि बिलोचन वारी । धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥

जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं वनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो उठीं कि मेरे
पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं । नेत्रोंके जल (आँसुओं) को जबदस्त
रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयमें धीरज धरकर, ॥ २ ॥

लागि सासु पग कह कर जोरी । छमवि देवि बडि अविनय मोरी
दीन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परम हित होई

सासके पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं—हे देवि ! मेरी इस बड़ी
ढिठाईको क्षमा कीजिये । मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो ।

मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग न
परंतु मैंने मतमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जग
दुख नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—प्राणनाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान ।
तुम्ह विनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥

हे प्राणनाथ ! हे दयाके धाम ! हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाले !
रघुकुलरूपी कुमुदके खिलानेवाले चन्द्रमा ! आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरक

क उनकी ओर देखातक नहीं जाता । रोछ, बाघ, भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे [भयानक]
कन्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है ॥ ४ ॥

दो०—भूमि सयन बलकल वसन असनु कंद फल मूल ।

ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२ ॥

जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वस्त्र पहनना और कन्द, मूल, फलका भोजन
करना होगा । और वे भी नया सदा सब दिन मिलेंगे ? सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल
ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥

दो०—नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट वेष विधि कोटिक करहीं ॥

लागइ अति पहार कर पानी । विपिनविपति नहिं जाइ बखानी ॥

मनुष्योंको खानेवाले निशाचर (राक्षस) फिरते रहते हैं । वे करोड़ों प्रकारके
कपटरूप धारण कर लेते हैं । पहाड़का पानी बहुत ही लगता है । वनकी विपत्ति बखानी
नहीं जा सकती ॥ १ ॥

ज्याल कराल विहग वन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥

डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ । मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥

वनमें भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड-
झुंड रहते हैं । वनकी [भयङ्करता] याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं । फिर
हे मृगलोचनि ! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो ! ॥ २ ॥

हंसगवनि तुम्ह नहिं वन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥

मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥

हे हंसगमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग
मुझे अपयश देंगे (बुरा कहेंगे) । मानसरोवरके अमृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी
कहीं खारे समुद्रमें जा सकती है ? ॥ ३ ॥

नव रसाल वन विहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥

रहहु भवन अस हृदयँ विचारी । चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥

नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमें शोभा पाती
है ? हे चन्द्रमुखी ! हृदयमें ऐसा विचारकर तुम धरहीपर रहो । वनमें बड़ा कष्ट है ॥ ४ ॥

करेंगे; और कुशा और पत्तोंकी सुन्दर सायरी (विछौना) ही प्रभुके साथ कामदेवकी मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १ ॥

कंद मूल फल अमिअ अहारु । अवध सौध सत सरिस पहारु ॥

छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी । रहिहउँ मुदित दिवस जिमिकोकी ॥

कन्द, मूल और फल ही अमृतके समान आहार होंगे और [वनके] पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों राजमहलोंके समान होंगे। क्षण-क्षणमें प्रभुके चरणकमलोंको देख-देखकर मैं ऐसी आनन्दित रहूँगी जैसी दिनमें चकवी रहती है ॥ २ ॥

वन दुख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप घनेरे ॥

प्रभु त्रियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥

हे नाथ ! आपने वनके बहुत-से दुख और बहुत-से भय, विषाद और संताप कहे। परंतु हे कृपानिधान ! वे सब मिलकर भी प्रभु (आप) के त्रियोग [से होनेवाले दुःख] के लवलेसके समान भी नहीं हो सकते ॥ ३ ॥

अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग मोहि छाड़िअ जनि ॥

विनती बहुत करौं का स्वामी । करुणामय उर अंतरजामी ॥

ऐसा जीमें जानकर, हे सुजानशिरामणि ! आप मुझे साथ ले लीजिये, यहाँ न छोड़िये। हे स्वामी ! मैं अधिक क्या विनती करूँ। आप करुणामय हैं और सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥

दो०—राखिअ अवध जो अवधि लागि रहत न जनिअहिं प्राण ।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६ ॥

हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले ! हे शील और प्रेमके भण्डार ! यदि अवधि (चाँदह वर्ष) तक मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे ॥ ६६ ॥

चौ०—मोहि मग चलत नहोइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥

सवहि भाँति पिय सेवा करिहौं । मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौं ॥

क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें थकावट न होगी। हे प्रियतम ! मैं सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाली नारी थकावटको दूर कर दूँगी ॥ १ ॥

चौ०—मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद् समुदाई ॥

सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥

माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन (बन्धु-बान्धव), सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाला पुत्र— ॥ १ ॥

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पियविनु तियहि तरनिहुते ताते ॥

तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति विहान सबु सोक समाजू ॥

हे नाथ ! जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिके बिना स्त्रीको सभी सूर्यसे भी बढ़कर तपानेवाले हैं । शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य—पतिके बिना स्त्रीके लिये यह सब शोकका समाज है ॥ २ ॥

भोग रोगसम भूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू ॥

प्राणनाथ तुम्ह विनु जग माहीं । मो कहूँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥

भोग रोगके समान हैं, गहने भाररूप हैं और संसार यम-यातना (नरककी पीड़ा) के समान है । हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगत्में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ ३ ॥

जिये विनु देह नदी विनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विधु वदनु निहारे ॥

जैसे बिना जीवके देह और बिना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषके स्त्री है । हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शरद- [पूर्णिमा] के निर्मल चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

दो०—रुग मृग परिजन नगरु वनु बलकल विमल दुकूल ।

नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५ ॥

हे नाथ ! आपके साथ पत्नी और पशु ही मेरे कुटुम्बी होंगे, वन ही नगर और वृक्षोंकी छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पणकुटी (पत्तोंकी बनी शोपड़ी) ही स्वर्गके समान सुखोंकी मूल होगी ॥ ६५ ॥

चौ०—वनदेवी वनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥

कुस किंसलय साथरी सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥

उदार हृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी साउ-सँभार

तब कृपालु सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वनको चलो। आज विपाद करनेका अवसर नहीं है। तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥२॥

कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥
वेगि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निठुर विसरि जनि जाई ॥

श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। फिर माताके पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। [माताने कहा—] बेटा ! जल्दी लौटकर प्रजाके दुःखको मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाय ! ॥ ३ ॥

फिरिहि दसा विधि वहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥
सुदिन सुघरी तात कव होइहि । जननी जिअतबदन विधु जोइहि ॥

हे विधाता ! क्या मेरी दशा भी फिर पलटेंगी ? क्या अपने नेत्रोंसे मैं इस मनोहर जोड़ीको फिर देख पाऊँगी ? हे पुत्र ! वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चाँद-सा मुखड़ा फिर देखेगी ! ॥ ४ ॥

दो०—वहुरि वच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुवर तात ।

कत्रहिं बोलाइ लगाइ हियँ हरषि निरखिहउँ गात ॥ ६८ ॥

हे तात ! 'वत्स' कहकर, 'लाल' कहकर, 'रघुपति' कहकर, 'रघुवर' कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदयसे लगाऊँगी और हर्षित होकर तुम्हारे अङ्गोंको देखूँगी ! ॥ ६८ ॥

चो०—लखि सनेह कातरि महतारी । वचनु न आव विकल भइ भारी ॥

राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥

यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँहसे वचन नहीं निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥

तव जानकी सासु पग लागी । सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥

वेवा समय दैअँ वनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥

जानकीजी सासके पाँव लगीं और बोलीं—हे माता ! सुनिये, मैं बड़ी ही अभागिनी होगी। हे प्रियतम :—मय्य दैवने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ सफल न किया ॥२॥
मारी धकावटको दूर कर दूँ।

पाय पखारि बैठि तरु छाहीं । करिहउँ वाउ मुदित मन माहीं ॥

श्रम कन सहित स्वाम तनु देखें । कहँ दुख समउ प्रानपति पेखें ॥

आपके पैर धोकर, पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा कहेंगी (पंखा झलूंगी) । पसीनेकी वृद्धांगहित श्याम शरीरको देखकर—प्राणपतिके दर्शन करने हेतु दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा ॥ २ ॥

सम महि तृन तरुपल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥

वार वार मृदु मूरति जोही । लागिहि तान वयारि न मोही ॥

समतल भूमिपर घान और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर आपके चरण दबावेगी । वार-वार आपकी कोमल मूर्तिको देखकर मुझको गरम हवा भी न लगेगी ॥ ३ ॥

को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । सिववधुहि जिमिससक सिआरा ॥

मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहँ भोगू ॥

प्रभुके साथ [रहते] मेरी ओर [आँख उठाकर] देखनेवाला कौन है (अर्थात् कोई नहीं देख सकता) । जैसे सिंहकी स्त्री (सिंहनी) को खरगोश और सियार नहीं देख सकते । मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वनके योग्य हूँ ? आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय-भोग ?

दो०—ऐसेउ वचन कठोर सुनि जौं न हटउ विलगान ।

तौ प्रभु विपम वियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ॥ ६७ ॥

ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो, हे प्रभु ! [मालूम होता है] ये पामर प्राण आपके वियोगका भोगण दुःख सहेंगे ॥ ६७ ॥

चौ०—अस कहि सीय विकल भइ भारी । वचन वियोगु न सकी सँभारी ॥

देखि दसा रघुपति जियँ जाना । हठि राखें नहिं राखिहि प्राना ॥

ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं । वे वचनके वियोगको भी न सम्हाल सकीं । (अर्थात् शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही, वचनने भी वियोगकी बात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं ।) उनकी यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणोंको न रकेंगी ॥ १ ॥

कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथ ॥

नहिं विपाद कर अवसरु आजू । वेगि करहु वन गवन समाजू ॥

मन्त्रको धीननुताथजी क्या कहेंगे ? घरपर रखेंगे या भाय ले चेंगे ? श्रीरामचन्द्र-
जीने भाई लक्ष्मणको दायजोदे और अश्वीर तथा घर नमोसे नाता नोड़े हुए लड़े देखा ॥ ३॥

बोले बचनु राम नय नागर । सील सनेह सरख सुख सागर ॥

नात प्रेम वसु जनि कदग्रह । समुझि हृदयँ परिणाम उछाह ॥

तब नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखके मन्त्र श्रीरामचन्द्रजी
बचत बोले—हे नात ! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर
मन होओ ॥ ४ ॥

बो०—मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभायँ ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ ॥ ७० ॥

जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढाकर उसका
पावन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तो जगत्में जन्म व्यर्थ ही है ॥७०॥

बो०—असु जियँ जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥

भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । राड वृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥

हे भाई ! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो ।
भरत और शत्रुघ्न घरपर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है ॥ १ ॥

मैं वन जाऊँ तुम्हहि लेइ साथ । होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥

गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु । सब कहँ परइ दुसह दुख भारु ॥

इन अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारसे अनाथ हो
जायगी । गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार समीपपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा ॥२॥

रहहु करहु सब कर परितोषू । नतरु तात होइहि वड़ दोषू ॥

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥

अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष
होगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी
होता है ॥ ३ ॥

रहहु तात असि नीति विचारी । सुनत लखनु भए व्याकुल भारी ॥

सिअरें बचन सुखि गए कैसें । परसत तुहिन तामरसु जैसें ॥

तजव छोमु जनि छाड़िअ छोह । करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥

सुनि सिय वचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कहौं बखानी ॥

आप क्षोभका त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़ियेगा । कमकी गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं । उनकी दशाकी मैं किस प्रकार बखानकर कहूँ ! ॥ ३ ॥

वारहिं वार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥

अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जव लगि गंग जमुन जल धारा ॥

उन्होंने सीताजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जबतक गङ्गाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा बहे, तबतक तुम्हारा सुहाग अचल रहे ॥ ४ ॥

दो०—सीताहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार ।

चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित वारहिं वार ॥ ६६ ॥

सीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दी और वे (सीताजी) बड़े ही प्रेमसे बार-बार चरणकमलोंमें सिर नवाकर चलीं ॥ ६६ ॥

चौ०—समाचार जव लछिमन पाए । व्याकुल बिलख बदन उठि धाए ॥

कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥

जब लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुल होकर उदास-मुंह उठ दीड़े । शरीर कांप रहा है, रोमाश्व हो रहा है, नेत्र आंसुअंसि भरे हैं । प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये ॥ १ ॥

काहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । मीनु दीन जनु जल तें काढ़े ॥

सोचु हृदयँ विधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥

वे कुछ कह नहीं सकते, षड़े-षड़े देव रहे हैं । [ऐसे दीन हो रहे हैं] मानों जलसे निकाले जानेपर मछली दीन हो रही हो । हृदयमें यह सोच है कि हे विधाता ! क्या होनेवाला है ? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया ? ॥२॥

मो कहूँ काह कहव रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथी ॥

राम विलोकि बंधु कर जोरें । देह गेह सब सन वनु तोरें ॥

इति प्यारी हो। किंतु जो मन, वचन और कर्मसे चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, हे मन्धु ! क्या वह भी त्यागनेके योग्य है ? ॥ ४ ॥

०-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत ।
समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ समीत ॥ ७२ ॥
दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर उर उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥

०-मागहु विदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥
सुदित भए सुनि रघुवर वानी । भयउ लाभवड़ गइ बड़ि हानी ॥
[और कहा—] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी वनको चलो। रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये। बड़ी हानि दूर हो गयी और बड़ा लाभ हुआ ! ॥ १ ॥

हरषित हृदयँ मातु पहिँ आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥
जाइ जननि पग नायउ माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथ ॥
वे हर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गये हो। उन्होंने जाकर माताके चरणोंमें मस्तक नवाया। किंतु उनका मन रघुकुलको आनंद देनेवाले श्रीरामजी और जानकीजीके साथ था ॥ २ ॥

पूँछे मातु मलिन मन देखी । लखन कही सब कथा विसेषी
गई सहसि सुनि वचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहु ओरा
माताने उदास-मन देखकर उनसे [कारण] पूछा। लक्ष्मणजीने सब विस्तारसे कह सुनायी। सुमित्राजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है ॥ ३ ॥

लखन लखेउ भा अनरथ आजू । एहिँ सनेह बस करव अका
मागत विदा समय सकुचाहीं । जाइ संग विधि कहिहि किना
लक्ष्मणने देखा कि आज (अब) अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश काम बिगाड़ इसलिये वे विदा माँगते हुए डरके मारे सकुचाते हैं। और मन-ही-मन सोचते हैं विधाता ! माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं ॥ ४ ॥

हे तात ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह मुनते ही लक्ष्मणजी हुत ही व्याकुल हो गये। इन शीतल वचनोंमें वे बंसे सूख गये, जैसे पालके स्पृशसे कमल सूख जाता है ! ॥ ४ ॥

दो०—उतरु न आवत प्रेम वस गहे चरन अकुलाइ ।

नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह वसाइ ॥ ७१ ॥

प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उतर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्रीरामजीके धरण पकड़ लिये और कहा—हे नाथ ! मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बच है ? ॥ ७१ ॥

ती०—दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं । लागि अगम अपनी कदराईं ॥

नरवर धीर धरम धुर धारी । निगम नीतिकहुँते अधिकारी ॥

हे स्वामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतामें बहारे लिये अंगम (पहुँचके बाहर) लगी। शास्त्र और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥

मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपालां । मंदरु मेरु कि लेहि मराला ॥

गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥

मैं तो प्रभु (आप) के स्नेहमें पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मन्दराचल में सुमेरु पर्वतको उठा सकता है ? हे नाथ ! स्वभावसे ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसीको भी नहीं जानता ॥ २ ॥

जहँ लागि जगत सनेह सगाईं । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाईं ॥

मेरे सवइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्धु उर अंतरजामी ॥

जगत्में जहातिक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदने गाया है—हे स्वामी ! हे दीनबन्धु ! हे सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले ! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं ॥ ३ ॥

धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥

मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥

धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, विभूति (देव्यं)

में बलिहारी जाती हूँ, [हे पुत्र !] मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर श्रीरामके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया है ॥ ७४ ॥

चौ०—पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥

नतरु बाँझ भलि वादि विआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥

संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । नहीं तो जो रामसे विमुख पुत्रसे अपना हित जानती है, वह तो बाँझ ही अच्छी । पशुकी भाँति उसका व्याना (पुत्र प्रसन्न करना) व्यर्थ ही है ॥ १ ॥

तुम्हारेहिं भाग रामु वन जाहीं । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥

सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥

तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं । हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं है । सम्पूर्ण पुण्योंका सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें स्वाभाविक प्रेम हो ॥ २ ॥

रागु रोपु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के वस होहू ॥

सकल प्रकार विकार विहाई । मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥

राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह—इनके वश स्वप्नमें भी मत होता । सब प्रकारके विकारोंका त्याग कर मन, वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३ ॥

तुम्ह कहूँ वन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥

जेहिं न रामु वन लहहिं कलेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥

तुमको वनमें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप पिता-माता हैं । हे पुत्र ! तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है ॥ ४ ॥

छं०—उपदेसु यहू जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं ।

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं ॥

तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई ।

रति होउ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई ॥

हे तात ! मेरा यही उपदेश है (अर्थात् तुम वही करना) जिससे वनमें तुम्हारे कारण श्रीरामजी और सीताजी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल जायें । तुलसीदासजी कहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु (श्रीलक्ष्मणजी) को

दो०—समुझि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ ।

नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥

सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और स्वभावको समझकर और उनपर राजाका प्रेम देखकर अपना सिर धुना (पीटा) और कहा कि पापिनी कंकेशीने बुरी तरह घात लगाया ॥ ७३ ॥

चौ०—धीरजु धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहंद बोली मृदु बानी ॥

तात तुम्हारि मातु वैदेही । पिता रामु सव भाँति सनेही ॥

परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभावसे ही हित चाहनेवाली सुमित्राजी कामल वाणीसे बोली—हे तात ! जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं ! ॥ १ ॥

अवध तहाँ जहँ राम निवासू । तहँई दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥

जौँ पै सीय रामु बन जाहीं । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥

जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है । जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वही दिन है । यदि निश्चय ही सीता-राम बनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है ॥ २ ॥

गुरु पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिँ सकल प्राण की नाई ॥

रामु प्राणप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सबही के ॥

गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी—इन सबकी सेवा प्राणके समान करनी चाहिये । फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं, हृदयके भी जीवन हैं और सभीके स्वार्थरहित सखा हैं ॥ ३ ॥

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिअहिँ राम के नातें ॥

अस जियँ जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥

जगत्में जहाँतक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामजीके नातेसे ही [पूजनीय और परम प्रिय] मानने योग्य हैं । हृदयमें ऐसा जानकर, हे तात ! उनके साथ बन जाओ और जगत्में जीनेका लाभ उठाओ ! ॥ ४ ॥

दो०—भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ ।

जौँ तुम्हरेँ मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७७ ॥

दो०—सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ ।

वारहिं वार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ ॥ ७६ ॥

सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश वारंवार उन्हें हृदयसे लगा लेते हैं ॥ ७६ ॥

ची०—सकइ न बोलि विकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू ॥

नाइ सीसु पद अति अनुरागा । उठि रघुबीर विदा तब मागा ॥

राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते । हृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक संताप है । तब रघुकुलके वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर उठकर विदा मांगी—॥ १ ॥

पितु असीस आयसु मोहि दीजै । हरष समय बिसमउ कत कीजै ॥

तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू । जसु जग जाइ होइ अपवादू ॥

हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये । हर्षके समय आप शोक क्यों कर रहे हैं ? हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद (कर्तव्यकर्ममें त्रुटि) करनेसे जगत्में यश जाता रहेगा और निन्दा होगी ॥ २ ॥

सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ । बैठारे रघुपति गहि बाहाँ ॥

नहु तात तुम्ह कहँ सुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥

यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा—हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैं ।

सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदयँ विचारी ॥

करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥

शुभ और अशुभ कर्मोंके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है । जो कर्म करता है वही फल पाता है । ऐसी वेदकी नीति है, यह सब कोई कहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—औरु करै अपराधु कोउ और पाव फल भोगु ।

अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोगु ॥ ७७ ॥

[किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है,] अपराध तो कोई और ही करे और उसके फलका भोग कोई और ही पावे । भगवान्की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जाननेयोग्य जगत्में कौन है ? ॥ ७७ ॥

शिक्षा देकर [वन जानेकी] आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी और श्री-
रघुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निमल (निष्काम और अनन्य) एवं प्रगाढ़ प्रेम नित-नित नया हो!

सो०—मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदयै ।

ब्रागुर विपम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भाग वस ॥ ७५ ॥

माताके चरणोंमें सिर नवाकर, हृदयमें डरते हुए [कि अब भी कोई विघ्न न आ
जाय] लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन पत्थरको
तुड़ाकर भाग निकला हो ॥ ७५ ॥

चां०—गए लखनु जहँ जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥

वंदि राम सिय चरन सुहाए । चले संग नृपमंदिर आए ॥

लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें
बड़े ही प्रसन्न हुए । श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वे उनके साथ
चले और राजमवनमें आये ॥ १ ॥

कहहिँ परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ विधि वात विगारी ॥

तन कृस मन दुख वदन मलीने । विकल मनहुँ भारखी मधु छीने ॥

नगरके स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने गूब बनाकर वात बिगाटी ।
उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदाग हो रहे हैं । वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद
छीन लिये जानपर शहदकी मक्खियाँ व्याकुल हों ॥ २ ॥

कर मीजहिँ सिरु धुनि पछिताहीं । जनु विनु पंख विहग अकुलाहीं ॥

भइ बड़ि भीर भूप दरवारा । बरनि न जाइ विपादु अपारा ॥

गव हाथ मल रहे हैं और सिर घुनकर (पीटककर) पछता रहे हैं । मानो बिना
पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों । राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है । अपार विपादका वर्णन
नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥

सचिवँ उठाइ राउ बैठारे । कहि प्रिय वचन रामु पगु धारे ॥

सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥

'श्रीरामचन्द्रजी पधारें हैं' ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बंठाया ।
सीतासहित दोनों पुत्रोंको [उनके लिये तैयार] देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए ॥ ४ ॥

सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इन बातोंको सुनकर कँकेयी तमककर उठी। उसने मुनियोंके वस्त्र, आभूषण (माला, मेखला आदि) और बर्तन (कमण्डलु आदि) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये और कोमल वाणीसे कहा—॥ १ ॥

नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा । सील सनेह न छाड़िहि भीरा ॥
सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हहि जान वन कहिहि न काऊ ॥

हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो। भीरु (प्रेमवश दुर्बल हृदयके) राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कभी न कहेंगे ॥ २ ॥

अस विचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥
भूपहि वचन वानसम लागे । करहिं न प्रान पयान अभागे ॥

ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माताकी सीख सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने [बड़ा] सुख पाया। परंतु राजाको ये वचन वाणके समान लगे। [वे सोचने लगे] अब भी अभाग प्राण [क्यों] नहीं निकलते ! ॥ ३ ॥

लोग विकल मुरुछित नरनाहू । काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥

राजा मूर्च्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं। किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्रीरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताको सिर नवाकर चल दिये ॥ ४ ॥

श्लो०—सजि वन साजु समाजु सबु वनिता बंधु समेत ।

वांदि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सवहि अचेत ॥ ७६ ॥

वनका सब साज-सामान सजकर (वनके लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ लेकर) श्रीरामचन्द्रजी स्त्री (श्रीसीताजी) और भाई (लक्ष्मणजी) सहित ब्राह्मण और गुरुके चरणोंकी वन्दना करके सबको अचेत करके चले ॥ ७६ ॥

श्लो०—निकसि वसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े । देखे लोग विरह दव दाढ़े ॥
कहि प्रिय वचन सकल समुझाए । विप्र वृंद रघुवीर बोलाए ॥

राजमहलसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और

चौ०—रायँ राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥

लखी राम रख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने ॥

राजाने इस-प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत-से उपाय किये । पर जब उन्होंने धर्मधुरन्धर, धीर और बुद्धिमान् श्रीरामजीका रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, ॥ १ ॥

तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥

कहिं वन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए ॥

तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी । वनके दुःसह दुःख कहकर सुनाये । फिर सास, ससुर तथा पिताके [पास रहनेके] सुखोंको समझाया ॥ २ ॥

सिय मनु राम चरन अनुरागा । घर न सुगमु वनु विषमु न लागा ॥

औरउ सबहिं सीय समुझाई । कहिकहिं विपिन विपति अधिकारई ॥

परंतु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था । इसलिये उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा । फिर और सब लोगोंने भी वनमें विपत्तियोंकी अधिकता बता-बताकर सीताजीको समझाया ॥ ३ ॥

सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु वानी ॥

तुम्ह कहूँ तौ न दीन्ह वनवास । करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू ॥

मन्त्री सुमन्त्रजीकी पत्नी और गुरु वसिष्ठजीकी स्त्री अरुन्धतीजी तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेहके साथ कोमल वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [राजाने] वनवास दिया नहीं है । इसलिये जो ससुर, गुरु और सास कहें, तुम तो वही करो ॥ ४ ॥

दो०—सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि ।

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८ ॥

यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीय मुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं लगी । [वे इस प्रकार व्याकुल हो गयी] मानो शरद् ऋतुके चन्द्रमाकी चाँदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो ॥ ७८ ॥

चौ०—सीय सकुच बस उतरु न देई । सी सुनि तमकि उठी कैकेई ॥

मुनि पटभूपन भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदु वानी ॥

श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगरका आर्तनाद (हाहाकार) सुना नहीं जाता। लङ्कामें बुरे शकुन होने लगे, अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और देवलोकमें सब हर्ष और विषाद दोनोंके वशमें हो गये। [हर्ष इस बातका था कि अब राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके कारण था] ॥ २ ॥

गइ मुरुछा तव भूपति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥
रामु चले बन प्राण न जाहीं । केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥

मूर्च्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने लगे—श्रीराम वनको चले गये, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं ॥ ३ ॥

एहि तैं कवन व्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजहिं तनु प्राणा ॥
पुनि धारे धीर कहइ नरनाहू । लै रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥

इससे अधिक बलवती और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजाने कहा—हे सखा ! तुम रथ लेकर श्रीरामके साथ जाओ ॥४॥

दो०—सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि ।

रथ चढाइ देखराइ वनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥ ८१ ॥

अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर, वन दिखलाकर चार दिनके बाद लौट आना ॥ ८१ ॥

चौ०—जौं नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढव्रत रघुराई ॥
तौतुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥

यदि धैर्यवान् दोनों भाई न लौटें—क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और दृढ़तासे नियमका पालन करनेवाले हैं—तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! जनक-कुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये ॥ ९ ॥

जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥
सासु ससुर अस कहेउ सँदेसू । पुत्रि फिरिअ वन बहुत कलेसू ॥

जब सीता वनको देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि

देखा कि सब लोग विरहकी अग्निमें जल रहे हैं । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया । फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंकी मण्डनीको बुलाया ॥ १ ॥

गुर सन कहि वरपासन दीन्हे । आदर दान विनय वस कीन्हे ॥
जाचक दान मान संतोपे । मीत पुनीत प्रेम परितोपे ॥

गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन (वर्षभरका भोजन) दिये और आदर, दान तथा विनयसे उन्हें वशमें कर लिया । फिर याचकोंको दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया ॥ २ ॥

दासीं दास बोलाइ वहोरी । गुरहि सौंपि बोले कर जोरी ॥
सब कै सार सँभार गोसाईं । करवि जनक जननी की नाईं ॥

फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकर, हाथ जोड़कर बोले— हे गुसाईं ! इन सबकी माता-पिताको समान सार-सँभार (देख-रेप) करते रहियेगा ॥ ३ ॥

वारहिं वार जोरि जुग पानी । कहत रामु सब सन मृदु वानी ॥
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि तें रहै भुआल सुखारी ॥

श्रीरामचन्द्रजी वार-वार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥

दो०—मातु सकल मोरे विरहँ जेहिं न होहिं दुख दीनि ।

सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रवीन ॥ ८० ॥

हे परम चतुर पुरवासी सज्जनो ! आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिसमे मेरी सब माताएँ मेरे विरहके दुःखसे दुखी न हों ॥ ८० ॥

चो०—एहिविधिरामसत्रहिसमुझावा । गुरपदपटुमहरपिसिरुनावा ॥

गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥

इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हृषित होकर गुरुजीके चरण-कमलोंमें सिर नवाया । फिर गणेशजी, पावँतीजी और कौन्तामपति महादेवजीको मनाकर तथा आशी-वाँद पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥ १ ॥

राम चलत अति भयउ विपाद । सुनि न जाइ पुर आरत नाद ॥

कुसगुन लंक अवध अति सोकू । हरप विपाद विवस सूँकोकू ॥

लागति अवध भयावनि भारी । मानहुँ कालराति अँधिआरी ॥
घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरपहिँ एकहिँ एक निहारी ॥

अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो ।
नगरके नर-नारी भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे हैं ॥ ३ ॥

घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥
बागन्ह विटप बेलि कुम्हिलहार्हीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ।

घर श्मशान, कुटुम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराजके दूत
है । वगीचोंमें वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं । नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं
कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ॥ ४ ॥

दो०—हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर ।

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३ ॥

करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरके [गाय, बैल, बकरी
आदि] पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर—॥ ८३ ॥

ची०—राम वियोग विकल सब ठाढ़े । जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखिकाढ़े ॥

नगरसफल बनुगहबर भारी । खग मृग विपुल सकल नर नारी ॥

श्रीरामजीके वियोगमें सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ऐसे चुपचाप स्थिर होकर]
खड़े हैं, मानो तस्वीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं । नगर मानो फलोंसे परिपूर्ण बड़ा भारी
सघन बन था । नगरनिवासी सब स्त्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे । (अर्थात् अवधपुरी
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलोंको देनेवाली नगरी थी और सब स्त्री-पुरुष सुखसे उन
फलोंको प्राप्त करते थे ।) ॥ १ ॥

विधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहिँ दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ।

सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥

विधाताने कैकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओंमें दुःसह दावाग्नि
(भयानक आग) लगा दी । श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह न सके ।
सब लोग व्याकुल होकर भाग चले ॥ २ ॥

तुम्हारे सास और ससुरने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री ! तुम लौट चलो, वनमें बहुत बलेश हैं ॥ २ ॥

पितुगृह कवहुँ कवहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥
एहि विधि करेहु उपाय कदंवा । फिरइ त होइ प्रान अवलंवा ॥

कभी पिताके घर, कभी ससुरार, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना । इस प्रकार तुम बहुत-से उपाय करना । यदि सीताजी लौट आयीं तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा ॥३॥

नाहिं त मोर मरनु परिनामा । कछु न वसाइ भएँ विधि वामा ॥
अस कहि मुरुछि परा महि राज । रामु लखनु सिय आनि देखाऊ ॥

नहीं तो अन्तमें मेरा मरण ही होगा । विधाताके विपरीत-होनेपर कुछ वश नहीं चलता । हाँ ! राम, लक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ । ऐसा कहकर राजा मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥

दो०—पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग बनाइ ।

गयउ जहाँ वाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२ ॥

सुमन्त्रजी राजाको आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसहित दोनों भाई थे ॥ ८२ ॥

चो०—तव सुमंत्र नृप वचन सुनाए । करि विनती रथ रामु चढ़ाए ॥

चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदयँ अवधहि सिरु नाई ॥

तब (वहाँ पहुँचकर) सुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीको सुनाये और विनती करके उनको रथपर चढ़ाया । सीताजीसहित दोनों भाई रथपर चढ़कर हृदयमें अयोध्याको सिर नवाकर चले ॥ १ ॥

चलत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सत्र लागे साथे ॥
कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिं । फिरहिं प्रेम वस पुनि फिरि आवहिं ॥

श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोध्याको अनाथ [होते हुए] देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही लिये । कृपाके समुद्र श्रीरामजी उन्हें बहुत तरहसे समझाते हैं, तो वे [अयोध्याकी ओर] लौट जाते हैं; परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं । २॥

(दुविधामें पड़ गये) । शोक और परिश्रम (थकावट) के मारे लोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३ ॥

जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥
खोज मारि रथु हाँकहु ताता । आन उपायँ बनिहि नहिं बाता ॥

जब दोपहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा—
हे तात ! रथके खोज मारकर (अर्थात् पहियोंके चिन्होंसे दिशाका पता न चले इस प्रकार) रथको हाँकिये । और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ४ ॥

दो०—राम लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ ।

सचिवँ चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥

शंकरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार हुए । मन्त्रीने तुरंत ही रथको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥

चौ०—जागे सकल लोग भएँ भोरु । गे रघुनाथ भयउ अति सोरु ॥

रथकर खोज कतहुँ नहिं पावहिं । राम राम कहि चहुँदिसिधावहिं ॥

सबेरा होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले गये । कहीं रथका खोज नहीं पाते, सब 'हा राम !' 'हा राम !' पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं ॥ १ ॥

मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥

एकहि एक देहिं उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥

मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो । वे एक-दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोंको क्लेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ ॥

निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥

जौं पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥

वे लोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं । [कहते हैं—] श्रीरामचन्द्रजीके बिना हमारे जीनेको धिक्कार है । विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा, तो फिर उसने माँगनेपर मृत्यु क्यों नहीं दी ? ॥ ३ ॥

सबहिं विचारु कीन्ह मन माहीं । राम लखन सिय विनु सुखु नाहीं ॥

जहाँ रामु तहँ सबुइ समाजू । विनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥

सबने मनमें विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके बिना सुख नहीं है । जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा । श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यामें हमलोगोंका कुछ काम नहीं है ॥ ३ ॥

चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई । सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई ॥

राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषय भोगवस करहिं कि तिन्हही ॥

ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंको भी दुर्लभ सुखोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब श्रीरामचन्द्रजीके साथ चल पड़े । जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषयभोग वशमें कर सकते हैं ॥ ४ ॥

दो०—बालक वृद्ध विहाइ गृहँ लगे लोग सब साथ ।

तमसा तीर निवासु कियं प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥

बच्चों और बूढ़ोंको घरोंमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये । पहले दिन श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके तीरपर निवास किया ॥ ८४ ॥

चो०—रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी । सद्य हृदयँ दुखु भयउ विसेपी ॥

करुनामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥

प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयालु हृदयमें बड़ा दुःख हुआ । प्रभु श्रीरघुनाथजी करुणामय हैं । परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हैं (अर्थात् दूसरेका दुःख देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते हैं) ॥ १ ॥

कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए । बहुविधि राम लोग समुझाए ॥

किए धरम उपदेश घनेरे । लोग प्रेम वस फिरहिं न फेरे ॥

प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे लोगोंको समझाया और बहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये; परंतु प्रेमवश लोग लौटाये लौटते नहीं ॥ २ ॥

सीलु सनेहु छाड़ि नहिं जाई । असमंजस वस भे रघुराई ॥

लोग सोग श्रम वस गए सोई । कछुक देवमायाँ मति मोई ॥

शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । श्रीरघुनाथजी असमंजसके अधी

(दुविधामें पड़ गये) । शोक और परिश्रम (थकावट) के मारे लोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३ ॥

जवहिं जाम जुग जामिनि वीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥
खोज मारि रथु हाँकहु ताता । आन उपायँ बनिहि नहिं बाता ॥

जब दोपहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा—
हे तात ! रथके खोज मारकर (अर्थात् पहियोंके चिन्होंसे दिशाका पता न चले इस प्रकार)
रथको हाँकिये । और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ४ ॥

दो०—राम लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ ।

सचिवँ चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥

शंकरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार हुए । मन्त्रीने तुरंत ही रथको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥

चौ०—जागे सकल लोग भएँ भोरु । गे रघुनाथ भयउ अति सोरु ॥

रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं । राम राम कहि चहुँदिसिधावहिं ॥

सबेरा होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले गये । कहीं रथका खोज नहीं पाते, सब 'हा राम !' 'हा राम !' पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं ॥ १ ॥

मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥

एकहि एक देहिं उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥

मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो । वे एक-दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोंको क्लेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ ॥

निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥

जौं पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥

वे लोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं । [कहते हैं—] श्रीरामचन्द्रजीके विना हमारे जीनेको धिक्कार है । विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा, तो फिर उसने माँगनेपर मृत्यु क्यों नहीं दी ? ॥ ३ ॥

एहि विधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा ॥
विषम वियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहिं प्राणा ॥

इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे संतापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये । उन लोगोंके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता । [चौदह सालकी] अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारि ।

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ॥ ८६ ॥

[सब] स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गये जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्यके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ८६ ॥

चो०—सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगवेरपुर पहुँचे जाई ॥

उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु विसेपी ॥

सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई शृङ्गवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गंगाजीको देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत् की ॥ १ ॥

लखन सचिवँ सियँ किए प्रनामा । सबहि सहित सुखु पायउ रामा ॥

गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥

लक्ष्मणजी, सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । गंगाजी समस्त आनन्द-मंगलोंकी मूल हैं । वे सब सुखोंकी करनेवाली और सब पीड़ाओंकी हरनेवाली हैं ॥ २ ॥

कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु विलोकहिं गंग तरंगा ॥

सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकार्ई ॥

अनेक कथा-प्रसङ्ग कहते हुए श्रीरामजी गङ्गाजीकी तरङ्गोंको देख रहे हैं । उन्होंने मन्त्रीको, छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देववदी गङ्गाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥

मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचिजलुपिअत मुदितमन भयऊ ॥

सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू ॥

इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम (धकावट) दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिनके स्मरणमात्रसे [बार-बार] जन्मने

और मरनेका] महान् श्रम मिट जाता है, उनको 'श्रम' होना—यह केवल लौकिक व्यवहार (नरलीला) है ॥ ४ ॥

दो०—सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु ।

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ ८७ ॥

शुद्ध (प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित, मायातीत दिव्य मङ्गलविग्रह) सच्चिदानन्द-कन्दस्वरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलके समान हैं ॥ ८७ ॥

चौ०—यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥

लिए फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा ॥

जब निषादराज गुहने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई-बन्धुओंको बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल-मूल (कन्द) लेकर और उन्हें भारों (वहँगियों) में भरकर मिलनेके लिये चला । उसके हृदयमें हर्षका पार नहीं था ॥ १ ॥

करि दंडवत भेंट धरि आगें । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें ॥

सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बैठाई ॥

दण्डवत् करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा । श्रीरघुनाथजीने स्वाभाविक स्नेहके वंश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी ॥ २ ॥

नाथ कुसल पद पंकज देखें । भयउँ भागभाजन जन लेखें ॥

देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । मैं जनु नीचु सहित परिवारा ॥

निषादराजने उत्तर दिया—हे नाथ ! आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल है । [आपके चरणारविन्दोंके दर्शन कर] आज मैं भाग्यवान् पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया । हे देव ! यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है । मैं तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हूँ ।

कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥

कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥

अब कृपा करके पुर (शृङ्गवेरपुर) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइये, जिससे सब लोग मेरे भाग्यकी बढ़ाई करें । [श्रीरामचन्द्रजीने कहा—] हे सुजान सखा ! तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है । परंतु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी है ॥ ४ ॥

एहि विधिकरत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा ॥
विषम वियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहिं प्राणा ॥

इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे संतापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये । उन लोगोंके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता । [चौदह सालकी] अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारि ।

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ॥ ८६ ॥

[सव] स्त्री-गुरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गये जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्यके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ८६ ॥

चौ०—सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगवेरपुर पहुँचे जाई ॥

उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु विसेपी ॥

सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई शृङ्गवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गंगाजीको देपकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत् की ॥ १ ॥

लखन सचिवँ सियँ किए प्रनामा । सवहि सहित सुखु पायउ रामा ॥

गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥

लक्ष्मणजी, सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । गंगाजी समस्त आनन्द-मंगलोंकी मूल हैं । वे सब सुखोंकी करनेवाली और सब पीड़ाओंकी हरनेवाली हैं ॥ २ ॥

कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु विलोकहिं गंग तरंगा ॥

सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥

अनेक कथा-प्रसङ्ग कहते हुए श्रीरामजी गङ्गाजीकी तरङ्गोंको देप रहे हैं । उन्होंने मन्त्रीको, छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥

मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयउ । सुचिजलु पिअत मुदित मन भयउ ॥

सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारु । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु ॥

इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम (यकावट) दूर गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिनके स्मरणमात्रसे [बार-

दो०—सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ ।

सयन कीन्ह रघुवंसमनि पाय पलोत्त भाइ ॥ ८६ ॥

सीताजी, सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी लेट गये । भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दबाने लगे ॥ ८६ ॥

चौ०—उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी ।

कछुकदूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बैठि बीरासन ।

फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीसे मन्त्री सुमन्त्रजीको सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनमें बैठकर जागने (पहरा देने) लगे ॥ १ ॥

गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावँ ठावँ राखे अति प्रीती ।

आपु लखन पहिँ बैठेउ जाई । कटि भाथी सर चाप चढाई ।

गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरमें तरकस बाँधकर तथा धनुषपर बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा

सोवत प्रभुहि निहारि निषादू । भयउ प्रेम बस हृदयँ विषादू ।

तनु पुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ।

प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो आया उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [प्रेमाश्रुओंका] जल बहने लगा । वह प्रेम सहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने लगा—॥ ३ ॥

भूपति भवन सुभायँ सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा ।

मनिमय रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ।

महाराज दशरथजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता । उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चौबारे (छतके ऊपर वंगले) हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है; ॥ ४ ॥

दो०—सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास ।

पलंग मंजु मनिदीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ ६० ॥

दो०—व्रष चारिदस वासु वन मुनि व्रत वेषु अहार ।

ग्राम वासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८ ॥

[उनके आज्ञानुसार] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंका व्रत और वेप धारण कर और मुनियोंके योग्य आहार करते हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना उचित नहीं है ! यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८ ॥

चौ०—राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए वन वालक ऐसे ॥

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्री-पुरुष प्रेमके साथ चर्चा करते हैं । [कोई कहती है—] हे सखी ! कहो तो वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे [सुन्दर सुकुमार] बालकोंको वनमें भेज दिया है ! ॥ ९ ॥

एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा ॥

तव निपादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥

कोई एक कहते हैं—राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ग्रह्याने नेत्रोंका लाभ दिया । तब निपादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अशोकके पेड़को [उनके छहरनेके लिये] मनोहर समझा ॥ २ ॥

लौ रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥

पुरजन करि जोहारु घर आए । रघुवर सन्ध्या करन सिधाए ॥

उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीरामचन्द्रजीने [देखकर] कहा कि यह सब प्रकारसे सुन्दर है । पुरवासीलोग जोहार (वन्दना) करके अपने-अपने घर लौटे और श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पधारे ॥ ३ ॥

गुहँ सँवारि साँथरी डसाई । कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥

सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥

गुहने [इसी बीच] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर सायरी सजाकर बिछा दी; और पवित्र, मोठे और कोमल देय-देयकर दोनोंमें भर-भरकर फल-मूल और पानी रख दिया [अथवा अपने हाथसे फल-मूल दोनोंमें भर-भरकर रख दिये] ॥ ४ ॥

ची०—भइ दिनकर कुल विटपकुठारी । कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥

भयउ विषादु निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥

वह सूर्यकुलरूपी वृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी । उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको दुखी कर दिया । श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निषादको बड़ा दुःख हुआ ॥१॥

बोले लखन मधुर मृदु बानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥

तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रससे सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले—हे भाई ! कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं है । सब अपने ही किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं ॥ २ ॥

जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥

जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू । संपति विपति करमु अरु कालू ॥

संयोग (मिलना), वियोग (बिछुड़ना), भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन—ये सभी भ्रमके फंदे हैं । जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काल—जहाँ-तक जगत्के जंजाल हैं; ॥ ३ ॥

धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥

धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूल मोह (अज्ञान) ही है । परमार्थतः ये नहीं हैं ॥ ४ ॥

दो०—सपनें होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ ।

जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ ॥ ६२ ॥

जैसे स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो जागने-पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य-प्रपञ्चको हृदयसे देखना चाहिये ॥ ६२ ॥

ची०—अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥

मोह निसाँ सबु सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥

ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना

जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्योंसे पूर्ण और फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित हैं; जहाँ सुन्दर पलंग और मणियोंके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम है ॥ ६० ॥

चो०—विविध वसन उपधान तुराई । छीर फेन मृदु विसद सुहाई ॥
तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छविरति मनोज मदु हरहीं ॥

जहाँ [ओढ़ने-विछानेके] अनेकों वस्त्र, तकिये और गद्दे हैं, जो दूधके फेनके समान कोमल, निर्मल (उज्ज्वल) और सुन्दर हैं; वहाँ (उन चौबारोंमें) श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और अपनी शोभासे रति और कामदेवके गर्वको हरण करते थे ॥१॥

ते सिय रामु साथरीं सोए । श्रमित वसन विनु जाहिं न जोए ॥
मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥

वही श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर बके हुए बिना वस्त्रके ही सोये हैं। ऐसी दशामें वे देखे नहीं जाते। माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी (प्रजा), मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास और दासियाँ—॥ २ ॥

जोगवहिं जिन्हहि प्राण की नाई । महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥

सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँभार करते थे, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आज पृथ्वीपर सो रहे हैं। जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगत्में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं ॥ ३ ॥

रामचंद्रु पति सो वैदेही । सोवत महि विधि वाम न केही ॥
सिय रघुवीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥

और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या वनके योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म (भाग्य) ही प्रधान है ॥ ४ ॥

दो०—कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह ।

जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ६१ ॥

कंकयराजकी लड़की नीचबुद्धि कैकेयीने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनन्दन श्रीरामजीको और जानकीजीको सुपके समय दुःख दिया ॥ ६१ ॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गुण कहते-कहते सवेरा हो गया । तब जगत्का मञ्जल करने-वाले और उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १ ॥

सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥

अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥

शौचके सब कार्य करके [नित्य] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया । फिर वड़का दूध मँगाया और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित उस दूधसे सिरपर जटाएँ बनायीं । यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोंमें जल छा गया ॥ २ ॥

हृदयँ दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि वचन अति दीना ॥

नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । लै रथु जाहु राम केँ साथ ॥

उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन (उदास) हो गया । वे हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन वचन बोले—हे नाथ ! मुझे कोसलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ ॥ ३ ॥

बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥

लखनु रामु सिय आनेहु फेरी । संसय सकल सँकोच निबेरी ॥

वन दिखाकर, गङ्गास्नान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत लौटा लाना । सब संशय और संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना ॥ ४ ॥

दो०—नृप अस कहेउ गोसाँई जस कहइ करौँ बलि सोइ ।

करि विनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ ६४ ॥

महाराजने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूँ; मैं आपकी बलिहारी हूँ । इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने बालककी तरह रो दिया ॥ ६४ ॥

ची०—तात कृपा करि कीजिअ सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥

मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा ॥

[और कहा—] हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर धैर्य बँधाते हुए समझाया कि हे तात ! आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्तोंको छान डाला है ॥ १ ॥

चाहिये । सब लोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके स्वप्न दिखायी देते हैं ॥ १ ॥

एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥

जानिअ तवहिं जीव जग जागा । जव सब विषय विलास विरागा ॥

इस जगत्‌रूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपञ्च (मायिक जगत्) से छूटे हुए हैं । जगत्‌में जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २ ॥

होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । तव रघुनाथ चरन अनुरागा ॥

सखा परम परमारथु एहू । मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥

विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है । तब (अज्ञानका नाश होनेपर) श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है । हे सखा ! मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ (पुरुषार्थ) है ॥ ३ ॥

राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥

सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥

श्रीरामजी परमार्थस्वरूप (परमवस्तु) परब्रह्म हैं । वे अविगत (जाननेमें न आनेवाले), अलख (स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनेवाले), अनादि (आदि-रहित), अनुपम (उपमारहित), सब विकारोंसे रहित और भेदशून्य हैं, वेद जिनका नित्य 'नेति-नेति' कहकर त्रिरूपण करते हैं ॥ ४ ॥

चौ०—भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल ।

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥ ६३ ॥

वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओंके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे जगत्‌के जंजाल मिट जाते हैं ॥ ६३ ॥

मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम

चौ०—सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय रघुवीर चरन रत होहू ॥

कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा ॥

हे सखा ! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें

सिद्धि दधीच हरिचंद्र नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥

रन्तिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥

शिवि, दधीचि और राजा हरिश्चन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों (अनेकों) कष्ट सह्ये । बुद्धिमान् राजा रन्तिदेव और बलि बहुत-से सङ्कट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे (उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया) ॥ २ ॥

धरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान वखाना ॥

मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥

वेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है । मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है । इस [सत्यरूपी धर्म] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा ॥ ३ ॥

संभावित कहूँ अपजस लाहूँ । मरन कोटि सम दाहन दाहूँ ॥

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ । दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ ॥

प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप देनेवाली है । हे तात ! मैं आपसे अधिक क्या कहूँ ! लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—पितु पद गहि कहि कोटि नतिविनयकरव कर जोरि ।

चिंता कवनिहु वात कै तात करिअ जनि मोरि ॥ ६५ ॥

आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करियेगा कि हे तात ! आप मेरी किसी बातको चिन्ता न करें ॥ ६५ ॥

चौ०—तुम्ह पुनिपितु समअतिहितमोरें । विनती करउँ तात कर जोरें ॥

सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे । दुखन पावपितु सोचहमारें ॥

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं । हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वही कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हमलोगोंके सोचमें दुःख न पायें ॥ १ ॥

सुनि रघुनाथ सचिव संवादू । भयउ सपरिजन विकल निपादू ॥

पुनि कछु लखन कही कटु वानी । प्रभु वरजे वड़ अनुचित जानी ॥

श्रीरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुम्बियोंसहित व्याकुल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया ॥ २ ॥

सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई ॥

कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । सहिनसकिहि सियविपिनकलेसू ॥

श्रीरामचन्द्रजीने सकुचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप जाकर लक्ष्मणका यह संदेश न कहियेगा । सुमन्त्रने फिर राजाका संदेश कहा कि सीता वनके क्लेश न सह सकेंगी ॥ ३ ॥

जेहि विधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥

नतरु निपट अवलंब बिहीना । मैंनजिअवजिमिजलविनुमीना ॥

अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रको वही उपाय करना चाहिये । नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा, जैसे बिना जलके मछली नहीं जीती ॥ ४ ॥

दो०—मइकेँ ससुरेँ सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान ।

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लागि विपति बिहान ॥ ६६ ॥

सीताके मायके (पिताके घर) और ससुरालमें सब सुख हैं । जबतक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तबतक वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ६६ ॥

चौ०—बिनती भूपकीन्ह जेहि भाँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥

पितुसँदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिखकोटि बिधाना ॥

राजाने जिस तरह (जिस दीनता और प्रेमसे) बिनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका संदेश सुनकर सीताजीको करोड़ों (अनेकों) प्रकारसे सीख दी ॥ १ ॥

सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू । फिरहु त सब कर मिटै खभारू ॥

सुनि पति वचन कहति वैदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥

[उन्होंने कहा—] जो तुम घर लौट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं

सिवि दधीच हरिचंद्र नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥
रन्तिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥

शिवि, दधीचि और राजा हरिश्चन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों (अनेकों) वण्ट सहे थे । बुद्धिमान् राजा रन्तिदेव और बलि बहुत-से सङ्कट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे (उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया) ॥ २ ॥

धरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान वखाना ॥
मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥

वेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है । मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है । इस [सत्यरूपी धर्म] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा ॥ ३ ॥

संभावित कहूँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दाहन दाहू ॥
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ । दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ ॥

प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप देनेवाली है । हे तात ! मैं आपसे अधिक क्या कहूँ ! लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करव कर जोरि ।

चिंता कवनिहु वात कै तात करिअ जनि मोरि ॥ ६५ ॥

आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करियेगा कि हे तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ६५ ॥

चौ०—तुम्ह पुनिपितु समअतिहितमौरें । विनती करउँ तात कर जोरें ॥

सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारें । दुखन पावपितु सोचहमारें ॥

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं । हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वही कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हमलोगोंके सोचमें दुःख न पावें ॥ १ ॥

सुनि रघुनाथ सचिव संवादू । भयउ सपरिजन त्रिकल निपादू ॥

पुनि कछु लखन कही कटु वानी । प्रभु वरजे बड अनुचित जानी ॥

गुरु एतादृश अवध निवासू । प्रिय परिवारु मातु सम सासू ॥
 नु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद नलागा ॥

ऐसे [ऐश्वर्य और प्रभावशाली] ससुर; [उनकी राजधानी] अयोध्याका
 वास; प्रिय कुटुम्बी और माताके समान सासुएँ—ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरण-
 मलोंकी रजके विना मुझे स्वप्नमें भी सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥

मगम पंथ बन भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥
 कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संग्गा ॥

दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ; कोल, भील,
 हिरन और पक्षी—प्राणपति (श्रीरघुनाथजी) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे ।

दो०—सासु ससुर सन मोरि हूँति विनय करवि परि पायँ ।
 मोर सोचु जनि करिअ कछु मै बन सुखी सुभायँ ॥ ६८ ॥

अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा
 कुछ भी सोच न करें; मैं वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ ॥ ६८ ॥

चौ०—प्राननाथ प्रिय देवर साथ्वा । वीर धुरीन धरें धनु भाथा ॥
 नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरें । मोहि लागि सोचु करिअ जनि भोरें ।

वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और [बाणोंसे भरे] तरकस धारण किये मेरे प्राण
 नाथ और प्यारे देवर साथ हैं । इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, न भ्रम है और न मे
 मनमें कोई दुःख ही है । आप मेरे लिये भूलकर भी सोच न करें ॥ १ ॥

सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी । भयउ विकल जनु फनि मनि हानी
 नयन सूझ नहिं सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु अति अकुलाना

सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे साँप मणि
 जानेपर । नेत्रोंसे कुछ सूझता नहीं, कानोंसे सुनायी नहीं देता । वे बहुत व्याकुल हो
 कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥

राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । तदपि होति नहिं सीतलि छार्ति
 जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे

श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया । तो भी उनकी

एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारु । नहिं जानउँ कछु अउर कवारु ॥
जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई धंधा नहीं जानता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण-कमल पखारने (धो लेने) के लिये कह दो ॥ ४ ॥

छं०—पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥
बरुतीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौं ।
तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥

हे नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लूंगा; मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता । हे राम ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजीकी सीगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक मैं पैरोंको पखार न लूंगा, तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! हे कृपालु ! मैं पार नहीं उतारूंगा ।

सो०—सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ।

विहसे करुनाएन चितइ जानकी लखन तन ॥ १०० ॥

केवटके प्रेममे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे ॥ १०० ॥

ची०—कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करुजेहिं तव नाव न जाई ॥
बेगि आनु जल पाय पखारु । होत बिलंबु उतारहि पारु ॥

कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले—भाई ! तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाय । जल्दी पानी ला और पैर धो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १ ॥

जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥

एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने [वामनावतारमें] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था

ठंडी न हुई । साथ चलनेके लिये मन्त्रीने अनेकों यत्न किये (युक्तियाँ पेश कीं), पर
रघुनन्दन श्रीरामजी [उन सब युक्तियोंका] यथोचित उत्तर देते गये ॥ ३ ॥

मेटि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करम गति कछु न बसाई ॥

राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाँई ॥

श्रीरामजीकी आज्ञा मेटो नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन है । उसपर कुछ
भी बश नहीं चलता । श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमन्त्र इस
तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन (पूंजी) गँवाकर लौटे ॥ ४ ॥

दो०—रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं ।

देखि निषाद विषादवस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥ ६६ ॥

सुमन्त्रने रथको हाँका, घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं । यह
देखकर निषादलोग विषादके बश होकर सिर धुन-धुनकर (पीट-पीटकर) पछताते हैं ॥६६॥

चो०—जासु वियोग विकल पसु ऐसैं । प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसैं ॥

वरवस राम सुमंत्रु पठाए । सुरसरि तीर आपु तव आए ॥

जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता कैसे
जीते रहेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने जबदंस्ती सुमन्त्रको लोटाया । तब आप गङ्गाजीके तीरपर आये ।

माँगी नाव न केवटु आना । कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥

चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥

श्रीरामने केवटसे नाव माँगी; पर वह लाता नहीं । वह कहने लगा—मैंने तुम्हारा
ममं (भेद) जान लिया । तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलके लिये सब लोग कहते हैं कि
वह मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २ ॥

छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥

तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई । वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥

जिसके छूते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी स्त्री हो गयी [मेरी नाव तो काठकी है] ।
काठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री हो जायगी और इस प्रकार
मेरी नाव उड़ जायगी, मैं लुट जाऊँगा [अथवा रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार न
हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी] (मेरी कमाने-खाने की राह ही मारी जायगी) ।

हिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू । नहिं जानउँ कछु अउर कवारू ॥
 ौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई धंधा नहीं
 ाता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण-
 मल पखारने (धो लेने) के लिये कह दो ॥ ४ ॥

छं०—पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥

वरुतीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौं ।

तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥

हे नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लूंगा; मैं आपसे कुछ
 तराई नहीं चाहता । हे राम ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजीकी सीगंध है, मैं सब
 च-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक मैं पैरोंको पखार न लूंगा,
 तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! हे कृपालु ! मैं पार नहीं उतारूंगा ।

सो०—सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ।

विहसे करुनाएन चितइ जानकी लखन तन ॥ १०० ॥

केवटके प्रेममे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाघाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी
 की लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे ॥ १०० ॥

वी०—कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई ॥

बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारू ॥

कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले—भाई ! तू वही कर जिससे
 तेरी नाव न जाय । जल्दी पानी ला और पैर धो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १ ॥

जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥

सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥

एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर
 जाते हैं, और जिन्होंने [वामनावतारमें] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था

(दो ही पगमें त्रिलोकीको नाप लिया था), वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी (गङ्गाजीसे पार उतारनेके लिये) केवटका निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥

पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु वचन मोहँ मति करषी ॥

केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥

प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी वृद्धि मोहसे खिच गयी थी [कि ये साक्षात् भगवान् होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं] । परंतु [समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्यान] पदनर्धोंको देखते ही [उन्हें पहचानकर] देवनदी गङ्गाजी हर्षित हो गयीं । (वे समझ गयीं कि भगवान् नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊँगी, यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं ।) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठीलेमें भरकर जल ले आया ॥ ३ ॥

अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥

वरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥

अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमंगकर वह भगवान्के चरणकमल घोने लगा । सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार ।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ १०१ ॥

चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल (चरणोदक) को पीकर पहले [उस महान् पुण्यके द्वारा] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रको गङ्गाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥

चो०—उतरि ठाढ़ भए सुरसरिरेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥

केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहिसकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥

नियादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [नावसे] उतरकर गङ्गाजीकी रेत (बालू) में खड़े हो गये । तब केवटने उतरकर दण्डवत् की । [उसको दण्डवत् करते देखकर] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥

पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥

कहेउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अक

एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू । नहिं जानउँ कछु अउर कवारू ।

जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ।

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई घंघा नहीं जानता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने (धो लेने) के लिये कह दो ॥ ४ ॥

छं०—पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥

बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लागि न पाय पखारिहौं ।

तव लागि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥

हे नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लूंगा; मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता । हे राम ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजीकी सौगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक मैं पैरोंको पखार न लूंगा तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! हे कृपालु ! मैं पार नहीं उतारूंगा ।

सो०—सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ।

बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥ १०० ॥

केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे ॥ १०० ॥

ची०—कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करुजेहिं तव नाव न जाई ॥

बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारू ॥

कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले—भाई ! तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाय । जल्दी पानी ला और पैर धो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १ ॥

जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥

सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥

एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने [वामनावतारमें] जगतको तीन पगसे भी छोटा कर दिया था

(दो ही पगमें त्रिलोकीको नाप लिया था), वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी (गङ्गाजीसे पार उतारनेके लिये) केवटका निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥

पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु वचन मोहँ मति करषी ॥
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥

प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिच गयी थी [कि ये साक्षात् भगवान् होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं] । परंतु [समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान] पदनोंको देखते ही [उन्हें पहचानकर] देवकी गङ्गाजी हर्षित हो गयीं । (वे समझ गयीं कि भगवान् नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊँगी, यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं ।) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठोतेमें भरकर जल ले आया ॥ ३ ॥

अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥
वरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥

अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमंगकर वह भगवान्के चरणकमल घौने लगा । तब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४ ॥

श्री०—पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार ।
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ १०१ ॥

चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल (चरणोदक) को पीकर पहले [उस महान् पुण्यके द्वारा] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रकी गङ्गाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥

श्री०—उतरि ठाढ़ भए सुरसरिरेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहि कछु दीन्हा ॥

निपादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [नावसे] उतरकर गङ्गाजीकी रेत (बालू) में खड़े हो गये । तब केवटने उतरकर दण्डवत् की । [उसकी दण्डवत् करतें देखकर] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥

पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उगरी ॥
कहेउ कृपालु लेहि उतराई । केवट चरन गहे अ

पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रत्नजटित अँगूठी [अँगुलीसे] उतारी । कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी उतराई लो । केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥

नाथ आजु मैं काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी ॥

[उसने कहा—] हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुख और दरिद्रताकी आग आज बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजदूरी की । विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥

अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें । दीनदयाल अनुग्रह तोरें ॥
फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा ॥

हे नाथ ! हे दीनदयाल ! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा ॥ ४ ॥

दो०—बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ नहिँ कछु केवटु लेइ ।

विदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ १०२ ॥

प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [या यत्न] किया, पर केवट कुछ नहीं लेता । तब-करुणाके धाम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२ ॥

चौ०—तव मज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नाथउ माथा ॥

सियँ सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥

फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको सिर नवाया । सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा—हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा ।

पति देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करौं जेहिँ पूजा तोरी ॥

सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी । भइ तव बिमल वारि वर बानी ॥

जिससे मैं पति और देवरके साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँ । सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई विनती सुनकर तब गङ्गाजीके निर्मल जलमेंसे श्रेष्ठ वाणी हुई—॥ २ ॥

(दो ही पगमें त्रिलोकीको नाप लिया था), वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी (गङ्गाजीसे पार उतारनेके लिये) केवटका निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥

पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोहँ मति करषी ॥
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥

प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी वृद्धि मोहसे छिच गयी थी [कि ये साक्षात् भगवान् होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं] । परंतु [समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान] पदनखोंको देखते ही [उन्हें पहचानकर] देवनदी गङ्गाजी हर्षित हो गयीं । (वे समझ गयीं कि भगवान् नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊँगी, यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं ।) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठीतेमें भरकर जल ले आया ॥ ३ ॥

अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥
वरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥

अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमंगकर वह भगवान्के चरणकमल घोने लगा । सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार ।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ १०१ ॥

चरणोंको घोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल (चरणोदक) को पीकर पहले [उस महान् पुण्यके द्वारा] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रको गङ्गाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥

चौ०—उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥

केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥

निपादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [नावसे] उतरकर गङ्गाजीकी रेत (बालू) में पड़े हो गये । तब केवटने उतरकर दण्डवत् की । [उसको दण्डवत् करते देखकर] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥

पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥

कहेउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥

सनेह राम लखि तासू । संग लीन्ह गुह हृदयँ हुलासू ॥
गुहँ ग्याति बोलि सब लीन्है । करि परितोषु विदा तब कीन्है ॥

उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ। फिर गुह (निषादराज) ने अपनी जातिके लोगोंको लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया ॥ ४ ॥

०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ ।
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥

तब प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित बनको चले ॥ १०४ ॥

वी०-तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू । लखन सखौँ सब कीन्ह सुपासू ॥
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥

उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मणजी और सखा गुहने [विश्रामकी] सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रातःकालकी सब क्रियाएँ करके जाकर तीर्थोंके राजा प्रयागके दर्शन किये ॥ १ ॥

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी
चारि पदारथ भरा भँडारू । पुन्य प्रदेश देस अति चारू

उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजीसहितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) से भण्डार भरा है, वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है ॥ २ ॥

छेत्रु अगम गढु गाढ सुहावा । सपनेहुँ नहिँ प्रतिपच्छिन्ह पा
सेन सकल तीरथ वर वीरा । कलुष अनीक दलन रनध

प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ (किला) है, जिसको स्व [पापहृषी] शत्रु नहीं पा सके हैं। सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े रणधीर हैं ॥ ३ ॥

संगसु सिंहासन सुठि सोहा । छत्रु अखयबहु मुनि मनु
अह गंग तरंगा । देखि होहिँ दुख दारिद

सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही । तव प्रभाउ जग विदित न केही ॥
लोकप होहिं विलोक्त तोरें । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें ॥

हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत्में किसे नहीं मातूम है। तुम्हारे [कृपादृष्टिसे] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं ॥ ३ ॥

तुम्ह जोहमहि बड़ि विनयसुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥
तदपि देवि में देवि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥

तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह तो मुझपर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है तो भी हे देवि ! मैं अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुम्हें आशीर्वाद दूंगी ॥ ४ ॥

दो०—प्राणनाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ ।

पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥ १०३ ॥

तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनःकामनाएँ पूरी होंगी और तुम्हारा सुन्दर यज्ञ जगत्भरमें छा जायगा ॥ १०३ ॥

चो०—गंग वचन सुनि मंगल मूला । सुदित सीयसुरसरिअनुकूला ॥

तव प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥

मङ्गलके मूल गङ्गाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी आनन्दित हुईं। तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निषादराज गुहसे कहा कि भैया ! अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया ॥ १ ॥

दीन वचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥

नाथ साथ रहि पंथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥

गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला—हे रघुकुलशिरोमणि ! मेरी विनती सुनिये। मैं नाथ (आप) के साथ रहकर रास्ता दिखाकर, चार (कुछ) दिन चरणोंकी सेवा करके—॥२॥

जेहिं वन जाइ रहव रघुराई । परनकुटी में करवि सुहाई ॥

तव मोहि कहँ जसि देव रजाई । सोइ करिहउँ रघुवीर दोहाई ॥

हे रघुराज ! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी (पत्तरी कुटिया) बन दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर (आप) की दुहाई है। मैं दै—ही कहूँगा

सनेह राम लखि तासू । संग लीन्ह गुह हृदयँ हुलासू ॥
 गुहँ ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥
 उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे
 हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ । फिर गुह (निषादराज) ने अपनी जातिके लोगोंको
 लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया ॥ ४ ॥

तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ ।
 सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥
 तब प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक
 नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित बनको चले ॥ १०४ ॥

तेहि दिन भयउ बिटपतर बासू । लखन सखौँ सब कीन्ह सुपासू ॥
 प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥
 उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ । लक्ष्मणजी और सखा गुहने [विश्रामकी
 सब सुव्यवस्था कर दी । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबरे प्रातःकालकी सब क्रियाएँ करके जाक
 तीर्थोंके राजा प्रयागके दर्शन किये ॥ १ ॥

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी
 चारि पदारथ भरा भँडारू । पुन्य प्रदेश देस अति चारू
 उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजी-
 हितकारी मित्र हैं । चार पदार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) से भण्डार भरा है
 वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है ॥ २ ॥

छेत्रु अगम गढु गाढ सुहावा । सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह प
 सेन सकल तीरथ वर वीरा । कलुष अनीक दलन रन
 प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ (किला) है, जिसको स
 [पापहृपी] शत्रु नहीं पा सके हैं । सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं,
 सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े रणधीर हैं ॥ ३ ॥

संगमु सिंहासनु सुठि सोहा । छत्रु अखयबदु मुनि मनु
 चवँर जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहिं दुख दारि

[गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका] सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। यमुनाजी और गङ्गाजीकी तरंगें उसके [श्याम और श्वेत] चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥

दो०—सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सव मनकाम ।

वंदी वेद पुरान गन कहहिं विमल गुन ग्राम ॥ १०५ ॥

पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणोंके समूह भाट हैं, जो उसके विमल गुणगणोंका बघान करते हैं ॥ १०५ ॥

चौ०—को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ । कल्पुप पुंज कुंजर मृगराऊ ॥

अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुवर सुखु पावा ॥

पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव (महत्त्व—माहात्म्य) कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया ॥ १ ॥

कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥

करि प्रनामु देखत वन वागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥

उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा गृहको तीर्थराजकी महिमा कहकर सुनायी। तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंको देखते हुए और बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए—॥ २ ॥

एहि विधि आइ विलोकी वेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥

मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाविधि तीरथ देवा ॥

इस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मङ्गलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [त्रिवेणीमें] स्नान करके शिवजीकी सेवा (पूजा) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन किया ॥ ३ ॥

तव प्रभु भरद्वाज पहि आए । करत दंडवत मुनि उर लाए ॥

मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु आई ॥

[स्नान, पूजन आदि सब करके] तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाजजीके

उन्हें दण्डवत् करते हुए ही मुनिने हृदयसे लगा लिया । मुनिके मनका आनन्द कुछ कह नहीं जाता । मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी हो ॥ ४ ॥

दो०—दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि ।

लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए विधि आनि ॥ १०६ ॥

मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद दिया । उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज विधाताने [श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर] मानो हमारे सम्पूर्ण पुण्योंके फलको लाकर आँखोंके सामने कर दिया । १०६

ची०—कुसल प्रस्न करि आसन दीन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ।

कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ।

कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया । फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल और अंकुर लाकर दिये ॥ १ ॥

सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥

भए बिगतश्रम रामु सुखारे । भरद्वाज मृदु बचन उचारे ॥

सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूलफलोंके बड़ी रुचिके साथ खाया । थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये । तब भरद्वाजजीने उनसे कोमल वचन कहे—॥ २ ॥

आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग विरागू ॥

सफल सकल सुभ साधन साजू । राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥

हे राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफल हो गया । आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३ ॥

लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरेँ दरस आस सब पूजी ॥

अव करि कृपा देहु वर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥

लाभकी सीमा और सुखकी सीमा [प्रभुके दर्शनको छोड़कर] दूसरी कुछ भी

[गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका] सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। यमुनाजी और गङ्गाजीकी तरंगें उसके [श्याम और श्वेत] चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥

दो०—सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम ।

बंदी वेद पुरान गन कहहिं विमल गुन ग्राम ॥ १०५ ॥

पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणोंके समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते हैं—॥ १०५ ॥

चौ०—को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ ॥

अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥

पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव (महत्त्व—माहात्म्य) कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया ॥ १ ॥

कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥

करि प्रनामु देखत वन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥

उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा गृहको तीर्थराजको महिना कहकर सुनायो। तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंको देखते हुए और बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए—॥ २ ॥

एहि विधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥

सुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाविधि तीरथ देवा ॥

इस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मङ्गलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [त्रिवेणीमें] स्नान करके शिवजीकी सेवा (पूजा) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन किया ॥ ३ ॥

तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए । करत दंडवत मुनि उर लाए ॥

मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु ॥

[स्नान, पूजन आदि सब करने] तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए । करत दंडवत मुनि उर लाए ॥

दो०—राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ ।

चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८ ॥

श्रीरामजीने रातको वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके और प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहके साथ वे चले ।

चौ०—रामसप्रेम कहेउ मुनिपार्हीं । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥

मुनि मन विहसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं ॥

[चलते समय] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा—हे नाथ! बताइये, हम किस मार्ग-से जायँ । मुनि मनमें हँसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं ॥१॥

साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । मुनि मन मुदित पचासक आए ॥

सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिं मगु दीख हमारा ॥

फिर उनके साथके लिये मुनिने शिष्योंको बुलाया । [साथ जानेकी बात] सुनते ही चित्तमें हर्षित हो कोई पचास शिष्य आ गये । सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है । सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥ २ ॥

मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥

करि प्रनामु रिषि आयसु पाई । प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई ॥

तब मुनिने [चुनकर] चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों-तक सब सुकृत (पुण्य) किये थे । श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर हृदयमें बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३ ॥

ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥

होहिं सनाथ जनम फलु पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥

जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्त्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने लगते हैं । जन्मका फल पाकर वे [सदाके अनाथ] सनाथ हो जाते हैं और मनको नाथके साथ भेजकर [शरीरसे साथ न रहनेके कारण] दुखी होकर लौट आते हैं ॥४॥

दो०—विदा किए बटु विनय करि फिरे पाइ मन काम ।

उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥ १०९ ॥

तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंको विदा किया; वे मन

हीं है। आपके दर्शनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिये
कें आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ ॥

श्री०—करम वचन मन छाड़ि छलु जव लागि जनु न तुम्हार ।

तव लागि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ १०७ ॥

जबतक कर्म, वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता,
जबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी स्वप्नमें भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७ ॥

श्री०—मुनिमुनिवचनरामसुकुचाने । भाव भगति आनंद अघाने ॥

तवरघुवरमुनि सुजसुसुहावा । कोटिभौतिकहिसवहि सुनावा ॥

मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्ति के कारण आनन्दसे तृप्त हुए भगवान् श्रीराम-
चन्द्रजी [लीलाकी दृष्टिसे] सकुचा गये। तब [अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए] श्रीरामचन्द्र-
जीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों (अनेकों) प्रकारसे कहकर सबको सुनाया ॥१॥

सो बड़ सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥

मुनि रघुवीर परसपर नवहीं । वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥

[उन्होंने कहा—] हे मुनीश्वर ! जिसको आप आदर दें, वही बड़ा है और
वही सब गुणसमूहोंका धर है। इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर
विनम्र हो रहे हैं और अनिवचनीय सुखका अनुभव कर रहे हैं ॥ २ ॥

यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥

भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ सुअन सुहाए ॥

यह (श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी) खबर पाकर प्रयागनिवासी
ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके लिये
भरद्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३ ॥

राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भए लहि लोयन लाहू ॥

देहि असीस परम सुखु पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥

श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया। नेत्रोंका लाभ पाकर सब आनन्दित
हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्रीरामजीके सौन्दर्य की गगनहा करते
हुए वे लौटे ॥ ४ ॥

कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमान्जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी !]

दो०—सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि ।

परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥ ११० ॥

अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [प्रेमविह्वल] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११० ॥

दो०—राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥

मनहुँ प्रेमु परमारथु दोऊ । मिलत धरें तन कह सबु कोऊ ॥

श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया। [उसे इतना आनन्द हुआ] मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [देखनेवाले] कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ (परमतत्त्व) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं ॥१॥

बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननिजानि सिसु दीन्हि असीसा ॥

फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा। उन्होंने प्रेमसे उमँगकर उसको उठा लिया। फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया। माता सीताजीने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥

कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥

पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥

फिर निषादराजने उसको दण्डवत् की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस (निषाद) से आनन्दित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगा और ऐसा आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए वन बालक ऐसे ॥

राम लखन सिय रूपु निहारी । होहिं सनेह बिकल नर नारी ॥

[इधर गाँवकी स्त्रियाँ कह रही हैं—] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता कैसे

चाही वस्तु (अनन्य भक्ति) पाकर लौटे । यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमुनाजीके जलमें स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके समान ही श्याम रंगका था ॥ १०६ ॥

चौ०—सुनत तीरवासी नर नारी । धाए निज निज काज विसारी ॥

लखन राम सिय सुंदरताई । देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥

यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्त्री-पुरुष [यह सुनकर कि निपादके साथ दो परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुन्दरी स्त्री आ रही है] सब अपना-अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे ॥ १ ॥

अति लालसा बसहिं मन माहीं । नाउँ गाउँ वृझत सकुचार्हीं ॥
जे तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥

उनके मनमें [परिचय जाननेकी] बहुत-सी लालसाएँ भरी हैं । पर वे नाम-गांव पूछते सकुचाते हैं । उन लोगोंमें जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे श्रीराम-चन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २ ॥

सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥
सुनि सबिषाद सकल पछितार्हीं । रानी रायँ कीन्ह भल नाहीं ॥

उन्होंने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये बनको चले हैं । यह सुनकर सब लोग दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया ॥ ३ ॥
तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुंज लघु बयस सुहावा ॥
कवि अलखित गति वेषु विरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥

उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ज, छोटी अवस्थाका और सुन्दर था । उसकी गति कवि नहीं जानते [अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता] । वह वैरागीके वेषमें था और मन, बचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था ॥ ४ ॥

[इस तेज-पुञ्ज तापसके प्रसङ्गको कुछ टीकाकार शोषक मानते हैं और कुछ लोगोंके देखनेमें यह अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता है; परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियोंमें है । गुसाईंजी अलौकिक अनुभववी पुरुष थे । पता नहीं, यहाँ इस शब्दनेमें क्या रहस्य है; परंतु यह शोषक तो नहीं है । इस तापसको जब 'कवि अर्था

कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमान्जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी !]

दो०—सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि ।

परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥ ११० ॥

अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [प्रेमविह्वल] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११० ॥

चौ०—राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥

मनहुँ प्रेसु परमारथु दोऊ । मिलत धरें तन कह सबु कोऊ ॥

श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया। [उसे इतना आनन्द हुआ] मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [देखनेवाले] कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ (परमतत्त्व) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं ॥१॥

बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननिजानि सिसु दीन्हि असीसा ॥

फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा। उन्होंने प्रेमसे उमँगकर उसको उठा लिया। फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया। माता सीताजीने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥

कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥

पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥

फिर निषादराजने उसको दण्डवत् की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस (निषाद) से आनन्दित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगा और ऐसा आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥

राम लखन सिय रूपु निहारी । होहिं सनेह विकल नर नारी ॥

[इधर गाँवकी स्त्रियाँ कह रही हैं—] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता कैसे

हैं जिन्होंने ऐसे (सुन्दर-सुकुमार) बालकोंको वनमें भेज दिया है। श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—तब रघुवीर अनेक विधि सखाहि सिखावनु दीन्ह ।

राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥ १११ ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [पर लौट जानेके लिये] समझाया ।

श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ ॥

चौ०—पुनि सियँ राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बंहोरी ॥

चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत बड़ाई ॥

फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया और सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले ॥ १ ॥

पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥

राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥

रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं । वे दोनों भाइयोंको देखकर उनमें प्रेम-पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगोंमें राजचिह्न देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच होता है ॥ २ ॥

मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ ॥

अगमु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥

[ऐसे राजचिह्नोंके होते हुए भी] तुमलोग रास्तेमें पंदल ही चल रहे हो; इससे हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही है । भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता है । तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है ॥ ३ ॥

करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥

जाब जहाँ लागि तहँ पहुँचाई । फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥

हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देघातक नहीं जाता । यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें । आप जहाँतक जायेंगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको प्रणाम करके लौट आवेंगे ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि पूँछहिं प्रेम बस पुलक गात जलु नैन ।

कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत मृदु बैन ॥ ११२ ॥

इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकितशरीर हो और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भरकर पूछते हैं। किंतु कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं ॥ ११२ ॥

चो०—जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुरनगर सिहाहीं ॥

केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥

जो गाँव और पुरवे रास्तेमें बसे हैं, नागों और देवताओंके नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान्ने किस शुभ घड़ीमें इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १ ॥

जहँ जहँ राम चरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥

पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहहिं सुरपुरवासी ॥

जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं—स्वर्गमें रहनेवाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं—॥ २ ॥

जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥

जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं ॥

जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं ॥ ३ ॥

जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई । करहिं कल्पतरु तासु बड़ाई ॥

परसि राम पद पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥

जिस वृक्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है ॥ ४ ॥

दो०—छाँह करहिं घन विबुधगन वरषहिं सुमन सिहाहिं ।

देखत गिरि बन विहग मृग रामु चले मग जाहिं ॥ ११३ ॥

हैं जिन्होंने ऐसे (सुन्दर-सुकुमार) बालकोंको वनमें भेज दिया है। श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—तव रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह ।

राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥ १११ ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [घर लौट जानेके लिये] समझाया। श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ ॥

चौ०—पुनि सियँ राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥

चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत बड़ाई ॥

[फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया और सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले ॥ १ ॥

पथिक अनेक मिलहिँ मग जाता । कहहिँ सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥

राज लखन सत्र अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥

रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयोंको देखकर उनमें प्रेम-पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगोंमें राजचिह्न देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच होता है ॥२॥

मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ ॥

अगमु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महुँ साथ नारि सुकुमारी ॥

[ऐसे राजचिह्नोंके होते हुए भी] तुमलोग रास्तेमें पँदल हो चन रहे हो; इससे हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता है। तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है ॥ ३ ॥

करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलहिँ जो आयसु होई ॥

जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिरव बहोरि तुम्हहिँ सिरु नाई ॥

हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँतक जायेंगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर आतको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे ॥ ४ ॥

चौ०—एक कलस भरि आनहिं पानी । अँचइअनाथ कहहिं मृदु बानी
सुनि प्रियवचन प्रीति अति देखी । राम कृपाल सुसील विसेषी

कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणीसे कहते हैं—नाथ ! आचम तो कर लीजिये । उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने—॥ १ ॥

जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं
मुदित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा

मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामें विश्राम किया । स्वर्णपुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हैं । अनुपम रूपने उनके नेत्र और मनोंको लुभा लिया है एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा । तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ।

सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह (तन्म होकर) देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं । श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षरंगका (श्याम) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंका मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३ ॥

दामिनि बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ।

विजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले मालूम होते हैं । वे नखसे शिखात सुन्दर हैं और मनको बहुत भाते हैं । दोनों मुनियोंके (वल्कल आदि) वस्त्र पहने हैं और कमरमें तरकस कसे हुए हैं । कमलके समान हाथोंमें धनुष-बाण शोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल ।

सरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ ११५ ॥

उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षःस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरत्पूर्णमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूंदोंका समूह शोभित हो रहा है

चौ०—बरनि नजाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ।

राम लखन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ।

उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत अधि

रास्तेमें बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिंहाते हैं । पबंत, वन और पशु-पक्षियोंको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं ॥ ११३ ॥

दो०—सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥

सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी । चलहिं तुरत गृहकाजु बिसारी ॥

सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी जब किसी गाँवके पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक-बूढ़े, स्त्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजको मूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल देते हैं ॥ १ ॥

राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहिं सुखारी ॥

सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दोउ वीरा ॥

श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [परम] फल पाकर वे सुखी होते हैं । दोनों भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दमें मग्न हो गये । उनके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो गये ॥ २ ॥

वरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥

एकन्ह एक बोलि सिख देहीं । लोचन लाहु लेहु छन एहीं ॥

उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती । मानो दरिद्रोंने चिन्तामणिकी ढेरी पा ली हो । वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका लाभ ले लो ॥ ३ ॥

रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहिं संग लागे ॥

एक नयन मग छवि उर आनी । होहिं सिथिल तन मन बर वानी ॥

कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं । कोई नेत्रभागसे उनकी छविको हृदयमें लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते हैं (अर्थात् उनके शरीर, मन और वाणीका व्यवहार बंद हो जाता है) ॥ ४ ॥

दो०—एक देखि बट छाँह भलि डसि मृदुल तृन पात ।

कहहिं गवाँइअ छिनुकु श्रमु गवनव अवहिं कि प्रात ॥ ११४ ॥

कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षणभर यहाँ बैठकर यकावट मिटा लीजिये । फिर चाहे अभी चले जाइयेगा, चाहे सचरे

चौ०—कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥

सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥

हे सुमुखि ! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाले ये तुम्हारे कौन हैं ? उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-ही-मन मुसकरायीं ॥ १ ॥

तिन्हहि विलोकि विलोकति धरनी । दुहुँ संकोच सकुचति बरवरनी ॥

सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी । बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥

उत्तम (गौर) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [संकोचवश] पृथ्वीकी ओर देखती हैं । वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं (अर्थात् न बतानेमें ग्रामकी स्त्रियोंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें लज्जारूप संकोच) । हिरनके बच्चेके सदृश नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं—॥ २ ॥

सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥

बहुरि वदनु विधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥

ये जो सहजस्वभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं, उनका नाम लक्ष्मण है । ये मेरे छोटे देवर हैं । फिर सीताजीने [लज्जावश] अपने चन्द्रमुखको आंचलसे ढककर और प्रियतम (श्रीरामजी) की ओर निहारकर भौंहें टेढ़ी करके, ॥ ३ ॥

खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सियँ सयननि ॥

भई सुदित सब ग्रामवधूर्ती । रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ॥

खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रोंको तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें कहा कि ये (श्रीरामचन्द्रजी) मेरे पति हैं । यह जानकर गाँवकी सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार आनन्दित हुईं, मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ लूट ली हों ॥ ४ ॥

दो०—अति सप्रेम सिय पायँ परि बहुविधि देहिं असीस ।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लागि महि अहि सीस ॥ ११७ ॥

वे अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं (शुभकामना करती हैं) कि जवतक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तवतक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो ॥ ११७ ॥

है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। शीघ्र, लज्जन और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग नद,
चित्त और बुद्धि-तीनोंको लगाकर देख रहे हैं ॥ १ ॥

थके नारि नर प्रेम पित्रासे । मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से ॥

सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं ॥

प्रेमके प्यासे [वे गाँवोंके] स्त्री-मुख्य [इनके लीन्दर-नाशुपकी छटा देखकर]
ऐसे थकित रह गये जैसे दीपकको देखकर हिरली और हिरन [निन्दर रह जाते हैं] !
गाँवोंकी स्त्रियाँ सीताजीके पास जाती हैं; परन्तु कल्पित स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २ ॥

बार बार सब लागहिं पाएँ । कहहिं वचन मृदु सरल सुभाएँ ॥

राजकुमारि विनय हम करहीं । तिय सुभायँ कहुँ पूँछत डरहीं ॥

बार-बार सब उनके पाँव लगती और सहज ही छोड़े-छाड़े कोमल वचन कहती
हैं—हे राजकुमारी ! हम विनयी करती (कुछ निवेदन करना चाहती) हैं, परन्तु स्त्री-
स्वभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं ॥ ३ ॥

स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विलगु न मानव जानि गवाँरी ॥

राजकुअँर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें लही द्रुति मरकत सोने ॥

हे स्वामिनि ! हमारी डिगाई बना कीजियेगा और हमको गँवारी जानकर द्रुच
न मानियेगा । ये दोनों राजकुमार स्वभावसे ही लावन्नम (परल सुन्दर) हैं । नरकड-
मणि (पत्ते) और सुवर्णने कान्ति इन्होंने पायी है (क्योंकि नरकडमणि और स्वर्णने
जो हरित और स्वर्णवर्णकी आभा है, वह इनकी हरितामनील और स्वर्णकान्तिके एक बगके
बराबर भी नहीं है) ॥ ४ ॥

दो०—स्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐन ।

सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोत्ह नेन ॥ ११६ ॥

श्याम और गौरवर्ण हैं, सुन्दर किशोर अवस्था हैं; दोनों ही परल सुन्दर और
शोभाके धाम हैं । शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और सरद-शुभके कनकके
समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६ ॥

मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम
नवाह्नपारायण, चौथा विश्राम

१०—पारवती सम पतिप्रिय होहू । देवि न हम पर छाड़व छोहू ॥

पुनिपुनिविनय करिअकरजोरी । जौं एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥

और पावतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ । हे देवि ! हमपर कृपा न
हना (बनाये रखना) । हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जिसमें आप फिर
ही रास्ते लौटें, ॥ १ ॥

रसनु देव जानि निज दासी । लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी ॥

धुर वचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं ॥

और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें । सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी
ब्रा और मधुर वचन कह-कहकर उनका भलीभाँति संतोष किया, मानो चाँदनीने कुमु-
नियोंको खिलाकर पुष्ट कर दिया हो ॥ २ ॥

वहिं लखन रघुवर रख जानी । पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥

जुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात विलोचन बारी ॥

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोकोसे
स्ता पूछा । यह सुनते ही स्त्री-मुरूप दुखी हो गये । उनके शरीर पुलकित हो गये और
श्रीमें [वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका] जल भर आया ॥ ३ ॥

मेटा मोटु मन भए मलीने । विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥

समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥

उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये, मानो विधाता दो हुई सम्पत्ति
लेता हो । कर्मकी गति समझकर उन्होंने धर्म धारण किया और अच्छी तरह निपंय
रके सुगम मार्ग बतला दिया ॥ ४ ॥

दो०—लखन जानकी सहित तव गवनु कीन्ह रघुनाथ ।

फेरे सब प्रिय वचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ ११८ ॥

तब लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन किया और सब लोकोको
प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनोको अपने साथ ही लगा लिया ॥ ११८ ॥

ती०—फिरत नारिनर अतिपछिताहीं । दैअहि दोषु देहिं मन माहीं ॥

सहित विपाद परसपर कहहीं । विधि करतव उलटे सब अहहीं

पीड़ासे] सोह रही हों (दुखी हो रही हों) । इनके चरणकमलोंको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे उत्तम वाणी कहती हैं—॥ १ ॥

परसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥
जौं जगदीस इन्हहि वनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥

इनके कोमल और लाल-लाल चरणों (तलवों) को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं । जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया ? ॥ २ ॥

जौं मागा पाइअ विधि पाहीं । ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं ॥
जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥

यदि ब्रह्मासे माँगे मिले तो हे सखि ! [हम तो उनसे माँगकर] इन्हें अपनी आँखोंमें ही रक्खें । जो स्त्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके ॥ ३ ॥

सुनि सुरुपु बूझहिं अकुलाई । अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥

उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई ! अबतक वे कहाँतक गये होंगे ? और जो समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मका परम फल पाकर, विशेष आनन्दित होकर लौटते हैं ॥ ४ ॥

दो०—अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं ।

होहिं प्रेमवस लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहिं ॥ १२१ ॥

[गर्भवती, प्रसूता आदि] अबला स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े [दर्शन न पानेसे] हाथ मलते और पछताते हैं । इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ लोग प्रेमके वशमें हो जाते हैं ॥ १२१ ॥

चौ०—गावँ गावँ अस होइ अनंदू । देखि भानुकुल कैरव चंदू ॥

जे कछु समाचार सुनि पावहिं । ते नृप रानिहि दोसु लगावहिं ॥

सूर्यकुलरूपी कुमुदिनीके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कर गाँव-गाँवमें ऐसा ही आनन्द हो रहा है । जो लोग [वनवास दिये जानेका] कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [दशरथ-कैकेयी] को दोष लगाते हैं ॥ १ ॥

एक कहते हैं—ये स्वभावसे ही सुन्दर हैं [इनका सौन्दर्य-भाष्यं नित्य और स्वाभाविक है] । ये अपने-आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १ ॥

जहँ लागि वेद कही विधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥
देखहु खोजि भुअन दस चारी । कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥

हमारे कानों, नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विघाताकी करनीको जहाँतक वेदोंने वर्णन करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें बूढ़ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? [कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि ये विघाताके चौदहों लोकोंसे अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निमित्त हुए हैं।] ॥ २ ॥

इन्हहि देखि विधि मनु अनुरागा । पटतर जोग बनावै लागा ॥
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए । तेहिँ इरिषा वन आनि दुराए ॥

इन्हें देखकर विघाताका मन अनुरक्त (मुग्ध) हो गया, तब वह भी इन्हींकी उपमाके योग्य दूसरे स्त्री-पुरुष बनाने लगा । उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलमें ही नहीं आये (पूरे नहीं उतरे) । इसी ईर्ष्याके मारे उसने इनको जंगलमें लाकर छिपा दिया है ॥ ३ ॥

एक कहहिँ हम बहुत न जानहिँ । आपुहि परम धन्य करि मानहिँ ॥
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहिँ देखिहहिँ जिन्ह देखे ॥

कोई एक कहते हैं—हम बहुत नहीं जानते । हाँ, अपनेको परम धन्य अवश्य मानते हैं [जो इनके दर्शन कर रहे हैं] । और हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान् हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे ॥ ४ ॥

श्लो०—एहि विधि कहि कहि वचन प्रिय लेहिँ नयन भरि नीर ।

किमि चलिहहिँ मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥

इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेत्रोंमें [प्रेमानुओंका] जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गम (कठिन) मार्गमें कैसे चलेंगे ॥ १२० ॥

श्लो०—नारि सनेह विकल बस होर्हीं । चकई साँझ समय जनु सोर्हीं ॥

मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहवरि हृदयँ कहहिँ चर त्रानी ॥

स्त्रियाँ स्नेहवशा विकल हो जाती हैं, मानो सन्ध्याके समय चकवी [भाषी वियोगकी

उपमा कहता हूँ कि मानो बुध (चन्द्रमाके पुत्र) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी (चन्द्रमाकी स्त्री) सोह रही हो ॥ २ ॥

प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति समीता ॥
सीय राम पद अंक बराएँ । लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [जमीनपर अङ्कित होनेवाले दोनों] चरणचिह्नोंके बीच-बीचमें पैर रखती हुई सीताजी [कहीं भगवान्के चरणचिह्नोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे] डरती हुई मार्गमें चल रही हैं और लक्ष्मणजी [मर्यादाकी रक्षाके लिये] सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिह्नोंको बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं ॥ ३ ॥

राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥
खग मृग मगन देखि छबि होहीं । लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है (अर्थात् अनिर्वचनीय है), अतः वह कैसे कही जा सकती है? पक्षी और पशु भी उस छबिको देखकर (प्रेमानन्दमें) मग्न हो जाते हैं। पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्तचुरा लिये हैं ॥४॥

दो०—जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ ।

भव मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ १२३ ॥

प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंको जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होंने भवका अगम मार्ग (जन्म-मृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक मार्ग) बिना ही परिश्रम आनन्दके साथ तै कर लिया (अर्थात् वे आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये) ॥

चो०—अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ । बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ ॥

राम धाम पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥

आज भी जिसके हृदयमें स्वप्नमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम—तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा, जिस मार्गको कभी कोई विरसे ही मुनि पाते हैं ॥ १ ॥

तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥

तहँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई ॥

तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष

कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू ॥

कहहिं परसपर लोग लोगार्इ । वातें सरल सनेह सुहाई ॥

कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रोंका लाभ दिया। स्त्री-पुरुष सभी आपसमें सीधी, स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं ॥ २ ॥

ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए । धन्य सो नगरु जहाँ तें आए ॥

धन्य सो देसु सैलु वन गाऊँ । जहँ जहँ जाहि धन्य सोइ ठाऊँ ॥

[कहते हैं—] वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है, जहाँसे ये आये हैं। वह देश, पर्वत, वन और गाँव धन्य है और वही स्थान धन्य है, जहाँ-जहाँ ये जाते हैं ॥ ३ ॥

सुखु पायउ विरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥

राम लखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥

ब्रह्माने उसीको रचकर सुख पाया है, जिसके ये (श्रीरामचन्द्रजी) सब प्रकारसे स्नेही हैं। पथिकरूप श्रीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन्ह सुख देत ।

जाहिं चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२ ॥

रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंको सुख देते हुए सीताजी और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १२२ ॥

चो०—आगें रामु लखनु वने पाछें । तापस वेप विराजत काछें ॥

उभय बीच सिय सोहति कैसें । ब्रह्म जीव विच माया जैसें ॥

आगे श्रीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं। तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीचमें माया ! ॥ १ ॥

बहुरि कहउँ छवि जसि मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥

उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही । जनु बुध विधु विच रोहिनि सोही ॥

फिर जैसी छवि मेरे मनमें बस रही है, उसको कहता हूँ—मानो वसन्त और कामदेवके बीचमें रति (कामदेवकी स्त्री) शोभित हो। फिर अपने हृदयमें

वाल्मीकि मन आनँदु भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥
तव कर कमल जोरि रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥

[मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी] मङ्गल-मूर्तिको नेत्रोंसे देखकर वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द हो रहा है । तब श्रीरघुनाथजी कमलसदृश हाथोंको जोड़कर, कानोंको सुख देनेवाले मधुर वचन बोले—॥ ३ ॥

तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा । विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनू रानी ॥

हे मुनिनाथ ! आप त्रिकालदर्शी हैं । सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्खे हुए बेरके समान है । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी कैंकेयीने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तारसे सुनायी ॥ ४ ॥

दो०—तात वचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ ।

मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ १२५ ॥

[और कहा—] हे प्रभो ! पिताकी आज्ञा [का पालन], माताका हित और भरत-जैसे [स्नेही एवं धर्मात्मा] भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है ॥ १२५ ॥

चो०—देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥

अब जहँ राउर आयसु होई । मुनि उदवेगु न पावै कोई ॥

हे मुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये (हमें सारे पुण्योंका फल मिल गया) । अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेगको प्राप्त न हो—॥ १ ॥

मुनि तापस जिन्ह तेँ दुखु लहहीं । ते नरेस विनु पावक दहहीं ॥

मंगल मूल विप्र परितोषू । दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू ॥

क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्निके ही (अपने दुष्ट कर्मोंसे ही) जलकर भस्म हो जाते हैं । ब्राह्मणोंका संतोष सब मङ्गलोंकी जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलोंको भस्म कर देता है ॥ २ ॥

और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गये । कन्द, मूल, फल खाकर [रातभर वहाँ रहकर] प्रातःकाल स्नान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले ॥ २ ॥

देखत वन सर सैल सुहाए । वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए ॥

राम दीख मुनि वासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥

सुन्दर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रममें आये । श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है ॥ ३ ॥

सरनि सरोज विटप वन फूले । गुंजत मंजु मधुप रसं भूले ॥

खग मृग विपुल कोलाहल करहीं । विरहित वैर मुदित मन चरहीं ॥

सरोवरोंमें कमल और वनोंमें वृक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रसमें मस्त हुए भीरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं । बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन ।

मुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयउ लेन ॥ १२४ ॥

पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए । रघुश्रेष्ठ श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १२४ ॥

चो०—मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरवाढु विप्रवर दीन्हा ॥

देखि राम छवि नयन जुड़ाने । करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥

श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत् किया । विप्रश्रेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया । श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये । सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रममें ले आये ॥ १ ॥

मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद मूल फल मधुर मगाए ॥

सिय सौमित्रि राम फल खाए । तव मुनि आश्रम दिए सुहाए ॥

श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द-मूल और फल मँगवाये । श्रीसौताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फलोंको खाया । तब मुनिने उनको [विश्राम करनेके लिये] सुन्दर स्थान बतला दिये ॥ २ ॥

नेवाले हैं। जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने-
है? ॥ १ ॥

इ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥
हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥

वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप
न जाता है। हे रघुनन्दन ! हे भक्तोंके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन ! आपकी ही
कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २ ॥

विदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥

आपकी देह विदानन्दमय है (यह प्रकृतिजन्य पञ्चमहाभूतोंकी बनी हुई कर्म-
बन्धनयुक्त त्रिदेहविशिष्ट मायिक नहीं है) और [उत्पत्ति-नाश, वृद्धि-क्षय आदि] सब
विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतोंके
कार्यके लिये [दिव्य] नर-शरीर धारण किया है और प्राकृत (प्रकृतिके तत्त्वोंसे निर्मित
देहवाले, साधारण) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं ॥ ३ ॥

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाच

हे राम ! आपके चरित्रोंको देख और सुनकर मूर्खलोग तो मोहको प्राप्त
और ज्ञानीजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते, करते हैं, वह सब सत्य (उचित)
है; क्योंकि जैसा स्वाँग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिये (इस समय आप मनु-
हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है) ॥ ४ ॥

दो०—पूँछेहु मोहि कि रहौँ कहँ मैं पूँछत सकुचाउँ ।
जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावौँ ठाउँ ॥ १

आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ? परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि
हों वह स्थान बता दीजिये। तब मैं आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊँ ॥ १ ॥

चौ०—सुनि सुनि वचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ
नि मैंमि कहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ

अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ । सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ ॥
तहँ रचि रुचिर परन वृन साला । वासु करौं कछु काल कृपाला ॥

ऐसा हृदयमें समझकर—वह स्थान बतलाइये जहाँ मैं लक्ष्मण और सीतासहित जाऊँ और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयालु ! कुछ समय निवास करूँ ॥३॥

सहज सरल सुनि रघुवर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥

श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले—धन्य ! धन्य ! हे रघुकुलके ध्वजास्वरूप ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप सदैव वेदकी मर्यादाका पालन (रक्षण) करते हैं ॥ ४ ॥

छं०—श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।

जो सृजति जगु पालति हरति रूख पाइ कृपानिधान की ॥

जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी ।

सुर काज धरि नरराज तनुचले दलनखल निसिचर अनी ॥

हे राम ! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [आपकी स्वरूपमूर्ता] माया हैं, जो कृपाके भण्डार आपकी रूख पाकर जगत्का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तकवाले, सर्पोंके स्वामी और पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी शेषजी लक्ष्मण हैं। देवताओंके कार्यके लिये आप राजाका शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं।

सो०—राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर ।

अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥

हे राम ! आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे, अव्यक्त, अपण्यनीय और अपार है। वेद निरन्तर उसका 'नेति-नेति' कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६ ॥

बौ०—जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥

तेउ न जानहिं मरसु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥

हे राम ! जगत् दृश्य है, आप उसके देखनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और

जिसकी नासिका प्रभु (आप) के पवित्र और सुगन्धित [पुष्पादि] सुन्दर
 सादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती (सूँघती) है; और जो आपको अर्पण करके
 भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं; ॥ १ ॥

भीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥
 हर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदयँ नहिं दूजा ॥

जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्रताके साथ प्रेम-सहित
 कुं जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी (आप) के चरणोंकी पूजा करते हैं और
 उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी (आप) का ही भरोसा है, दूसरा नहीं; ॥ २ ॥

चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
 मन्त्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥

तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी (आप) के तीर्थोंमें चलकर जाते हैं, हे राम-
 भो! आप उनके मनमें निवास कीजिये । जो नित्य आपके [रामनामरूप] मन्त्रराजको
 जपते हैं और परिवार (परिकर) सहित आपकी पूजा करते हैं, ॥ ३ ॥

अर्पण होम करहिं बिधि नाना । बिप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना ॥
 तेंअधिकगुरहि जियँ जानी । सकल भायँ सेवहिं सनमानी ॥

जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर
 हुत दान देते हैं तथा जो गुरुको हृदयमें आपसे भी अधिक (बड़ा) जानकर सर्वभावसे
 सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥ ४ ॥

दो०—सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्ह केँ मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२६ ॥

और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके
 चरणोंमें हमारी प्रीति हो, उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी और रघुकुलको आनन्दित
 करनेवाले आप दोनों बसिये ॥ १२६ ॥

ती०—काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥

जिन्ह केँ कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह केँ हृदय बसहु रघुराया ॥

जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है;

मुनिके प्रेमरससे सने हुए बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [रहस्य छुल जानेके डरसे] सकुचाकर मनमें मुसकराये । वाल्मीकिजी हँसकर फिर अमृत-रसमें डुबोयी हुईं मोठी वाणी बोले—॥ १ ॥

सुनहु राम अब कहउँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥

हे रामजी ! सुनिये, अब मैं वे स्थान बताता हूँ, जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी समेत निवास करिये । जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे-
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह खरे ॥
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥

निरन्तर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे (तृप्त) नहीं होते, उनके हृदय आपके लिये सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक बना रक्खा है, जो आपके दर्शन-रूपी मेघके लिये सदा लालायित रहते हैं; ॥ ३ ॥

निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप विंदु जल होहिं सुखारी ॥

तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥

तथा जो भारी-भारी नदियों, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके सौन्दर्य [रूपी मेघ] के एक बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं (अर्थात् आपके दिव्य सच्चिदानन्दमय स्वरूपके किसी एक अंगकी जरा-सी भी क्षाँकीके सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत्के अर्थात् पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते हैं), हे रघुनायजी ! उन लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित निवास कीजिये ॥ ४ ॥

दो०—जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु ।

सुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥ १२८ ॥

आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण-समूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है, हे रामजी ! आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ ॥

चो०—प्रभु प्रसाद सुचिसुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥

तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूपन धरहीं ॥

गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥

जो गुणोंको आपका और दोषोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही भरोसा है और रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये ।

जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदयँ रहहु रघुराई ॥

जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर—सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदयमें धारण किये रहता है, हे रघुनाथजी ! आप उसके हृदयमें रहिये ॥ ३ ॥

सरगु नरकु अपबरगु समाना । जहँ तहँ देख धरें धनु बाना ॥
करम वचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥

स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हैं, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ (सब जगह) केवल धनुष-बाण धारण किये आपको ही देखता है; और जो कर्मसे, वचनसे और मनसे आपका दास है; हे रामजी ! आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४ ॥

दो०—जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ १३१ ॥

जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मनमें निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है ॥ १३१ ॥

चौ०—एहि विधि मुनिवर भवन देखाए । वचन सप्रेम राम मन भाए ॥

कह मुनिसुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहउँ समय सुखदायक ॥

इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये । उनके प्रेमपूर्ण वचन श्रीरामजीके मनको अच्छे लगे । फिर मुनिने कहा—हे सूर्यकुलके स्वामी ! सुनिये, अब मैं इस समयके लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ (निवासस्थान बतलाता हूँ) ॥ १ ॥

चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥

सैलु सुहावन कानन चारू । करि केहरि मृग विहग विहारू ॥

न राग है, न द्वेष है और न कपट, दम्भ और माया ही है—हे रघुराज ! आप उनके हृदयमें निवास कीजिये ॥ १ ॥

सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥
कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥

जो सबके प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा (बड़ाई) और गाली (निन्दा) समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ही शरण हैं, ॥ २ ॥

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नार्हीं । राम बसहु तिन्ह के मन मारहीं ॥
जननी सम जानहिं परनारी । धनु पराव विष तें विष भारी ॥

और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति (आश्रय) नहीं है, हे रामजी ! आप उनके मनमें बसिये । जो परायी स्त्रीको जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विषसे भी भारी विष है; ॥ ३ ॥

जे हरषहिं पर संपत्ति देखी । दुखित होहिं पर विपत्ति विसेषी ॥
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

जो दूसरेकी संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेष-रूपसे दुखी होते हैं; और हे रामजी ! जिन्हें आप प्राणोंके समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ भवन हैं ॥ ४ ॥

दो०—स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दौड भ्रात ॥ १३० ॥

हे तात ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये ॥ १३० ॥

चौ०—अवगुनतजिसबकेगुनगहर्हीं । विप्र धेनु हित संकट सहर्हीं ॥

नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥

जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौके लिये संकट सहते हैं, नीति-निपुणतामें जिनकी जगत्में मर्यादा है, उनका सुन्दर मन आपका घर है ॥ ११ ॥

अस कहि लखन ठाउँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा ॥

रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥

ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया । स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । जब देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओंके प्रधान थवई (मकान बनानेवाले) विश्वकर्माको साथ लेकर चले ॥ ३ ॥

कोल किरात वेष सब आए । रचे परन तृन सदन सुहाए ॥

वरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला ॥

सब देवता कोल-भीलोंके वेषमें आये और उन्होंने [दिव्य] पत्तों और घासोंके सुन्दर घर बना दिये । दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ बनायीं जिनका वर्णन नहीं हो सकता । उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी थी ॥ ४ ॥

दो०—लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत ।

सोह मदनु मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३३ ॥

लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोंके घरमें शोभायमान हैं । मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति और वसन्त ऋतुके साथ सुशोभित हो ।

मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम

ची०—अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला ॥

राम प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू ॥

उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूटमें आये और श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । देवता नेत्रोंका लाभ पाकर आनन्दित हुए ॥ १ ॥

वरषि सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भए हम आजू ॥

करि विनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥

फूलोंकी वर्षा करके देवसमाजने कहा—हे नाथ ! आज [आपका दर्शन पाकर] हम सनाय हो गये । फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये और [दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर] हर्षित होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ २ ॥

चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥

आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥

आप चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुन्दर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियोंका विहारस्थल है। २।

नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ॥

सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥

वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है और जिसकी अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसूयाजी अपने तपोबलसे लायी थीं। वह गङ्गाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी नाम है। वह सब पापरूपी बालकोंको छा डालनेके लिये डाकिनी (डाइन) रूप है ॥ ३ ॥

अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं । करहिं जोग जप तप तन कसहीं ॥

चलहु सफल श्रम सब कर करहु । राम देहु गौरव गिरिवरहु ॥

अत्रि आदि बहुतसे श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीरको कसते हैं। हे रामजी ! चलिये, सबके परिश्रमको सफल कीजिये और पर्वत-श्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये ॥ ४ ॥

दो०—चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ ।

आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाइ ॥ १३२ ॥

महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बघ्यानकर कही। तब सीता-जीसहित दोनों भाइयोंने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥

चो०—रघुवर कहेउ लखन भलघाटू । करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू ॥

लखन दीख पय उतर करारा । चहुँदिसिफिरेउ धनुपजिमिनारा ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—सदमण ! बड़ा अच्छा घाट है। अब यहीं कहीं ठहरनेकी व्यवस्था करो। तब लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [और कहा कि] इसके चारों ओर धनुषके-जैसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १ ॥

नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥

चित्रकूट जनु अचल अहेरी । चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥

नदी (मन्दाकिनी) उस धनुषकी प्रत्यक्षा (ठोरी) है और धम, दम, दान बाण हैं। कलियुगके समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु [रूप निशाने] हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निगाना कभी चूकता नहीं और जो सामनेसे मारता है ॥ २ ॥

देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंके जलकी वाढ़ आ रही है ॥ ३ ॥

राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ॥

प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । वचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥

श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं— ॥ ४ ॥

दो०—अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय ।

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥ १३५ ॥

हे नाथ ! प्रभु (आप) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये। हे कोसलराज ! हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है ॥ १३५ ॥

चौ०—धन्य भूमि वन पंथ पहारा । जहँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥

धन्य बिहग मृग काननचारी । सफलजनम भए तुम्हहि निहारी ॥

हे नाथ ! जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रक्खे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वनमें विचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म हो गये।

हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥

कीन्ह वासु भल ठाउँ विचारी । इहाँ सकल रितु रहव सुखारी ॥

हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओंमें आप सुखी रहियेगा।

हम सब भाँति करव सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ वराई ॥

वन बेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥

हमलोग सब प्रकारसे हाथी, सिंह, सर्प और वाघोंसे वचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभो ! यहाँके वीहड़ वन, पहाड़, गुफाएँ और खोह (दरें) सब पग-पग हमारे देखे हुए हैं ॥ ३ ॥

तहँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउव । सर निरझर जलठाउँ देखाउव ॥

हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयसु देता ॥

हम वहाँ-वहाँ (उन-उन स्थानोंमें) आपको झिकार खेलावेंगे और तालाब,

श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि आये। रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने मुदित हुईं मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत्-प्रणाम किया ॥ ३ ॥

मुनि रघुवरहि लाइ उर लेहीं । सुफल होन हित आसिप देहीं ॥
सिय सौमित्रि राम छवि देखिहिं । साधन सकल सफल करि लेखिहिं ॥

मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते हैं । वे सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखते हैं और अपने सारे साधनोंको सफल हुआ समझते हैं ॥ ४ ॥

दो०—जथाजोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनिवृन्द ।

करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४ ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा किया । [श्रीरामचन्द्रजीके आ जानेसे] वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें अब स्वतन्त्रताके साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४ ॥

चौ०—यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरपे जनु नव निधि घर आई ॥

कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु लूटन सोना ॥

यह (श्रीरामजीके आगमनका) समाचार जब कोल-भीलोंने पाया, तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों । वे दोनोंमें कन्द, मूल, फल भर-भरकर चले, मानो दखि सोना लूटने चले हों ॥ १ ॥

तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूँछहिं मगु जाता ॥

कहत सुनत रघुवीर निकाई । आइ सत्रन्हि देखे रघुराई ॥

उनमेंसे जो दोनों भाइयोंको [पहले] देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्तेमें जाते हुए पूछते हैं । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते सबने आकर श्रीरघुनाथजीके दर्शन किये ॥ २ ॥

करहिं जोहार भेंट धरि आगे । प्रभुहि त्रिलोकहिं अति अनुरागे ॥

चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥

भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको

- १०—नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्र चकोर ।
 भाँति भाँति बोलहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७ ॥
 नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानोंको सुख देने-
 वाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ बोलते हैं ॥ १३७ ॥
- १०—करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत बैर विचरहिं सब संग ॥
 फिरत अहेर राम छवि देखी । होहिं मुदित मृग वृंद विसेषी ॥
 हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन, ये सब बैर छोड़कर साथ-साथ विचरते हैं। शिकार-
 के लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छविको देखकर पशुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं।
- बिबुध विपिन जहँ लागि जग माहीं । देखि रामवनु सकल सिहाहीं ॥
 सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥
 जगत्में जहाँतक (जितने) देवताओंके वन हैं, सब श्रीरामजीके वनको देखकर सिंह
 हैं। गङ्गा, सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य (पुण्यमयी) नदियाँ,
 सब सर सिंधु नदीं नद नाना । मंदाकिनि कर करहिं बखाना
 उदय अस्त गिरि अरु कैलासू । मंदर मेरु सकल सुरवास
 सारे तालाव, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई करते
 उदयाचल, अस्ताचल, कैलास, मन्दराचल और सुमेरु आदि सब, जो देवताओंके
 स्थान हैं, ॥ ३ ॥
- सैल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु गावहिं ते
 विधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम विनु विपुल बड़ाई
 और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूटका यश गाते हैं। वि-
 बड़ा आनन्दित है, उसके मनमें सुख समाता नहीं; क्योंकि उसने बिना परिश्रम
 बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४ ॥
- दो०—चित्रकूट के विहग मृग बेलि विटप तृन जाति ।
 पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥
 चित्रकूटके पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण-अङ्कुरादिकी सभी जातियाँ पुण्य
 और धन्य हैं—देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥

झरने आदि जलाशयोंको दिखावेंगे। हम कुटुम्बसमेत आपके सेवक हैं। हे नाथ ! इनविषे हमें आज्ञा देनेमें संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥

श्लो०—वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन ।

वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक वंन ॥ १३६ ॥

जो वेदोंके वचन और मुनियोंके मनको भी अगम है, वे कर्शाके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भीलोंके वनन इस तरह गुन रहे हैं जैसे पिता बालकोंके वनन सुनता है ॥ १३६ ॥

श्लो०—रामहि केवल प्रेसु पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥

राम सकल वनचर तव तोषे । कहि मृदु वचन प्रेम परिपोषे ॥

श्रीरामचन्द्रजीतो केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो (जानना चाहता हो), वह जान ले। तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए (प्रेमपूर्ण) कोमल वचन कहकर उन सब वनमें विचरण करनेवाले लोगोंको संतुष्ट किया ॥ १ ॥

विदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥

एहि विधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं विपिन सुर मुनि भुखदाई ॥

फिर उनकी विदा किया। वे सिर नचाकर चले और प्रभुके गुण कहते-सुनते घर आये। इस प्रकार देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास करने लगे ॥ २ ॥

जव तें आइ रहे रघुनायकु । तव तें भयउ वनु मंगलदायकु ॥

फूलहिं फलहिं विटप विधि नाना । मंजु बलित वर वेलि विताना ॥

जबसे श्रीरघुनायजी वनमें आकर रहे तबसे वन मङ्गलदायक हो गया। अनेकों प्रकारके वृक्ष फूलते और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बेलोंके मण्डप तने हैं ॥ ३ ॥

सुरतरु सरिस सुभायँ सुहाए । मनहुँ त्रिविध वन परिहरि आए ॥

गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी । त्रिविध वयारि बहइ सुख देनी ॥

वे करवृक्षके समान स्वामाविरुह ही सुन्दर हैं। मानो वे देवताओंके वन (नन्दनवन) को छोड़कर आये हों। भीरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं और गुंज देनेवाली शोभन, मन्द, गुणधिन हवा चलती रहती है ॥ ४ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुटुम्बके लोग और घरकी याद मूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण-क्षणपर प्रति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरकुमारी (चकोरी) चन्द्रमाको देखकर ! ॥ १ ॥

नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥

स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिनमें चकवी। सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय लगता है ॥ २ ॥

परनकुटी प्रिय प्रियतम संगी । प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा ॥
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥

प्रियतम (श्रीरामचन्द्रजी) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुम्बियोंके समान लगते हैं। मुनियोंकी स्त्रियाँ सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार उनको अमृतके समान लगता है ॥ ३ ॥

नाथ साथ साँथरी सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई ॥
लोकप होहिं बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय विलासू ॥

स्वामीके साथ सुन्दर साथरी (कुश और पत्तोंकी सेज) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाली हैं। जिनके [कृपापूर्वक] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम विषय विलासु ।

रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥ १४० ॥

जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्की माता सीताजीके लिये यह [भोग-विलासका त्याग] कुछ भी आश्चर्य नहीं है ॥ १४० ॥

दो०—सीयलखनजेहि विधिसुखु लहहीं । सोइरघुनाथ करहिं सोइ कहहीं ॥

कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहिं लखनु सिय अतिसुखु मानी ॥

सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, श्रीरघुनाथजी वही करते और

चौ०—नयनवंत रघुवरहि विलोकी । पाइ जनम फल होहिं विसोकी ॥
परसि चरन रज अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥

आँखोंवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते हैं और अचर (पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि), भगवान्की चरणरजका स्पर्श पाकर सुखी होते हैं । यों सभी परमपद (मोक्ष) के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥

सो वनु सैलु सुभायँ सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥
महिमा कहिअ क्वनि त्रिधि तासू । सुखसागर जहँ कीन्ह निवासू ॥

वह वन और पर्वत स्वभाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाला है । उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ, सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है ॥ २ ॥

पय पयोधि तजि अवध विहाई । जहँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥
कहि न सकहिं सुपमा जसि कानन । जौं सत सहस होहिं सहसानन ॥

द्वीपसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे, उस वनकी जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुखवाले जो सायं शेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥

सो मैं वरनि कहीं त्रिधि केहीं । डारर कमठ कि मंदर लेहीं ॥
सेवहिं लखनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥

उसे भला, मैं किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ । कहीं योग्यरेका [शूद्र] कष्टआ भी मन्दराचल उठा सकता है ? लक्ष्मणजी मन, वचन और कामसे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं । उनके शील और स्नेहका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥

दो०—छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु ।

करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १३६ ॥

क्षण-क्षणपर श्रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मणजी स्वप्नमें भी भाइयों, माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥ १३६ ॥

चौ०—राम संग सिय रहति सुखारी । पुरपरिजनगृहसुरति विसारी ॥

छिनु छिनु पियविधु बदनु निहारी । प्रसुदित मनहुँ चकोरकुमारी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुटुम्बके लोग और घरकी याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरकुमारी (चकोरी) चन्द्रमाको देखकर ! ॥ १ ॥

नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥

स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिनमें चकवी । सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय लगता है ॥ २ ॥

परनकुटी प्रिय प्रियतम संग्गा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असनु अभिअ सम कंद मूल फर ॥

प्रियतम (श्रीरामचन्द्रजी) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है । मृग और पक्षी प्यारे कुटुम्बियोंके समान लगते हैं । मुनियोंकी स्त्रियाँ सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार उनको अमृतके समान लगता है ॥ ३ ॥

नाथ साथ साँथरी सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई ॥
लोकप होहिं बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय बिलासू ॥

स्वामीके साथ सुन्दर साथरी (कृश और पत्तोंकी सेज) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाली है । जिनके [कृपापूर्वक] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम विषय विलासु ।

रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥ १४० ॥

जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्की माता सीताजीके लिये यह [भोग-विलासका त्याग] कुछ भी आश्चर्य नहीं है ॥ १४० ॥

बो०—सीयलखनजेहि विधिसुखुलहहीं । सोइरघुनाथकरहिं सोइ कहहीं ।

कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहिं लखनु सिय अतिसुखुमानी ॥

सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, श्रीरघुनाथजी वही करते और

वही कहते हैं। भगवान् प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १ ॥

जब जब रामु अवध सुधि करहीं । तब तब वारि विलोचन भरहीं ॥
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेवकाई ॥

जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं, तब-तब उनके नेत्रोंमें जल भर आता है। माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको याद करके—॥ २ ॥

कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी । धीरजु धरहिं कुसमउ विचारी ॥
लखि सिय लखनु विकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥

कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेंपटा करती है ॥३॥

प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चंदनु ॥
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनिसुखु लहहिं लखनु अरु सीता ॥

तब धीर, कृपालु और भक्तोंके हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥४॥

दो०—रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत ।

जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥

लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पणकुटीमें ऐसे गुणोभित हैं जैसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ ॥

चौ०—जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि कैसें । पलक विलोचन गोलक जैसें ॥

सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीको कैमो संभाल रघते हैं, जैसे पत्तके नेत्रोंके गोलकोंकी। इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी [अथवा लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी] ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीरकी रगने है

एहि विधि प्रभुवन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥

कहेउँ राम बन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥

पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियोंके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें निवास कर रहे हैं। तुलसीदासजी कहते हैं—मैंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये, वह [कथा] सुनो ॥ २ ॥

फिरेउ निषादु प्रभुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥

मंत्री विकल विलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ विषादू ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने रथकी मन्त्री (सुमन्त्र) सहित देखा। मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जैसा दुःख हुआ वह कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥

राम राम सिय लखन पुकारी । परेउ धरनितल व्याकुल भारी ॥

देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलार्हीं ॥

[निषादको अकेले आया देखकर] सुमन्त्र हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारते हुए, बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े। [रथके] घोड़े दक्षिण दिशाकी ओर [जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे] देख-देखकर हिनहिनाते हैं, मानो विना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों ॥ ४ ॥

दो०—नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन वारि ।

व्याकुल भए निषाद सब रघुवर बाजि निहारि ॥ १४२ ॥

वे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं। केवल आँखोंसे जल बहा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये ॥ १४२ ॥

चौ०—धरि धीरजु तत्र कहइ निषादू । अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥

तुम्ह पंडित परमारथ गयाता । धरहु धीर लखि विमुख विधाता ॥

तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा—हे सुमन्त्रजी ! अब विषादको छोड़िये। आप पण्डित और परमार्थके जाननेवाले हैं। विधाताको प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिये ॥ १ ॥

वही कहते हैं। भगवान् प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १ ॥

जब जब रामु अवध सुधि करहीं । तब तब बारि विलोचन भरहीं ।
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेवकाई ।

जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं, तब-तब उनके नेत्रोंमें जल भर आता है। माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावकी याद करके—॥ २ ॥

कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी । धीरजु धरहिं कुसमउ विचारी ।
लखि सिय लखनु विकल होइ जाहीं । जिमि पुरुपहि अनुसर परिछाहीं ।

कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेंप्टा करती है ॥ ३ ॥

प्रिया वंधु गति लखि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चंदनु ॥
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनिसुखु लहहिं लखनु अरु सीता ॥

तब धीर, कृपालु और भक्तोंके हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मणको दजा देग्यार कृष्ण पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुग्न प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत ।

जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥

लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्वकूटीमें ऐसे मुग्धोभित हैं जैसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ ॥

धो०—जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि कैसें । पलक विलोचन गोलक जैसें ॥

सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी संभाल रगते हैं, जैसे पत्नीके नेत्रोंके गोलकोंकी। इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी । अथवा लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी। ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीरकी करते हैं।

व्याकुल और दुःखसे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके बिना जीनेका धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्रीरामचन्द्रजीके विछुड़ ही छूटकर इसने यश [वधों] नहीं ले लिया ॥ २ ॥

भए अजस अघ भाजन प्राणा । कवन हेतु नहि करत पयाना ।
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ।

ये प्राण अपयश और पापके भाँड़े हो गये। अब ये किस कारण कूच नहीं कर (निकलते नहीं)। हाय ! नीच मन [बड़ा अच्छा] मौका चूक गया। अब भी त हृदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते ! ॥ ३ ॥

मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनहुँ कृपन धन राशि गवाँई ।
विरिद बाँधि बर वीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ।

सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं। मानो कोई कंजू धनका खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला हो ! ॥ ४ ॥

दो०—विप्र बिबेकी बेदविद संमत साधु सुजाति ।

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ १४४ ॥

जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणवाला और उत्तम जाति का (कुलीन) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे (पछता रहे) हैं ॥ १४४ ॥

चौ०—जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी
रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू

जैसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुस्वभावकी, समझदार और मन, वचन, कर्मसे पति को ही देवता माननेवाली पतिव्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर (पतिसे अलग) रहना प उस समय उसके हृदयमें जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मन्त्रीके हृदयमें हो रहा है।

लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न श्रवन विकल मति भोरी
सूरवहिं अधर लागि मुहँ लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी

नेत्रोंमें जल भरत है, दृष्टि मन्द हो गयी है। कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, व्याक

विविधि कथा कहि कहि मृदु वानी । रथ बैठारेउ बरवस आनी ॥
सोक सिथिल रधु सकइ न हँकी । रघुवर विरह पीर उर बाँकी ॥

कोमल वाणीसे भाँति-भाँतिकी कयाएँ कहकर निपादने जबदंस्ती लाकर सुमन्द्रको रथपर बैठाया । परंतु शोकके भारे वे इतने शिथिल हो गये कि रथको हाँक नहीं सकते । उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी तीव्र वेदना है ॥ २ ॥

चरफराहिं मग चलहिं न घोरे । वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥
अढ़कि परहिं फिरि हेरहिं पीछें । राम वियोगि विकल दुख तीछें ॥

घोड़े तड़फड़ाते हैं और [ठीक] रास्तेपर नहीं चलते । मानो जंगली पशु लाकर रथमें जोत दिये गये हों । वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर घाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछेकी ओर देखने लगते हैं । वे तीव्र दुःखसे व्याकुल हैं ॥ ३ ॥

जो कह रामु लखनु वैदेही । हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही ॥
वाजि विरह गति कहि किमि जाती । विनुमनिफनिकविकल जेहि भाँती ॥

जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिकर-हिकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने लगते हैं । घोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही जा सकती है ? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणिके विना साँप व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

दो०—भयउ निपादु विषादवस देखत सचिव तुरंग ।

बोलि सुसेवक चारि तत्र दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥

मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निपादराज विषादके वश हो गया । तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये ॥ १४३ ॥

चौ०—गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । विरहु विषादु वरनि नहिं जाई ॥

चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहिं छनहि छनमगन विषादा ॥

निपादराज गुह सारथी (सुमन्द्रजी) को पहुँचाकर (विदा करके) सोटा । उसके विरह और दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता । वे चारों निपाद रथ लेकर अवधको चले । [सुमन्द्र और घोड़ोंकी देय-देयकर] वे भी क्षण-क्षणमर विषादमें डूबे जाते थे ॥ १ ॥

सोच सुमंत्र विकल दुख दीना । धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥
रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरु । जसु न लहेउ विछुरत रघु ॥

व्याकुल और दुःखसे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके बिना जीनेका धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्रीरामचन्द्रजीके विछुड़ा ही छूटकर इसने यश [वयों] नहीं ले लिया ॥ २ ॥

भए अजस अघ भाजन प्राणा । कवन हेतु नहि करत पयाना ।
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ।

ये प्राण अपयश और पापके भाँड़े हो गये। अब ये किस कारण कूच नहीं कर (निकलते नहीं)। हाय ! नीच मन [बड़ा अच्छा] मौका चूक गया। अब भी तो हृदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते ! ॥ ३ ॥

मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई ।
विरिद बाँधि बर वीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ।

सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं। मानो कोई कंजु धनका खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला हो ! ॥ ४ ॥

दो०—विप्र विवेकी बेदविद संमत साधु सुजाति ।

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ १४४ ॥

जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणवाला और उत्तम जाति का (कुलीन) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे (पछता रहे) हैं ॥ १४४ ॥

चौ०—जिमि कुलीनतिय साधुसयानी । पतिदेवता करम मन बानी
रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू ।

जैसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुस्वभावकी, समझदार और मन, वचन, कर्मसे पति को ही देवता माननेवाली पतिव्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर (पतिसे अलग) रहना पड़े उस समय उसके हृदयमें जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मन्त्रीके हृदयमें हो रहा है।

लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न श्रवन विकल मति भोरी
सूरखिँ अधर लागि मुहँ लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी

नेत्रोंमें जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है। कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, व्याकुल

हुई बुद्धि घेठकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंहमें लाठी लग गयी है। किन्तु [ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी] प्राण नहीं निकलते; क्योंकि हृदयमें अवधिरूपी किवाड़ लगे हैं (अर्थात् चांद्रह वर्ष बीत जानेपर भगवान् फिर मिलेंगे, यही आशा रक्षावट डाल रही है) ॥ २॥

विवरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥
हानि गलानि त्रिपुल मन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥

सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकी महान् गलानि (पीड़ा) छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रहा हो ॥ ३ ॥

वचनु न आव हृदयँ पछिताई । अवध काह में देखव जाई ॥
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि विलोकत सोई ॥

मुंहसे वचन नहीं निकलते। हृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर क्या देखूंगा ? श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा (अर्थात् मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा) ॥ ४ ॥

श्लो०—धाइ पूँछिहिहिं मोहि जव त्रिकल नगर नर नारि ।
उतरु देव मेंँ सवहि तव हृदयँ वज्रु वैठारि ॥ १४५ ॥

नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदयपर राम रखकर सबको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥

श्लो०—पुछिहिहिं दीन दुखित सव माता । कहव काह मेंँ निन्हकि निगना ॥
पूँछिहि जवहिं लखन महतारी । कहिहुँ कवन संरेस सुपारी ॥

जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी तब हे विधाना ! मैं क्या कहूंगा ? जब लक्ष्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन-सा सुख बतलाऊँगा ? ॥ १ ॥

राम जननि जव आइहि धाई । सुमिरि वन्दु जिसे धेनु लवाई ॥
पूँछत उतरु देव मेंँ तेही । गे वनु राम लखनु वैठारि ॥

श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दौरी अर्थात् अंगूठे के ब्यापी हुईं

याद करके दीड़ी आती है, तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता वनको चले गये ! ॥ २ ॥

जोइ पूँछिहि तेहि ऊतर देवा । जाइ अवध अब यहु सुखु लेवा ॥
पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥

जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा । हाय ! अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है । जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [दर्शनके] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३ ॥

देहउँ उतरु कौनु मुहु लाई । आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई ॥
सुनत लखन सिय राम सँदेसू । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥

तब मैं कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारोंको कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ । लक्ष्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग देंगे ॥ ४ ॥

दो०—हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत श्रीतमु नीरु ।

जानत हौं मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु ॥ १४६ ॥

प्रियतम (श्रीरामजी) रूपी जलके बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूँ कि विधाताने मुझे यह 'यातनाशरीर' ही दिया है [जो पापी जीवोंको नरक भोगनेके लिये मिलता है] ॥ १४६ ॥

चौ०—एहि विधि करत पंथ पछितावा । तमसा तीर तुरतरथु आवा ॥

बिदा किए करि विनय निषादा । फिरे पायँ परि बिकल विषादा ॥

सुमन्त्र इस प्रकार मार्गमें पछतावा कर रहे थे, इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा नदीके तटपर आ पहुँचा । मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोंको विदा किया । वे विषादसे व्याकुल होते हुए सुमन्त्रके पैरों पड़कर लौटे ॥ १ ॥

पैठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारोसि गुर बाँभन गाई ॥

बैठि विटप तर दिवसु गवाँवा । साँझ समय तब अवसरु पावा ॥

नगरमें प्रवेश करते मन्त्री [ग्लानिके कारण] ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु, ब्राह्मण

हुई बुद्धि बेटियाने ही रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंहमें लाठी लग गयी है। किंतु [ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी] प्राण नहीं निकलते; क्योंकि हृदयमें अवधिरूपी किवाड़ लगे हैं (अर्थात् चांदह वर्ष बीत जानेपर भगवान् फिर मिलेंगे, यही भाषा एकावट बोल रही है) ॥ २॥

विवरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥
हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥

सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है, जो देया नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनमें रामविभोगरूपी हानिकी महान् गलानि (पीड़ा) छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रहा हो ॥ ३ ॥

वचनु न आव हृदयँ पछिताई । अवध काह मैं देखव जाई ॥
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि विलोकत सोई ॥

मुंहसे वचन नहीं निकलते। हृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर क्या देखूंगा ? श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथकी जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा (अर्थात् मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा) ॥ ४ ॥

श्लो०—धाइ पूँछिहहिँ मोहि जब विकल नगर नर नारि ।

उतरु देव मैं सवहि तव हृदयँ वज्रु वैठारि ॥ १४५ ॥

नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदयपर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥

श्लो०—पुछिहहिँ दीन दुखित सव माता । कहव काह मैं निन्हहि विधाना ॥

पूछिहि जबहिँ लखन महतारी । कहिहउँ कवन सँदेस सुग्वारी ॥

जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी तब हे विधाता ! मैं उन्हें क्या कहूंगा ? जब लक्ष्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन-सा सुग्वदायी संदेश कहूंगा । ॥ १ ॥

राम जननि जब आइहि धाई । सुमिरि वच्छु जिमि धेनु लवाई ॥

पूँछत उतरु देव मैं तेही । गे वनु राम लखनु वैदेही ॥

श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नयी व्यापी हुई गो बछड़ेको

आसन सयन विभूषन हीना । परेउ भूमितल निपट मलीना ॥
लेइ उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर तें जनु खँसेउ जजाती ॥

राजा आसन, शय्या और आभूषणोंसे रहित बिल्कुल मलिन (उदास) पृथ्वी-पर पड़े हुए हैं । वे लंबी साँसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्गसे गिरकर सोच कर रहे हों ॥ ३ ॥

लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लखन बैदेही ॥

राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं । ऐसी विकल दशा है मानो [गीधराज जटायुका भाई] सम्पाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो । राजा [बार-बार] 'राम-राम', 'हा स्नेही (प्यारे) राम !' कहते हैं, फिर 'हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी' ऐसा कहने लगते हैं ।

दो०—देखि सचिवँ जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु ।

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥ १४८ ॥

मन्त्रीने देखकर 'जयजीव' कहकर दण्डवत्-प्रणाम किया । सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले—सुमन्त्र ! कहो, राम कहाँ हैं ? ॥ १४८ ॥

चौ०—भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई । बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥
सहित सनेह निकट बैठारी । पूँछत राउ नयन भरि बारी ॥

राजाने सुमन्त्रको हृदयसे लगा लिया । मानो डूबते हुए आदमीको कुछ सहारा मिल गया हो । मन्त्रीको स्नेहके साथ पास बैठकर, नेत्रोंमें जलभरकर राजा पूछने लगे—

राम कुसल कहु सखा सनेही । कहँ रघुनाथु लखनु बैदेही ॥
आने फेरि कि वनहि सिधाए । सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥

हे मेरे प्रेमी सखा ! श्रीरामकी कुशल कहो । बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं ? उन्हें लौटा लाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते ही मन्त्रीके नेत्रोंमें जल भर आया ।

सोक विकल पुनि पूँछ नरेसू । कहु सिय राम लखन संदेसू ॥
राम रूप गुन सील सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥

शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे—सीता, राम और लक्ष्मणका संदेसा तो कहो श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको यादकर-करके राजा हृदयमें सोच करते हैं ।

या गौको मारकर आये हों । सारा दिन एक पेड़के नीचे बैठकर बिताया । जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला ॥ २ ॥

अवध प्रवेशु कीन्ह अँधिआरे । पैठ भवन रथु राखि दुआरें ॥

जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ॥

अँधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [चुपकेसे] महलमें घुसे । जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये ॥ ३ ॥

रथु पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे ॥

नगर नारि नर व्याकुल कैसें । निघटत नीर मीनगन जैसें ॥

रथको पहचानकर और घोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं (क्षीण हो रहे हैं) जैसे घाममें ओले ! नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जलके पटनेपर मछलियाँ [व्याकुल होती हैं] ॥ ४ ॥

दो०—सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु ।

भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥ १४७ ॥

मन्त्रीका [अकेले ही] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया । राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतोंका निवासस्थान (श्मशान) हो ॥ १४७ ॥

चो०—अति आरति सब पूँछहिं रानी । उतरु न आव विकल भइ बानी ॥

सुनइ न श्रवण नयन नहिं सूझा । कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि वूझा ॥

अत्यन्त आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी विकल हो गयी (रुक गयी) है । न कानोंसे सुनायी पड़ता है और न आँखोंसे कुछ सूझता है । वे जो भी सामने आता है उस-उससे पूछते हैं—कहो राजा कहाँ है ? ॥ १ ॥

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई । कौसल्या गृहँ गई लवाई ॥

जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंडु बिराजा ॥

दासियाँ मन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कौसल्याजीके महलमें लिवा गयीं । सुमन्त्रने जाकर वहाँ राजाको कैसा [बैठे] देखा मानो बिना अमृतका चन्द्रमा हो ॥ २ ॥

समान समझते हैं। हे सबके हितकारी (रक्षक) ! आप विवेक विचारकर धीरज धरिये और शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥

दो०—प्रथम वासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर ।

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ वीर ॥ १५० ॥

श्रीरामजीका पहला निवास (मुकाम) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्गातीरपर । सीताजीसहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५० ॥

ची०—केवट क्रीन्हि बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गवाँई ॥

होत प्रात बट छीरु मगावा । जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥

केवट (निपादराज) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर (शृङ्गवेरपुर) में ही बितायी । दूसरे दिन सबेरा होते ही बड़का दूध मँगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये ॥ १ ॥

राम सखाँ तव नाव मगाई । प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥

लखन वान धनु धरे बनाई । आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥

तव श्रीरामचन्द्रजीके सखा निपादराजने नाव मँगवायी । पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढ़ाकर फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े । फिर लक्ष्मणजीने धनुष-बाण सजाकर रक्खे और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े ॥ २ ॥

विकल विलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर वचन धरि धीरा ॥

तात प्रनामु तात सन कहेहू । बार बार पद पंकज गहेहू ॥

मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले—हे तात ! पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल पकड़ना ॥ ३ ॥

करवि पायँ परि विनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥

वन मग मंगल कुसल हमारें । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें ॥

फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये । आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्यसे वनमें और मार्गमें हमारा कुशल-मङ्गल होगा ॥ ४ ॥

छं०—तुम्हरेँ अनुग्रह तात कानन जात संव सुखु पाइहौँ ।

प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरिआइहौँ ॥

राज सुनाइ दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयउ न हरषु हराँसू ॥
सो सुत विछुरत गए न प्राणा । को पापी बड़ मोहि समाना ॥

[और कहते हैं—] मने राजा होनेकी बात सुनाकर बनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस (राम) के मनमें हर्ष और विपाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके विछड़नेपर भी मेरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा ? ॥ ४ ॥

दो०—सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ ।

नाहिँ त चाहत चलन अब प्राण कहउँ सतिभाउ ॥ १४६ ॥

हे सखा ! श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं तो मैं सत्य भावसे कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं ॥ १४६ ॥

चौ०—पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राज । प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ ॥

करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥

राजा बार-बार मन्त्रीसे पूछते हैं—मेरे प्रियतम पुत्रोंका सँदेश सुनाओ । हे सखा ! तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मुझे आँचों दिया दो ॥ १ ॥

सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥

वीर सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥

मन्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले—महाराज ! आप पण्डित और ज्ञानी हैं । हे देव ! आप शूरवीर तथा उत्तम धर्मवान् पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने सदा साधुओंके समाजका सेवन किया है ॥ २ ॥

जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन त्रियोगा ॥

काल करम बस होहिँ गोसाईं । बरवस राति दिवस की नाईं ॥

जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग, हानि-लाभ, प्यारोंका मिलना-विछड़ना, ये सब हे स्वामी ! काल और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह बरवस होते रहते हैं ॥ ३ ॥

सुख हरपहिँ जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहिँ मन माहीं ॥

धीरज धरहु विवेकु विचारी । छाड़िअ सोच सकल हितकारी ॥

मूर्खलोग सुषमों हर्षित होते और दुःषमों रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मनमें द

लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे । किंतु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार-बार अपनी सौगंध दिलायी [और कहा—] हे तात ! लक्ष्मणका लड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४ ॥

दो०—कहि प्रनामु कछुकहनलिय सिय भइ सिथिल सनेह ।

थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥ १५२ ॥

प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थीं; परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गयीं । उनकी वाणी रुक गयी; नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर रोमाञ्चसे व्याप्त हो गया ॥१५२॥

चौ०—तेहि अवसर रघुवर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥

रघुकुलतिलक चले एहि भाँती । देखउँ ठाढ़ कुलिसधरि छाती ॥

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी । इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा ॥ १ ॥

मैं आपन किमि कहौं कलेसू । जिअत फिरेउँ लेइ राम सँदेसू ॥

असकहिसचिव वचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥

मैं अपने क्लेशको कैसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता ही लौट आया ! ऐसा कहकर मन्त्रीकी वाणी रुक गयी (वे चुप हो गये) और वे हानिकी ग्लानि और सोचके वश हो गये ॥ २ ॥

सूत वचन सुनतहिं नरनाहू । परेउ धरनि उर दारुन दाहू ॥

तलफत विषम मोह मन मापा । माजा मनहुँ मीन कहूँ ब्यापा ॥

सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें भयानक जलन होने लगी । वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोहसे व्याकुल हो गया । मानो मछली-को माँजा व्याप गया हो (पहली वर्षाका जल लग गया हो) ॥ ३ ॥

करि विलाप सब रोवहिं रानी । महा विपति किमि जाइ बखानी ॥

सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा । धीरजहू कर धीरजु भागा ॥

सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं । उस महान् विपत्तिका कैसे वर्णन किया जाय ? उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी धीरज भाग गया ।

जननीं सकल परितोपि परि परि पायँ करि विनती घनी ।

तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिँ कुसली रहहिँ कोसलधनी ॥

हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे मैं वन जाते हुए सब प्रकारका सुख पाऊँगा । आशा-
का भलीभाँति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक फिर लौट आऊँगा । सब
माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके—तुलसी-
दास कहते हैं—तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें ।

सो०—गुर सन कहव सँदेसु वार वार पद पदुम गहि ।

करव सोइ उपदेसु जेहिँ न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥

वार-वार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वसिष्ठजीसे मेरा सँदेसा कहना कि ये वही
उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥

चा०—पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएहु विनती मोरी ॥

सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥

हे तात ! सब पुरवासियों और कुटुम्बियोंसे निहोरा (अनुरोध) करके मेरी विनती
सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥१॥

कहव सँदेसु भरत के आएँ । नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥

पालेहु प्रजहि करम मन वानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥

भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न
छोड़ देना; कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान
जानकर उनको सेवा करना ॥ २ ॥

ओर निवाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥

तात भाँति तेहि राखव राज । सोच मोर जेहिँ करै न काउ ॥

ओर हे भाई ! पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक
निवाहना । हे तात ! राजा (पिताजी) को उसी प्रकारसे रगना जिससे ये कभी (किसी
तरह भी) मेरा सोच न करें ॥ ३ ॥

लखन कहे कछु वचन कठोरा । वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥

वार वार निज सपथ देवाई । कहवि न तात लखन लरिकाई

०-प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उधारि ।
तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥ १५४ ॥

प्रिय पत्नी कौसल्याके कोमल वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा !
तो तड़पती हुई दीन मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो ॥ १५४ ॥

०-धरि धीरजु उठि बैठे भुआलू । कहु सुमंत्र कहँ राम कृपालू ॥
कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही । कहँ प्रिय पुत्रवधू बैदेही ॥

धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले—सुमन्त्र ! कहो, कृपालु श्रीराम कहाँ
हैं ? लक्ष्मण कहाँ हैं ? स्नेही राम कहाँ हैं ? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है ॥ १ ॥

विलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥
तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥

राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं। वह रात युगके समाप्त
वड़ी हो गयी, बीतती ही नहीं। राजाको अंधे तपस्वी (श्रवणकुमारके पिता) के शाप
याद आ गयी। उन्होंने सब कथा कौसल्या को कह सुनायी ॥ २ ॥

भयउ बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा
सो तनु राखि करव मैँ काहा । जेहिँ न प्रेम पनु मोर निबाहा

उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये और कहने लगे
श्रीरामके बिना जीनेकी आशाको धिक्कार है। मैं उस शरीरको रखकर क्या करूँगा
मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ? ॥ ३ ॥

हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन ब
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितुहित चित चातक जल

हा रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते
बहुत दिन बीत गये। हा जानकी, लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके चित्तरूपी
हित करनेवाले मेघ ! ॥ ४ ॥

०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम ।
तनु परिहरि रघुवर विरहँ राउ गयउ सुरधाम ॥

दो०—भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु ।

विपुल विहग वन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोरु ॥ १५३ ॥

राजाके रावले (रनिवास) में [रनेका] शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी कुहराम मच गया । [ऐसा जान पड़ता था] मानो पक्षियोंके विशाल वनमें रातके समय कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३ ॥

चौ०—प्राण कंठगत भयउ भुआलू । मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू ॥

इंद्रौ सकल विकल भइँ भारी । जनु सर सरसिज वनु विनु वारी ॥

राजाके प्राण कण्ठमें आ गये । मानो मणिके बिना साँप व्याकुल (मरणासन्न) हो गया हो । इन्द्रियाँ सब बहुत ही विकल हो गयीं, मानो बिना जलके तालाबमें कमलोंका वन मुरझा गया हो ॥ १ ॥

कौसल्याँ नृपु दीख मलाना । रविकुल रवि अँथयउ जियँ जाना ॥

उर धरि धीर राम महतारी । बोली वचन समय अनुसारी ॥

कौसल्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्य-कुलका सूर्य अस्त हो चला । तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या हृदयमें धीरज धरकर समयके अनुकूल वचन बोलीं—॥ २ ॥

नाथ समुझि मन करिअ विचारु । राम वियोग पयोधि अपारु ॥

करनधार तुम्ह अवध जहाजू । चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥

हे नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है । अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार (येनेवाने) हैं । सब प्रियजन (कुटुम्बी और प्रजा) ही यात्रियोंका समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३ ॥

धीरजु धरिअ त पाइअ पारु । नाहिँ त वृड़िहि सबु परिचारु ॥

जौं जियँ धरिअ विनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मित्तिहिँ बहोरी ॥

आप धीरज धरियेगा तो सब पार पहुँच जायेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा । हे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी वितती हृदयमें धारण कीजियेगा तो श्रीराम, मरमण, माता फिर आ मितेंगे ॥ ४ ॥

वसिष्ठजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । फिर दूतोंको बुलवाकर उनसे ऐसा कहा—तुमलोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ । राजाकी मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना ॥ १ ॥

एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥
सुनि मुनि आयसु धावन धाए । चले वेग बर बाजि लजाए ॥

जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुलवा भेजा है । मुनिकी आज्ञा सुनकर धावन (दूत) दौड़े । वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते हुए चले ॥२॥

अनरथु अवध अरंभेउ जब तैं । कुसगुन होहिं भरत कहूँ तब तैं ॥
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं कटु कोटि कल्पना ॥

जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अपशकुन होने लगे । वे रातको भयंकर स्वप्न देखते थे और जागनेपर [उन स्वप्नोंके कारण] करोड़ों (अनेकों) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे ॥ ३ ॥

विप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक करहिं विधि नाना ॥
मागहिं हृदयँ महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥

[अनिष्टशान्तिके लिये] वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते थे । अनेकों विधियोंसे रुद्राभिषेक करते थे । महादेवजीको हृदयमें मनाकर उनसे माता-पिता, कुटुम्बी और भाइयोंका कुशलक्षेम माँगते थे ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ ।

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ १५७ ॥

भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी आज्ञा कानोंसे सुनते ही वे गणेशजीको मनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥

दो०—चले समीर वेग हय हाँके । नाघत सरित सैल बन बाँके ॥

हृदयँ सोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई ॥

हवाके समान वेगवाले घोड़ोंको हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोंको लाँघते हुए चले । उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था । मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ ॥ १ ॥

राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्यागकर सुरलोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥

चौ०—जिअन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥

जिअत राम विधु वदनु निहारा । राम विरह करि मरनु सँवारा ॥

जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निमल यश अनेकों ब्रह्माण्डोंमें छा गया । जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुद्यको देवा और श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण मुधार लिया ॥ १ ॥

सोक विकल सब रोवहिं रानी । रूपु सीलु वलु तेजु बखानी ॥

करहिं विलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितल वारहिं वारा ॥

सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं । वे राजाके रूप, शीन, बल और तेजका बखान कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हैं और बार-बार धरतीपर गिर-गिर पड़ती हैं ॥ २ ॥

विलपहिं विकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहिं पुरवासी ॥

अँथयउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥

दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर-घर रो रहे हैं । कहते हैं कि आज धर्मकी सीमा, गुण और रूपके भण्डार सूर्यकानके सूर्य अस्त हो गये ! ॥३॥

गारीं सकल कैकइहि देहीं । नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं ॥

एहि विधि विलपन रैनि विहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥

सब कँके-गो-गो गानियाँ देते हैं, जिसने संसारभरको बिना नेत्रना (अंधा) कर दिया । इस प्रकार विना करके रात बीत गयी । प्रातःकाल सब बड़े-बड़े शानी मुनि आये ॥४॥

दो०—तत्र त्रसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास ।

सोक नेवारेउ सवहि कर निज विग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥

तत्र त्रसिष्ठ मुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकाशमें सबका शोक दूर किया ॥ १५६ ॥

चौ०—तेल नावँ भरि नृप तनुराखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भापा ॥

धावहु वेगि भरत पहिं जाहू । नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि ॥

वह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर भरत-शत्रुघ्नको महलमें ले आयी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानो कमलोकके वनको पाला मार गया हो ॥ २ ॥

कैकेई हरषित एहि भाँती । मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ।
सुतहि ससोच देखि मनु मारें । पूँछति नैहर कुसल हमारें ॥

एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर आनन्दमें भर रही हो । पुत्रको सोचवश और मनमारे (बहुत उदास) देखकर वह पूछने लगी—हमारे नैहरमें कुशल तो है ? ॥ ३ ॥

सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ।
कहु कहँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता ।

भरतजीने सब कुशल कह सुनायी । फिर अपने कुलकी कुशल-क्षेम पूछी । [भरत जीने कहा—] कहो, पिताजी कहाँ हैं ? मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन ।

भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बैन ॥ १५६ ॥

पुत्रके स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रोंमें कपटका जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत कानोंमें और मनमें शूलके समान चुभनेवाले वचन बोली—॥ १५६ ॥

चौ०—तात बात मैं सकल सँवारी । भै मंथरा सहाय विचारी ।

कछुक काज विधि बीच विगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ।

हे तात ! मैंने सारी बात बना ली थी । बेचारी मन्थरा सहायक हुई; पर विधाता बीचमें जरा-सा काम विगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १ ॥

सुनत भरतु भए विवस विषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा ।

तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल ब्याकुल भारी ।

भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश (बेहाल) हो गये । मानो सिंहव हायी सहम गया हो । वे 'तात ! तात ! हा तात !' प्रकारते हुए अत्यन्त

गर्ज
ध्याक्
१५६ गिर पड़े ॥ २ ॥

एक निमेष वरष सम जाई । एहि विधि भरत नगर निअराई ॥
असगुन होहिं नगर पैठारा । रटहिं कुभाँति कुखेत करारा ॥

एक-एक निमेष वर्षके समान वीत रहा था । इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे । नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे । कोए बुरी जगह बैठकर बुरी तरहसे काँव-काँव कर रहे हैं ॥ २ ॥

खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥
श्रीहत सर सरिता वन वागा । नगरु विसेपि भयावनु लागा ॥

गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं । यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी पीड़ा हो रही है । तालाब, नदी, वन, बगीचे—सब शोभाहीन हो रहे हैं । नगर बहुत ही भयानक लग रहा है ॥ ३ ॥

खग मृग हय गय जाहिं न जोए । राम वियोग कुरोग विगोए ॥
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सवन्हि सव संपति हारी ॥

श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षी-पशु, घोड़े-हाथी [ऐसे दुयी हो रहे हैं कि] देखे नहीं जाते । नगरके स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुयी हो रहे हैं । मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बैठे हों ॥ ४ ॥

दो०—पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गवँहिं जोहारहिं जाहिं ।

भरत कुसल पूँछि न सकहिं भय विपाद मन माहिं ॥ १५८ ॥

नगरके लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौसे (चुपके-से) जोहार (वन्दना) करके चले जाते हैं । भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते; क्योंकि उनके मनमें भय और विपाद छा रहा है ॥ १५८ ॥

चौ०—हाट वाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥

आवत सुत सुनि कैक्यनंदिनि । हरपी रविकुल जलरुह चंदिनि ॥

बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते । मानो नगरमें दमों दिजाओंमें दावाग्नि लगी है । पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी कंकणी [बड़ी] हृषित हृष्ट ॥१॥

सजि आरती मुदित उठि धाई । द्वारेहिं भेंटि भवन लेइ आई ॥

भरत दुखित परिवारु निहारा । मानहुँ तुहिन वनज वनु माँ ॥

राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पके घावपर अंगार छू गया हो । उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा—पापिनी ! तूने सभी तरहसे कुलका नाश कर दिया ॥ ३ ॥

जौं पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥
पेड़ काटि तैं पालउ सींचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥

हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि (दुष्ट इच्छा) थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला ? तूने पेड़को काटकर पत्तेको सींचा है और मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला (अर्थात् मेरा हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला) ॥४॥

दो०—हंसवंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ ॥

जननी तूँ जननी भई विधि सन कछु न बसाइ ॥ १६१ ॥

मुझे सूर्यवंश [सा वंश], दशरथजी [सरीखे] पिता और राम-लक्ष्मणसे भाई मिले । पर हे जननी ! मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई ! [क्या किया जाय !] विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥

चो०—जब तैं कुमति कुमत जियँ ठयऊ । खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ ॥

बर मागत मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह मुहँ परेउ न कीरा ॥

अरी कुमति ! जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार (निश्चय) ठाना, उसी समय तेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े [क्यों] न हो गये ? वरदान मांगते समय तेरे मनमें कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुँहमें कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥

भूँ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मति हरि लीन्ही ॥

विधिहूँ न नारि हृदयगतिजानी । सकल कपट अध अवगुन खानी ॥

राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ? [जान पड़ता है,] विधाताने मरनेके समय उनकी बुद्धि हर ली थी । स्त्रियोंके हृदयकी गति (चाल) विधाता भी नहीं जान सके । वह सम्पूर्ण कपट, पाप और अवगुणोंकी खान है ॥ २ ॥

सरल सुसील धरम रत राज । सो किमि जानै तीय सुभाऊ ॥

अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥

फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे । वे भला स्त्री-स्वभावको कैसे

चलत न देखन पायउँ तोही । तात न रामहि सौँपेहु मोही ॥
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी । कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥

[और विलाप करने लगे कि] हे तात ! मैं आपको [स्वर्गके लिये] चलते समय देख भी न सका । [हाय !] आप मुझे श्रीरामजीको सौँप भी नहीं गये । फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर उठे और बोले—माता ! पिताके मरनेका कारण तो बताओ ॥ ३ ॥

सुनि सुत वचन कहति कैकेई । मरमु पाँछि जनु माहुर देई ॥
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥

पुत्रका वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी । मानो मर्म-स्थानको पाछकर (चाकसे चीरकर) उसमें जहर भर रही हो । कुटिल और कठोर कैकेयीने अपनी सब करनी गृहसे [आधीस्तक बढ़े] प्रसन्न मनसे सुना दी ॥ ४ ॥

चौ०—भरतहि विसरेउ पितु मरन सुनत राम वन गौनु ।

हेतु अपनपउ जानि जियँ थकित रहे धरि मौनु ॥१६० ॥

श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया और हृदयमें इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तम्भित रह गये (अर्थात् उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्न रह गये) ॥ १६० ॥

चौ०—विकल विलोकिसुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ॥

तात राउ नहिँ सोचै जोगू । विद्वइसुकृतजसुकीन्हेउ भोगू ॥

पुत्रको व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी । मानो जलेपर नमक लगा रही हो । [वह बोली—] हे तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य और यग कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया ॥ १ ॥

जीवत सकल जनम फल पाए । अंत अमरपति सदन सिधाए ॥

अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहू ॥

जीवनकालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अन्तमें वे दृग्दोष-को चने गये । ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और ममाजमहिन नगरका राज्य करो ॥ २ ॥

सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारु । पाकेँ छत जनु लाग अँगारु ॥

धीरज धरि भरि लेहिँ उसासा । पापिनि सबहिँ भाँति कुल नासा ॥

सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई । कौसल्या पहिं गे दोउ भाई ॥

उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्नजी झोंटा पकड़-पकड़कर उसे घसीटने लगे । तब दयानिधि भरतजीने उसको छोड़ा दिया और दोनों भाई [तुरंत] कौसल्याजीके पास गये ॥ ४ ॥

दो०—मलिन बसन विवरन विकल कृस सरीर दुख भार ।

कनक कल्प वर बेलि बन मानहुँ हनी तुसार ॥ १६३ ॥

कौसल्याजी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुःखके बोझसे शरीर सूख गया है । ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको वनमें पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥

चौ०—भरतहि देखि मातु उठि धाई । मुरुछित अवनि परी झई आई ॥

देखत भरतु विकल भए भारी । परे चरन तन दसा बिसारी ॥

भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौड़ीं । पर चक्कर आ जानेसे मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और शरीरकी सुध भुलाकर चरणोंमें गिर पड़े ॥ १ ॥

मातु तात कहँ देहि देखाई । कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥

कैकइ कत जनमी जग माझा । जौं जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥

[फिर बोले—] माता ! पिताजी कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? [उन्हें दिखा दे ।] कैकेयी जगत्में क्यों जनमी ? और यदि जनमी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई—॥ २ ॥

कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥

को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥

जितने कुलके कलंक, अपयशके भाँड़े और प्रियजनोंके द्रोही मुझ-जैसे पुत्रको उत्पन्न किया । तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके कारण हे माता ! तेरी यह दशा हुई !

पितु सुरपुर बन रघुवर केतू । मैँ केवल सब अनरथ हेतू ॥

धिग मोहि भयउँ वेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥

नते ? अरे, जगत्के जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान
पारे नहीं हैं ॥ ३ ॥

मे अति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥
तो हसि सो हसि मुहँ मसि लाई । आँखि ओट उठि वैठहि जाई ॥

वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये (वंरी लगे) । तू कौन है ? मुझे सच-सच
ह ! तू जो है, सो है; अब मुंहमें स्याही पोतकर (मुंह काला करके) उठकर मेरी आँखों-
में ओटमें जा बैठ ॥ ४ ॥

दो०—राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह विधि मोहि ।

मो समान को पातकी वादि कहउँ कछु तोहि ॥ १६२ ॥

विघाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे) हृदयसे उत्पन्न किया
अथवा विघाताने मुझे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया] । मेरे बराबर पापी
सारा कौन है ? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२ ॥

ती०—सुनि सत्रुघ्न मातु कुटिलाई । जरहिं गात रिस कछु न वसाई ॥

तेहि अवसर कुवरी तहँ आई । वसन विभूषन विविध बनाई ॥

माताकी कुटिलता सुनकर शत्रुघ्नजीके सब अङ्ग क्रोधसे जल रहे हैं, पर कुछ
श नहीं चलता । उसी समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकर कुवरी (मन्यरा)
हाँ आयी ॥ १ ॥

तखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । वरत अनल घृत आहुति पाई ॥

हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा ॥

उसे [सजी] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुघ्नजी क्रोधमें भर गये । मातृ
पुत्रता हुई आगकी धीकी आहुति मिल गयी ही । उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लट
पूजा दी । वह चिल्लाती हुई मुँहके बल जमीनपर गिर पड़ी ॥ २ ॥

कूबर टूटेउ फूट कपारु । दलित दसन मुख रुधिर प्र-

आह दइअ मैं काह नसावा । करत नीक फलु

उसका कूबड़ टूट गया, कपारु फूट गया, दाँव टूट गये और मुँहसे
रुधिर बह करारहती हुई बोलती—) हाय देव ! मैंने क्या बिराड़ा ? जो भला कहे

दो०—पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुवीर ।

विसमउ हरपु न हृदयँ कछु पहिरे बलकल चीर ॥ १६५ ॥

हे तात ! पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वस्त्र त्याग दिये और बलकल-वस्त्र पहन लिये । उनके हृदयमें न कुछ विषाद था न हर्ष ! ॥ १६५ ॥

त्रो०—मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू । सब कर सब विधि करि परितोषू ॥

चले विपिन सुनि सियसँग लागी । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥

उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी, न रोष (द्वेष), सबका सब तरहसे संतोष कराकर वे वनको चले । यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं । श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १ ॥

सुनतहिं लखनु चले उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥

तव रघुपति सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥

सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले । श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्न किये, पर वे न रहे । तब श्रीरघुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मणको साथ लेकर चले गये ॥ २ ॥

रामु लखनु सिय बनहि सिधाए । गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥

यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें । तउ न तजा तनु जीव अभागें ॥

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये । मैं न तो साथ ही गयी और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे । यह सब इन्हीं आँखोंके सामने हुआ तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥

मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥

जिए मरै भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥

अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मैं माता ! जीना और मरना तो राजाने खूब जाना । मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रोंके समान कठोर है ॥ ४ ॥

दो०—कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु ।

व्याकुल विलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥

पिताजी स्वर्गमें हैं और श्रीरामजी वनमें है। केतुके समान केवल में ही इन सब अनर्थोंका कारण हैं। मुझे धिक्कार है! मैं वाँसके वनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुःख और दोषोंका भागी बना ॥ ४ ॥

दो०—मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि ।

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति वारि ॥ १६४ ॥

भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सँभलकर उठीं। उन्होंने भरतको उठाकर छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं ॥ १६४ ॥

चौ०—सरलसुभायमायँहियँलाए । अति हितमनहुँरामफिरिआए ॥

भैटेउवहुरि लखनलघुभाई । सोकु सनेहु न हृदयँ समाई ॥

सरल स्वभाववाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानो श्रीरामजी ही लौटकर आ गये हों। फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्रुघ्नको हृदयसे लगाया। शोक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥

देखि सुभाउ कहत सवु कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥

माताँ भरतु गोद वैठारे । आँसु पोंछि मृदु वचन उचारे ॥

कौसल्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं—श्रीरामकी माताका ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माताने भरतजी को गोदमें बैठा लिया और उनके आँसू पोंछकर कोमल वचन बोलीं—॥ २ ॥

अजहुँ वच्छ बलि धीरज धरहू । कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥

जनि मानहु हियँ हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥

हे वत्स ! मैं बलैया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज धरो ! बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि मत मानो ॥ ३ ॥

काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब विधि वाम विधाता ॥

जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा । अजहुँको जानइ का तेहि भावा ॥

हे तात ! किसीको दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा हो गया है, जो इतने दुःखपर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है, उसे क्या भा रहा है ॥ ४ ॥

जो लोग वेदोंको बेचते हैं, धर्मको दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरोंके पापोंको कह देते हैं; जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदोंकी निन्दा करनेवाले और विश्वमरके विरोधी हैं, ॥ १ ॥

**लोभी लंपट लोलुपचारा । जे ताकहिं परधनु परदारा ॥
पावों में तिन्ह कै गति घोरा । जौं जननी यहु संमत मोरा ॥**

जो लोभी, लम्पट और लालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन और परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हैं; हे जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी मयानक गतिको पाऊँ ॥ २ ॥

**जे नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ विमुख अभागे ॥
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई । जिन्हहिनहरि हर सुजसु सोहाई ॥**

जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं, जो मनुष्य-शरीर पाकर श्रीहरिका भजन नहीं करते, जिनको हरि-हर (भगवान् विष्णु और शंकरजी) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३ ॥

**तजि श्रुतिपंथु वाम पथ चलहीं । बंचक विरचि वेष जगु छलहीं ॥
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ । जननी जौं यहु जानौं भेऊ ॥**

जो वेदमार्गको छोड़कर वाम (वेदप्रतिकूल) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं और वेष बनाकर जगत्को छलते हैं; हे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊँ तो शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गति दें ॥ ४ ॥

दो०—मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभायँ ।

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कायँ ॥ १६८ ॥

माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंको सुनकर कहने लगीं—हे तात ! तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥ १६८ ॥

ची०—राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥

विधु विष चवै स्रवै हिमु आगी । होइ वारिचर वारि विरागी ॥

श्रीराम तुम्हारे प्राणोंसे भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हैं और तुम भी श्रीरघुनाथको प्राणोंसे

कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा । राजमहल मानो शोकका निवास बन गया ॥ १६६ ॥

चौ०—विलपहिं विकल भरत दौउ भाई । कौसल्याँ लिए हृदयँ लगाई ॥

भाँति अनेक भरतु समुझाए । कहि विवेकमय वचन सुनाए ॥

भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे । तब कौसल्याजीने उनको हृदयसे लगा लिया । अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया और बहुत-सी विवेक-भरी बातें उन्हें कहकर सुनायीं ॥ १ ॥

भरतहुँ मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥

छल विहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥

भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया । दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बोले—॥ २ ॥

जे अघ मातु पिता सुत मारें । गाइ गोठ महिसुर पुर जारें ॥

जे अघ तिय बालक वध कीन्हें । मीत महीपति माहुर दीन्हें ॥

जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला और ब्राह्मणोंके नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप स्त्री और बालककी हत्या करनेसे होते हैं; और जो मित्र और राजाको जहर देनेसे होते हैं—॥ ३ ॥

जे पातक उपपातक अहहीं । करम वचन मन भव कवि कहहीं ॥

ते पातक मोहि होहुँ विधाता । जौँ यहु होइ मोर मत माता ॥

कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक (बड़े-छोटे पाप) हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो, तो हे माता ! वे सब पाप मुझे लगे ॥ ४ ॥

दो०—जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर ।

तेहि कइ गति मोहि देउ विधि जौँ जननी मत मोर ॥ १६७ ॥

जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतोंको भजते हैं; हे माता ! यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ ॥

चौ०—वेचहिं वेदु धरमु दुहि लेहीं । पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥

कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । वेदु विदूषक विस्व विरोधी ॥

उनको मती होनेसे रोक लिया)। वे रानियाँ भी [श्रीरामके] दर्शनकी अभिलाषासे रह गयीं ॥ १ ॥

चंदन अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥

सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥

चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [कपूर, गुग्गुल, केसर आदि] सुगन्ध-द्रव्योंके बहुत-से बोझ आये। सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी, [जो ऐसी मालूम होती थी] मानो स्वर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २ ॥

एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥

सोधि सुमृति सब वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥

इस प्रकार सब दाहक्रिया की गयी और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलाञ्जलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका दशगात्र-विधान (दस दिनोंके कृत्य) किया ॥ ३ ॥

जहँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँतिसबु कीन्हा ॥

भए विसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही हजारों प्रकारसे किया। शुद्ध हो जानेपर [विधिपूर्वक] सब दान दिये। गौएँ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, ॥ ४ ॥

दो०—सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम ।

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥ १७० ॥

सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्णकाम हो गये (अर्थात् उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं) ॥ १७० ॥

चौ०—पितुहितभरतकीन्हिजसिकरनी । सो मुखलाखजाइ नहिं बरनी ॥

सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए । सचिवमहाजनसकलबोलाए ॥

पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की वह लाखों मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती, तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा सब महाजनोंको बुलवाया ॥ १ ॥

भी अधिक प्यारे हो। चन्द्रमा चाहे विप चुभाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जन्मचर जीव जनसे विरक्त हो जाय ॥ १ ॥

भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥

मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं ॥

और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत्में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्नमें भी सुख और शुभगति नहीं पावेंगे ॥ २ ॥

अस कहि मातु भरतु हियँ लाए । थन पय स्रवहिँ नयन जल छाए ॥

करत विलाप बहुत यहि भाँती । बेंठेहिँ वीति गई सव राती ॥

ऐसा कहकर माता कौसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया। उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बेंठे-ही-बेंठे बीत गयी ॥ ३ ॥

वामदेउ वसिष्ठ तव आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥

मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ वचन सुदेसे ॥

तब वामदेवजी और वसिष्ठजी आये। उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोंको बुलवाया। फिर मुनि वसिष्ठजीने परमारथके मुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया ॥ ४ ॥

वो०—तात हृदयँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु ।

उठे भरत गुर वचन सुनि करन कहेउ सवु साजु ॥ १६६ ॥

[वसिष्ठजीने कहा—] हे तात! हृदयमें धीरज धरो और आज जिस कार्यके करनेका अवसर है, उसे करो। गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६६ ॥

वो०—नृपतनु वेद विदित अन्हवावा । परम विचित्र विमानु बनावा ॥

गहि पद भरत मातु सव राखी । रहीं रानि दरसन अभिलापी ॥

वेदोंमें बतायी हुई विधिसे राजाको देहको स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रक्खा (अर्थात् प्रार्थना करके

कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥

सोचिअ वयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथिसिव भगति सुजानू ॥
सोचिअ सृद्रु बिप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥

उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान् होकर भी कंजूस है और जो अतिथि-सत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है। उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥

सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥
सोचिअ बटु निज व्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

पुनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-व्रतको छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ॥ ४ ॥

दो०—**सोचिअ गृही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग ।**

सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥ १७२ ॥

उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्चमें फँसा हुआ है और ज्ञान-वैराग्यसे है ॥ १७२ ॥

चौ०—**बैखानस सोइ सोचै जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥**

सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥

वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको सोच उसका करने चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही पिता, गुरु एवं साय विरोध रखनेवाला है।

छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। क्रोध करनेवाला है तथा माता, ॥

। नि

निरदय भारी ॥

। जो

हरि जन होई ॥

जो

करता है, अपने

बैठे राजसभाँ सब जाई । पठए वोलि भरत दोउ भाई ॥
भरतु वसिष्ठ निकट बैठारे । नीति धरममय वचन उचारे ॥

मव लोग राजसभामें जाकर बैठ गये । तब मुनिने भरतजी तथा शत्रुघ्नजी दोनों भाइयोंको बुलवा भेजा । भरतजीको वसिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्ममें भरे हुए वचन कहे ॥ २ ॥

प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी । कैकड़ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥
भूप धरमव्रतु सत्य सराहा । जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निवाहा ॥

पहले तो कैकेयीने जैसी कुटिल करनीकी थी, श्रेष्ठ मुनिने वह मारी कथा कही । फिर राजाके धर्मव्रत और मृत्युकी मराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निवाहा ॥ ३ ॥

कहत राम गुन सील सुभाऊ । सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके नेत्रोंमें जल भर आया और वे शरीरमें पुलकित हो गये । फिर लक्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए जानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये ॥ ४ ॥

श्लो०—सुनहु भरत भावी प्रवल विलखि कहेउ मुनिनाथ ।

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ १७१ ॥

मुनिनाथने विलखकर (दुखी होकर) कहा—हे भरत ! मुनी, भावी (होनेहार) बड़ी बलवान् है । हानि-लाभ, जीवन-मरण और यज्ञ-अपयज्ञ—ये सब विघानाके हाथ हैं ॥१७१॥

श्लो०—अस विचारि केहि देइअ दोसू । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू ॥

तात विचारु करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथु न्युपु नाहीं ॥

ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय ? और व्ययं किनपर शोध दिया जाय ? हे तात ! मनमें विचार करो । राजा दसरथ सोच करनेके योग्य नहीं है ॥ १ ॥

सोचिअ विप्र जो वेद विहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥

सोचिअ नृपति जो नीतिन जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥

सोच उम शाह्यणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता और जो अन्ना धर्म को

कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥

सोचिअ बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथिसिव भगति सुजानू ॥

सोचिअ सृद्रु विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥

उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान् होकर भी कंजूस है और जो अतिथि-सत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है। उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥

सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥

सोचिअ बटु निज व्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

पुनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-व्रतको छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ॥ ४ ॥

दो०—**सोचिअ गृही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग ।**

सोचिअ जती प्रपंच रत विगत विवेक विराग ॥ १७२ ॥

उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्चमें फँसा हुआ है और ज्ञान-वैराग्यसे हीन है ॥ १७२ ॥

चौ०—**बैखानस सोइ सोचै जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥**

सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु विरोधी ॥

वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता, पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध रखनेवाला है ॥ १ ॥

सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥

सोचनीय सवहीं विधि सोई । जो न छाड़ि छलु हरि जन होई ॥

सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है, अपने

ही शरीरका पोषण करता है और बड़ा भारी निंद्यो है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥

सोचनीय नहीं कोसलराज । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥

भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥

कोसलराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है। हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥

विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिक्पाल—सभी दशरथजीके गुणोंकी कयाएँ कहा करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—कहहु तात केहि भौंति कोउ करिहि बड़ाई तासु ।

राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ १७३ ॥

हे तात ! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न-सरोधे पवित्र पुत्र हैं ? ॥ १७३ ॥

चौ०—सब प्रकार भूपति बड़भागी । वादि विषादु करिअ तेहि लागी ॥

यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥

राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे। उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है। यह गुन और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो ॥ १ ॥

रायँ राजपदु तुम्ह कहँ दीन्हा । पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा ॥

तजे रामु जेहिं वचनहि लागी । तनु परिहरेउ राम विरहागी ॥

राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें मत्स्य करना चाहिये, जिन्होंने वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे दी ! ॥ २ ॥

नृपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राणा । करहु तात पितु वचन प्रवाना ॥

करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भौंति भलाई ॥

राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिये हे तात ! पिताके वचनोंको

प्रमाण (सत्य) करो। राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है ॥ ३ ॥

परशुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी ॥
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अग्याँअघ अजसु न भयऊ ॥

परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी और माताको मार डाला; सब लोक इस बातके साक्षी हैं। राजा ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ ॥ ४ ॥

श्री०—अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु बैन।

ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥ १७४ ॥

जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं, वे [यहाँ] सुख और सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (स्वर्ग) में निवास करते हैं ॥ १७४ ॥

श्री०—अवसिनरेसवचनफुरकरहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ॥

सुरपुर नृपु पाइहि परितोपू। तुम्ह कहूँ सुकृतु सुजसु नहिं दोषू ॥

राजाका वचन अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो। ऐसा करनेसे स्वर्गमें राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यज्ञ मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥

वेद विदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥

करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर वचन हित जानी ॥

यह वेदमें प्रसिद्ध है और [स्मृति-पुराणादि] सभी शास्त्रोंके द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे, वही राजतिलक पाता है। इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर दो। मेरे वचनको हित समझकर मानो ॥ २ ॥

सुनि सुखु लहव राम बैदेहीं। अनुचित कहव न पंडित केहीं ॥

कौसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं ॥

इस बातको नुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुन्न पावेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी।

परम तुम्हार राम कर जानिहि। सोसइ विधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥

सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ ॥

ही शरीरका पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥

सोचनीय नहीं कोसलराज । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाज ॥

भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥

कोसलराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है। हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥

विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिक्पाल—सभी दशरथजीके गुणोंकी क्यारें कहा करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु ।

राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ १७३ ॥

हे तात ! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न-सरीखे पवित्र पुत्र हैं ? ॥ १७३ ॥

चो०—सब प्रकार भूपति बड़भागी । वादि विषादु करिअ तेहि लागी ॥

यह सुनि समुझि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहू ॥

राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे। उनके लिये विषाद करना व्ययं है। यह गुन और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो ॥ १ ॥

रायँ राजपदु तुम्ह कहँ दीन्हा । पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा ॥

तजे रामु जेहिं वचनहि लागी । तनु परिहरेउ राम विरहागी ॥

राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें मत्व करना चाहिये, जिन्होंने वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे दी ! ॥ २ ॥

नृपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु वचन प्रवाना ॥

करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥

राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इमनिये हे तात ! पिताके वचनोंको

हृदयके लिये मानो चन्दनके समान [शीतल] थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४ ॥

छं०—सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए ।

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए ॥

सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की ।

तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की ॥

सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। उनके नेत्र-कमल जल (आँसू) बहाकर हृदयके विरहरूपी नवीन अङ्कुरको सींचने लगे। (नेत्रोंके आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुल कर दिया।) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुध भूल गयी। तुलसीदासजी कहते हैं—स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे।

सो०—भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि ।

वचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १७६ ॥

धैर्यकी घुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान हाथोंको जोड़कर, वचनोंको मानो अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे ॥ १७६ ॥

मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम

चो०—मोहि उपदेशु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥

मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसिसीसधरि चाहउँ कीन्हा ॥

गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। [फिर] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत है। माताने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ ॥ १ ॥

गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनिमनमुदित करिअ भलि जानी ।

उचित कि अनुचित किएँ विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥

[क्योंकि] गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद् (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे

जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह सभी प्रकारसे तुमसे भला मानेगा। श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥

दो०—कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिँ सचिवकर जोरि ।

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करव बहोरि ॥ १७५ ॥

मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं—गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये। श्रीरघुनाथजीके लौट आनेपर जैसा उचित हो तब फिर वंसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥

चौ०—कौसल्या धरि धीरजु कहई। पृत पथ्य गुर आयसु अहई ॥

सो आदरिअ करिअ हित मानी। तजिअ विपादु कालगति जानी ॥

कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं—हे पुत्र ! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप है। उसका आदर करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये। कालकी गतिको जानकर विपादका त्याग कर देना चाहिये ॥ १ ॥

वन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥

परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा ॥

श्रीरघुनाथजी वनमें हैं, महाराज स्वर्गका राज्य करने चले गये और हे तात ! तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र ! कुटुम्ब, प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके—सबके एक तुम ही महारे हो ॥ २ ॥

लखि विधि वाम कालु कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥

सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू ॥

विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरुजी आज्ञाको सिर चटाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालनकर कुटुम्बियोंका दुःख हरो ॥ ३ ॥

गुर के वचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥

सुनी बहोरि मातु मृदु बानी । सील सनेह मरल ग्य मानी ॥

भरतजीने गुरुके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्दन सुनकर प्रसन्न हुए और माताके मृदु वचनों से प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥

सरज सरीर बादि बहु भोगा । विनु हरिभगति जायँ जप जोगा
जायँ जीव विनु देह सुहाई । बादि मोर सबु विनु रघुराई

रोगी जरीरके निये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं । श्रीहरिकी भक्तिके बिना
आर योग व्यर्थ हैं । जीवके बिना मृन्दर देह व्यर्थ है । वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना
सब कुछ व्यर्थ है ॥ ३ ॥

जाउँ राम पहिँ आयसु देहू । एकहिँ आँक मोर हित एहू
मोहि नृप करि भल आपन चहहू । सोउ सनेह जड़ता बस कहहू

मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामजीके पास जाऊँ । एक ही आँक (निश्चयपूर्वक
मेरा हित इसीमें है । और मुझे राजा बनाकर आप अपना भया चाहते हैं, यह भी उ
ल्लेखी जड़ता (मोह) के बज होकर ही कह रहे हैं ॥ ४ ॥

श्री०—कैकेई सुअ कुटिलमति राम विमुख गतलाज ।

नुह चाहत सुखु मोहवस मोहि से अधम के राज ॥ १७८ ॥

कैकेयीके पुत्र, कुटिलवृद्धि, रामविमुख और निर्लज्ज मुझ-से अधमके राज्यसे अ
मोहके बज होकर ही नुछ चाहते हैं ॥ १७८ ॥

श्री०—कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू । चाहिँअ धरमशील नरनाहू
मोहि राजु हठि देइहहु जवहीं । रसा रसातल जाइहि तवहीं

मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलकी ही राजा हो
चाहिये । आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें धूम जायगी ॥ १ ॥

मोहि समान को पाप निवामू । जेहि लागि सीय राम बनवामू
रायँ राम कहूँ काननु दीन्हा । विधुरत गमनु अमरपुर कीन्हा

मेरे समान पापोंका धर कान होगा, जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका बनव
हुआ ? राजाने श्रीरामजीको बन दिया और उनके विधुड़ते ही स्वयं स्वर्गको गमन किया ॥ १ ॥

मैं सठु सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब सुनउँ सचेतू
विनु रघुर्वार त्रिलोकि अवामू । रहे प्राण सहि जग उपहामू

और मैं कुछ, जो मेरे अनर्थोंका कारण हूँ, बैठ सब बातें सुन रहा हूँ
श्रीरघुनाथजीमें रहित धरको देखकर और जगत्का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं ॥ १ ॥

उसे अच्छी समझकर करना (मानना) चाहिये । उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार चढ़ता है ॥ २ ॥

तुम्हें तो देह सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥
जद्यपि यह समुझत हउँ नीकें । तदपि होत परितोषु न जी कें ॥

आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनेमें मेरा भना हो । यद्यपि मैं इस बातको भलीभाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको संतोष नहीं होता ॥ ३ ॥

अब तुम्हें विनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥
उत्तर देउँ छमव अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥

अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये । मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये । साधु पुरुष दुषी मनुष्यके दोष-गुणोंको नहीं गिनते ॥ ४ ॥

दो०—पितु सुरपुर सिय रामु वन करन कहहु मोहि राजु ।

एहि तें जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु ॥ १७७ ॥

पिताजी स्वर्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं । इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [होनेकी आशा रखते हैं] ? ॥ १७७ ॥

चौ०—हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥

मैं अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपायँ मोर हित नाहीं ॥

मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलताने छीन लिया । मैंने अपने मनमें अनुमान करके देय लिया है कि दूररे किमी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है ॥ १ ॥

सोक समाजु राजु केहि लेखें । लखन राम सिय विनु पद देखें ॥

वादि वसन विनु भूषन भारु । वादि विरति विनु ब्रह्मविचारु ॥

यह शोकका समुदाय राज्य नष्टमण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंकी देखे बिना किस गिनतीमें है (इसका क्या मूल्य है) ? जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यर्थ है, वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ है ॥ २ ॥

मेरी सब बात तो विधाताने ही बना दी है। [फिर] उसमें प्रजा और पंच (आपलोग) क्यों सहायता कर रहे हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—ग्रह ग्रहीत पुनि बात बंस तेहि पुनि बीछी मार ।

तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८० ॥

जिसे कुग्रह लगे हों [अथवा जो पिशाचग्रस्त हो], फिर जो वायुरोगसे पीड़ित हो और उसीको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय तो कहिये यह कैसा इलाज है ? ॥ १८० ॥

ची०—कैकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥

दसरथ तनय राम लघु भाई । दीन्ह मोहि विधि बादि बड़ाई ॥

कैकेयीके लड़केके लिये संसारमें जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया। पर 'दशरथजीका पुत्र' और 'रामका छोटा भाई' होनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी ॥ १ ॥

तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका । राय रजायसु सब कहँ नीका ॥

उतरु देउँ केहि विधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥

आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं। राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है। मैं किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ ? जिसकी जैसी रुचि हो, आपलोग सुखपूर्वक वही कहें ॥ २ ॥

मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥

मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥

मेरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर कहिये, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया ? जड़-चेतन जगत्में मेरे सिवा और कौन है, जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंके समान प्यारे न हों ॥ ३ ॥

परम हानि सब कहँ बड़ लाहू । अदिनु मोर नहिं दूषन काहू ॥

संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचितसब जो कछु कहहू ॥

जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसीका दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है; क्योंकि आपलोग संशय, शील और प्रेमके वज्र हैं ॥ ४ ॥

राम पुनीत विषय रस रखे । लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥
कहँ लागि कहीं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥

[इसका यही कारण है कि ये प्राण] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आतक्त नहीं हैं । ये लालची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं । मैं अपने हृदयकी कठोरता कहाँना-कहूँ ? जिमने वचका भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी है ॥ ४ ॥

दो०—कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर ।

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥ १७६ ॥

कारणसे कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं । हृदयसे वच और पदरसे लोहा भयानक और कठोर होता है ॥ १७६ ॥

चो०—कैकेई भव तनु अनुरागे । पावँर प्रान अघाइ अभागे ॥

जौं प्रिय विरहँ प्रान प्रिय लागे । देखव सुनव बहुत अब आगे ॥

कैकेयोसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट (पूरी तरहमें) अभागे हैं । जब प्रियके वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूँ-सुनूँगा ॥ १ ॥

लखन राम सिय कहूँ वनु दीन्हा । पठइ अमरपुर पति हिन कीन्हा ॥

लीन्ह विधवापन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू ॥

लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया, स्वयं भेजकर पतिका कन्यापन किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजाको शोक और गन्ताप दिया; ॥ २ ॥

मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू । कीन्ह कैकई सब कर काजू ॥

एहि तें मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥

और मुझे सुख, सुन्दर यज्ञ और उत्तम राज्य दिया । कैकेयोने मर्भौका काम बना दिया । इससे अच्छा अब मेरे लिये और क्या होगा ? उमपर भी आपनोग मुझे गजतिवक देनेको कहते हैं ! ॥ ३ ॥

कैकइ जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं ॥

मोरि बात सब विधिहिं बनाई । प्रजा पाँच कन करहु सहाई ॥

कैकेयोके पेटमें जगत्में जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं

सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शन किये बिना मेरे जीकी जलन न जायगी ॥ १८२ ॥

चौ०—आन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जिय कै रघुबर बिनु बूझा ॥

एकहि आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं ॥

मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता । श्रीरामके बिना मेरे हृदयकी बात कौन जान सकता है ? मनमें एक ही आँक (निश्चयपूर्वक) यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजीके पास चल दूँगा ॥ १ ॥

जद्यपि मैं अनभल अपराधी । भैं मोहि कारन सकल उपाधी ॥

तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छभि सब करिहहिं कृपा बिसेषी ॥

यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ; और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्रीरामजी मुझे शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे ॥ २ ॥

शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥

अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥

श्रीरघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा और स्नेहके घर हैं । श्रीरामजीने कभी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया । मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ; पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही ॥ ३ ॥

तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुबानी ॥

जेहिं सुनि विनयमोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजधानी ॥

आप पंच (सब) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवें ॥ ४ ॥

दो०—जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदास ।

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥ १८३ ॥

यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ तो भी मुझे श्रीरामजीका भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥ १८३ ॥

दो०—राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेपि ।

कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलहृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है। इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं ॥ १८१ ॥

चौ०—गुर विवेक सागर जगु जाना । जिन्हहि विस्व कर बदर समाना ॥

मो कहँ तिलक साज सज सोऊ । भएँविधि विमुख विमुखसबुकोऊ ॥

गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैं, इस बातको सारा जगत् जानता है, जिनके लिये विश्व हृदयलीपर रखे हुए बेरके समान है, वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हैं। गरीब है, विघाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते हैं ॥ १ ॥

परिहरि रामु सीय जग माहीं । कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं ॥

सो मैं सुनव सहव सुखु मानी । अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी ॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगत्में कोई यह नहीं कहेगा कि इम अनयमें मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूँगा और सहूँगा; क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है ॥ २ ॥

डरुन मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू ॥

एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि लागि भे सिय रामु दुखारी ॥

मुझे इसका डर नहीं है कि जगत् मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोकका ही सोच है। मेरे हृदयमें तो बस, एक ही दुःसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीगीता-रामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥

जीवन लाहु लखन भल पावा । सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥

मोर जनम रघुवर बन लागी । झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥

जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाया। मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था। मैं अभागा झूठ-मूठ क्या पछताता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ ।

देखें विनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥

काल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो गये ॥ १ ॥

मुनिहि बाँदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर विदा कराई ॥

धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥

मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने-अपने घरको चले । जगत्में भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेहकी सराहना करते जाते हैं ॥ २ ॥

कहहिं परस्पर भा बड़ काजू । सकल चलै कर साजहिं साजू ॥

जेहि राखहिं रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥

आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ । सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३ ॥

कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जग जीवन लाहू ॥

कोई-कोई कहते हैं—रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगत्में जीवनका लाभ कौन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥

दो०—जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ ।

सनमुख होत जो राम पद करै न सहस सहाइ ॥ १८५ ॥

वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई—जल जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख होनेमें हँसते हुए (प्रसन्नतापूर्वक) सहायता न करे ॥ १८५ ॥

चौ०—घर घर साजहिं बाहन नाना । हरषु हृदय परभात पयाना ॥

भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु वाजि गज भवन भँडारू ॥

घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं । हृदयमें [बड़ा] हर्ष है कि नवरे चलना है । भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े-हाथी, महल-खजाना आदि—॥ १ ॥

संपति सब रघुपति कै आही । जौं विनु जतन चलौं तजि ताही ॥

तौ परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साइँ दोहाई ॥

सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है, यदि उसकी [रक्षाकी] व्यवस्था किये बिना

बो०—भरत वचन सब कहँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधौँ जनु पागे ॥

लोग वियोग विषम विष दागे । मंत्र सवीज सुनत जनु जागे ॥

भरतजीके वचन सबको प्यारे लगें । मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतमें पगे हुए थे । श्रीरामवियोगरूपी भीषण विषसे सब लोग जले हुए थे । वे मानो बीजमहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १ ॥

मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेहँ विकल भए भारी ॥

भरतहि कहहिँ सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥

माता, मन्त्री, गुरु, नगरके स्त्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये । सब भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकी मादात् मूर्ति हो है ॥

तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥

जो पावँरु अपनी जड़ताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥

हे तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें ! श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे हैं । जो नीच अपनी मूर्खतासे आपकी माता कंकेशीकी कुटिलताको लेकर आपपर संदेह करेगा, ॥ ३ ॥

सो सठु कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कल्प सत नरक निकेता ॥

अहिअघ अवगुननहिँमनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ॥

वह दुष्ट करोड़ों पुरुषोंसहित सो कल्पोंतक नरकके घरमें निवास करेगा । सापके पाप और अवगुणको मणि नहीं ग्रहण करती । बल्कि वह विषको हर लेती है और दुःख तथा दखिद्रताको भस्म कर देती है ॥ ४ ॥

बो०—अवसि चलिअ वन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह ।

सोक सिंधु वृद्धत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥ १८४ ॥

हे भरतजी ! वनको अवश्य चलिये, जहाँ श्रीरामजी है, आपने बहुत अच्छी गन्नाह विचारी । शोकसमुद्रमें डूबते हुए सब लोगोंको आपने [बड़ा] सहारा दे दिया ॥ १८४ ॥

बो०—भा सब केँ मन मोटु न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥

चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥

मनके मनमें काम आनन्द नहीं हुआ (अर्थात् बहुत ही आनन्द हुआ) मानो मेषोंकी गजंजा सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों । [दूसरे दिन] प्रात-

काल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो गये ॥ १ ॥

मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥

धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥

मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने-अपने घरको चले । जगत्में भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेहकी सराहना करते जाते हैं ॥ २ ॥

कहहिं परस्पर भा बड़ काजू । सकल चलै कर साजहिं साजू ॥

जेहि राखहिं रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥

आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ । सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३ ॥

कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जग जीवन लाहू ॥

कोई-कोई कहते हैं—रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगत्में जीवनका लाभ लैन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥

दो०—जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ ।

सनमुख होत जो राम पद करै न सहस सहाइ ॥ १८५ ॥

वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई—जल जाय जो श्रीरामजीके कारणोंके मम्मूख होनेमें हँसते हुए (प्रसन्नतापूर्वक) सहायता न करे ॥ १८५ ॥

ती०—घर घर साजहिं बाहन नाना । हरषु हृदय परभात पयाना ॥

भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥

घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं । हृदयमें [बड़ा] हर्ष कि सवेरे चलना है । भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े-हाथी, महल-जाना आदि—॥ १ ॥

ंपति सब रघुपति कै आही । जौं विनु जतन चलोँ तजि ताही ॥

ौ परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साइँ दोहाई ॥

मारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है, यदि उसकी [रक्षाकी] व्यवस्था किये बिना

उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ, तो परिणाममें मेरी भनाई नहीं है। क्योंकि स्वामीता द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) है ॥ २ ॥

करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूपन कोटि देइ किन कोई ॥

अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले ॥

सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरतजीने ऐसा विचारकर ऐसे विष्ट्वामपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी स्वप्नमें भी अपने धर्ममें नहीं डिगे ये।

कहि सवु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥

करि सवु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहिँ भरतु सिधारे ॥

भरतजीने उनको सब भेद ममझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिन योग्य था, उसे उसी कामपर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कोसल्याजीके पास गये ॥ ४ ॥

श्लो०—आरत जननी जानि सब भरत सनेह मुजान ।

कहेउ बनावत पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥

स्नेहके मुजान (प्रेमके तत्वको जाननेवाले) भरतजीने सब माताओंको आतं (दुर्गो) जानकर उनके लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान (सुखधान) मजानेके लिये कहा ॥ १८६ ॥

श्लो०—चक्र चक्रि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥

जागत सवु निसि भयउ विहाना । भरत बोलाए सचिव मुजाना ॥

नगरके नर-नारी चक्र-चक्रकी भाँति हृदयमें अत्यन्त आतं होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। नारी रात जागते-जागते सबेर हो गया। तब भरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुलवाया—॥ १ ॥

कहेउ लेहु सवु तिलक समाजू । बनहिँ देव मुनि रामहि राजू ॥

वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥

और कहा—तिलकका सब नामान ले चलो। यन्में ही मुनि वशिष्ठजी भीराम-चन्द्रजीको राज्य श्रेष्ठ, जहाँ चला। यह सुनकर मन्त्रियोंने कदना की और तुरत घोड़े रथ और हाथी गजवा दिये ॥ २ ॥

अरुंधती अरु अग्नि समाऊ । रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥

वेप्र बृंद चढ़ि बाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥

सबसे पहले मुनिराज वसिष्ठजी अरुंधती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसहित रथपर सवार होकर चले । फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्या और तेजके भण्डार हैं, अनेकों सवारियोंपर चढ़कर चले ॥ ३ ॥

नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥

सेविका सुभग न जाहिं बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥

नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े । जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ४ ॥

दो०—सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ ।

सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ १८७ ॥

विश्वासपात्र सेवकोंको नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक खाना करके, तब श्रीसीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई चले ॥ १८७ ॥

चौ०—राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥

वनसिय रामु समुझि मनमार्हीं । सानुज भरत पयादेहिं जाहीं ॥

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए (दर्शनकी अनन्य लालसासे) सब नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर [बड़े तेजीसे बावले-से हुए] जा रहे हों । श्रीसीतारामजी [सब सुखोंको छोड़कर] वनमें हैं, मनमें ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्नजीसहित भरतजी पैदल ही चले जा रहे हैं ॥ १ ॥

देखि स्नेहु लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥

जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु मृदु बानी बोली ॥

उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्न हो गये और सब घोड़े, हाथी, रथोंको छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे । तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोलीं—॥ २ ॥

तात चढ़हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥

तुम्हरेँ चलत चलिहि सबु लोगू । सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥

उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ, तो परिणाममें मेरी बनाई नहीं है। क्योंकि स्वामीका द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) है ॥ २ ॥

करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूपन कोटि देइ किन कोई ॥
अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले ॥

सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोंडं करोड़ों दोष क्यों न दे। भरतजीने ऐसा विचारकर ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी स्वप्नमें भी अपने धर्मसे नहीं डरे थे।
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहिँ भरतु सिधारे ॥

भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिन योग्य था, उसे उसी कामपर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास गये ॥ ४ ॥

दो०—आरत जननी जानि सब भरत सनेह मुजान ।

कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥

स्नेहके मुजान (प्रेमके तत्त्वको जाननेवाने) भरतजीने सब माताओंको आर्त (दुःखी) जानकर उनके लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान (सुखयान) मजानेके लिये कहा ॥ १८६ ॥

चौ०—चक्र चक्रि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥

जागत सब निसि भयउ विहाना । भरत बोलाए सचिव मुजाना ॥

नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भाँति हृदयमें अत्यन्त आर्त हात्पर प्राप्त-काम-का होना चाहते हैं। नारी रात जागने-जागने सबेरा ही गया। तब भरतजीने नर-मन्त्रियोंको बुलवाया—॥ १ ॥

कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू । वनहिँ देव मुनि रामहि राजू ॥
वेगि चलहु मुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥

और कहा—तिलकका सब मामान ले चलो। यन्त्र ही मनि वरिणर ग यागम-चन्द्रजीको राख्य देगे, जहाँ चलो। यह मुनिकर मन्त्रियोंके क-... को ... पोड़े, रथ और हाथी मजवा दिये ॥ २ ॥

रामचरितमानस

राजनीतिको स्थान नहीं दिया। (राजनीतिका विचार नहीं किया।)
ही लगा था, अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ॥ ३ ॥

जुझारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥
अम करहीं । नहिं विषबेलिअमिअफलफरहीं ॥

दोर जुट जायँ, तो भी श्रीरामजीको रणमें जीतनेवाला
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? विषकी बेलें अमृतफल

न्यानि सन कहेउ सजग सब होहु ।
कीजिअ घाटारोहु ॥ १८६ ॥

ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग
तो और फिर उन्हें डुबा दो तथा

नियाम
हो जायो। नावोंको हाथमें
रोक दो ॥ १८६ ॥

होहु सँजोइल रोकहु घाटा
ख लोह भरत सन लेउ

होकर घाटोंको रोक लो
र मरनेके लिये तैयार
करूँगा) और जीते

तीरा
नीच

युद्धमें
(जो नावें जब
पारगा) और मैं नी

स्वामी काज का
तजडै प्राण रघुन
मैं स्वामीको कागके
उज्ज्वल कर दूँगा ।

मरै ते ठाटा ।

अथ

हे बेटा ! माता बलैया लेती है, तुम रथपर चढ़ जाओ । नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुष्टी हो जायगा । तुम्हारे पैदल चलनेसे सभी लोग पैदल चलेंगे । शोकके मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्तेके (पैदल चलनेके) योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥

सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलत भए दौड भाई ॥
तमसा प्रथम दिवस करि वासू । दूसर गोमति तीर निवासू ॥

माताकी आज्ञाको मिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें मिर नचाकर दोनों भाई रथपर चढ़कर चलने लगे । पहले दिन तमसापर वाम (मुकाम) करके दूसरा मुकाम गोमतीके तीरपर किया ॥ ४ ॥

दो०—पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग ।

करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १८८ ॥

कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही बार भोजन करते हैं । भूषण और भोग-विलासको छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके लिये नियम और व्रत करते हैं ॥ १८८ ॥

चौ०—सई तीर वसि चले विहाने । सुंगवेरपुर सब निअराने ॥

समाचार सब सुने निषादा । हृदयँ विचार करइ सविषादा ॥

रातभर सई नदीके तीरपर निवास करके सबेरे वहाँसे चल दिये और सब शृङ्गवेर-पुरके समीप जा पहुँचे । निषादराजने सब समाचार सुने, तो वह दुष्टी होकर हृदयमें विचार करने लगा—॥ १ ॥

कारन कवन भरतु वन जाहीं । है कष्टु कपट भाउ मन माहीं ॥

जौं पै जियँ न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥

क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ? मनमें कुछ कपटभाव अवश्य है । यदि मनमें कुटिलता न होती, तो मायमें सेना क्यों ले चले हैं ॥ २ ॥

जानहिँ सोनुज रामहि मारी । करउँ अकंटक राजु मुखारी ॥

भरत न राजनीति उर आनी । तव कलंकु अब जीवन हानी ॥

समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणनहित श्रीरामको मारकर सुग्रसे निष्काष्टक

सीधा कर रहे हैं (सुधार रहे हैं) । कोई तलवारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं वे ऐसे उमंगमें भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाशमें कूद (उछल) रहे हों ॥ ३ ॥

निज निज साजु समाजु बनाई । गुह राउतहि जोहारे जाई ॥

देखि सुभट सब लायक जाने । लै लै नाम सकल सनमाने ॥

अपना-अपना साज-समाज (लड़ाईका सामान और दल) बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुहको जोहार की । निषादराजने सुन्दर योद्धाओंको देखकर, सबको सुयोग्य जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान किया ॥ ४ ॥

दो०—भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि ।

सुनि सरोष बोले सुभट वीर अधीर न होहि ॥ १६१ ॥

[उसने कहा—] हे भाइयो ! धोखा न लाना (अर्थात् मरनेसे न घबड़ाना) । आज मेरा बड़ा भारी काम है । यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे—हे वीर ! अधीर मत हो ॥ १६१ ॥

चौ०—राम प्रताप नाथ बल तोरे । करहिं कटकु विनु भट विनु घोरे ॥

जीवत पाउ न पाछें धरहीं । रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं ॥

हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके बलसे हमलोग भरतकी सेनाको बिना वीर और बिना घोड़ेकी कर देंगे (एक-एक वीर और एक-एक घोड़ेको मार डालेंगे), जीते-जी पीछे पांव न रक्खेंगे । पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डमयी कर देंगे (सिरों और धड़ोंसे छा देंगे) ।

दीख निषादनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥

एतना कहत छींक भइ बाँए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥

निषादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा—जुझाऊ (लड़ाईका) ढोल बजाओ । इतना कहते ही बायीं ओर छींक हुई । शकुन विचारनेवालोंने कहा कि खेत सुन्दर हैं (जीत होगी) ॥ २ ॥

वूढु एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥

रामहि भरतु मनावन जाहीं । सगुन कहइ अस विग्रहु नाहीं ॥

एक वूढ़ने शकुन विचारकर कहा—भरतसे मिल लीजिये, उनसे लड़ाई नहीं होगी । भरत श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहे हैं । शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥

ही हाथोंमें आनन्दके लहड्डू हैं (अर्थात् जीत गया तो राममेवकका यज्ञ प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त करूँगा) ॥ ३ ॥

साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥
जायँ जिअत जग सो महि भारू । जननी जाँवन विटप कुडारू ॥

साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका ग्यान नहीं, वह जगत्में पृथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह मानाके योग्यनहीं वृक्षाके काटनेके लिये कुल्हाड़ामात्र है ॥ ४ ॥

दो०—विगत विपाद निपादपति सबहि वढाइ उछाहु ।

सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १६० ॥

[इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणममर्पणका निश्चय करके] निपादराज विपादमें रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उमने तुरत ही तरकस, धनुष और कवच माँगा ॥ १६० ॥

चो०—वेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥

भलेहिँ नाथसबकहहिँ सहरषा । एकहिँ एक वढावइ करपा ॥

[उमने कहा—] हे भाइयो ! जल्दी करो और सब मामान गजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मनमें कायरता न लावे। सब हृदयके साथ बोल उठे—हे नाथ ! बहुत अच्छा और आपमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने लगे ॥ १ ॥

चले निपाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन रुचइ रारी ॥

सुमिरि राम पद पंकज पनहीं । भारी बाँधि चढाइन्हि धनहीं ॥

निपादराजको जोहार कर-करके सब निपाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राममें लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्रीरामचन्द्रजीके वरणकामांगीकी श्रुतियोंपर स्मरण करके उन्होंने भाषियाँ (छोटे-छोटे तरकस) बाँधकर धनुषियों (मोठे-मोठे धनुषों) पर प्रत्यक्षा बढ़ायीं ॥ २ ॥

अँगरी पहिरि कूड़ि सिर धरहीं । फरसा बाँस सेल सम सरी ॥

एक कुसल अति ओड़न खाँड़ि । कूदहिँ गगन सन्हुँ शि

कवच पहनकर सिरपर लोहा रोष रखने हैं और उररहे हैं

यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे रथसे प्रेममें उमंगते हुए चले। निषादराज गुहने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर माथा टेककर जोहार की ॥ ४ ॥

करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ ।
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ ॥ १६३ ॥

दण्डवत् करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया। हृदयमें समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो ॥ १६३ ॥

भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिँ प्रेम कै रीती ॥
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि बरिसहिँ फूला ॥

भरतजी गुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं। प्रेमकी रीतिको सब लोग सिहा रहे हैं (ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं); मङ्गलकी मूल 'धन्य-धन्य' की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं ॥ १ ॥

लोक वेद सब भाँतिहिँ नीचा । जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा ।
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता

[वे कहते हैं—] जो लोक और वेद दोनोंमें सब प्रकारसे नीचा माना जाता जिसकी छायाके छू जानेसे भी स्नान करना होता है, उसी निषादसे अंकवार भरकर (हसे चिपटाकर) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [आनन्द और प्रेमवश] शर पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं ॥ २ ॥

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समुहा
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जगु पावन की

जो लोग राम-राम कहकर जँभाई लेते हैं (अर्थात् आलस्यसे भी जिन राम-नामका उच्चारण हो जाता है) पापोंके समूह (कोई भी पाप) उनके स आते। फिर इस गुहको तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने हृदयसे लगा लिया और कुल जगत्पावन (जगत्को पवित्र करनेवाला) बना दिया ! ॥ ३ ॥

करमनास जलु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहि
रज्जु नामु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म

सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं विमूढ़ा ॥
भरत सुभाउ सीलु विनु बूझें । बड़ि हित हानि जानि विनु जूझें ॥

यह सुनकर निपादराज गूहने कहा—बूढ़ा ठीक कह रहा हूँ । जल्दीमें (बिना विचारे) कोई काम करके मुखंलोग पछताते हैं । भरतजीका शील-स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी हानि है ॥ ४ ॥

दो०—गहहु घाट भट समिटि सब लेउँ भरम मिलि जाइ ।

बूझि मित्र अरि मध्य गति तस तव करिहउँ आइ ॥ १६२ ॥

अतएव हे वीरो ! तुमलोग इकट्ठे होकर सब घाटोंको रोक लो, मैं जाकर भरत-जीसे मिलकर उनका भेद लेता हूँ । उनका भाव मित्रका है या शत्रुका या उदासीनका, यह जानकर तब आकर बंसा (उसीके अनुसार) प्रवन्ध करूँगा ॥ १६२ ॥

चो०—लखव सनेहु सुभायँ सुहाएँ । वैरु प्रीति नहिं दुरइँ दुराएँ ॥

अस कहि भेंट सँजोवन लागे । कंद मूल फल खग मृग मागे ॥

उनके सुन्दर स्वभावसे मैं उनके स्नेहको पहचान लूँगा । वैर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिपते । ऐसा कहकर वह भेंटका सामान सजाने लगा । उसने कन्द, मूल, फल, पक्षी और हिरन मँगवाये ॥ १ ॥

मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥

मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥

कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियोंके भार भर-भरकर आये । भेंटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मङ्गलदायक शुभ शकुन मिले ॥ २ ॥

देखि दूरि तें कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥

जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥

निपादराजने मुनिराज वसिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दूरहोसे इण्डवत् प्रणाम किया । मुनीश्वर वसिष्ठजीने उसको रामका प्यारा आवकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [कि यह श्रीरामजीका मित्र है] ॥ ३ ॥

राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उत्तरि उमगत अनु
गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनई । कीन्ह जोइक मरि

तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ ।

मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ ॥ १६७ ॥

इस प्रकार भरतजी स्नानकर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले ॥ १६७ ॥

चौ०—जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥

सुर सेवा करि आयसु पाई । राम मातु पहिं गे दोउ भाई ॥

लोगोंने जहाँ-तहाँ डेरा डाल दिया। भरतजीने सभीका पता लगाया [कि सब लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहीं]। फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके पास गये ॥ १ ॥

चरन चाँपि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥

भाइहि सौँपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥

चरण दबाकर और कोमल वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्नको माताओंकी सेवा सौंपकर आपने निषादको बुला लिया ॥ २ ॥

चले सखा कर सों कर जोरें । सिथिल सरीरु सनेह न थोरें ॥

पूँछत सखाहि सो ठाउँ देखाऊ । नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥

सखा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है (अर्थात् बहुत अधिक प्रेम है), जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरतजी सखासे पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो—॥ ३ ॥

जहँ सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए ॥

भरत वचन सुनि भयउ विषादू । तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू ॥

जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रोंके कोपोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया। भरतजीके वचन सुनकर निषादको बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया—॥ ४ ॥

कर्मनाशा नदीका जल गङ्गाजीमें पड़ जाता है (मिन जाता है), तब कहिये, उसे कौन सिरपर धारण नहीं करता ? जगत् जानता है कि उलटा नाम (मरा-मरा) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये ॥ ४ ॥

दो०—स्वपच सवर खस जमन जड़ पावँर कोल किरात ।

रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ १६४ ॥

मूर्ख और पामर चाण्डाल, शबर, छस, यवन, कोल और किरात भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं ॥ १६४ ॥

शो०—नहिं अचिरि जु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुवीर वड़ाई ॥

राम नाम महिमा सुर कहहीं । सुनिसुनि अवध लोग सुखु लहहीं ॥

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है । श्रीरघुनाथ-जीने किसको वड़ाई नहीं दी ? इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं ॥ १ ॥

रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा । पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥

देखि भरत कर सीलु सनेह । भा निपाद तेहि समय विदेह ॥

रामसखा निपादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मङ्गल और धेम पूछी । भरतजीका शील और प्रेम देखकर निपाद उस समय विदेह हो गया (प्रेममुग्ध होकर देहकी सुध भूल गया) ॥ २ ॥

सकुच सनेहु मोदु । मन वाढा । भरतहि चित्तवत एकटक ठाढा ॥

धरि धीरंजु पद वंदि वहोरी । विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥

उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह घड़ा-घड़ा टकटकी लगाये भरतजीको देखता रहा । फिर धीरंज धरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा— ॥ ३ ॥

कुसल मूल पद पंक्ज पेखी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥

अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥

हे प्रभो ! कुशलके मूल आपके चरणकमलोंके दर्शन कर मैंने तीनों का

दो०—पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि ।

बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि ॥ १६६ ॥

उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशशय्या) देखकर मेरा हृदय हहराकर (दहलकर) फट नहीं जाता। हे शंकर! यह वज्रसे भी अधिक कठोर है! ॥१६६॥

ची०—लालन जोगु लखन लघु लोने । भे न भाइ अस अहहिं न होने ॥

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं! ऐसे भाई न तो किसीके हुए, न हैं, न होनेके ही हैं। जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके दुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं; ॥ १ ॥

मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाउ तन लाग न काऊ ॥

ते बन सहहिं विपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥

जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीरमें कभी गरम हवा भी नहीं लगी, वे वनमें सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं! [हाय!] इस मेरी छातीने [कठोरतामें] करोड़ों वज्रोंका भी निरादर कर दिया [नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती] ॥ २ ॥

राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥

पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाऊ सबहि सुखदाता ॥

श्रीरामचन्द्रजीने जन्म (अवतार) लेकर जगत्को प्रकाशित (परम सुशोभित) कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणोंके समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुम्बी, गुरु, पिता-माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला है ॥ ३ ॥

वैरिउ राम बड़ाई करहीं । बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं ॥

सारद कोटि कोटि सत सेषा । करिनसकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥

शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं। बोल-चाल, मिलनेके ढंग और विनयसे वे मनको हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुण-समूहोंकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ ॥

दो०—सुखस्वरूप रघुवंसमनि मंगल मोद निधान ।

ते सोवत कुस डसि महि विधि गति अति बलवान ॥ २०० ॥

दो०—जहँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्रामु ।

अति सनेहँ सादर भरत कीन्हैउ दंड प्रनामु ॥ १६८ ॥

जहाँ पवित्र अमोकके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था, भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक दण्डवत् प्रणाम किया ॥ १६८ ॥

चो०—कुस साँथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥

चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । वनइ न कहत प्रीति अधिकारि ॥

कुशाँकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह्नोंकी रज आँखोंमें लगायी । [उस समयके] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १७॥

कनक बिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥

सजल त्रिलोचन हृदयँ गलानी । कहत सर्वाँसिन वचन सुवानी ॥

भरतजीने दो-चार स्वर्णबिन्दु (सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने-कपड़ोंसे गिर-पड़े थे) देखे तो उनको सीताजीके समान नमझकर सिरपर रख लिया । उनके नेत्र [प्रेमाश्रुके] जलसे भरे हैं और हृदयमें ग्लानि भरी है । वे सद्यसे मुन्दर वाणीमें ये वचन बोले—॥ २ ॥

श्रीहत सीय विरहँ दुतिहीना । जथा अवध नर नारि त्रिलीना ॥

पिता जनक देउँ पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥

ये स्वर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत (गोमाहीन) एवं कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे [रामवियोगमें] अयोध्याके नर-नारी त्रिलीन (गोपके कारण क्षीण) हो रहे हैं । जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं, इस जगत्में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठीमें हैं, उन जनकजीको मैं किसकी उपमा दूँ ॥ ३ ॥

ससुर भानुकुल भानु भुआलू । जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥

प्राणनाथ रघुनाथ गोसाईं । जो बड़ होत सो राम बड़ाईं ॥

सूर्यकुलके मूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावतीके स्वामी इन्द्र भी सिहाते थे (इन्द्रपूर्वक उनके-जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे) ; और प्रभु श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होना है वह श्रीरामचन्द्रजीकी [दो हईं] बड़ाईंसे ही होता है; ॥ ४ ॥

प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैंकेयीको बावली बनाया (उसकी मति फेर दी) । उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वक पकी बड़ी सराहना करते थे । तुलसीदासजी कहते हैं [निषादराज कहता है कि—] रामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ । रणाममें मङ्गल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमें धैर्य धारण कीजिये ।

श्लो०—अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन ।

चलिअ करिअ विश्रामु यह विचारि दृढ आनिमन ॥ २०१ ॥

श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपाके धाम हैं, यह विचार कर र मनमें दृढ़ता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये ॥ २०१ ॥

श्लो०—सखा वचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥

यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥

सखाके वचन सुनकर हृदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए भरतजी डेरेको चले । नगरके सारे स्त्री-पुरुष यह (श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका) आचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने चले ॥ १ ॥

रदखिना करि करहिं प्रनामा । देहिं कैकइहि खोरि निकामा ॥

रि भरि वारि बिलोचन लेहीं । बाम विधातहि दूषन देहीं ॥

वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैंकेयीको बहुत दोष देते हैं । त्रोंमें जल भर-भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २ ॥

एक सराहहिं भरत सनेहू । कोउ कह नृपति निवाहेउ नेहू ॥

मंदहिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ विमोह विषादहि ॥

कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने अपना नाम खूब निवाहा । सब अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं । उस समयके विमोह और विषादको कौन कह सकता है ॥ ३ ॥

एहि विधि राति लोगु सबु जागा । भा भिनुसार गुदारा लागा ॥

पुरहि सुनावँ चढ़ाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥

इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे । सवेरा होते ही खेवा लगा । सुन्दर नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ॥ ४ ॥

जो सुखस्वरूप रघुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मञ्जल और आनन्दके भण्डार हैं; वे पृथ्वीपर कुशा विछाकर सोते हैं। विघाताकी गति बड़ी ही बलवान् है ॥ २०० ॥

चौ०—राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥

पलक नयन फनि मनि जेहि भौंती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कानोंसे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन-वृक्षकी तरह उनकी सार-संभाल किया करते थे। सब माताएँ भी रात-दिन उनकी ऐसी सार-संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रोंकी और साँप अपनी मणिकी करते हैं ॥ १ ॥

ते अब फिरत विपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥

धिग कैकई अमंगल मूला । भइसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला ॥

वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमें पैदल फिरते हैं और कन्द-मूल तथा फल-फूलों-का भोजन करते हैं। अमङ्गलकी मूल कैकेयीकी धिक्कार है, जो अपने प्राण-प्रियतम पतिसे भी प्रतिकूल हो गयी ॥ २ ॥

मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥

कुल कलंकु करि सृजेउ विधातौं । साइँदोह मोहि कीन्ह कुमातौं ॥

मुझ पापोंके समुद्र और अभागेको धिक्कार है, धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विघाताने मुझे कुलका कलङ्क बनाकर पैदा किया और कुमाताने मुझे स्वामि-द्रोही बना दिया ॥ ३ ॥

सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । नाथ करिअ कत वादि विषादू ॥

राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोसु विधि वामहि ॥

यह सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा—हैं नाथ! आप व्यर्थ विषाद किस लिये करते हैं? श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे हैं और आप श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं। यही निचोड़ (निश्चित सिद्धान्त) है, दोष तो प्रतिकूल विघाताको है ॥ ४ ॥

छं०—विधि वाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही ब्रावरी ।

तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥

तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हौं सौंहेँ किएँ ।

परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिऐँ ॥

दो०—भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रबेसु प्रयाग ।

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥

प्रेममें उमँग-उमँगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें वेश किया ॥ २०३ ॥

ती०—झलका झलकत पायन्ह कैसें । पंकज कोस ओस कन जैसें ॥

भरत पयादेहिं आए आजू । भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥

उनके चरणोंमें छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी बूंदें चमकती हों । भरतजी आज पैदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥ १ ॥

तब री लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिहिं आए ॥

विधि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने ॥

जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणीपर जाकर उन्हें प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक [गङ्गा-यमुनाके] श्वेत और श्याम जलमें स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान किया ॥ २ ॥

श्वेत स्यामल धवल हलारे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥

सकल काम प्रद तीरथराऊ । वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥

श्याम और सफेद (यमुनाजी और गङ्गाजीकी) लहरोंको देखकर भरतजीका सरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—हे तीर्थराज ! आप समस्त काम-कार्योंको पूर्ण करनेवाले हैं । आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है ॥ ३ ॥

मागउँ भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू ॥

अस जियँ जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥

मैं अपना धर्म (न माँगनेका क्षत्रियधर्म) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ । आर्त मनुष्य कौन-सा कुर्म नहीं करता? ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगत्में माँगने-वालेकी वाणीको सफल किया करते हैं (अर्थात् वह जो माँगता है सो दे देते हैं) ॥ ४ ॥

दो०—अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान ।

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ २०४ ॥

मुझे न अर्थकी रुचि (इच्छा) है, न धर्मकी, न कामकी और न मैं मोक्ष ही

दंड चारि महँ भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहि सँभारा ॥

चार घड़ीमें सब गङ्गाजीके पार उतर गये । तब भरतजीने उतरकर सबको सँभाला ॥१॥

बो०—प्रातःक्रिया करि मातु पद बँदि गुरहि सिरु नाइ ।

आगें किए निपाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥ २०२ ॥

प्रातःकालकी क्रियाओंको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर नवा कर भरतजीने निपादगणोंको [रास्ता दिखलानेके लिये] आगे कर लिया और सेना चला दी ।

बो०—कियउ निपादनाथु अगुआई । मातु पालकीं सकल चलाई ॥

साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥

निपादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं । छोटे भाइं शत्रुघ्न-जीको बुलाकर उनके साथ कर दिया । फिर ब्राह्मणोंसहित गुरुजीने गमन किया ॥ १ ॥

आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥

गवने भरत पयादेहिँ पाए । कोतल संग जाहिँ डोरिआए ॥

तदनन्तर आप (भरतजी) ने गङ्गाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित श्रीसीतारामजीका स्मरण किया । भरतजी पैदल ही चले । उनके साथ कोतल (बिना सवारके) घोड़े बागडोरसे बँधे हुए चले जा रहे हैं ॥ २ ॥

कहहिँ सुसेवक वारहिँ वारा । होइअ नाथ अस्व असवारा ॥

रामु पयादेहि पायँ सिधाए । हम कहँ रथ गज वाजि बनाए ॥

उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! आप घोड़ेपर गवार हो नीजिये । [भरतजी जवाब देते हैं कि] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये और हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ! ॥ ३ ॥

सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥

देखि भरत गति सुनि मृदु वानी । सब सेवक गन गरहिँ गलानी ॥

मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिरके बल चलकर जाऊँ । सेवकका धर्म गवसे कठिन होता है । भरतजीकी दशा देखकर और कोमल याणी सुनकर सब सेवकगण गलाने-मारे गले जा रहे हैं ॥ ४ ॥

चौ०—प्रमुदित तीरथराज निवासी । बैखानस बटु गृही उदासी ॥

कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥

तीर्यराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन (संन्यासी) सब बहुत ही आनन्दित हैं और दस-पाँच मिलकर आपसमें कहते हैं कि भरतजीका प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है ॥ १ ॥

सुनत राम गुन ग्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिबर पहिं आए ॥

दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूहोंको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये । मुनिने भरतजीको दण्डवत् प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान् सौभाग्य समझा । २ ।

धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥

आसनु दीन्ह नाइ सिरु बैठे । चहत सकुच गृहँ जनु भजि पैठे ॥

उन्होंने दौड़कर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया । मुनिने उन्हें आसन दिया । वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोचके घरमें घुस जाना चाहते हैं ॥ ३ ॥

मुनि पूँछव कछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि लखि सीलु संकोचू ॥

सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतव पर किछु न बसाई ॥

उनके मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [तो मैं क्या उत्तर दूंगा] । भरतजीके शील और संकोचको देखकर ऋषि बोले—भरत ! सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं । विधाताके कर्तव्यपर कुछ वश नहीं चलता ॥ ४ ॥

दो०—तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु समुझि मातु करतूति ।

तात कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति ॥ २०६ ॥

माताकी करतूतको समझकर (याद करके) तुम हृदयमें ग्लानि मत करो । हे तात ! कैकेयीका कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती विगाड़ गयी थी ॥ २०६ ॥

चौ०—यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ । लोकु बेदु बुध संमत दोऊ ॥

तात तुम्हार विमल जसु गाई । पाइहि लोकउ बेदु बड़ाई ॥

चाहता हूँ । जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, बस, यही वरदान माँगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ ॥

श्री०—जानहुँ रामुं कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुर साहिव द्रोही ॥

सीता राम चरन रति मोरें । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें ॥

स्वयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरद्रोही तथा स्वामिद्रोही भले ही कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम आपकी कृपासे दिन-दिन बढ़ता ही रहे ॥ १ ॥

जलदु जनम भरि सुरति विसारउ । जाचत जलु पत्रि पाहन डारउ ॥

चातकु रटनि घटें घटि जाई । बढ़ें प्रेमु सब भाँति भलाई ॥

मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुघ भूला दे और जल माँगनेपर वह चाहे वष्य और पत्थर (ओले) ही गिरावे । पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात ही घट जायगी (प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी) । उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरह से भलाई है ॥ २ ॥

कनकहिँ वान चढ़इ जिमि दाहें । तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥

भरत वचन सुनि माझ त्रिवेनी । भइ मृदु वानि सुमंगल देनी ॥

जैसे तपानेसे सोनेपर आब (चमक) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें प्रेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकका गौरव बढ़ जाता है । भरतजीके वचन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हुई ॥ ३ ॥

तात भरत तुम्ह सब विधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥

बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्हसमरामहि कोउप्रियनाहीं ॥

हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हो । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तुम्हारा अपाह प्रेम है । तुम व्यय ही मनमें गलानि कर रहे हो । श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है ॥ ४ ॥

श्री०—तनु पुलकेउ हियँ हरपु सुनि वेनि वचन अनुकूल ।

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित वरपहिँ फूल ॥ २०५ ॥

त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हँसा गया । भरतजी धन्य हैं, धन्य हैं, कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे ॥ २०५ ॥

तुम्हें भरत रघुवर मन माहीं । प्रेम पात्र तुम्हें सम कोउ नाहीं ॥

तखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥

हे भरत ! सुनो, श्रीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती ॥ २ ॥

माना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ॥

तुम्हें पर अस सनेहु रघुवर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥

प्रयागराजमें जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना । वे तुम्हारे प्रेममें मग्न हो रहे थे । तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही (अगाध) स्नेह है जैसा सुख (विषयासक्त) मनुष्यका संसारमें सुखमय जीवनपर होता है ॥ ३ ॥

यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत कुटुंब पाल रघुराई ॥

तुम्हें तो भरत मोर मत एहू । धरें देह जनु राम सनेहू ॥

यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतके कुटुम्बभरको पालनेवाले हैं । हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्रीरामजीके प्रेम ही हो ॥ ४ ॥

दो०—तुम्हें कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेशु ।

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥ २०८ ॥

हे भरत ! तुम्हारे लिये (तुम्हारी समझमें) यह कलंक है, पर हम सबके लिये तो उपदेश है । श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश (बड़ा शुभ) हुआ है ॥ २०८ ॥

दो०—नवविधु विमलतातजसु तोरा । रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥

उदिसदा अँथइहि कबहूँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥

हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर हैं [वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोरको दुःख होता है] ; परंतु यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं । जगत्रूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं, बरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १ ॥

यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानोंको मान्य हैं। किंतु हे तात ! तुम्हारा निमल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे ॥ १ ॥

लोक वेद संमत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥
राउ सत्यव्रत तुम्हहि वोलाई । देत राजु सुखु धरमु वड़ाई ॥

यह लोक और वेद दोनोंको मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रतों ये; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुग्य मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती ॥ २ ॥

राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल विस्व भइ सूला ॥
सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचालि अंतहुँ पछितानी ॥

सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई। वह श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ। वंशमज्ञ रानी तो भावीवश कुचाल करके अन्तमें पछतायी ॥ ३ ॥

तहँउँ तुम्हार अल्प अपराधू । कहै सो अधम अयान असाधू ॥
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषू । रामहि होत सुनत संतोषू ॥

उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधू है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको भी संतोष ही होता ॥ ४ ॥

दो०—अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु ।

सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु ॥ २०७ ॥

हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम होना ही संसारमें समस्त सुन्दर मङ्गलोंका मूल है ॥ २०७ ॥

बो०—सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥

यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥

सो यह (श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम) तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है; तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात ! तुम्हारे लिये यह आन्वयकी बात नहीं है; क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई ही ।

हे भरत ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं (किसीका पक्ष नहीं करते), तपस्वी हैं (किसीकी मुंह-देखी नहीं कहते) और वनमें रहते हैं (किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते) । सब साधनोंका उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २ ॥

तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम मगन मुनिभयऊ ॥

[सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप] उस महान् फलका परम फल यह तुम्हारा दर्शन है । प्रयागराजसमेत हमारा बड़ा भाग्य है । हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने अपने यशसे जगत्को जीत लिया है । ऐसा कहकर मुनि प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३ ॥

मुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥

भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर सभासद् हर्षित हो गये । साधु-साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल वरसाये । आकाशमें और प्रयागराजमें धन्य, धन्यकी ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न हो रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन ।

करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गद्गद बैन ॥ २१० ॥

भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और कमलके समान नेत्र [प्रेमाश्रुके] जलसे भरे हैं । वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोले—॥ २१० ॥

चो०—मुनि समाजु अरु तीरथराजू । साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू ॥

एहि थल जौं किछु कहिअ बनाई । एहि समअधिक नअघअधमाई ॥

मुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज है । यहाँ सच्ची सौगंध खानेसे भी भरपूर हानि होती है । इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी ॥ १ ॥

तुम्ह सर्वग्य कहउँ सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥

मोहि न मातु करतब कर सोचू । नहिंदुखु जियँ जगु जानिहि पोचू ॥

मैं सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं और श्रीरघुनाथजी हृदयके भीतरकी

कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही ॥

निसि दिन सुखद सदा सब काहू । असिहि न कैकइ करतबु राहू ॥

त्रैलोक्यरूपी चक्रवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु श्रीराम-चन्द्रजीका प्रतापरूपी सूर्य इसकी छविको हरण नहीं करेगा । यह चन्द्रमा रात-दिन सदा सब किसीको सुख देनेवाला होगा । कंकोयीका कुकर्मरूपी राहू इसे प्राप्त नहीं करेगा ॥२॥

पूरन राम सुपेम पियूषा । गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥

राम भगत अब अमिअँ अघाहँ । कीन्हैहु सुलभ सुधा वसुधाहँ ॥

यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है । यह गुरके अपमान-रूपी दोषसे दूषित नहीं है । तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाको सृष्टि करके पृथ्वीपर भी अमृतको सुलभ कर दिया । अब श्रीरामजीके भक्त इस अमृतसे तृप्त हो लें ॥ ३ ॥

भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुभिरत सकल सुमंगल खानी ॥

दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि समजग नाहीं ॥

राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये, जिन (गङ्गाजी) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंकी खान है । दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; अधिक क्या, जिनकी बराबरीका जगत्में कोई नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ ।

जे हर हिय नयननि क्वहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥ २०६ ॥

जिनके प्रेम और संकोच (शील) के यशमें होकर स्वयं [सच्चिदानन्दपत्न] भगवान् श्रीराम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कभी अघाकर नहीं देख पाये (अर्थात् जिनका स्वरूप हृदयमें देखते-देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए) ॥ २०६ ॥

चो०—कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूषा । जहँ बस राम पेम मृगरूपा ॥

तात गलानि करहु जियँ जाएँ । डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ ॥

[परंतु उनसे भी बड़कर] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, जिसमें श्रीरामप्रेम ही हिरनके [चिह्नके] रूपमें बसता है । हे तात ! तुम ध्यय ही हृदयमें ग्लानि कर रहे हो । पारस पाकर भी तुम दरिद्रतासे डर रहे हो ! ॥ १ ॥

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस धन रहहीं ॥

सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पाव ॥—

कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ दिया । [यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है, भरतको राज्य मसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र है] ॥ २ ॥

मोहि लागि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा । घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥

मेटइ कुजोगु राम फिरि आएँ । बसइ अवध नहिं आन उपाएँ ॥

मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट (बुरा साज) रचा और सारे जगत्को बारहबाट (छिन्न-भिन्न) करके नष्ट कर डाला । यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर ही मिट जाता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ३ ॥

भरत वचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भौंति बड़ाई ॥

तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥

भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे बड़ाई की । [मुनिने कहा—] हे तात ! अधिक सोच मत करो । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ॥ ४ ॥

दो०—करि प्रबोधु मुनिवर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु ।

कंद मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु ॥ २१२ ॥

इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने उनका समाधान करके कहा—अब आपलोग हमारे प्रेमप्रिय अतिथि बनिये और कृपा करके कन्द-मूल, फल-फूल जो कुछ हम दें, स्वीकार कीजिये ॥ २१२ ॥

चौ०—सुनिमुनिवचनभरतहियँसोचू । भयउ कुअवसर कठिन संकोचू ॥

जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी । चरन बांदि बोले कर जोरी ॥

मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेटब संकोच आ पड़ा । फिर गुरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण (आदरणीय) समझकर चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले— ॥ १ ॥

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥

भरत वचन सुनिवर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥

हे नाथ ! आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम

जाननेवाले हूँ (मैं कुछ भी असत्य कहेगा तो आपसे और उनसे टिगा नहीं पड़ सकूँ)
मुझे माता कैंकेयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मनमें इसी बातका दुःख
है कि जगत् मुझे नीच समझेगा ॥ २ ॥

नाहिन डरु विगारिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोइ ॥
सुकृत सुजस भरि भुजन सुहाए । लछिमन राम सरिस गुन पाए ॥

न यही डर है कि मेरा परलोक विगड़ जायगा और न पिताजीके धरनेका ही मुझे
शोक है । क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोभित है । उन्होंने श्रीराम-
लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥

राम विरहँ तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रपंगू ॥
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेप फिरहिं वन बनहीं ॥

फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभङ्गुर शरीरको त्याग दिया,
ऐसे राजाके लिये सोच करनेका कौन प्रसङ्ग है ? [सोच इसी बातका है कि] श्रीरामजी,
लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जूतीके मुनियोंका बेप बनाये वन-वनमें फिरते हैं ॥ ४ ॥

दो०—अजिन वसन फल असन महि सयन डासि कुस पात ।

वसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरषा वात ॥ २३३ ॥

वे बिल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, पृथ्वीपर कुश और चन्दे के
सोते हैं और वृक्षोंके नीचे निवास करके नित्य सर्दों, गर्मों, वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २३३ ॥

चौ०—एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥

एहि कुरोग कर औपधु नाहीं । सोधेउँ सकल विस्व मन माहीं ॥

इसी दुःखको जलनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती है । मुझे न दिनमें भूख
लगती है, न रातको नीद आती है । मैंने मन-ही-मन ममस्त विश्वको छोड़ डाला, पर इस
कुरोगकी औपधु कही नहीं है ॥ १ ॥

मातु कुमत बढ़ई अघ मूला । तेहिं हमार हित कीन्त गँसला ॥

कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू । गाड़ि अवधि

भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥
दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें ॥

उन घरोंमें बहुत-से भोग (इन्द्रियोंके विषय) और ऐश्वर्य (ठाट-बाट) का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गये । दासी-दास सब प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं (अर्थात् उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं) ॥ ३ ॥

सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥
प्रथमहिं बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥

जो सुखके सामान स्वर्गमें भी स्वप्नमें भी नहीं हैं ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पल-भरमें सज दिये । पहले तो उन्होंने सब किसीको, जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान दिये ॥ ४ ॥

दो०—बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयसु दीन्ह ।

विधि विसमय दायकु विभव मुनिबर तपबल कीन्ह ॥ २१४ ॥

और फिर कुटुम्बसहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी । [भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम मिले, इसलिये उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले उन लोगोंको स्थान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी] । मुनिश्रेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको भी चकित कर देनेवाला वैभव रच दिया ॥ २१४ ॥

चौ०—मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥

सुख समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत बिरति विसारहिं ग्यानी ॥

जब भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि] सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े । सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता; जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य भूल जाते हैं ॥ १ ॥

आसन सयन सुवसन विताना । वन वाटिका विहग मृग नाना ॥

सुरभि फूल फल अमिअ समाना । विमल जलासय विविध विधाना ॥

आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चँदोवे, वन, वगीचे, भाँति-भाँतिके पक्षी और पशु

है। भरतजीके ये इच्छा मुनिसेवाके लक्ष्यो कह्यो जाये ॥ अर्हते विस्वामित्र सेवकों सिष्योंको पत्र हुआ ॥ ३ ॥

हिस कहि नरत पहुनाई । कहे नूत नूत जानहु जाई ॥
 जेहि नाथ कहि निह निर नरत । अर्हति निज निज काज सिधाए ॥

[और कह कि] भरतजी पहुनाई करती चाहिये ॥ बाकर कन्द, नूल और फल ओ । उन्होंने ही नरत ! कहे अर्हते अर्हते निर नरत और तब वे बड़े आनन्दित करे जाने-जाने कानको कहे कि ॥ ३ ॥

निहि सोच पाहुन बड़े नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥
 मुनिरिधिसिधि अन्निदिक् जाई । आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥

मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता है। अब जैसा देवता हो, वैसे ही उनकी पूजा भी होगी चाहिये। यह सुनकर अर्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आपसी [और बोले—] हैं गोसाई ! जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें ॥ ४ ॥

दो०—राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज ।

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥ २१३ ॥

मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा—छोटे भाई शत्रुघ्न और समाजसहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई (आतिथ्य-सत्कार) करके इनके श्रमको दूर करो।

बो०—रिधिसिधिसिरधरिमुनिवरवानी । बड़भागिनि आपुहिअनुमानी ॥

कहहि परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथिराम लघु भार्द ॥

अर्धि-सिद्धिने मुनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेको बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियाँ आपसमें कहने लगीं—श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि में निरतकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १ ॥

मुनि पद बंदि करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राज समाजू ॥

अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि विलोकि

अतः मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, विलोकि है (मरा जाये)

[प्रातःकाल] भरतजीने तीर्थराजमें स्नान किया और समाजसहित बुनिको सिर नवाकर
 गीर ऋषिकी आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढ़ाकर दण्डवत् करके बहुत विनती की ॥ १ ॥
 पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें । चले चित्रकूटहिं चितु दीन्हें ॥
 रामसखा कर दीन्हें लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥

तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों (कुशल पथप्रदर्शकों) के साथ सब
 लोगोंको लिये हुए भरतजी चित्रकूटमें चित्त लगाये चले । भरतजी रामसखा गुहके हाथमें
 हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात् प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ॥
 गहिं पद त्रान सीस नहिं छाया । पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया ॥
 तखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहि कहत मृदु बानी ॥

न तो उनके पैरोंमें जूते हैं और न सिरपर छाया है । उनका प्रेम, नियम, व्रत और
 धर्म निष्कपट (सच्चा) है । वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीता-
 जीके रास्तेकी बातें पूछते हैं; और वह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥

राम बास थल बिटप बिलोकें । उर अनुराग रहत नहिं रोकें ॥
 देखि दसा सुर बरिसहिं फूला । भइ मृदु महि मगु मंगल मूला ॥

श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और वृक्षोंको देखकर उनके हृदयमें प्रेम रोकें
 नहीं सकता । भरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे । पृथ्वी कोमल हो गयी
 और मार्ग मङ्गलका मूल बन गया ॥ ४ ॥

दो०—किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात ।

तस मगु भयउ न राम कहँ जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥

बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है । भरतजीके
 भाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था ॥ २१६ ॥

ती०—जड़ चेतन मग जीव घनेरे । जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥
 ते सब भए परम पद जोगू । भरत दरस मेटा भव रोगू ॥

रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे । उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा
 अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [उसी समय] परमपदके अधिकारी
 हो गये । परंतु अब भरतजीके दर्शनने तो उनका भव (जन्म-मरण) रूपी रोग मिटा ही

सुगन्धित फूल और अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके (तानाव, कूपं, बावली आदि) निर्मल जलाशय, ॥ २ ॥

असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥

सुर सुरभी सुरतरु सबही कें । लखि अभिलापु सुरेस सची कें ॥

तथा अमृतके भी अमृत-सरोखे पवित्र छान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों (विरक्त मुनियों) की भांति सकुचा रहे हैं । सभीके डेरोंमें [मनो-वाञ्छित वस्तु देनेवाले] कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है (उनका भी मन ललचा जाता है ।) ॥ ३ ॥

रितु वसंत वह त्रिविध वयारी । सब कहँ सुलभ पदारथ चारी ॥

स्रक चंदन वनितादिक भोगा । देखि हरप विसमय वस लोगा ॥

वसन्त ऋतु है । शीतल, मन्द, सुगन्ध—तीन प्रकारकी हवा वह रही है । सभीको [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष] चारों पदार्थ सुलभ हैं । माला, चन्दन, स्त्री आदिक भोगोंको देखकर सब लोग हर्ष और विपादके वश हो रहे हैं । [हर्ष तो भोगसामग्रियोंको और मुनिके तपःप्रभावको देखकर होता है और विपाद इस बातसे होता है कि श्रीरामके वियोगमें नियम-व्रतसे रहनेवाले हमलोग भोग-विलासमें क्यों आ फँसे; कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम-व्रतोंको न त्याग दे] ॥ ४ ॥

दो०—संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार ।

तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥ २१५ ॥

सम्पत्ति (भोगविलासकी सामग्री) चकवी है और भरतजी चकवा हैं; और मुनिकी आज्ञा खेल है, जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिंजड़ेमें दोनोंको बंद कर रख्या और ऐसे ही सबेरा हो गया । [जैसे किसी बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें रखे जानेपर भी चकवी-चकवे-का रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजजीकी आज्ञासे रातभर भोग-सामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया ॥ २१५ ॥

मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम

षो०—कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥

रिषिआयसुअसीससिरराखी । करि दंडवत विनय बहु भापी

को [ज्ञानरूपी] नेत्रोंसे रहित (मूर्ख) समझा और कहा—हे देवराज ! मायाके स्वामी श्री रामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है

तब किछु कीन्ह राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥

सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥

उस समय (पिछली बार) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था। परंतु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी। हे देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे कभी रुष्ट नहीं होते ॥ २ ॥

जो अपराधु भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई ॥

लोकहुँ वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरवासा ॥

पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता है, वह श्रीरामकी क्रोधाग्निमें जल जाता है। लोक और वेद दोनोंमें इतिहास (कथा) प्रसिद्ध है। इस महिमाको दुर्वासाजी जानते हैं ॥ ३ ॥

भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥

सारा जगत् श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा ? ॥ ४ ॥

दो०—मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुवर भगत अकाजु ।

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥

हे देवराज ! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विगाड़नेकी बात मनमें भी न लाइये। ऐसा करनेसे लोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा और शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला जायगा ॥ २१८ ॥

ची०—सुनु सुरेस उपदेशु हमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा ॥

मानत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बैर बैरु अधिकाई ॥

हे देवराज ! हमारा उपदेश सुनो। श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवककी सेवासे सुख मानते हैं और सेवकके साथ बैर करनेसे बड़ा भारी बैर मानते हैं ॥ १ ॥

जद्यपि सम नहिं राग न रोषू । गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥

करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥

यद्यपि वे सम हैं—उनमें न राग है, न रोष है। और न वे किसीका पाप-पुण्य और

दिया । [श्रीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया] ॥ १ ॥

यह बड़ी बात भरत कह नहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं ॥

वारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥

भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहते हैं । जगत्में जो भी मनुष्य एक बार 'राम' कह लेते हैं, वे भी तरन-तारनेवाले हो जाते हैं ॥ २ ॥

भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥

सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरपु हियँलहहीं ॥

फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे । तब भला उनके लिये मांग मङ्गल (सुख) दायक कैसे न हो ? सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरतजीको देखकर हृदयमें हर्ष-लाभ करते हैं ॥ ३ ॥

देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू । जगु भल भलोहि पोच कहूँ पोचू ॥

गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई ॥

भरतजीके [इस प्रेमके] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [कि कहीं इनके प्रेमवश श्रीरामजी लौट न जायें और हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जाय] । संसार भलेके लिये भला और बुरेके लिये बुरा है (मनुष्य जैसा आप होता है, जगत् उगै वैसा ही दीखता है) । उसने गुरु बृहस्पतिजीसे कहा—हे प्रभो ! वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी भेंट हो न हो ॥ ४ ॥

दो०—रामु सँकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि ।

बनी बात वेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥ २१७ ॥

श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं । बनी-बनायी बात बिगड़ना चाहती है, इसलिये कुछ छल ढूँढ़कर इसका उपाय कीजिये ॥ २१७ ॥

चो०—वचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने । सहसनयन विनु लोचन जाने ॥

मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥

इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये । उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्र-

उनकी चिन्ता मिट गयी । तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ २ ॥

एहि विधि भरत चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा । उमगत पेसु मनहुँ चहु पासा ॥

इस प्रकार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हैं । उनकी [प्रेममयी] दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं । भरतजी जभी 'राम' कहकर लंबी साँस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ ३ ॥

द्रवहि वचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेसु न जाइ बखाना ॥
बीच बास करि जमुनहिं आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥

उनके [प्रेम और दीनतासे पूर्ण] वचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं । अयोध्यावासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता । बीचमें निवास (मुकाम) करके भरतजी यमुनाजीके तटपर आये । यमुनाजीका जल देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ४ ॥

दो०—रघुबर वरन बिलोकि बर वारि समेत समाज ।

होत मगन वारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज ॥ २२० ॥

श्रीरघुनायजीके (श्याम) रंगका सुन्दर जल देखकर सारे समाजसहित भरतजी [प्रेमविह्वल होकर] श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें डूबते-डूबते विवेकरूपी जहाजपर चढ़ गये (अर्थात् यमुनाजीका श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान्के प्रेममें विह्वल हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात् दर्शन करेंगे, इस विवेकसे वे फिर उत्साहित हो गये) ।

चौ०—जमुन तीर तेहि दिन करि वासू । भयउ समय सम सबहि सुपासू ॥

रातिहिं घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहिं न वरनी ॥

उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सबके लिये [खान-पान आदिकी] सुन्दर व्यवस्था हुई । [निषादराजका संकेत पाकर] रात-ही-रातमें घाट-घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥

प्रात पार भए एकहि खेवाँ । तोषे रामसखा की सेवाँ ॥

चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥

गुण-दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्वमें कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है। जो जंगम करता है, वह वैसा ही फल भोगता है ॥ २ ॥

तदपि करहिं सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसार ॥

अगुन अलेप अमान एकरस । रामु सगुन भए भगत पैम वस ॥

तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं (भक्तको प्रेमसे गले लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैं)। गुणरहित, निस्तेष, मानरहित और सदा एकरस भगवान् श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं ॥ ३ ॥

राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी ॥

अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥

श्रीरामजी मदा अपने सेवकों (भवतों) की रुचि रखते आये हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरतजीके चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४ ॥

दो०—राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल ।

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥ २१६ ॥

हे देवराज इन्द्र ! श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके हितमें लगे रहते हैं, ये दूसरोंके दुःखसे दुखी और दयालु होते हैं। फिर, भरतजी तो भवतोंके निरोमणि हैं, उनमें बिल्कुल न डरो ॥ २१६ ॥

चो०—सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयस अनुसारी ॥

स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं और भग्नजी श्रीरामजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले हैं। तुम व्ययं ही स्वयंके विगेष बग होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है ॥ १ ॥

सुनि सुरवर सुरगुर वर वानी । भा प्रमोदु मन मिठी गलानी ॥

वरपि प्रसून हरपि सुरराऊ । लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥

देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बडा आनन्द हुआ और

हैं; इनके मनमें खेद है। हे सखी ! इसी भेदके कारण संदेह होता है ॥ २ ॥

तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि समनसयानी ॥

तेहि सराहि वानी फुरि पूजी । बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥

उसका तर्क (युक्ति) अन्य स्त्रियोंके मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी (चतुर) कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य है,' इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥ ३ ॥

काहि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥

भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥

श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह सब कथा-प्रसंग प्रेमपूर्वक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सौभाग्यकी सराहना करने लगी ॥४॥

दो०—चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु ।

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥

[वह बोली—] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है ?

चौ०—भायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूषन हरनू ॥

जो किछु कहब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥

भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोंके हरनेवाले हैं। हे सखी ! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है। श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों ॥ १ ॥

हम सब सानुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुवती जन लेखें ॥

सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं । कैकइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥

छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य (बड़भागिनी) स्त्रियोंकी गिनतीमें आ गयीं। इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं—यह पुत्र कैकयी-जैसी माताके योग्य नहीं है ॥ २ ॥

कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमहि जोदाहिन ॥

कहँ हम लोक वेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥

सबरे एक ही खेवमें सब लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके साथ निपादराजकी इस सेवासे संतुष्ट हुए । फिर स्नान करके और नदीको तिर नवाकर निपादराजके साथ दोनों भाई चले ॥ २ ॥

आगे मुनिवर वाहन आछें । राजसमाज जाइ सबु पाछें ॥
तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें । भूपन वसन वेप सुठि सादें ॥

आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे नारा राजसमाज जा रहा है । उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वस्त्र और वेपसे पंदल चल रहे हैं ॥ ३ ॥

सेवक सुहृद सचिवसुत साथी । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथी ॥
जहँ जहँ राम वास विश्रामा । तहँ तहँ करहिँ सप्रेम प्रनामा ॥

सेवक, मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं । लक्ष्मण, सीताजी और श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते जा रहे हैं । जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ ।

देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ २२१ ॥

मार्गमें रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप (सौन्दर्य) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म सेनेका फल पाकर आनन्दित होते हैं ॥ २२१ ॥

चौ०—कहहिँ सपेम एकएकपार्हीं । रामु लखनु सखि होहिँ कि नार्हीं ॥

वयवपुवरनरूपुसोइआली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥

गाँवोंकी स्त्रियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं—सखी ! ये राम-लक्ष्मण हैं कि नहीं ? हे सखी ! इनकी अवस्था, शरीर और रंग-रूप तो वही है । जीन, रंगह उन्हींके सदृश हैं और चाल भी उन्हींके समान है ॥ १ ॥

वेषु न सो सखि सीय न संगी । आगे अनी चली चतुरंगी ॥

नहिँ प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ एहिँ भेदा ॥

परंतु हे सखी ! इनका न तो वह वेप (बलंतनवस्त्रधारि मुनिवेप) है, न गाँवाजी ही संग हैं और इनके आगे चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही है । फिर इनके मुग्ध प्रसन्न नहीं

; इनके मनमें खेद है । हे सखी ! इसी भेदके कारण संदेह होता है ॥ २ ॥

मासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि समनसयानी ॥

तेहि सराहि वानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥

उसका तर्क (युक्ति) अन्य स्त्रियोंके मन भाया । सब कहती हैं कि इसके समान सयानी (चतुर) कोई नहीं है । उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य है,' उस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥ ३ ॥

कहि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥

भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥

श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह सब कथा-प्रसंग मपूर्वक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सौभाग्यकी सराहना करने लगी ॥४॥

दो०—चलत पयादेँ खात फल पिता दीन्ह तजि राजु ।

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥

[वह बोली—] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं । इनके समान आज कौन है ?

दो०—भायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूषन हरनू ॥

जो किछु कहब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥

भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोंके हरनेवाले हैं । हे सखी ! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है । श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों ॥ १ ॥

हम सब सानुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुवती जन लेखें ॥

सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं । कैकइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥

छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य (बड़भागिनी) स्त्रियोंकी गिनतीमें आ गयीं । इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं—यह पुत्र कैकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है ॥ २ ॥

कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमहि जोदाहिन ॥

कहँ हम लोक वेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥

कोई कहती हैं—इसमें रानीका भी दोष नहीं है । यह सब विघाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है। कहीं तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि (मर्यादा) से होन, कुल और करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्त्रियाँ, ॥ ३ ॥

वसहिं कुदेस कुगाँव कुवामा । कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥
अस अनट्टु अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥

जो बुरे देश (जंगली प्रान्त) और बुरे गाँवमें बसती है और [स्त्रियोंमें भी] नीच स्त्रियाँ हैं और कहा यह महान् पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन ! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें ही रहा है । मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४ ॥

दो०—भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु ।

जनु सिंघलवासिन्ह भयउ विधि वस सुलभ प्रयागु ॥ २२३ ॥

भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य घुन गये । मानो देव-योगसे सिंहलद्वीपके बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ! ॥ २२३ ॥

चो०—निज गुन सहित रामगुन गाथा । सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥

तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहिं करहिं प्रनामा ॥

[इस प्रकार] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कृपा सुनते और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं । वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं, ॥ १ ॥

मनहीं मन मागहिं वरु एहू । सीय राम पद पटुम सनेहू ॥

मिलहिं किरात कोल वनवासी । वैखानस वटु जती उदासी ॥

और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसौतारामजीके चरणकमलोंमें प्रेम हो । मार्गमें भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त मिलते हैं ।

करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही । केहि वन लखनु रामु वैदेही ॥

ते प्रभु समाचार सब कहहीं । भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥

उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी किस वनमें हैं ? वे प्रभुके सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं । ३ ।

जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥

एहि विधि बूझत सबहि सुबानी । सुनत राम बनवास कहानी ॥

जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मणके समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ ।

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले। साथके सब लोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा [लगी हुई] है ॥ २२४ ॥

चौ०—मंगल सगुन होहिं सब कहू । फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू ॥

भरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहिं रामु मिटिहि दुखदाहू ॥

सबको मङ्गलसूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देनेवाले [पुरुषोंके दाहिने और स्त्रियोंके बायें] नेत्र और भुजाएँ फड़क रही हैं। समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १ ॥

करत मनोरथ जस जियँ जाके । जाहिं सनेह सुराँ सब छाके ॥

सिथिल अंग पगमग डगि डोलहिं । बिहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥

जिसके जीमें जैसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरासे छके (प्रेममें मतवाले हुए) चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्तेमें पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं ॥ २ ॥

रामसखाँ तेहि समय देखावा । सैल सिरोमनि सहज सुहावा ॥

जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥

रामसखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हैं ॥ ३ ॥

देखि करहिं सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥

प्रेम मगन अस राजसमाजू । जनु फिरि चले रघुराजू ॥

कोई कहती हैं—इसमें रानीका भी दोष नहीं है। यह सब विघाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि (मर्यादा) से हों, कुल और करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्त्रियाँ, ॥ ३ ॥

वसहिं कुदेस कुगाँव कुवामा । कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥
अस अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा ॥

जो बुरे देश (जंगली प्रान्त) और बुरे गाँवमें वसती हैं और [स्त्रियोंमें भी] नीच स्त्रियाँ हैं और कहा यह महान् पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन ! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है। मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४ ॥

दो०—भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु ।

जनु सिंघलवासिन्ह भयउ विधि वस सुलभ प्रयागु ॥ २२३ ॥

भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य घुन गये। मानो देव-योगसे सिंहलद्वीपके बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ! ॥ २२३ ॥

चौ०—निज गुन सहित रामगुन गाथा । सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥

तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहिं करहिं प्रनामा ॥

[इस प्रकार] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं, ॥ १ ॥

मनहीं मन मागहिं वरु एहू । सीय राम पद पदुम सनेहू ॥

मिलहिं किरात कोल वनवासी । बैखानस वदु जती उदासी ॥

और मन-ही-मन यह वरदान मांगते हैं कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमें प्रेम हो। मांगमें भील, कोल आदि वनवासी तथा ब्राह्मण, शूद्र, वृद्ध, अशक्त और विरक्त मिलते हैं।

करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही । केहि वन लखनु रामु वैदेही ॥

ते प्रभु समाचार सब कहहीं । भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥

उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी किस वनमें हैं ? वे प्रभुके सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं। ३।

[और बोले—] लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है । कोई भीषण कुसमाचार (बहुत ही बुरी खबर) सुनावेगा । ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और त्रेपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधुओंका सम्मान किया ॥ ४ ॥

छं०—सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए ।

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए ॥

तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे ।

सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥

देवताओंका सम्मान (पूजन) और मुनियोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठे और उत्तर दिशाकी ओर देखने लगे । आकाशमें धूल छा रही है, बहुत-से पक्षी और शुक व्याकुल होकर भागे हुए प्रभुके आश्रमको आ रहे हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है ? वे चित्तमें आश्चर्य-प्लुत हो गये । उसी समय कोल-भीलोंने आकर सब समाचार कहे ।

सो०—सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर ।

सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मङ्गल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । शरीरमें पुलकावली छा गयी और शरद्-ऋतुके कमलके समान नेत्र प्रेमाश्रुओंसे भर गये ॥ २२६ ॥

बो०—बहुरि सोचवस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू ॥

एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥

सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण है ? फिर एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी है ॥ १ ॥

सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु सकोचू ॥

भरत सुभाउ समुझि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिताके वचन और इधर भाई भरतजीका संकोच । भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही नहीं पाते हैं ॥ २ ॥

सब लोग उस पर्वतको देखकर 'जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो!' ऐसा कहकर दण्डवत् प्रणाम करते हैं। राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्न है मानो श्रीरघुनाथजी अयोध्याको लौट चले हों ॥ ४ ॥

दो०—भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेपु ।

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेपु ॥ २२५ ॥

भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते। कविके लिये तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममतासे मलिन मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्द ! ॥ २२५ ॥

चौ०—सकल सनेह सिथिल रघुवर के। गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥

जलु थलु देखि वसे निसि वीते। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक (दिनभरमें) दो ही कोस चल पाये और जल-स्थलका मुपास देघकर रातको वहाँ [बिना खाये-पीये ही] रह गये। रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया ॥ १ ॥

उहाँ रामु रजनी अवसेषा । जागे सीयँ सपन अस देखा ॥

सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए ॥

उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे। रातको सीताजीने ऐसा स्वप्न देखा [जिसे वे श्रीरामजीको सुनाने लगीं], मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं। प्रभुके वियोगकी अग्निसे उनका शरीर संतप्त है ॥ २ ॥

सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुहारी ॥

सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचवस सोच विमोचन ॥

सभी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओंको दूसरी ही सूरतमें देखा। सीताजीका स्वप्न सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमें जल भर आया और सबको सोचसे छुड़ा देनेवाले प्रभु स्वयं [लीलासे] सोचके वश हो गये ॥ ३ ॥

लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥

अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥

करि कुमंत्रु मन साजि समाजू । आए करै अकंटक राजू ॥
कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोउ भाई ॥

अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं । करोड़ों (अनेकों) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं ॥ ३ ॥

जौं जियँ होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजिगजाली ॥
भरतहि दोसु देइ को जाएँ । जग बौराइ राज पदु पाएँ ॥

यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाल न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियोंकी कतार [ऐसे समय] किसे सुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ? राजपद पा जानेपर सारा जगत् ही पागल (मतवाला) हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान ।

लोक वेद तें विमुख भा अधम न बेन समान ॥ २२८ ॥

चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा और राजा बेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥

चो०—सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥

भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥

सहस्रबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलङ्क नहीं दिया ? भरतने यह उपाय उचित ही किया है; क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥

एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई ॥

समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम मुखु पेखी ॥

हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की जो रामजी (आप) को असहाय जानकर उनका निरादर किया । पर आज संग्राममें श्रीरामजी (आप) का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी (अर्थात् इस निरादरका फल भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे) ॥ २ ॥

समाधान तव भा यह जाने । भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥

लखन लखेउ प्रभु हृदयँ खभारु । कहत समय सम नीति विचारु ॥

तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और मयाने हैं तथा मेरे कहनेमें (आज्ञाकारी) हैं। लक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीके हृदयमें चिन्ता है तो वे समयानुसार अपना नीतिमुक्त विचार कहने लगे—॥ ३ ॥

विनु पूछें कछु कहउँ गोसाईं । सेवकु समयँ न ढीठ ढिठाईं ।

तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समुझि कहउँ अनुगामी ।

हे स्वामी ! आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाईं करनेसे ढीठ नहीं समझा जाता (अर्थात् आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इसीतिसे यह मेरा कहना ढिठाईं नहीं होगा) । हे स्वामी ! आप सर्वज्ञोंमें सिरोमणि हैं (सब जानते ही हैं) । मैं सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान ।

सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥ २२७ ॥

हे नाथ ! आप परम सुहृद (बिना ही कारण परम हित करनेवाले), सरल-हृदय तथा शील और स्नेहके भण्डार हैं । आपका सभीपर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदयमें सबको अपने ही समान जानते हैं ॥ २२७ ॥

बी०—विषई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ़ मोह बस होहिं जनाई ॥

भरतु नीति रत साधु सुजाना । प्रभु पद प्रेसु सकल जगु जाना ॥

परन्तु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूपको प्रकट कर देते हैं । भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु (आप) के चरणोंमें उनका प्रेम है, इस बातकी सारा जगत् जानता है ॥ १ ॥

तेऊ आजु राम पदु पाई । चले धरम मरजादु मेटाई ॥

कुटिल कुवंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम वनवास ॥

वे भरत भी आज श्रीरामजी (आप) का पद (सिंहासन या अधि-धर्मकी मर्यादाको मिटाकर चले हैं । कुटिल छोटे भाई भरत वृत्तमय जानकर कि रामजी (आप) वनवासमें अकेले (अतहाय) हैं, ॥

करि कुमंत्रु मन साजि समाजू । आए करै अकंटक राजू ॥
कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोउ भाई ॥

अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये
यहाँ आये हैं । करोड़ों (अनेकों) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों
भाई आये हैं ॥ ३ ॥

जौं जियँ होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजिगजाली ॥
भरतहि दोसु देइ को जाएँ । जग बौराइ राज पदु पाएँ ॥

यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाल न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियोंकी कतार
[ऐसे समय] किसे सुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ? राजपद पा जानेपर
सारा जगत् ही पागल (मतवाला) हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—ससि गुर तिय गामी नद्युषु चढेउ भूमिसुर जान ।

लोक वेद तें विमुख भा अधम न बेन समान ॥ २२८ ॥

चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा और राजा
बेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥

ची०—सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥

भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥

सहस्रबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलङ्क नहीं दिया ?
भरतने यह उपाय उचित ही किया है; क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं
रखना चाहिये ॥ १ ॥

एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई ॥

समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम मुखु पेखी ॥

हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की जो रामजी (आप) को असहाय जानकर
उनका निरादर किया । पर आज संग्राममें श्रीरामजी (आप) का क्रोधपूर्ण मुख देख-
कर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी (अर्थात् इस निरादरका फल भी
वे अच्छी तरह पा जायेंगे) ॥ २ ॥

एतना कहत नीति रस भूला । रन रस विटपु पुलक मिस फूला ॥

प्रभु पद बाँधि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भापी ॥

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरगरूपी वृद्ध पुतलावलीके बहानेसे फूल उठा (अर्थात् नीतिकी बात कहते-कहते उनके शरीरमें वीर-रस छा गया) । वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी वन्दना करके चरण-रजको सिरपर रखकर सच्चा और स्वामाविक बल कहते हुए बोले—॥ ३ ॥

अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा ॥

कहँ लागि सहिअ रहिअ मनुमारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे । ॥

हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं प्रचारा है (हमारे साथ कम छेड़-छाड़ नहीं की है) । आगिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथमें है ! ॥ ४ ॥

दो०—छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान ।

लातहुँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२६ ॥

क्षत्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरामजी (आप) का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत् जानता है । [फिर भला कैसे सहा जाय ?] धूलके गमान नीच कौन है; परंतु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है ॥ २२६ ॥

चौ०—उठि कर जोरि रजायसु मागा । मनहुँ वीर रस सोवत जागा ॥

बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥

याँ कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी मानो वीररग मोतेते जाग उठा हो । सिरपर जटा बाँधकर कमरमें तरकल कम लिया और धनुषको गजरर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा—॥ १ ॥

आजु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥

राम निरादर कर फलु पाई । सोवहुँ समर सेज दोड भाई ॥

आज मैं श्रीराम (आप) का सेवक होनेका यज्ञ तूँ और भरतको मंत्राममें निशा दूँ । श्रीरामचन्द्रजी (आप) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई (भरत-गधुषन) रणगम्यापर सोवें ।

आइ बना भल सकल समाजू । प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू ।
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ।

अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा । जैसे सिंह हाथियोंके झुंडको कुचल डालता है और बाज जैसे लवकेको लपेटमे ले लेता है, ॥ ३ ॥

तैसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥
जौँ सहाय कर संकरु आई । तौ मारउँ रन राम दोहाई ॥

वैसे ही भरतको सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमें पछाड़ूँगा । यदि शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी मुझे रामजीकी सौगंध है । मैं उन्हें युद्धमें [अवश्य] मार डालूँगा (छोड़ूँगा नहीं) ॥ ४ ॥

दो०—अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान ।

सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥

लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक (सत्य) सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबड़ाकर भागना चाहते हैं ॥ २३० ॥

चौ०—जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबलु विपुल बखानी ॥

तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥

सारा जगत् भयमें डूब गया । तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई—हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन कह सकता है और कौन जान सकता है ? ॥ १ ॥

अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥

सहसा करि पाछे पछिताहीं । कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥

परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर किया जाय तो सब कोई अच्छा कहते हैं । वेद और विद्वान् कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दीमें किसी कामको करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान् नहीं हैं ॥ २ ॥

सुनि सुर वचन लखन सकुचाने । राम सीयँ सादर सनमाने ॥

कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई ॥

एतना कहत नीति रस भूला । रस रस विटपु पुलक मिस फूला ॥
प्रभु पद वंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरगरूपी वृक्ष पुनकावत्तोंके बहानेसे फूल उठा (अर्थात् नीतिकी बात कहते-कहते उनके शरीरमें वीर-रस छा गया) । वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी बन्दना करके चरण-रजको सिरपर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले—॥ ३ ॥

अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहि उपचार न धोरा ॥
कहँ लागि सहिअ रहिअ मनुमारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥

हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं प्रचारा है (हमारे साथ कम छेड़-छाड़ नहीं की है) । आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथमें है ! ॥ ४ ॥

दो०—छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान ।

लातहुँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२६ ॥

क्षत्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरामजी (आप) का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत् जानता है । [फिर भला कैसे सहा जाय ?] धूलके समान नीच कौन है; परंतु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है ॥ २२६ ॥

चौ०—उठि कर जोरि रजायसु मागा । मनहुँ वीर रस सोवत जागा ॥

बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥

यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हो । सिरपर जटा बाँधकर कमरमें तरकस कस लिया और धनुषको सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा—॥ १ ॥

आजु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥

राम निरादर कर फलु पाई । सोवहुँ समर सेज दोड भाई ॥

आज मैं श्रीराम (आप) का सेवक होनेका यश लूँ और भरतको संग्राममें शिक्षा दूँ । श्रीरामचन्द्रजी (आप) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) रणशय्यापर सोवें ।

(जगत्) को रचता है। परंतु भरतने सूर्यवंशरूपी तालावमें हंसरूप जन्म लेकर गुण दोषका विभाग कर दिया (दोनोंको अलग-अलग कर दिया) ॥ ३ ॥

हे गुण पय तजि अवगुण बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥
हृत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥

गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने यशसे जगत्में उजियाला कर दिया है। भरतजीके गुण, शील और स्वभावको कहते-कहते श्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमें मग्न हो गये ॥ ४ ॥

दो०—सुनि रघुवर बानी विवुध देखि भरत पर हेतु ।
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु ॥ २३२ ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे [और कहने लगे] कि श्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके धाम प्रभु और कौन हैं ॥ २३२ ॥

चौ०—जौं न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥

यदि जगत्में भरतका जन्म न होता, तो पृथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोंकी धुरीको को धारण करता? हे रघुनाथजी! कविकुलके लिये अगम (उनकी कल्पनासे अतीत भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है? ॥ १ ॥

लखन राम सियँ सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी
इहाँ भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनीं पुनीत नहाए

लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मंदाकिनीमें स्नान किया ॥ २ ॥

सरित समीप राखि सब लोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोग
चले भरतु जहँ सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भा

फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा

देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका आदरके साथ सम्मान किया [और कहा—] हे तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही । हे भाई ! राज्यका मद सबसे कठिन मद है ॥ ३ ॥

जो अचवैत नृप मातहिं तेई । नाहिन साधुसभा जेहिं सेई ॥
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥

जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन (सत्सङ्ग) नहीं किया, वे ही राजा राजमदरूपी मदिराका आचमन करते ही (पीते ही) मतवाले हो जाते हैं । हे लक्ष्मण ! सुनो; भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है ॥ ४ ॥

दो०—भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ ।

कवहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु विनसाइ ॥ २३१ ॥

[अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका मद नहीं होनेका ! क्या कभी काँजीकी बूंदोंसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता (फट सकता) है ? ॥ २३१ ॥

चो०—तिमिरुतरुनतरनिहिमकुगिलई । गगनुमगनमकुमेघहिं मिलई ॥

गोपद जल वूडहिं घटजोनी । सहज छमा वरु छाड़ै छोनी ॥

अन्धकार चाहे तरुण (मध्याह्नके) सूर्यको निगल जाय । आकाश चाहे बादलोंमें समाकर मिल जाय । गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी डूब जायें और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा (सहनशीलता) को छोड़ दे ॥ १ ॥

मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । होइ न नृपमदु भरतहि भाई ॥

लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥

मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेरु उड़ जाय । परंतु हे भाई ! भरतको राजमद कभी नहीं हो सकता । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सौगंध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें नहीं है ॥ २ ॥

सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता । मिलइ रचइ परपंचु विधाता ॥

भरतु हंस रविंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥

हे तात ! गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस दृश्य-

वाले भरतजी भक्तिके बलसे चले जाते हैं। जब श्रीरघुनाथजीके स्वभावको समझते (स्मरण करते) हैं; तब मार्गमें उनके पैर जल्दी-जल्दी पड़ने लगते हैं ॥ ३ ॥

भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाहँ जल अलि गति जैसी ॥

देखि भरत कर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समयँ विदेहू ॥

उस समय भरतकी दशा कैसी है ? जैसी जलके प्रवाहमें जलके धीरेकी गति होती है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया (देहकी सुध-बुध मूल गया) ॥ ४ ॥

दो०—लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु ।

मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि परिनाम विषादु ॥ २३४ ॥

मङ्गल-शकून होने लगे। उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने लगा—सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा ॥ २३४ ॥

ची०—सेवक वचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने ॥

भरत दीख बन सैल समाजू । सुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥

भरतजीने सेवक (गुहू) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा पहुँचे। वहाँके वन और पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न (भोजन) पा गया हो ॥ १ ॥

ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥

जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहिँ भरत गति तेहि अनुहारी ॥

जैसे ईतिके भयसे दुखी हुई और तीनों (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि-भौतिक) तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गति (दशा) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है ॥ २ ॥

[अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहोंका उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजाकी चढ़ाई—खेतोंमें बाधा देनेवाले इन छः उपद्रवोंको—'ईति' कहते हैं।]

राम वास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥

सचिव विरागु विवेकु नरेसू । विपिन सुहावन पावन देसू ॥

निपादराज और शत्रुघ्नको साथ लेकर भरतजी वहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी थे ॥ ३ ॥

समुझि मातु करतव सकुचार्हीं । करत कुतरक कोटिमन माहीं ॥

रामु लखनु सिय सुनि मम नाउँ । उठिजनि अनत जाहिं नजि ठाउँ ॥

भरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर (याद करके) सकुचाते हैं और मनमें करोड़ों (अनेकों) कुतक करते हैं । [सोचते हैं—] श्रीराम, सधमन और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जायें ॥४॥

दो०—मातु मते महूँ मानि मोहि जो कछु करहिँ सो धोर ।

अघ अवगुन छमि आदरहिँ समुझि आपनी ओर ॥ २३३ ॥

मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो घोड़ा हूँ, पर वे अपनी ओर समझकर (अपने विरुद्ध और सम्बन्धको देखकर) मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ ॥

चो०—जौं परिहरहिँ मलिन मनु जानी । जौं सनमानहिँ सेवकु मानी ॥

मोरें सरन रामहि की पनही । रामसुस्वामिदोसु सबजनही ॥

चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें (कुछ भी करें); मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं । श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे स्वामी हैं । दोष तो सब दासका ही हैं ॥ १ ॥

जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥

अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिल सत्र गाता ॥

जगत्में यशके पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेमकी सदा नया बनाये रखनेमें निपुण हैं । ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते हैं । उनके सब अंग संकोच और प्रेमसे गिथिल हो रहे हैं ॥ २ ॥

फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥

जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ । तत्र पथ परत उताइल पाऊ ॥

माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती हूँ, पर धीरजनी धुरीकी धारण

अनेकों प्रकारके नगाड़े वज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोंके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ॥ ३ ॥

अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा ।
बेलि विटप तृण सफल सफूला । सब समाजु मुद मंगल मूला ।

भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्यके चारों ओर मङ्गल ही रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हैं। सारा समाज आनन्द और मङ्गलका मूल बन रहा है ॥ ४ ॥

दो०—राम सैल सोभा निरखि भरत हृदयँ अति पेम ।

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु ॥ २३६ ॥

श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥

मासपारायण, बीसवाँ विश्राम

नवाह्नपारायण, पाँचवाँ विश्राम

ची०—तव केवट ऊँचे चढ़ि धाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई ।

नाथ देखिअहिं विटप बिसाला । पाकारि जंबु रसाल तमाला ।

तव केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा—हे नाथ ! ये जो पाकर, जामुन, आम और तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १ ॥

जिन्ह तरुवरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ।

नील सघन पल्लव फल लाला । अबिरल छाहँ सुखद सब काला ।

जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली है ॥ २ ॥

मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । विरची विधि सँकेलि सुषमा सी ।

ए तरु सरित समीप गोसाँई । रघुवर परनकुटी जहँ छाई ।

मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी राशि-सी रच दी है। हे गुसाँई ! ये वृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे बनकी सम्पत्ति ऐसी सुनोमिती है मानो अछे राजाको पाकर प्रजा सुखी हो। सुहायना बनही पवित्र देग है, विवेकउत्तका राजा है और बंराग्य मन्त्री है ॥३॥
भटजम नियम सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥
सकल अंग संपन्न सुराज । राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥

यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) तथा नियम (शोच, मंतोप, तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिधान) योद्धा हैं। पवंत राजधानी है, शान्ति तथा सुबुद्धि दो सुन्दर पवित्र रानियाँ हैं। यह श्रेष्ठ राजा राज्यके सब अङ्गोंसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चितमें चाव (आनन्द या उत्साह) है ॥ ४ ॥

[स्वामी, अमात्य, सुहृद्, कोप, राष्ट्र, दुर्ग और सेना—राज्यके ये सात अंग हैं।]

दो०—जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु ।

करत अकंटक राजु पुरँ सुख संपदा सुकालु ॥ २३५ ॥

मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है। उसके नगरमें सुख, सम्पत्ति और सुकाल वर्तमान है ॥२३५ ॥

चो०—वन प्रदेश मुनि वास घनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥

विपुल विचित्र विहग मृग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥

वनरूपी प्राणियोंमें जो मुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गाँवों और खेटोंका समूह है। बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेको पशु ही मानो प्रजाओंका समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥

खगहा करि हरि वाघ बराहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ॥

वयरु विहाइ चरहिँ एक संग्गा । जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंग्गा ॥

गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बँसोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है। ये सब आपसका बँरे छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है ॥ २ ॥

झरना झरहिँ मत्त गज गाजहिँ । मनहुँ निसान विविधि विधि वाजहिँ ॥

चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥

पानीके झरने झर रहे हैं और मत्तवासे हाथी चियाड़ रहे हैं। ये ही मानो बहा

अनेकों प्रकारके नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोंके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ॥ ३ ॥

अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥

बेलि विटप तृन सफल सफूला । सब समाजु मुद मंगल मूला ॥

भारोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्यमें चारों ओर मङ्गल ही रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हैं। सारा समाज आनन्द और मङ्गलका मूल बन रहा है ॥ ४ ॥

दो०—राम सैल सोभा निरखि भरत हृदयँ अति पेमु ।

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु ॥ २३६ ॥

श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥

मासपारायण, बीसवाँ विश्राम

नवाह्नपारायण, पाँचवाँ विश्राम

ती०—तव केवट ऊँचें चढ़ि धाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥

नाथ देखिअहिं विटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥

तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा—हे नाथ! ये जो पाकर, जामुन, आम और तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १ ॥

जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥

नील सघन पल्लव फल लाला । अबिरल छाहँ सुखद सब काला ॥

जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली है ॥ २ ॥

मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । विरची विधि सँकेलि सुषमा सी ॥

ए तरु सरित समीप गोसाँई । रघुबर परनकुटी जहँ छाई ॥

मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी राशि-सी रच दी है। हे गुसाँई! ये वृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३ ॥

तुलसी तरुवर विविध सुहाए । कहूँ कहूँ सियँ कहूँ लखन लगाए ॥

बट छायाँ वेदिका बनाई । सियँ निज पानि सरोज सुहाई ॥

वहाँ तुलसीजीके बहुतसे सुन्दर वृक्ष सुगोभित हैं, जो कहीं-नहीं मोताजीने और कहीं लक्ष्मणजीने लगाये हैं । इसी बड़की छायामें मोताजीने अपने फरकमलोंसे सुन्दर बेदी बनायी है ॥ ४ ॥

दो०—जहाँ बैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान ।

सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७ ॥

जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोंके वृन्दसमेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणोंके सब कथा-इतिहास सुनते हैं ॥ २३७ ॥

चो०—सखा वचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन वारी ॥

करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥

सखाके वचन सुनकर और वृक्षोंको देखकर भरतजीके नेत्रोंमें जल उमड़ आया । दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले । उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी भी गलनाती हैं ॥ १ ॥

हरपहिं निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायउ रंका ॥

रज सिर धरि हियँ नयनन्हि लावहिं । रघुवर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥

श्रीरामचन्द्रजीके चरणनिह्न देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दण्ड पारस पा गया हो । वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेत्रोंमें लगाते हैं और श्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान सुख पाते हैं ॥ २ ॥

देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥

सखहि सनेह विवस मग भूला । कहि सुपंथ सुर वरपहिं फूला ॥

भरतजीकी अत्यन्त अनिवंचनीय दगा देखकर वनके पशु, पक्षी और जड़ (पृथादि) जीव प्रेममें मान हो गये । प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निपादराजको भी रास्ता भूल गया, तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे ॥ ३ ॥

निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन लागे ॥

होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥

भरतके प्रेमको इस स्थितिकी देखकर सिद्ध और माधवयोग भी अनुरागमें भर

गये और उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वीतलपर भरतका जन्म [अथवा प्रेम] न होता, तो जड़को चेतन और चेतनको जड़ कौन करता ? ॥४॥

दो०—पेम अमिअ मंदरु विरहु भरतु पयोधि गंभीर ।

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुवीर ॥ २३८ ॥

प्रेम अमृत है, विरह मन्दराचल पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं। कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता और साधुओंके हितके लिये स्वयं [इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्दराचलसे] मथकर यह प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है ॥ २३८ ॥

चौ०—सखा समेत मनोहर जोटा । लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥

भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सद्गनु सुहावन ॥

सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आड़के कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये। भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गलोंके धाम और सुन्दर पवित्र आश्रमको देखा ॥ १ ॥

करत प्रवेश मिटे दुख दावा । जनु जोगीं परमारथु पावा ॥

देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूँछे वचन कहत अनुरागे ॥

आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख और दाह (जलन) मिट गया, मानो योगीको परमार्थ (परमतत्त्व) की प्राप्ति हो गयी हो। भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी प्रभुके आगे खड़े हैं और पूँछे हुए वचन प्रेमपूर्वक कह रहे हैं (पूँछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं) ॥ २ ॥

सीस जटा कटि मुनि पटवाँधे । तून कसें कर सरु धनु काँधे ॥

वेदी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥

सिरपर जटा है, कमरमें मुनियोंका (वल्कल) वस्त्र बाँधे हैं और उसीमें तरकस कसे हैं। हाथमें वाण तथा कंधेपर धनुष है, वेदीपर मुनि तथा साधुओंका समुदाय बैठा है और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी विराजमान हैं ॥ ३ ॥

बलकल वसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥

कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥

श्रीरामजीके वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर है। [सीता-

कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहूँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा ॥

लक्ष्मणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा—हे रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । यह सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे । कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण ॥ ४ ॥

दो०—बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान ।

भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४० ॥

कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया । भरतजी और श्रीरामजीके मिलनेकी रीतिकी देखकर सबको अपनी सुध भूल गयी ॥ २४० ॥

चौ०—मिलनिप्रीतिकिमिजाइबखानी । कविकुल अगम करम मन बानी ॥

परम पेम पूरन दोउ भाई । मनबुधिचित्तअहमिति बिसराई ॥

मिलनकी प्रीति कैसे बखानी जाय ? वह तो कविकुलके लिये कर्म, मन, वाणी—तीनोंसे अगम है । दोनों भाई (भरतजी और श्रीरामजी) मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारको भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं ॥ १ ॥

कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥

कविहि अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ॥

कहिये, उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे? कविकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे? कविको तो अक्षर और अर्थका ही सच्चा बल है । नट तालकी गतिके अनुसार ही नाचता है ।

अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँन जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥

सो मैं कुमति कहौं केहि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥

भरतजी और रघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका भी मन नहीं जा सकता । उस प्रेमको मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ ! भला, गाँडरकी ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता है ? ॥ ३ ॥

[तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है, उसे गाँडर कहते हैं ।]

मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥

समुझाए सुरगुरु जड़ जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥

रामजी ऐसे लगते हैं] मानो रति और कामदेवने मुनिका येप धारण किया हो । श्रीगमजी अपने करकमलोसे धनुष-बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जीकी जनन हर सेते हैं (अर्थात् जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसीको परम आनन्द और गान्धि मिल जाती है) ॥ ४ ॥

श्लो०—लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद्र ।

ग्यान सभौं जनु तनु धरें भगति सच्चिदानंद ॥ २३६ ॥

सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे मुग्धो-मित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी समामें साक्षात् भक्ति और सच्चिदानन्द शरीर धारण करने किराजमान हैं ॥ २३६ ॥

श्लो०—सानुज सखा समेत भगन मन । विसरे हरप सोक सुख दुख गन ॥

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकुट की नाईं ॥

छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निपादराजसमेत भरतजीका मन [प्रेममें] मग्न हो रहा है। हृष्य-शोक, सुख-दुःख आदि सब भूल गये । 'हे नाथ ! रक्षा कीजिये, हे गुसाईं ! रक्षा कीजिये' ऐसा कहकर वे पृथ्वीपर दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥

वचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जियै जाने ॥

बंधु मनेह सरस एहि ओरा । उत साहिव सेवा बस जोरा ॥

प्रेमभरे वचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । [वे श्रीरामजीकी ओर मुंह किये घड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं ।] अब इस ओर तो भाई भरतजीका मरग प्रेम और उधर स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रवचन परवशता ॥ २ ॥

मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई । सुकवि लखन मन की गति भनई ॥

रहे राखि सेवा पर भाख । चढी चंग जनु खैंच खेलाख ॥

न तो [क्षणभरके लिये भी सेवासो पूयक होकर] मिलने ही बनता है और न [प्रेमवश] छोड़ते (उपेक्षा करते) ही । कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मणजीके विलम्बी इग गति (दुविधा) का वर्णन कर सकता है । वे सेवापर भार रगार रग गये (सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें लगे रहे) मानो चढ़ी हुई पतंगकी [पतंग उड़ानेवाला] पींच रहा हो ॥ ३ ॥

वह अपनी गतिसे खाली है (अर्थात् संकल्प-विकल्प और चाञ्चल्यसे शून्य है) । उस अवसर पर केवट (निषादराज) धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा—॥४॥

दो०—नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग ।

सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥ २४२ ॥

हे नाथ ! मुनिनाथ वसिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति मन्त्री—सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं ॥ २४२ ॥

चौ०—सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनू ।

चले सवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ।

गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुघ्नजीके रख दिया और वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चल पड़े ॥ १ ॥

गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ।

मुनिवर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ।

गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और दण्डवत्-प्रणाम करने लगे । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेममें उमंगकर वे दोनों भाइयोंसे मिले ॥ २ ॥

प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥

वैरवस भेंट । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥

फिर को होकर के किया (निषादराज) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही वसिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको ते हुए प्रेमको समेट लिया हो ॥ ३ ॥

सराहि सुर बरिसहिं फूला ॥

बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥

है, इस प्रकार कहकर सराहना करते

—जगत्में इसके समान सर्वथा नीच

भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता ममभीत हो गये, उनकी धुकधुकी घड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पतिजीने समझाया, तब वहाँ वे मूधं चेतें और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥

दो०—मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेटैउ राम ।

भूरि भायँ भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥

फिर श्रीरामजी प्रेमके साय शत्रुघ्नसे मिलकर तब केवट (निपादराज) ने मिले । प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले ॥ २४१ ॥

चौ०—भेटैउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निपादु लीन्ह उर लाई ॥

पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह वंदे । अभिमत आसिप पाइ अनंदे ॥

तब लक्ष्मणजी ललककर (बड़ी उमंगके साय) छोटे भाई शत्रुघ्नसे मिले । फिर उन्होंने निपादराजको हृदयसे लगा लिया । फिर भरत-शत्रुघ्न दोनों भाइयोंने [उपस्थित] मुनियोंको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥

सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥

पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि वैठाए ॥

छोटे भाई शत्रुघ्नसहित भरतजी प्रेममें उमंगकर सीताजीके चरणकमलोंकी रज सिरपर धारण कर बार-बार प्रणाम करने लगे । सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको अपने करकमलसे स्पर्श कर (सिरपर हाथ फेरकर) उन दोनोंको बँठाया ॥ २ ॥

सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं ॥

सब विधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर वीता ॥

सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया; क्योंकि वे स्नेहमें मग्न हैं, उन्हें देखकी सुघ-बुघ नहीं हैं । सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोनरहित हो गये और उनके हृदयका कल्पित भय जाता रहा ॥ ३ ॥

कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा ॥

तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि । जोरि पानि विनयत प्रनामु करि ॥

उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है । मन प्रेममें परिपूर्ण है।

वह अपनी गतिसे खाली है (अर्थात् संकल्प-विकल्प और चाञ्चल्यसे शून्य है) । उस अवसर-पर केवट (निषादराज) धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा—॥४॥

दो०—नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग ।

सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥ २४२ ॥

हे नाथ ! मुनिनाथ वसिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री—सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं ॥ २४२ ॥

चौ०—सीलसिंधु मुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥

चले सवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥

गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुघ्नजीको रख दिया और वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चल पड़े ॥ १ ॥

गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥

मुनिबर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥

गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और दण्डवत्-प्रणाम करने लगे । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेममें उमंगकर वे दोनों भाइयोंसे मिले ॥ २ ॥

प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥

रामसखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥

फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट (निषादराज) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही वसिष्ठजीको दण्डवत्-प्रणाम किया । ऋषि वसिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको जबदंस्ती हृदयसे लगा लिया, मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो ॥ ३ ॥

रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला ॥

एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मङ्गलोंका मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाशसे फूल बरसाने लगे । वे कहने लगे—जगत्में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वसिष्ठजीके समान बड़ा कौन है ? ॥ ४ ॥

दो०—जेहि लखि लखनहु तेँ अधिक मिले मुदित मुनिराउ ।

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ २४३ ॥

जिस (निपाद) को देखकर मुनिराज वसिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित होकर मिले, यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है ॥ २४३ ॥

चौ०—आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥

जो जेहि भायँ रहा अभिलापी । तेहि तेहि कै तसि तसि खराखी ॥

दयाकी खान, सुजान भगवान् श्रीरामजीने सब लोगोंको दुयो (मिलनेके लिये व्याकुल) जाना । तब जो जिस भावसे मिलनेका अभिलापी था, उस-उसका उस-उस प्रकारका रव रहते हुए (उसकी रुचिके अनुसार) ॥ १ ॥

सानुज मिलि पल महँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दाहन दाहू ॥

यह बड़ि वात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥

उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और कष्टिन संतापको दूर कर दिया । श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । जैसे करोड़ों घड़ोंमें एक ही सूर्यकी [पृथक्-पृथक्] छाया (प्रतिबिम्ब) एक शाम ही दीयती है ॥ २ ॥

मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ॥

देखीं राम दुखित महतारीं । जनु सुबेलि अवलीं हिम मारीं ॥

समस्त पुरवासी प्रेममें उमंगकर केवटसे मिलकर [उनके] भाग्यको मराहना करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीने सब मालाओंको दुयो देया । मानो मुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३ ॥

प्रथम राम भेंटी कैकेई । सरल सुभायँ भगति मति भेई ॥

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम त्रिधि सिर धरि खोरी ॥

सबसे पहले रामजी कैकेयीसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्तिमें उमगी बुद्धिको तर कर दिया । फिर चरणोंमें गिरकर काल, कर्म और विधाताके गिर दोष मंझकर, श्रीरामजीने उनको छान्दना दी ॥ ४ ॥

—मेटीं रघुवर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु ।

अंव ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥ २४४ ॥
 फिर श्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिले । उन्होंने सबको समझा-बुझाकर सन्तोष
 या कि हे माता ! जगत् ईश्वरके अधीन है, किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये ॥ २४४ ॥

०—गुरतिय पद बंदे दुहु भाई । सहित विप्रतिय जे सँग आई ॥
 गंग गौरि सम सब सनमानीं । देहिं असीस मुदित मृदु बानी ॥

फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंसहित, जो भरतजीके साथ आयी थीं, गुह्यजीकी
 पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका गङ्गाजी तथा गौरीजीके समान
 सम्मान किया । वे सब आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं ॥ १ ॥

गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भेंटी संपति अति रंका ॥
 पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम ब्याकुल सब गाता ॥

तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे । मानो किसी अत्यन्त
 दरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी हो । फिर दोनों भाई माता कौसल्याजीके चरणोंमें गि
 पड़े । प्रेमके मारे उनके सारे अङ्ग शिथिल हैं ॥ २ ॥

अति अनुराग अंव उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए
 तेहि अवसर कर हरष विषादू । किमि कवि कहै मूकजिमि स्वादू

बड़े ही स्नेहसे माताने उन्हें हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे बहे हुए प्रेमाश्रु
 जलसे उन्हें नहला दिया । उस समयके हर्ष और विषादको कवि कैसे कहे ? जैसे गूंगा स्व
 कैसे बतावे ? ॥ ३ ॥

मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कहेउ कि धारिअ पा
 पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थलतकितकि उतरेउ ले

श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर गु
 कि आश्रमपर पधारिये । तदनन्तर मुनीश्वर वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्या
 लोग जल और थलका सुभीता देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥

दो०—महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ ।
 पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ ५ ॥

वो०—जेहि लखि लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ ।

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ २४३ ॥

जिस (निपाद) को देखकर मुनिराज वसिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उस आनन्दित होकर मिले, यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है ॥ २४३ ॥

वो०—आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ।

जो जेहि भायँ रहा अभिलापी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ।

दयाकी खान, सुजान भगवान् श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी (मिलनेके लिए व्याकुल) जाना । तब जो जिस भावसे मिलनेका अभिलापी था, उस-उसका उस-उस प्रकारका रुख रखते हुए (उसकी रुचिके अनुसार) ॥ १ ॥

सानुज मिलि पल महँ सव काहू । कीन्ह दूरि दुखु दाहन दाहू ।

यह बड़ि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रत्रि छाहीं ।

उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और कष्ट संतापको दूर कर दिया । श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । जैसे करोंके पड़ोंमें एक ही सूर्यकी [पृथक्-पृथक्] छाया (प्रतिबिम्ब) एक साथ ही दीयती है ॥ २ ॥

मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ।

देखीं राम दुखित महतारीं । जनु सुवेलि अवलीं हिम मारीं ।

समस्त पुरवासी प्रेममें उमंगकर केवटसे मिलकर [उनके] भाग्यकी सराहना करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको दुखी देखा । मानी सुन्दर लताओंकी पंक्तिमें पाला मार गया हो ॥ ३ ॥

प्रथम राम भेंटी कैकेई । सरल सुभायँ भगति मति भेई ।

पग परि कीन्ह प्रबोधु वहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ।

सबसे पहले रामजी कैकेयीसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी बुद्धिको तर कर दिया । फिर चरणोंमें गिरकर काल, कर्म और विघाताके मिर दोग मँदराने श्रीरामजीने जनको मानवता दी ॥ ४ ॥

वश हृदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो (अर्थात् सदा सौभाग्य-
वती रहो) ॥ २४६ ॥

ची०—बिकल सनेहँ सीय सब रानीं । बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानीं ॥

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ॥

सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुल हैं । तब ज्ञानी गुरुने सबको बैठ जानेके
लिये कहा । फिर मुनिनाथ वसिष्ठजीने जगत्की गतिको मायिक कहकर (अर्थात् जगत्
मायाका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर) कुछ परमार्थकी कथाएँ (बातें) कहीं १

नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥

मरन हेतु निज नेहु विचारी । भे अति बिकल धीर धुर धारी ॥

तदनन्तर वसिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी, जिसे सुनकर
रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचार-
कर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २ ॥

कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥

सोक बिकल अति सकल समाजू । मानहुँ राजु अकाजेउ आजू ॥

वज्रके समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ
विलाप करने लगीं । सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया । मानो राजा आज
ही मरे हों ॥ ३ ॥

बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥

व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहेँ जलु काहुँ न लीन्हा ॥

फिर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया । तब उन्होंने समाजसहित
श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें स्नान किया । उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल व्रत किया ।
मुनि वसिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया ॥ ४ ॥

दो०—भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह ।

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो

सादरु कीन्ह ॥ २४७ ॥

दूसरे दि
प्रभु

मुनि वसिष्ठ

भक्तिसहित

नाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह

किया ॥ २४७ ॥

ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये हुए, भरतजी, लक्ष्मणजी और श्रीरघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ ॥

चौ०—सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥

गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पेषु कहि जाइ न जेता ॥

सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होंने मनमांगी उचित आशिय पायी । फिर मुनियोंकी स्त्रियोंसहित गुरुपत्नी अरुणघतोजीसे मिलीं । उनका जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ॥ १ ॥

बंदि बंदि पग सिय सबही के । आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥

सासु सकल जब सीयै निहारौं । मूढ़े नयन सहमि सुकुमारौं ॥

सीताजीने सभीके चरणोंकी अलग-अलग वन्दना करके अपने हृदयको प्रिय (अनु-कूल) लगनेवाले आशीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीने सब सासुओंको देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर लीं ॥ २ ॥

परौं बधिक बस मनहुँ मरालीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥

तिन्ह सियनिरखिनिपटदुखुपावा । सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा ॥

[सासुओंकी बुरी दशा देखकर] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिकके वशमें पड़ गयी हों । [मनमें सोचने लगी कि] कुचाली विघाताने क्या कर डाला ? उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दुःख पाया । [सोचा] जो कुछ दैव सहाये वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ३ ॥

जनकसुता तव उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥

मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥

तब जानकीजी हृदयमें धीरज धरकर, नील कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकर सब सासुओंसे जाकर मिलीं । उस समय पृथ्वीपर करुणा (करुण-रस) छा गयी ! ॥ ४ ॥

दो०—लागि लागि पग सवनि सिय भेंटति अति अनुराग ।

हृदयँ असीसहिँ पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥

सीताजी सबके पैरों लग-लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल रही हैं और सब का

चौ०—राम वचन सुनि सभय समाजू । जनुजलनिधि महुँ विकल जहाजू ॥

सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला ॥

श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानो बीच समुद्रमें जहाज डगमगा गया हो । परंतु जब उन्होंने गुरु वसिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याण-मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥

पावन पयँ तिहुँ काल नहाहीं । जो विलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥

मंगलमूर्ति लोचन भरि भरि । निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥

सब लोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें] तीनों समय (सबेरे, दोपहर और सायंकाल) स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं और मङ्गलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्-प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र भर-भरकर देखते हैं ॥ २ ॥

राम सैल वन देखन जाहीं । जहुँ सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥

झरना झरहिं सुधासम बारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी ॥

सब श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत (कामदगिरि) और वनको देखने जाते हैं । जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुःखोंका अभाव है । झरने अमृतके समान जल झरते हैं और तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्ध) हवा तीनों प्रकारके (आध्यात्मिक, आधि-भौतिक, आधिदैविक) तापोंको हर लेती है ॥ ३ ॥

विटप बेलि तृण अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥

सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि वन छबि केहि पाहीं ॥

असंख्य जातिके वृक्ष, लताएँ और तृण हैं तथा बहुत तरहके फल, फूल और पत्ते हैं । सुन्दर शिलाएँ हैं । वृक्षोंकी छाया सुख देनेवाली है । वनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है ? ॥ ४ ॥

दो०—सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत भृंग ।

वैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग ॥ २४६ ॥

तालावोंमें कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगोंके पक्षी और पशु वनमें वीररहित होकर विहार कर रहे हैं ॥ २४६ ॥

श्री०—करि पितु क्रिया वेद जसि घरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥

जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥

वेदोंमें जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकारके नष्ट करनेवाले सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए । जिनका नाम पापरूपी रुईके [तुरंत जला डालनेके] लिये अग्नि है और जिनका स्मरणमात्र समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है, ॥ १ ॥

सुद्धसो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥

सुद्ध भएँ दुइ वासर बीते । घोले गुर सन राम पिरीते ॥

वे [नित्य-शुद्ध-शुद्ध] भगवान् श्रीरामजी शुद्ध हुए । साधुओंकी ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थोंके आवाहनसे गङ्गाजी शुद्ध होती है ! (गङ्गाजी तो स्वभावसे ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थोंका आवाहन किया जाता है उतने वे ही गङ्गाजीके सम्पर्कमें आनेसे शुद्ध हो जाते हैं । इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्गसे कर्म ही शुद्ध हो गये ।) जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गये तब श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले—॥ २ ॥

नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥

सानुज भरतु सचिव सब माता । देखिमोहि पल जिमि जुगजाता ॥

हे नाम ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं । कन्द, मूल, फल और जलका ही आहार करते हैं । भाई शत्रुघ्नसहित भरतको, मन्त्रियोंको और सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है ॥ ३ ॥

सब समेत पुर धारिअ पाऊ । आपु इहाँ अमरावति राज ॥

बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाईं ॥

अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये (सौट जाइये) । आप महीं हैं और राजा अमरावती (स्वर्ग) में हैं (अयोध्या सूनी है) । मैंने बहुत बह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है । हे गोसाईं ! जैसा उचित हो वैसे ही कीजिये ॥ ४ ॥

श्री०—धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम ।

लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहुँ विश्राम ॥ २५८ ॥

[वसिष्ठजीने कहा—] हे राम ! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो, तुम मना क्यों न कहो ? लोग दुःखी हैं, दो दिन तुम्हारा दर्शनकर शान्ति प्राप्त कर में ॥ २५८ ॥

चौ०—तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥
देव काह हम तुम्हहि गोसाँई । ईधनु पात किरात मिताई ॥

आप प्रिय पाहुने बनमें पधारे हैं । आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं । हे स्वामी ! हम आपको क्या देंगे ? भीलोंकी मित्रता तो बस, ईधन (लकड़ी) और पत्तोहीतक है ॥ १ ॥

यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥

हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते । हमलोग जड़ जीव हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं; कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं । पाप करत निमि बासर जाहीं । नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं ॥
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥

हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं । हममें स्वप्नमें भी कभी धर्मबुद्धि कैसी । यह सब तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है ॥ ३ ॥

जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥

जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये । वनवासियोंके वचन सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥

छं०—लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं ।
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥
नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा ।
तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह लै लौका तिरा ॥

सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे । उन लोगोंके बोलने और मिलनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं । उन कोल-भीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते

बो०—कोल किरात भिल्ल वनवासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु मुधा सी ।

भरि भरि परन पुटीं रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ।

कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके समान स्वादिष्ट मधु (शहद) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें मरु-भरदार तथा कन्द, मूल, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियों (अँटियों) को ॥ १ ॥

सबहि देहिं करि विनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥

देहिं लोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥

सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-प्रलग स्वाद, भेद (प्रकार), गुण और नाम बता-बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देनेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हैं ॥ २ ॥

कहहिं सनेह मगन मृदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥

तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥

प्रेममें मग्न हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधुसौग प्रेमको पहचानकर उमका सम्मान करते हैं (अर्थात् आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये) । आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥

हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥

राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥

हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमिके लिये गङ्गाजीकी धारा दुर्लभ है। [देखिये,] कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने निषादपर भंसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वंसा ही उनके परिवार और प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४ ॥

बो०—यह जियँ जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु ।

हमहि कृतारथ करन लागि फल वृन अंकुर लेहु ॥ २५० ॥

हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा बोजि हमको कृतार्थ करनेके लिये ही फल, वृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥

ची०—तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥
देव काह हम तुम्हहि गोसाँई । ईधनु पात किरात मिताई ॥

आप प्रिय पाहुने बनमें पधारे हैं । आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं । हे स्वामी ! हम आपको क्या देंगे ? भीलोंकी मित्रता तो बस, ईधन (लकड़ी) और पत्तोंहीतक है ॥ १ ॥

यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥

हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लें । हमलोग जड़ जीव हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं; कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं । पाप करत निमि वासर जाहीं । नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं ॥
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥

हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं । हममें स्वप्नमें भी कभी धर्मबुद्धि कैसी । यह सब तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है ॥ ३ ॥

जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥

जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये । बनवासियोंके वचन सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥

छं०—लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं ।

बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥

नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा ।

तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह लै लौका तिरा ॥

सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे । उन लोगोंके बोलने और मिलनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं । उन कोल-भीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते

हैं (उसे धिक्कार देते हैं)। तुषतीदासजी कहते हैं कि यह रूपवंगमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया।

सो०—विहरहिं वन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब।

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥

सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं (प्रसन्न होकर नाचते-नूदते हैं) ॥ २५१ ॥

चो०—पुर जन नारि भगन अति प्रीती। वासर जाहिं पलक सम वीती ॥

सीय सासु प्रति वेप बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥

अयोध्यापुरीके पुरुष और स्त्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलके समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेप (रूप) बनाकर सीताजी सब सामुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं ॥ १ ॥

लखा न मरमु राम विनु काहुँ। माया सब सिय माया माहुँ ॥

सीयँ सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लहि मुखसिख आसिपदीन्हीं ॥

श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना। सब मायाएँ [परा-शक्ति महामाया] श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं। सीताजीने सामुओंको सेवासो यन्त्रमें कर लिया। उन्होंने गुप्त पाकर सीय और आशीर्वाद दिये ॥ २ ॥

लखि सिय सहित सरल दोउभाई। कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥

अवनि जमहि जाचति कैंकेई। महि न वीचु विधि मीचु न देई ॥

सीताजीसमेत दोनों भाइयों (श्रीराम-लक्ष्मण) को सरल-स्वभाव देखकर मूटिन रानी कैंकेयी भस्पेट पछतायी। वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है, विनु धरती बीच (फटकर समा जानेके लिये रास्ता) नहीं देती और विधाता मोत नहीं देता ॥ ३ ॥

लोकहुँ वेद विदित कवि कहहीं। राम विमुख थलु नरक न लहहीं ॥

यहु संसउ सब के मन माहीं। राम गवनु विधि अवध कि नाहीं ॥

लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि (ज्ञानी) भी कहते हैं कि जो श्रीरामजीमें विमुक्त हैं, उन्हें नरकमें भी डोर नहीं मिलती। सबके मनमें यह सदेह हो रहा था कि हे विधाता! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं ॥ ४ ॥

दो०—निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच ।

नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच ॥ २५२ ॥

भरतजीको न तो रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लगती है। वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं जैसे नीचे (तल) के कीचड़में डूबी हुई मछलीको जलकी कमीसे व्याकुलता होती है ॥ २५२ ॥

ची०—कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥

केहि विधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥

[भरतजी सोचते हैं कि] माताके मिससे कालने कुचाल की है, जैसे धानके पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो। अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता ॥ १ ॥

अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥

मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ । राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥

गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट चलेंगे। परंतु मुनि वसिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे (अर्थात् वे श्रीरामजीकी रुचि देखे बिना जानेको नहीं कहेंगे)। माता कौसल्याजीके कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी लौट सकते हैं; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी ? ॥ २ ॥

मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महुँ कुसमउ बाम विधाता ॥

जौँ हठ करउँ त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥

मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है ? उसमें भी समय खराब है (मेरे दिन अच्छे नहीं हैं) और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म (अधर्म) होगा; क्योंकि सेवकका धर्म शिवजीके पर्वत कैलाससे भी भारी (निबाहनेमें कठिन) है।

एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैन विहानी ॥

प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठए रिषयँ बोलाई ॥

एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी। सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी। भरतजी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वसिष्ठजीने उनको बुलवा भेजा ॥ ४ ॥

हैं (उसे धिक्कार देते हैं) । तुलसीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नीचाको अपने ऊपर लेकर तैर गया ।

सो०—विहरहिं वन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब ।

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥

सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर बिचरते हैं, जैसे पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं (प्रसन्न होकर नाचते-नूदते हैं) ॥ २५१ ॥

चौ०—पुर जन नारि मगन अति प्रीती । वासर जाहिं पलक सम वीती ॥

सीय सासु प्रति बेप बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥

अयोध्यापुरीके पुरुष और स्त्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं । उनके दिन पलके समान बीत जाते हैं । जितनी सासुएँ थीं, उतने ही बेप (रूप) बनाकर सीताजी सब सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं ॥ १ ॥

लखा न मरमु राम त्रिनु काहुँ । माया सब सिय माया माहुँ ॥

सीयँ सासु सेवा बस कीन्हों । तिन्हलहिमुखसिखआसिपटीन्हों ॥

श्रीरामचन्द्रजीके सिया इस भेदको और किसीने नहीं जाना । सब मायाएँ [पराशक्ति महामाया] श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं । सीताजीने सासुओंको सेवासमें वगमें भर लिया । उन्होंने गुन्र पाकर सीय और आसुयादि दिये ॥ २ ॥

लखि सिय सहितसरल दोउभाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥

अवनि जमहि जाचति कैंकेई । महि न वीचु विधि मीचु न देई ॥

सीताजीगमेत दोनों भाइयों (श्रीराम-लक्ष्मण) को गरल-स्वभाव देगकर कुटिल रानी कैंकेयी भरपेट पछतायो । यह प्युयो तथा यमराजमें याचना करती है, किन्तु धरली बीच (फटकर समा जानेके लिये रास्ता) नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता ॥ ३ ॥

लोकहुँ वेद विदित कवि कहहीं । राम विमुख थलु नरक न लहहीं ॥

यहु संसउ सब के मन माहीं । राम गवनु विधि अवध कि नाहीं ॥

लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि (जानी) भी कहते हैं कि जो श्रीरामजीमें विमुक्त हैं, उन्हें नरकमें भी डार नहीं मिलती । मरके मनमें यह मदेह हो रहा था कि मैं विधाता ! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं ॥ ४ ॥

तत्त्व और रहस्यको समझकर] अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर करो ॥ २५४ ॥

चौ०—सब कहूँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ॥

केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥

श्रीरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है । मङ्गल और आनन्दका मूल यही एक मार्ग है । [अब] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय ॥ १ ॥

सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥

उतरु न आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और स्वार्थ (लौकिक हित) में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी । पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले (विचारशक्तिसे रहित) हो गये; तब भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २ ॥

भानुवंस भए भूप घनेरे । अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥

जनम हेतु सब कहँ पितु माता । करम सुभासुभ देइ विधाता ॥

[और कहा—] सूर्यवंशमें एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं । सभीके जन्मके कारण पिता-माता होते हैं और शुभ-अशुभ कर्मोंको (कर्मोंका फल) विधाता देते हैं । ३ ।

दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना ॥

सो गोसाइँ विधि गति जेहिं छेंकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥

आपकी आशिष ही एक ऐसी हैं जो दुःखोंका दमन करके समस्त कल्याणोंको सज देती हैं । यह जगत् जानता है । हे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति (विधान) को भी रोक दिया । आपने जो टेक टेक दी । (जो निश्चय कर दिया) उसे कौन टाल सकता है ? ॥ ४ ॥

दो०—वृझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु ।

सुनि सनेहमय वचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५५ ॥

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है । भरतजीके प्रेममय वचनोंको सुनकर गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया ॥ २५५ ॥

दो०—गुर पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ ।

विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥ २५३ ॥

भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये। उर्मी गमक ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री आदि सभी सभासद् आकर जुट गये ॥ २५३ ॥

चौ०—बोले मुनिवरु समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥

धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा रामु स्ववस भगवानू ॥

श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी समयोचित वचन बोले—हे सभासदो ! हे गुजान भरत ! सुनो। सूर्यकुलके सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र घमंघुरन्धर और स्वतन्त्र भगवान् हे ॥ १ ॥

सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम जनमु जग मंगल हेतू ॥

गुर पितु मातु वचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥

वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं। श्रीरामजीका अवतार ही जगत्के कल्याणके लिये हुआ है। वे गुरु, पिता और माताके वचनोंके अनुगार चलेवाले हैं। दुष्टोंके दलका नाश करनेवाले और देवताओंके हितकारी हैं ॥ २ ॥

नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु । कोउ न राम सम जान जथारथु ॥

विधिहरि हरुससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥

नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ (तत्त्वसे) कोइ नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिवपाल, माया, जीव, सभी कर्म और पाल, ॥३॥

अहिप महिप जहँ लागि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥

करि विचार जियँ देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही केँ ॥

शेषजी और [पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य] राजा आदि जहाँका प्रभुता है, और योगकी सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रोंमें गायी गयी हैं, हृदयमें अच्छी तरह विचारकर देखो, [तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि] श्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके गिरण है (अर्थात् श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान् महेश्वर हैं) ॥ ४ ॥

दो०—राखें राम रजाइ स्व हम सब कर हित होइ ।

समुझि सचाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥ २ ॥

अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रथ स्थानमें ही हम सबका हित ।

०—भरत वचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥

भरत महा महिमा जलरासी । मुनिमति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥

भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वसिष्ठजी देहे हो गये (किसीको अपने देहकी सुधि न रही) । भरतजीकी महान् महिमा समुद्र मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला स्त्रीके समान खड़ी है ॥ १ ॥

॥ चह पार जतनु हियँ हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥

गौरु करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिधु समाई ॥

वह [उस समुद्रके] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय भी ढूँढे । पर [उसे पार करनेका साधन] नाव, जहाज या वेड़ा कुछ भी नहीं पाती । भरतजीकी बड़ाई और कौन करेगा ? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है ? ॥ २ ॥

भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहिँ आए ॥

प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥

मुनि वसिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया । सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये ॥ ३ ॥

बोले मुनिबरु बचन बिचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥

मुनहु राम सरबग्य सुजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥

श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले—हे सर्वज्ञ ! सुजान ! हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये—॥ ४ ॥

०—सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ ।

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥ २५७ ॥

आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भले-बुरे भावको जानते हैं । जिसमें सुवासियोंका, माताओंका और भरतका हित हो वही उपाय बतलाइये ॥ २५७ ॥

०—आरत कहहिं बिचारि न काऊ । सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥

सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥

चौ०—तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम विमुख सिधि सपनेहुँ नहीं ॥

सकुचउँ तात कहत एक वाता । अरध तजहिं बुध सरवस जाता ॥

[वें बोले—] हे तात ! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही । रामविमुखको तो स्वप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती । हे तात ! मैं एक बात कहनेमें सन्तुष्टा हूँ । बुद्धिमान् लोग सर्वस्व जाता देखकर [आघेकी रसाके लिये] आघा छोड़ दिया करते हैं ॥ १ ॥

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥

सुनि सुवचन हरषे दोउ भ्राता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥

अतः तुम दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) यनको जाबो और लक्ष्मण, सीता और श्रीराम-चन्द्रको लौटा दिया जाय । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये । उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥ २ ॥

मन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिय राउ रामु भए राजा ॥

बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥

उनके मन प्रसन्न हो गये । शरीरमें तेज सुशोभित हो गया । मानो राजा दशरथजी उठे हों और श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों । अन्य लोगोंको तो इतमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई । परंतु रानियोंको दुःख-सुख समान ही थे (राम-लक्ष्मण यनमें रहें या भरत-शत्रुघ्न, दो पुत्रोंका विभोग तो रहेगा ही,) यह समझकर वे सब रोने लगीं ॥ ३ ॥

कहहिं भरतुमुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥

कानन करउँ जनम भरि वासू । एहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥

भरतजी कहने लगे—मुनिने जो कहा, यह करनेसे जगत्भरके जीवोंको उनकी इच्छित वस्तु देनेका फल होगा । [चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं] मैं जन्मभर यनमें वास करूंगा । मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान ॥

जौं फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचनु प्रवान ॥ २५६ ॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं । यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ ! अपने वचनोंको प्रमाण कीजिये (अनुसार व्यवस्था कीजिये) ॥ २५६ ॥

बोले गुरु आयस अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला ॥
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥

श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याणके मूल बचन बोले—हे नाथ ! आपकी सौगंद और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है (मैं सत्य कहता हूँ कि) विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २ ॥

जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी ॥
राउर जा पर अस अनुरागू । को कहि सकइ भरत कर भागू ॥

जो लोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें (लौकिक दृष्टिसे) भी और वेदमें (पारमार्थिक दृष्टिसे) भी बड़भागी होते हैं ! [फिर] जिसपर आप (गुरु) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह सकता है ? ॥ ३ ॥

लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥
भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥

छोटा भाई जानकर भरतके मुंहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है । (फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें भलाई है । ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४ ॥

दो०—तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजि तात ।

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥ २५६ ॥

तब मुनि भरतजीसे बोले—हे तात ! सब संकोच त्यागकर कृपाके समुद्र अपने प्यारे भाईसे अपने हृदयकी बात कहो ॥ २५६ ॥

दो०—सुनि मुनिबचनरामरुखपाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥

लखि अपनें सिरसबुछरु भारू । कहिनसकहिं कछु करहिं बिचारू ॥

मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर—गुरु तथा स्वामीको भ्रष्ट अपने अनुकूल जानकर—सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते । वे विचार करने लगे ॥ ५ ॥

पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े । नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥

कहब मोर मुनिनाथ निवाहा । एहि तें अधिक कहौं मैं कहा ॥

आतं (दुःखी) लोग कभी विचारकर नहीं कहते । जुआरीको अपना ही दाय गूमता है । मुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे—हे नाम ! उपाय तो आपहीके हाथ है ॥१॥
सब कर हित रख राउरि राखें । आयसु किएँ मुदित फुर भापें ॥
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई । माथें मानि करौँ सिख सोई ॥

आपका रख रखनेमें और आपकी आज्ञाको सत्य रहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है । पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी आज्ञाको माथेंपर चढ़ाकर करूँ ॥ २ ॥

पुनि जेहि कहूँ जस कहव गोसाईं । सो सब भाँति घटिहि सेवकाईं ॥
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सनेहँ विचारु न राखा ॥

फिर हे गोसाईं ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा (आज्ञा पालन करेगा) । मुनि वसिष्ठजी कहने लगे—हे राम ! मुझने भय नहीं; पर भरतके प्रेमाने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३ ॥

तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥
मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥

इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है । मेरी समझमें तो भरतकी रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा, भिवजी साक्षी हैं, वह सब गुप्त ही होगा ॥ ४ ॥

श्लो०—भरत विनय सादर सुनिअ करिअ विचारु बहोरि ।

करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥

पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये; फिर उसपर विचार कीजिये । तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ (सार) निष्पन्नकर पंगा ही (उसीके अनुसार) कीजिये ॥ २५८ ॥

श्लो०—गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृदयँ आनंदु त्रिसेपी ॥

भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥

भरतजीपर गुणगीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ । भरतजीको धर्मधुरंधर और तन, मन, यत्नसे अपना सेवक जानकर—॥ १ ॥

हे तात ! तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको ईश्वरके अधीन जानो । मेरे मतमें [भूत, भविष्य, वर्तमान] तीनों कालों और [स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल] तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोक परलोक नसाई ॥

दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुरु साधु सभा नहिं सेई ॥

हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक (यहाँके सुख, यश आदि) विगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है (मरनेके बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती) । माता कैंकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है ॥ ४ ॥

दो०—मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार ।

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥ २६३ ॥

हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही सब पाप-प्रपञ्च (अज्ञान) और समस्त अमङ्गलोंके समूह मिट जायेंगे तथा इस लोकमें सुंदर यश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा ।

चौ०—कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥

तात कुतरक करहु जनि जाएँ । बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ ॥

हे भरत ! मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रक्खी रह रही है । हे तात ! तुम व्यर्थ कुतर्क न करो । बैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥ १ ॥

मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥

हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥

पक्षी और पशु मुनियोंके पास [वेधड़क] चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाले बधिकोंको देखते ही भाग जाते हैं । मित्र और शत्रुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्यशरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है ॥ २ ॥

तात तुम्हहि मैं जानउँ नीकें । करौं काह असमंजस जीकें ॥

राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥

हे तात ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । क्या करूँ ? जीमें बड़ा असमंजस (दुविधा) है । राजाने मुझे त्यागकर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ ॥

शरीरसे पुलकित होकर वे समामें चढ़े हो गये। कमलके समान नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंकी बाढ़ आ गयी। [वे बोले—] मेरा कहना तो मुनिनायने ही निबाह दिया (जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया)। इससे अधिक मैं क्या कहूँ ? ॥ २ ॥

मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥
मो पर कृपा सनेहु विसेषी । खेलत खुनिस न कवहूँ देखी ॥

अपने स्वामीका स्वभाव मैं जानता हूँ । वे अपराधीपर भी कभी श्लोघ नहीं करते। मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेलमें भी कभी उनकी रीस (अप्रसन्नता) नहीं देखी ॥ ३ ॥

सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू । कवहूँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥
मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही । हारेहुँ खेल जितावहिँ मोही ॥

बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं तोड़ा (मेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया)। मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको हृदयमें मलीभाँति देखा है (अनुभव किया है)। मेरे हारनेपर भी खेलमें प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—महूँ सनेह सकोच वस सनमुख कही न वैन ।

दरसन तृपित न आजु लागि पेम पिआसे नैन ॥ २६० ॥

मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मूँह नहीं घोला। प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजतक प्रभुके दर्शनसे तृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥

चौ०—विधिनसकेउ सहि मोर दुलारा । नीच वीचु जननी मिस पारा ॥

यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनीं समुझि साधु सुचिकोभा ॥

परंतु विधाता मेरा दुतार न सह सका। उसने नीच माताके बहाने [मेरे और स्वामीके बीच] अन्तर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता; क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र हुआ है? (जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानें वही साधु है) ॥ १ ॥

मातु मंदि में साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली ॥

फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुक्ता प्रसव कि संवुक काली ॥

माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ; ऐना हृदयमें माना हो करोट

सेवाको मानते हैं (अर्थात् उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं) । अतएव अपने गुण और शीलसे श्रीरामजीको वशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४ ॥

दो०—सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु ।

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ २६५ ॥

देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा—अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगत्में समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है ॥ २६५ ॥

चौ०—सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥

भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥

सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है। तुम्हारे मनमें भरतजीकी भक्ति आयी है; तो अब सोच छोड़ दो। विधाताने बात बना दी ॥ १ ॥

देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभायँ विवस रघुराऊ ॥

मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥

हे देवराज ! भरतजीका प्रभाव तो देखो। श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके पूर्णरूपसे वशमें हैं। हे देवताओ ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाईं (परछाईंकी भाँति उनका अनुसरण करनेवाला) जानकर मन स्थिर करो, डरकी बात नहीं है ॥ २ ॥

सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥

निज सिर भारु भरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥

देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति (आपसका विचार) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ। भरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों (अनेकों) प्रकारके अनुमान (विचार) करने लगे ॥ ३ ॥

करि बिचारु मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ॥

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥

सब तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आज्ञामें ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया (अर्थात् अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया) ॥ ४ ॥

तासु वचन मेढत मन सोचू । तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू ॥

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसिजो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥

उनके वचनको मेढते मनमें सोच होता है । उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है । उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है । इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही मैं यही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—मनु प्रसन्नकरि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु ।

सत्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥

तुम मनको प्रसन्नकर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो, मैं आज यही करूँ । सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया ।

चौ०—सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥

वनत उपाउ करत कहु नार्हीं । राम सरन सब गे मन माहीं ॥

देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि जब बना-बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है । कुछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे सब मन-ही-मन श्रीरामजीकी शरण गये ॥ १ ॥

बहुरि विचारि परस्पर कहहीं । रघुपति भगत भगति वस अहहीं ॥

सुधि करि अंबरीष दुरवासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥

फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके यज्ञ हैं । अम्बरीष और दुर्वासाकी [पटना] याद करके तो देवता और इन्द्र बिल्कुल ही निरास हो गये ।

सहे सुरन्ह बहु काल विपादा । नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा ॥

लगिलगि कान कहहिं धुनिमाथा । अब सुर काज भरत के हाथा ॥

पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे । तब भक्त प्रह्लादने ही नृसिंह भगवान्को प्रकट किया था । सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर घुनकर कहते हैं कि भव (इस बार) देवताओंका काम भरतजीके हाथ है ॥ ३ ॥

आन उपाउ न देखिअ देवा । मानत राघु सुसेवक सेवा ॥

हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सील राम वस करतहि ॥

हे देवताओ ! और कोई उपाय नहीं दियायी देता । श्रीरामजी अपने धे

उस वृक्ष (कल्पवृक्ष) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, भले-बुरे जगत्में सभी उससे माँगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७ ॥

चौ०—लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू ॥

अब करुनाकर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चित्त छोभु न होई ॥

गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दयाकी खान ! अब वही कीजिये, जिससे दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ (किसी प्रकारका विचार) न हो ॥ १ ॥

जो सेवकु साहिबहि सँकोची । निजहित चहइ तासु मति पोची ॥

सेवक हित साहिब सेवकाई । करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥

जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे।

स्वारथु नाथ फिरें सबही का । किँँ रजाइ कोटि बिधि नीका ॥

यह स्वारथ परमारथ सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥

हे नाथ ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार (निचोड़) है, समस्त पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका शृङ्गार है ॥ ३ ॥

देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥

तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना ॥

हे देव ! आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये। राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये (उसका उपयोग कीजिये) ॥ ४ ॥

दो०—सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ ।

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौं मैं साथ ॥ २६८ ॥

छोटे भाई शत्रुघ्नसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [अयोध्या लौटकर] सबको सनाथ

दो०—कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ ।

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥

श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। तदनन्तर भरतजी दोनों कर-कमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले—॥ २६६ ॥

धी०—कहाँ कहावों का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥

गुर प्रसन्न साहिव अनुकूला । मिटी मलिन मन कल्पित सूला ॥

हे स्वामी ! हे कृपाके समुद्र ! हे अन्तर्यामी ! अब मैं [अधिक] क्या कहूँ और क्या कहाऊँ ? गुरु महाराजको प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १ ॥

अपडर डरेउँ न सोच समूले । रविहि न दोसु देव दिसि भूले ॥

मोर अभागु मातु कुटिलाई । विधि गति विषम काल कठिनाई ॥

मैं मिथ्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिग्ग भूल जानेपर हे देव ! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी पाल और कालकी कठिनता, ॥ २ ॥

पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥

यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ वेद विदित नहिं गोई ॥

इन सबने मिलकर पंर रोपकर (प्रण करके) मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु नरणागतके रक्षक आपने अपना [चारणागतकी रक्षाका] प्रण निवाहा (मुझे बचा लिया)। यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है। यह लोक और वेदोंमें प्रकट है, छिपी नहीं है ॥ ३ ॥

जगु अनभल भल एकु गोसाईं । कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥

सारा जगत् बुरा [करनेवाला] हो; किन्तु हे स्वामी ! केवल एक आप ही भले (अनुकूल) हों तो फिर कहिये, किसकी भलाईसे भला हो सकता है ? हे देव ! आपका स्वभाव कल्पवृक्षके समान है; वह न कभी किसीके सम्मुख (अनुकूल) है न विमुख (प्रतिनूल) ॥

दो०—जाइ निकट पहिचानि तरु छहँ समनि सब सोच ।

मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥ २६७ ॥

उस वृक्ष (कल्पवृक्ष) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया में सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, भले-बुरे जगत्में सभी उससे माँगते हैं। मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७ ॥

श्लो०—लखि सब विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू ॥

अब करुनाकर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चित्त छोभु न होई ॥

गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दयाकी खान ! अब वही कीजिये, जिससे दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ (किसी प्रकारका विचार) न हो ॥ १ ॥

श्लो०—सेवकु साहिबहि सँकोची । निजहित चहइ तासु मति पोची ॥

सेवक हित साहिब सेवकाई । करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥

जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे।

श्लो०—स्वारथु नाथ फिरें सबही का । किएँ रजाइ कोटि विधि नीका ॥

यह स्वारथ परमारथ सारू । सकलसुकृत फल सुगति सिंगारू ॥

हे नाथ ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार (निचोड़) है, समस्त पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका शृङ्गार है ॥ ३ ॥

श्लो०—देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥

तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना ॥

हे देव ! आप मेरी एक बिनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये। राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये (उसका उपयोग कीजिये) ॥ ४ ॥

श्लो०—सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ ।

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलोँ मैं साथ ॥ २६८ ॥

छोटे भाई शत्रुघ्नसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [अयोध्या लौटकर] सबको सनाथ

कीजिये। नहीं तो किमी तरह भी (यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों) हे नाम ! लक्ष्मण और भद्रगुण दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये और मैं आपके साथ चतुं ॥२६८॥

चौ०—नतरु जाहिं वन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहिन रघुराई ॥

जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥

अथवा हम तीनों भाई वन चले जायें और हे श्रीरघुनाथजी ! आप श्रीगोताजोमहिन [अयोध्याको] लौट जाइये। हे दयासागर ! जिस प्रणारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो गही कीजिये।

देवें दीन्ह सवु मोहि अभाहू । मोरें नीति न धरम विचाहू ॥

कहउँ वचन सवु स्वारथ हेतू । रहत न आरत कें चित चेतू ॥

हे देव ! आपने सारा भार (जिम्मेवारी) मुझपर रख दिया। पर मुझमें न तो नीतिका विचार है, न धर्मका। मैं तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ। आर्त (दुखी) मनुष्यके चित्तमें चेत (विवेक) नहीं रहता ॥ २ ॥

उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहँ सराहत साधू ॥

स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐंसे सेवकको देयकर नज्जा भी सजा जाती है। मैं अवगुनोंका ऐसा अर्थाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ]। विनु स्वामी (आप) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं ॥ ३ ॥

अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाईं न पावा ॥

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥

हे कृपाल ! अब तो वही मत मुझे भाता है, जगमें स्वामीका मन संकोच न पावे। प्रभुके चरणोंकी शपथ है, मैं सत्यभावसे कहता हूँ, जगत्के कल्याणके लिये एक गही उपाय है।

दो०—प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव ।

सो सिर धरि धरि करिहि सवु मिटिहिअनटअचरेव ॥ २६९ ॥

प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उमें सब सोंग गिर पड़ा-चढ़ाकर [पालन] करेगे और सब उपद्रव और उत्पन्नमें मिट जायेंगी ॥ २६९ ॥

चौ०—भरत वचन सुचि सुनि सुर हरये । साधु सराहि सुमन सुर वरये ॥

असमंजस बस अवध नेवासी । प्रभुदित मन तापस वनवासी ॥

भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और 'साधु-साधु' कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल बरसाये। अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [कि देखें प्रब श्रीरामजी क्या कहते हैं]। तपस्वी तथा वनवासी लोग [श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥

चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥
जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि वसिष्ठँ सुनि बेगि बोलाए ॥

किंतु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये। प्रभुकी यह स्थिति (मौन) देख सारी सभा सोचमें पड़ गयी। उसी समय जनकजीके दूत आये। यह सुनकर मुनि वसिष्ठजीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया ॥ २ ॥

करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे । बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥
दूतन्ह मुनिवर वूझी बाता । कहहु विदेह भूप कुसलाता ॥

उन्होंने [आकर] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा। उनका [मुनियों-का-सा] वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी कि राजा जनकका कुशल-समाचार कहो ॥ ३ ॥

सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोले चर बर जोरें हाथा ॥
वूझव राउर सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई ॥

यह (मुनिका कुशल-प्रश्न) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले—हे स्वामी ! आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाई ! कुशलका कारण हो गया ॥ ४ ॥

दो०—नाहिं त कोसल नाथ केँ साथ कुसल गइ नाथ ।

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥ २७० ॥

नहीं तो हे नाथ ! कुशल-क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी। [उनके चले जानेसे] यों तो सारा जगत् ही अनाथ (स्वामीके विना असहाय) हो गया; किंतु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० ॥

चो०—कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोक सोक बस बौरा ॥
जेहिं देखे तेहि समय विदेह । नामु सत्य अस लाग न केहू ॥

कीजिये । नहीं तो किसी तरह भी (यदि आप अयोध्या जानेंको तैयार न हों) हे नाप !
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये और मैं आपके साथ चरू ॥२६८॥

चौ०—नतरु जाहि वन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥

जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥

अथवा हम तीनों भाई वन चले जायें और हे श्रीरघुनाथजी ! आप श्रीसीताजीसहित
[अयोध्याको] लौट जाइये । हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो वही कीजिये ।

देवें दीन्ह सधु मोहि अभाहू । मोरें नीति न धरम विचारू ॥

कहउँ वचन सव स्वारथ हेतू । रहत न आरत कें चित चेतू ॥

हे देव ! आपने सारा भार (जिम्मेवारी) मुझपर रख दिया । पर मुझमें न तो
नीतिका विचार है, न धर्मका । मैं तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आतं
(दुष्टी) मनुष्यके चित्तमें चेत (विवेक) नहीं रहता ॥ २ ॥

उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहँ सराहत साधू ॥

स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लज्जा भी सजा जाती
है । मैं अवगुणोंका ऐसा अयाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ] । किन्तु स्वामी
(आप) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं ॥ ३ ॥

अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाईं न पावा ॥

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥

हे कृपाल ! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिगमे स्वामीका मत संकोच न पावे । प्रभुके
चरणोंको शपथ है, मैं सत्यभावसे कहता हूँ, जगत्के कल्याणके लिये एक यही उपाय है ।

दो०—प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव ।

सो सिर धरि धरि करिहि सधु मिटिहिअनटअवरेव ॥ २६९ ॥

प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब मीन गिर पड़ा-
चढ़ाकर [पालन] करेंगे और सब उपद्रव और अनष्टनें मिट जायेंगी ॥ २६९ ॥

चौ०—भरत वचन सुचि सुनिसुर हरपे । साधु सराहि सुमन सुर वरपे ॥

असमंजस बस अवध नेवासी । प्रमुदित मन तापस बनवासी ॥

अयोध्यानायकी गति (दशरथजीका मरण) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गये (सुध-बुध भूल गये) । उस समय जिन्होंने विदेहको [शोचमन्] देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा कि उनका विदेह (देशभिमानरहित) नाम मत्त है ! [क्योंकि देहाभिमानसे शून्य पुरुषको शोक कैसा ?] ॥ १ ॥

रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सृष्ट न कञ्चुजसमनिचिनुव्यालहि ॥

भरत राज रघुवर वनवासू । भा मिथिलेसहि हृदयँ हराँसू ॥

रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ मूझ न पड़ा, जैसे मणिके बिना साँपको नहीं सूझता । फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २ ॥

नृप वृझे बुध सचिव समाजू । कहहु विचारि उचित का आजू ॥

समुझि अवध असमंजस दोऊ । चलिअ किरहिअ न कह कञ्चुकोऊ ॥

राजाने विद्वानों और मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज (इस समय) क्या करना उचित है ? अयोध्याको दशा समझकर और दोनों प्रकारसे अगमंजम जानकर 'चलिये या रहिये' किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३ ॥

नृपहिं धीर धरि हृदयँ विचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥

वृझि भरत सति भाउ कुभाऊ । आएहु वेगि न होइ लखाऊ ॥

[जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी] तब राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर पार चतुर गुप्तचर (जासूस) अयोध्याको भेजे [और उनसे कह दिया कि] तुम लोग [श्रीगमजीने प्रति] भरतजीके सद्भाव (अच्छे भाव, प्रेम) या दुर्भाव (बुरा भाव, विरोध) या [पपार्थ] पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसीको तुम्हारा पता न लगने पावे ॥ ४ ॥

दो०—गए अवध चर भरत गति वृझि देखि करतूनि ।

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूनि ॥ २७१ ॥

गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका रंग जानकर और उनकी तरफों देखकर जैसे ही भरतजी चित्रकूटको चले, वे तिरहूत (मिथिला) को चले दिये ॥ २७१ ॥

चो०—दूतन्ह आइ भरत कह करनी । जनक समाज जधामनि वरनी ॥

सुनि गुर परिजनसचिवमहीपति । भे सबसोच सनेहँ विकलअनि ॥

श्रीरामजीका दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं ॥ २ ॥

लरिकाइहि तें रघुवर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥
सील सकोच सिंधु रघुराज । सुमुख सुलोचन सरल सुभाज ॥

श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह वान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते हैं। श्रीरघुनाथजी शील और संकोचके समुद्र हैं। वे सुन्दर मुखके [या सबके अनुकूल रहनेवाले], सुन्दर नेत्रवाले [या सबको कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले] और सरलस्वभाव हैं ॥ ३ ॥

कहत राम गुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि मोरे ॥

श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते-कहते सब लोग प्रेममें भर गये और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे कि जगत्में हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूंजीवाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्रीरामजी अपना करके जानते हैं (ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं) ॥ ४ ॥

दो०—प्रेम भगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु ।

सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २७४ ॥

उस समय सब लोग प्रेममें मग्न हैं। इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूर्वक जल्दीसे उठ खड़े हुए ॥ २७४ ॥

चौ०—भाइ सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥

गिरिवरु दीख जनकपति जवहीं । करि प्रनासु रथ त्यागेउ तबहीं ॥

भाई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियोंकी साथ लेकर श्रीरघुनाथजी आगे (जनकजीकी अगवानीमें) चले। जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया (पैदल चलना शुरू कर दिया) ॥ १ ॥

राम दरस लालसा उछाहू । पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥

मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । विनु मनतन दुखसुखसुधि केही ॥

श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट

एहि प्रकार गत वासर सोऊ । प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥

इस तरह वह दिन भी बीत गया । दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोइ स्नान करने लगे ।
स्नान करके सब नर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और मूयं भगवान्की पूजा करने हैं ।

रमा रमन पद बंदि बहोरी । विनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥
राजा रामु जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥

फिर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके चरणोंकी बन्दना करके, दोनों हाथ जोड़कर,
अंचल पसारकर विनती करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राज-
धानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर—॥ ३ ॥

सुवस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुवराजा ॥
एहि सुख सुधौं सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाहू ॥

फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसें और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनायें ।
हे देव ! इस सुखरूपी अमृतसें सींचकर सब किसीको जगत्में जीतना लाभ दीजियें ॥ ४ ॥

दो०—गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ ।

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोउ ॥ २७३ ॥

गुरु, समाज और भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और श्रीराम-
जीके राजा रहते ही हमलोग अयोध्यामें मरें । सब कोई यहाँ मांगते हैं ॥ २७३ ॥

चो०—सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग विरति मुनि ग्यानी ॥

एहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहिं प्रनाम पुलकि तन ॥

अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर जानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य-
की निन्दा करते हैं । अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुनर्निज-गरीब
हो प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

ऊंच नीच मध्यम नर नारी । लहहिं दरसु निज निज अनुहारी ॥

सावधान सबही सनमानहिं । सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥

ऊंच, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके श्री-गुरु अपने-अपने भावके अनुसार

भयानक विपाद (शोक) ही उस नदीकी तेज धारा है। भय और भ्रम (मोह) ही उसके असंख्य भँवर और चक्र हैं। विद्वान् मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है। परंतु उसे खे नहीं सकते हैं (उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हैं), किसीको उसका अटकल ही नहीं आती है ॥ २ ॥

वनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियँ हारे ।
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ।

वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर हृदय में हारकर थक गये हैं। यह करुणानदी जब आश्रम-समुद्रमें जाकर मिली तो मानो वन-समुद्र अकुला उठा (खौल उठा) ॥ ३ ॥

सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ।
भूप रूप गुन सील सराही । रोवहिँ सोक सिंधु अवगाही ।

दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुल हो गये। किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथजीके रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रं रहे हैं और शोक-समुद्रमें डुबकी लगा रहे हैं ॥ ४ ॥

छं०—अवगाहि सोक समुद्र सोचहिँ नारि नर व्याकुल महा ।
दौ दोष सकल सरोष बोलहिँ वाम बिधि कीन्हो कहा ॥
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की ।
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की ॥

शोक-समुद्रमें डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान् व्याकुल होकर सोच (चिन्ता) कर रहे हैं। वे सब विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया? कोई भी समर्थ नहीं कर सके (प्रेम-बिना रह सके) ।

किए

जहँ तहँ लोगन्ह मुनिवरन्ह ।

बसिष्ठ बिदेह सन ॥ २७६ ॥

और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है, जहाँ श्रीराम और जानकीजी हैं। बिना मनके शरीरके सुख-दुःखकी सुघ किसको हो ? ॥ २ ॥

आवृत जनकु चले एहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥

आए निकट देखि अनुरागे । सादर मिलन परसपर लागे ॥

जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवासी हो रही है। निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपनमें मिलने लगे ॥ ३ ॥

लगे जनक मुनिजन पद वंदन । रिपिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥

भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहि ॥

जनकजी [वसिष्ठ आदि अयोध्यावासी] मुनियोंके चरणोंकी यन्दना करने लगे और श्रीरामचन्द्रजीने [शतानन्द आदि जनकपुरवासी] ऋषियोंको प्रणाम किया। फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रमको लिया चले ॥ ४ ॥

दो०—आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु ।

सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिँ रघुनाथु ॥ २७५ ॥

श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र है। जनकजीकी सेना (समाज) मानो करुणा (करुणरस) की नदी है, जिते श्रीरघुनाथजी [उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलानेके लिये] लिये जा रहे हैं ॥ २७५ ॥

दो०—घोरति ग्यान विराग करारे । वचन ससोक मिलत नद नारे ॥

सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर भंगा ॥

यह करुणाकी नदी [इतनी बढ़ी हुई है कि] ज्ञान-विरागरूपी विनारोंको टुबाती जाती है। भोक्तरों वचन नद और नाले हैं, जो इस नदीमें मिलते हैं। और गौतमी संवी साँसें (आँसें) ही वायुके झकोरोंसे उठनेवाली तरंगें हैं, जो धर्मरूपी किनारेके उत्तम वृक्षोंको तोड़ रही हैं ॥ १ ॥

विपम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवँर अवर्त अपारा ॥

केवट बुध विद्या बड़ि नावा । सकहिँ न खेइ ऐक नहिँ आवा ॥

दोनों समाजोंके मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके बिना लौटना अच्छा नहीं है ॥१॥

सीता राम संग बनबासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥
परिहरि लखन रामु वैदेही । जेहि घरु भाव बाम विधि तेही ॥

श्रीसीतारामजीके साथ बनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [निवासके] समान सुख-
दायक है । श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा
लगे, विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २ ॥

दाहिन दइउ होइ जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबही ॥
मंदाकिनि मज्जनु तिहु काला । राम दरसु मुद मंगल माला ॥

जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास बनमें निवास हो सकता है ।
मन्दाकिनीजीका तीनों समय स्नान और आनन्द तथा मङ्गलोंकी माला (समूह) रूप
श्रीरामका दर्शन, ॥ ३ ॥

अटनु राम गिरि बन तापसथल । असनु अमिअ सम कंद मूल फल ॥
सुख समेत संवत दुइ साता । पल सम होहिं न जनिअहिं जाता ॥

श्रीरामजीके पर्वत (कामदनाथ), बन और तपस्वियोंके स्थानोंमें घूमना और
अमृतके समान कन्द, मूल, फलोंका भोजन । चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायेंगे
(बीत जायेंगे), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ॥ ४ ॥

दो०—एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु ।

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु ॥ २८० ॥

सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? दोनों
समाजोंका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज स्वभावसे ही प्रेम है ॥ २८० ॥

चौ०—एहिविधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥

सीय मातु तेहि समय पठाई । दासीं देखि सुअवसरु आई ॥

इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं । उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [सुनने-
वालोंके] मनोंको हर लेते हैं । उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई
दासियाँ [कौसल्याजी आदिके मिलनेका] सुन्दर अवसर देखकर आयीं ॥ १ ॥

जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेन दिये और वसिष्ठजीने विदेह (जनकजी) से कहा—हे राजन् ! आप धर्म धारण कीजिये ॥ २७६ ॥

चौ०—जासु ग्यानु रावि भवनि सिनासा । वचन किरन मुनिकमल विकासा ॥
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह बढ़ाई ॥

जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी मूर्ख भव (आवागमन) स्त्री रात्रिगत नान कर देता है और जिनकी वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलोंको गिना देती हैं (आनन्दित करती हैं), क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं ? यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है । [अर्थात् राजा जनककी यह दशा श्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारण हुई, लौकिक मोह-ममताके कारण नहीं । जो लौकिक मोह-ममताको पार कर चुके हैं, उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दियाये बिना नहीं रहता] ॥ १ ॥

विपई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥
राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभों बड़ आदर तासू ॥

विषयी, साधक और ज्ञानवान् सिद्ध पुरुष—जगत्में ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने बताया हैं । इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे मरता (मरार्योर) रहता है, साधुओंको समामें उसीका बड़ा आदर होता है ॥ २ ॥

सोह न राम पेम विनु ग्यानु । करनधार विनु जिमि जलजानू ॥
मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए । राम घाट सब लोग नहाए ॥

श्रीरामजीके प्रेमके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधारके बिना ज्ञान । वसिष्ठजीने विदेहराज (जनकजी) को बहुत प्रकारसे ममसाया । तदनन्तर सब लोगोंने श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ ॥

सकल सोक संकुल नर नारी । सो वासरु बीतेउ विनु द्वारी ॥
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारु । प्रिय परिजन कर कौन विचारु ॥

स्त्री, पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे । यह दिन बिना ही जन्मसे बीत गया (भोजनकी बात तो दूर रही, किसीने जलतक नहीं पिया) । पशु, पक्षी और हिलानेवाले कुछ आहार नहीं किया । तब प्रियजनों एवं कुटुम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय ? ॥ ४ ॥

दो०—दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात ।

बैठे सब बट विटप तर मन मलीन कृस गात ॥ २७७ ॥

कौसल्या कह दोसु न काहू । करम विवस दुख सुख छति लाहू ॥

कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥

कौसल्याजीने कहा—किसीका दोष नहीं है; दुःख-सुख, हानि-लाभ सब कर्मके अधीन हैं। कर्मकी गति कठिन (दुर्विज्ञेय) है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलोंका देनेवाला है ॥ २ ॥

स रजाइ सीस सबही कें । उतपति थिति लय विषहु अमी कें ॥

वि मोह बस सोचिअ बादी । विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥

ईश्वरकी आज्ञा सभीके सिरपर है। उत्पत्ति, स्थिति (पालन) और लय (संहार) सब अमृत और विषके भी सिरपर है (ये सब भी उसीके अधीन हैं)। हे देवि ! मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाताका प्रपञ्च ऐसा ही अचल और अनादि है ॥ ३ ॥

पूति जिअब मरव उर आनी । सोचिअ सखिलखि निज हित हानी ॥

पूतिय मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥

महाराजके मरने और जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं, वह ही हे सखी ! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वार्थवश) करती हैं। सीताजीकी माताने कहा—आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति (महाराज दशरथजी) की ही तो रानी हैं। [फिर भला, ऐसा क्यों न कहेंगी] ॥ ४ ॥

दो०—लखनु रामु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु ।

गहवरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥ २८२ ॥

कौसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा—श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जायें, उसका परिणाम जो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २७२ ॥

ती०—ईस प्रसाद असीस तुम्हारी सुतवत्त देवसरि बारी ॥

राम सपथ में कीन्हि न का क ति भाऊ ॥

ईश्वरके अनुग्रह और आपके अहो हुरे गङ्गाजीके जलके समान पवित्र हैं। [चारों]
जो आज श्रीरामके सत्य भावकी,

सावकास सुनि सब सिय सासू । आयउ जनकराज रनिवासू ॥
कौसल्याँ सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥

उनसे यह सुनकर कि सीताकी सब सासुएँ इस समय फुरसतमें हैं, जनकराजका रनिवास उनसे मिलने आया । कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिये ॥ २ ॥

सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा । द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥
पुलक सिथिलतन वारि विलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥

दोनों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर बय भी विपन्न जाते हैं । शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रोंमें [शोक और प्रेमके] आँसू हैं । सब अपने [पँरोंके] नघोंसे जमीन कुरेदने और सोचने लगीं ॥ ३ ॥

सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु बेप विसूरति ॥
सीय मातु कह विधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पवि टाँकी ॥

सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहूत-से बंध (रूप) धारण करके विसूर रही हो (दुःख कर रही हो) । सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा— विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूधके फेन-जैसी कोमल वस्तुको बयकी टाँकीमें फोड़ रहा है (अर्थात् जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष हैं, उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति बहा रहा है) ॥४॥

दो०—सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल ।

जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥

अमृत कोवन सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । विधाताकी सभी करतूतें भयंकर हैं । जहाँ-तहाँ कोए, उल्लू और बगुले ही [दिग्गम्य देते] हैं; हंग तो एक मानसरोवरमें ही है ॥ २८१ ॥

बो०—सुनिससोच कह देवि सुमित्रा । विधि गति बड़ि विपरीत विचित्रा ॥
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी । बाल केलि सम विधि भति भोरी ॥

यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लगीं—विधाताकी पान बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टिको उत्पन्न करके पानता है और फिर नष्ट कर दासता है । विधाताकी बुद्धि बालकोंके खेलके समान भोली (विवेकशून्य) है ॥ १ ॥

तो भलीभाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरतका अत्यधिक सोच है। भरतके मनमें गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती (यह डर लगता है कि उनके प्राणोंको कोई भय न हो जाय) ॥ २ ॥

लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भइ मगन करुन रस रानी ॥
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि ॥

कौसल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणीको सुनकर सब रानियाँ करुणरसमें निमग्न हो गयीं। आकाशसे पुष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी और धन्य-धन्यकी ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ३ ॥

सत्रु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्राँ कहेऊ ॥
देवि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥

सारा रनिवास देखकर थकित रह गया (निस्तब्ध हो गया), तब सुमित्राजीने धीरज धरके कहा कि हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है। यह सुनकर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं ॥ ४ ॥

दो०—वेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँ सतिभाय ।

हमरें तौ अब ईस गति कै मिथिलेस सहाय ॥ २८४ ॥

और प्रेमसहित सद्भावसे बोलें—अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं ॥ २८४ ॥

चौ०—लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥
देवि उचित असि बिनयतुम्हारी । दसरथ धरिनि राम महतारी ॥

कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी प्रिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा—हे देवि ! आप राजा दशरथजीकी रानी और श्रीरामजीकी माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है ॥ ५ ॥

प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अग्नि धूमगिरि सिर तिनु धरहीं ॥
सेवकु राउ करम मन बानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥

प्रभु अपने नीच-जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि धुँको और पर्वत तृण (घास)

भरत सील गुन विनय बढ़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥

भरतके शील, गुण, नम्रता, बढ़प्पन, भाइपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपनका वर्णन करनेमें सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिलचलती है । सोपसे कहों समुद्र उनीचे जा सकते हैं ?

जानउँ सदा भरत कुलदीपा । वार वार मोहि कहेउ महीपा ॥
कसें कलकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिं समयँ सुभाएँ ॥

मैं भरतको सदा कुलका दीपक जानती हूँ । महाराजने भी बार-बार मुझे यही कहा था । सोना कसौदीपेर कसे जानेपर और रत्न पाएँगे (जोहरी) के मितनेपर ही रहना जाता है । वैसे ही पुरुषकी परीक्षा समय पढ़नेपर उगके स्वभावसे ही (उगका चरित्र देखकर) हो जाती है ॥ ३ ॥

अनुचित आजु कहव अस मोरा । सोक सनेहँ सयानप थोरा ॥
सुनि सुरसरि सम पावनि वानी । भइँ सनेह विक्खल सव रानी ॥

किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है । शोक और स्नेहमें गमनापन (विवेक) कम हो जाता है (लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ) । कौसल्याजीकी पञ्चाजीके समान पवित्र करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो उठीं ॥४॥

दो०—कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि ।

को विवेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥ २८३ ॥

कौसल्याजीने फिर धीरज धरकर कहा—हे देवि मिथिलेन्वरी ! मुनिये, शानके मण्डार श्रीजनकजीकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ? ॥ २८३ ॥

बो०—रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भौति कहव समुझाई ॥

रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं वन । जौं यह मत माने महीप मन ॥

हे रानी ! भौका पाकर आप राजाको अपनी ओरमें जहाँनक हो गने गमनाकर कहियेगा कि लक्ष्मणको घर रज लिया जाय और भरत बनको जाय । यदि यह राय राजाके मनमें [ठीक] जँच जाय, ॥ १ ॥

तौ भल जतनु करव सुविचारी । मोरें सोचु भरत कर भारी ॥
गूढ सनेह भरत मन माहीं । रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥

उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू । भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥
सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा । ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥

उनके हृदयमें [वात्सल्य] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मन मानो प्रयाग हो गया । उस समुद्रके अंदर उन्होंने [आदिशक्ति] सीताजीके [अलौकिक] स्नेह-रूपी अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा । उस (सीताजीके प्रेमरूपी वट) पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी बालक (बालरूपधारी भगवान्) सुशोभित हो रहा है ॥ ३ ॥

चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु । वूड़त लहेउ बाल अवलंबनु ॥
मोह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुवर सनेह की ॥

जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी (मार्कण्डेय) मुनि व्याकुल होकर डूबते-डूबते मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी बालकका सहारा पाकर बच गया । वस्तुतः [ज्ञानिशिरोमणि] विदेहराजकी बुद्धि मोहमें मगन नहीं है । यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है [जिसने उन-जैसे महान् ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल कर दिया] ॥ ४ ॥

दो०—सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी सँभारि ।

धरनिसुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरमु बिचारि ॥ २८६ ॥

पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको सँभाल न सकीं । [परंतु परम धैर्यवती] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका विचार-कर धैर्य धारण किया ॥ २८६ ॥

चौ०—तापस वेष जनक सिय देखी । भयउ पेमु परितोषु बिसेषी ॥

पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥

सीताजीको तपस्विनी-वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और संतोष हुआ । [उन्होंने कहा—] बेटी ! तूने दोनों कुल पवित्र कर दिये । तेरे निर्मल यज्ञसे सारा जगत् उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं ॥ १ ॥

जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी ॥
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे । एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥

तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गङ्गाजीको भी जीतकर [जो एक ही ब्रह्माण्डमें बहती है] करोड़ों ब्रह्माण्डोंमें बह चली है । गङ्गाजीने तो पृथ्वीपर तीन ही स्थान

को अपने सिरपर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कम, मन और बाणोंसे आपके मंत्रक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव-पावंतोजी हैं ॥ २ ॥

रउरे अंग जोगु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥
रामु जाइ वनु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥

आपका सहायक होने योग्य जगत्में कौन है ? दीपक मूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है ? श्रीरामचन्द्रजी यन्में जाकर देवताओंका कार्य करके अवध-पुरीमें अचल राज्य करेंगे ॥ ३ ॥

अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिहहिं अपनें अपनें थल ॥
यह सब जागत्रलिक कहि राखा । देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥

देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने-अपने स्थानों (लोकों) में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यागवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह रखा है। हे देवि ! मुनिका कथन व्यर्थ (झूठा) नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

दो०—अस कहि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुनाइ ।

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥ २८५ ॥

ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पढ़कर सीताजी [को साथ भोजन] के सिधे विनती करके और सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी माता डेरको चली ॥ २८५ ॥

चो०—प्रिय परिजनहि मिली वैदेही । जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥

तापस वेष जानकी देखी । भा सबु विकल विपाद विसेपी ॥

जानकीजी अपने प्यारे कुटुम्बियोंसे—जो जिस योग्य था, उससे उसी प्रकार मिलीं । जानकीजीको तपस्विनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥

जनक राम गुर आयसु पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥

लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्राण की ॥

जनकजी श्रीरामजीके गुरु बसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरको चले और आकर उन्होंने सीताजीको देखा । जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको हृदयसे सगा लिया ॥ २ ॥

संसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार—इन तीनों विषयोंमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [थोड़ी-बहुत] गति है (अर्थात् इनके सम्बन्धमें मैं कुछ जानता हूँ) ।
सो मति मोरि भरत महिमाही । कहै काह छलि छुअति न छाँही ॥
विधिगनपतिअहिपतिसिवसारद । कवि कोविद बुध बुद्धि बिसारद ॥

वह (धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली) मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन तो क्या करे; छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती। ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित और बुद्धिमान् ॥ ३ ॥

भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन विमल विभूती ॥
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचिसुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥

सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाले हैं और पवित्रतामें गङ्गाजीका तथा स्वाद (मधुरता) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४ ॥

दो०—**निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि ।**

कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि ॥ २८८ ॥

भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं। भरतजीके समान बस, भरतजी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वतको क्या सेरके बराबर कह सकते हैं? इसलिये (उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ॥ २८८ ॥

चौ०—**अगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥**

भरतअमित महिमासुनुरानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥

हे श्रेष्ठ वर्णवाली ! भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वैसे ही अगम है जैसे जलरहित पृथ्वीपर मछलीका चलना। हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।

वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तियजियकीरुचि लखिकह राऊ ॥
बहुरहिं लखनु भरत बन जाहीं । सब कर भल सब के मन माहीं ॥

इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके फिर पत्नीके मनकी रुचि

(हरिद्वार, प्रयागराज और गङ्गासागर) को बड़ा (तीर्थ) बनाया है । पर तेरी इस कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपो तीर्थस्थान बना दिये हैं ॥ २ ॥

पितु कह सत्य सनेहँ सुवानी । सीय सकुच महँ मनहुँ समानी ॥

पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिप हिन दीन्हि सुहाई ॥

पिता जनकजीने तो स्नेहसे मन्ची सुन्दर बाणी कही । परंतु अपनी बराहँ मुनकर सीताजी मानो संकोचमें समा गयीं । पिता-माताने उन्हें फिर हृदयमें लगा लिया और रिक्त-भरी सुन्दर सीख और आशिष दी ॥ ३ ॥

कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसव रजनीं भल नाहीं ॥

लखि रूख रानि जनायउ राज । हृदयँ सराहत सीलु सुभाऊ ॥

सीताजी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [मागुओंकी सेवा छोड़कर] यहाँ रहना अच्छा नहीं है । रानी मुनपनाजीने जानकीजीकी रघु देखकर (उनके मनकी बात समझकर) राजा जनकजीको जना दिया । तब दोनों अपने हृदयमें सीताजीके शील और स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥

दो०—बार बार मिलि भेंटि सिय विदा कीन्हि सनमानि ।

कही समय सिर भरत गति रानि मुवानि सयानि ॥ २८७ ॥

राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे लगाकर तथा सम्मान करने सीताजीकी विदा किया । चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर बाणीमें भरतजीकी दशा का वर्णन किया ।

चौ०—सुनि भूपाल भरत व्यवहारु । सोन सुगंध मुधा ससि सारु ॥

मूढे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥

सोनेमें सुगन्ध और [समुद्रसे निकली हुई] सुधामें चन्द्रमाके गार अमृतने गमान भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने [प्रेमवित्तन होकर] अपने [प्रेमाश्रुओंके] जनमं भरे नेत्रोंकी मूँद लिया (ये भरतजीके प्रेममें मानो ध्यानमय हो गये) । ये नारीमें पुनर्किण हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यगकी सराहना करने लगे ॥ ५ ॥

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध विमोचनि ॥

धरम राजनय ब्रह्मविचारु । इहाँ जथामति मोर प्रचारु ॥

[वे बोले—] हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । भगवती की क

सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू ।
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रौरे हाथा ।

मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये इसलिये हे नाथ ! जो उचित हो वही कीजिये । आपहीके हाथ सभीका हित है ॥ ३ ॥

अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ ।
तुम्ह विनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ।

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये । उनका शील-स्वभाव देखकर [प्रेम और आनन्दसे] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये । [उन्होंने खुलकर कहा— हे राम ! तुम्हारे बिना [घर-बार आदि] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंके नरकके समान हैं ॥ ४ ॥

दो०—प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम ।

तुम्ह तजितात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि विधिबाम ॥ २६० ॥

हे राम ! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और सुखके भी सुख हो । तात ! तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है ॥ २६० ॥

चो०—सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ । जहँ न राम पद पंकज भाऊ ।
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानु । जहँ नहिं राम पेम परधानू ।

जहाँ श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है वह सुख, कर्म और धर्म जल जाय जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वहीं योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है ॥ १ ॥

तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं ।
राउर आयसु सिर सबही कें । बिदित कृपालहि गति सब नीकें ।

तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी हैं । जिसकिसीबं जीमें जो कुछ है तुम सब जानते हो । आपकी आज्ञा सभीके सिरपर है । कृपालु (आप को सभीकी स्थिति अच्छी तरह मालूम है ॥ २ ॥

आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ । भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ।
करि प्रनामु तव रामु सिधाए । रिषिधरि धीर जनक पहिं आए ।

अतः आप आश्रमको पधारिये । इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये । त

जानकर राजाने कहा—लक्ष्मणजी लौट जायें और भरतजी वनको जायें, इसमें सभीका भला है और यही सबके मनमें है ॥ २ ॥

देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरक्री ॥

भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥

परंतु हे देवि ! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास बुद्धि और विचारकी सीमामें नहीं आ सकता । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं ॥ ३ ॥

परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥

साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लिखि परत भरत मत एहू ॥

[श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर] भरतजीने समस्त परमार्य, स्वार्थ और सुखोंकी ओर स्वप्नमें भी मनसे भी नहीं ताका है । श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है । मुझे तो भरतजीका बस यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है ।

दो०—भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ ।

करिअ न सोचु सनेह वस कहेउ भूप विलखाइ ॥ २८६ ॥

राजाने विलखकर (प्रेमसे गद्गद होकर) कहा—भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको मनसे भी नहीं टालेंगे । अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

चौ०—राम भरत गुन गनतसप्रीती । निसि दंपतिहि पलक समवीती ॥

राज समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥

श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते (कहते-सुनते) पति-पत्नीको रात पलकके समान बीत गयी । प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहानहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ १ ॥

गे नहाइ गुर पहिं रघुराई । वंदि चरन बोले रुख पाई ॥

नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकल वनवास दुखारी ॥

श्रीरघुनाथजी स्नान करके गृह वसिष्ठजीके पाग गये और चरणोंकी वन्दना करके उनका रुख पाकर बोले—हे नाथ ! भरत, अवधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे व्याकुल और वनवाससे दुखी हैं ॥ २ ॥

गये। समयका विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले।
 भरत आइ आगे भइ लीन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥
 तात भरत कह तेरहुति राज । तुम्हहि विदित रघुवीर सुभाऊ ॥

भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया (सामने आकर उनका स्वागत किया)
 और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने लगे—हे तात भरत !
 तुमको श्रीरामजीका स्वभाव मालूम ही है ॥ ४ ॥

दो०—राम सत्यव्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु ।

संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ २६२ ॥

श्रीरामचन्द्रजी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखनेवाले हैं।
 इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय ॥ २६२ ॥

चौ०—सुनि तन पुलकि नयनभरिवारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥

प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु समहित मायनबापू ॥

भरतजी यह सुनकर पुलकित-शरीर हो नेत्रोंमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज
 धरकर बोले—हे प्रभो ! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु
 श्रीवसिष्ठजीके समान हितैषी तो माता-पिता भी नहीं हैं ॥ १ ॥

कौंसिकादि मुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥

सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥

विश्वामित्रजी आदि मुनियों और मन्त्रियोंका समाज है। और आजके दिन ज्ञानके
 समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी ! मुझे अपना वच्चा, सेवक और आज्ञानुसार
 चलनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये ॥ २ ॥

एहिं समाज थल बूझव राउर । मौन मलिन मैं बोल्ब वाउर ॥

छोटे वदन कहउँ वड़ि बाता । छमव तात लखि बाम विधाता ॥

इस समाज और [पुण्य] स्थलमें आप [जैसे ज्ञानी और पूज्य] का पूछना !
 इसपर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा।
 तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात ! विधाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा
 कीजियेगा ॥ ३ ॥

श्रीरामजी प्रणाम करके चले गये और ऋषि वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये । ३ ।

राम वचन गुरु नृपहि सुनाए । सील सनेह सुभायँ सुहाए ॥

महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होई ॥

गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकजीको सुनाये [और कहा—] हे महाराज ! अब वही कीजिये जिसमें सबका धर्म-सहित हित हो ॥ ४ ॥

दो०—ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल ।

तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २६१ ॥

हे राजन् ! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्ममें धीर हो । इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधाको दूर करनेमें और कौन समर्थ है ? ॥ २६१ ॥

चौ०—सुनिमुनिवचनजनकअनुरागे । लखिगतिग्यानु विरागु विरागे ॥

सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं । आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं ॥

मुनि वसिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये । उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्यको भी वैराग्य हो गया (अर्थात् उनके ज्ञान-वैराग्य छूट-से गये) । वे प्रेमसे शिथिल हो गये और मनमें विचार करने लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १ ॥

रामहि रायँ कहेउ वन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥

हम अब वन तें वनहि पठाई । प्रमुदित फिरव विवेक बड़ाई ॥

राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित (सच्चा) कर दिया (प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये) । परंतु हम अब इन्हें वनसे [और गहन] वनको भेजकर अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए लौटेंगे [कि हमें जरा भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आये, दशरथजीकी तरह मरे नहीं !] ॥ २ ॥

तापस मुनि महिसुर मुनि देखी । भए प्रेम वस विकल विसेपी ॥

समउ समुझि धरि धीरजु राजा । चले भरत पहिँ सहित समाजा ॥

तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल -

यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये, जैसे नये (पहली वर्षा-के) जलके संयोगसे मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओंने पहले कुलगुरु वसिष्ठजीकी [प्रेमविह्वल] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥

राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हियँ हारे ॥
सब कोउ राम पेममय पेखा । भए अलेख सोच बस लेखा ॥

और तब श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबड़ाकर हृदयमें हार मान गये (निराश हो गये) । उन्होंने सब किसीको श्रीराम-प्रेममें सरावोर देखा । इससे देवता इतने सोचके वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ।

दो०—रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु ।

प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥ २६४ ॥

अ इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोच-के वशमें हैं । इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च (माया) रचो; नहीं तो काम विगड़ा [ही समझो] ॥ २६४ ॥

चौ०—सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही । देवि दे रनागत पाही ॥
फेरि भरत मति रि निजमाया । पालु वि छाया ॥

देवताओंने सरदा देवता आपके शरणागत फेर दीजिये और छलकी कर उनकी सराहना कीजिये । अपना कुलक

विबुध विनय सुनि । बोली । लो

देवताओंकी बुद्धिमती सरस्वतीजी नेत्रोंसे भी तुमको

विधि हरि हर सो मति मोहि

ब्रह्मा, विष्णु

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरसु कठिन जगु जाना ॥
स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू । वैरु अंध प्रेमहि न प्रवोधू ॥

वेद, शास्त्र और पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत् जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन है । स्वामिधर्ममें (स्वामीके प्रति कर्तव्यपालनमें) और स्वार्थमें विरोध है (दोनों एक साथ नहीं निभ सकते) । वैर अंधा होता है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [में स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनोंमें ही भूल होनेका भय है] ॥ ४ ॥

दो०—राखि राम रूख धरसु ब्रतु पराधीन मोहि जानि ।

सब के संमत सर्व हित करिअ पेसु पहिचानि ॥ २६३ ॥

अतएव मुझे पराधीन जानकर (मुझसे न पूछकर) श्रीरामचन्द्रजीके रूख (रुचि), धर्म और [सत्यके] ब्रतको रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये ॥ २६३ ॥

चौ०—भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ । सहित समाज सराहत राऊ ॥

सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथुअमितअतिआखर थोरे ॥

भरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे । भरतजीके वचन सुगम और अगम, सुन्दर, कोमल और कठोर हैं । उनमें अक्षर थोड़े हैं; परंतु अर्थ अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १ ॥

ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥

भूप भरतु मुनि सहित समाजू । गे जहँ विबुध कुमुद द्विजराजू ॥

जैसे मुख [का प्रतिबिम्ब] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने हाथमें है; फिर भी वह (मुखका प्रतिबिम्ब) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अदभुत वाणी भी पकड़में नहीं आती (शब्दोंसे उसका आशय समझमें नहीं आता) । [किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं बना] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वसिष्ठजी समाजके साथ वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले (सुख देनेवाले) चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २ ॥

सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥

देवँ प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि विदेह सनेह विसेपी ॥

विद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई ॥

आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे भद्दा (अनुचित) है । आपकी और महाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी ॥ ४ ॥

दो०—राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत ।

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥ २६६ ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी संकुचा गये (स्तम्भित रह गये) । किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २६६ ॥

चौ०—सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरजु भारी ॥

कुसमउ देखि सनेहु सँभारा । बढतबिंधिजिमि घटज निवारा ॥

भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा । रामबन्धु (भरतजी) ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने [उमड़ते हुए] प्रेमको सँभाला, जैसे बढते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १ ॥

सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी विमल गुन गन जगजोनी ॥

भरत विवेक वराहँ विसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥

शोकरूपी हिरण्याक्षने [सारी सभाकी] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमल गुणसमूहरूपी जगत्की योनि (उत्पन्न करनेवाली) थी । भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराह (वराहरूपधारी भगवान्) ने [शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर] बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २ ॥

करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे । रामु राउ गुर साधु निहोरे ॥

छमव आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा ॥

भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी, गुरु वसिष्ठजी और साधु-संत सबसे विनती की और कहा—आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित वर्तावको क्षमा कीजियेगा । मैं कोमल (छोटे) मुखसे कठोर (घृष्टतापूर्ण) वचन कह रहा हूँ ॥ ३ ॥

ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धिको, तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो (भुलावेमें डाल दो)। अरे! चांदनी कहीं प्रचण्ड किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है? ॥ ३ ॥

भरत हृदयँ सिय राम निवासू। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू ॥

अस कहि सारद गइ विधिलोका। विबुध विकल निसि मानहुँ कोका ॥

भरतजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीका निवास है। जहां सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको चली गयीं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रिमें चकवा व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

दो०—सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु।

रचि प्रपंच माया प्रवल भय भ्रम अरति उचाटु ॥ २६५ ॥

मलिन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट (पड्यन्त्र) रचा। प्रवल माया-जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २६५ ॥

चो०—करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥

गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रविकुल दीपा ॥

कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका वनना-बिगड़ना सब भरतजीके हाथ है। इधर राजा जनकजी [मुनि वसिष्ठ आदिके साथ] श्रीरघुनाथजीके पात्त गये। सूर्यकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सबका सम्मान किया ॥ १ ॥

समय समाज धरम अविरोधा। बोले तब रघुवंस पुरोधा ॥

जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥

तब रघुकुलके पुरोहित वसिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी (अर्थात् अनुकूल) वचन बोले। उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया। फिर भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनायीं ॥ २ ॥

तात राम जस आयसु देहू। सो सबु करै मोर मत एहू ॥

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी ॥

[फिर बोले—] हे तात राम! मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वंसी ही मन करें! यह सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरल और कोमल बानी बोले

किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी (आप) की आज्ञाको मेट दें । मैंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परंतु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया ! ॥ ४ ॥

दो०—कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर ।

दूषण भे भूषण सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥ २६८ ॥

हे नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष)

भी भूषण (गुण) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया ! ॥ २६८ ॥

चौ०—राउरि रीति सुवानि बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥

क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥

हे नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जगत्में प्रसिद्ध है और वेद-शास्त्रोंने गायी है । जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्वरवादी (नास्तिक) और निःशङ्क (निडर) हैं ॥ १ ॥

तेउ सुनि सरन सामुहें आए । सकृत प्रनामु किहें अपनाए ॥

देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥

उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया । उन (शरणागतों) के दोषोंको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं लाये और उनके गुणोंको सुनकर साधुओंके समाजमें उनका बखान किया ॥ २ ॥

को साहिव सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥

निज करतूति न समुझिअ सपनें । सेवक सकुच सोचु उर अपनें ॥

ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज-सामान सज दे (उसकी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे) और स्वप्नमें भी अपनी कोई करनी न समझकर (अर्थात् मैंने सेवकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर) उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें रखे ! ॥ ३ ॥

सो गोसाईं नहिं दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ॥

पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥

मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ) कहता हूँ, ऐसा स्वामी

हियँ सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें मुख पंकज आई ॥
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥

फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया । वे मानससे (उनके मनरूपी मानसरोवरसे) उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं । निर्मल विवेक, धर्म और नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [के समान गुण-दोषका विवेचन करनेवाली] हैं

दो०—निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु ।

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥ २६७ ॥

विवेकके नेत्रोंसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख सकको प्रणाम कर, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोले—॥ २६७ ॥

चौ०—प्रभु पितु मातु सुहृद् गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥

सरल सुसाहिबु सील निधानू । प्रनतपाल सर्वग्य सुजानू ॥

हे प्रभु ! आप पिता, माता, सुहृद् (मित्र), गुरु, स्वामी, पूज्य, परमहितपी और अन्तर्यामी हैं । सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सर्वज्ञ, सुजान, ॥ १ ॥

समरथ सरनागत हितकारी । गुणगाहकु अवगुन अघ हारी ॥

स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाँइ । मोहि समान में साँइ दोहाँइ ॥

समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों तथा पापोंको हरनेवाले हैं । हे गोसाँइ ! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामीके साथ द्रोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ ॥ २ ॥

प्रभु पितु वचन मोह बस पेत्ती । आयउँ इहाँ समाजु सकेली ॥

जग भल पोच ऊँच अरु नीचू । अमिअ अमरपद माहुरु मीचू ॥

मैं मोहवश प्रभु (आप) के और पिताजीके वचनोंका उल्लंघन कर और समाज बटोरकर यहाँ आया हूँ । जगत्में भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत और अमरपद (देवताओंका पद), विप और मृत्यु आदि—॥ ३ ॥

राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥

सो में सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवच

जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है । हे देव ! मेरे आर्तभाव (आतुरता) को जानकर आप क्षमा करेंगे ॥ ४ ॥

दो०—सुहृद् सुजान सुसाहिवहि बहुत कहव बड़ि खोरि ।

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि ॥ ३०० ॥

सुहृद् (विना ही हेतुके हित करनेवाले), बुद्धिमान् और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ा अपराध है । इसलिये हे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात सुधार दी ॥ ३०० ॥

चौ०—प्रभु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीवै सुहाई ॥

सो करि कहउँ हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥

प्रभु (आप) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य सुकृत (पुण्य) और सुखकी सुहावनी सीमा (अवधि) है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और स्वप्नमें भी बनी रहनेवाली रुचि (इच्छा) कहता हूँ ॥ १ ॥

सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥

अग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो प्रसादु जन पावै देवा ॥

वह रुचि है—कपट, स्वार्थ और [अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप] चारों फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना । और आज्ञा-पालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी और कोई सेवा नहीं है । हे देव ! अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥

अस कहि प्रेम विवस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥

भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया । अकुलाकर (व्याकुल होकर) उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उस समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता ।

कृपासिंधु सनमानि सुवानी । बैठाए समीप गहि पानी ॥

भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ ॥

कृपासिंधु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर

बाकें निवा दूसरा कोई नहीं है । [बंदर बन्दि] पशु नाचते बंदर होते हैं ।
शामें प्रतीत हो जाते हैं । परंतु तोतेका [पञ्चवीणतारूप] सुनते हैं ।
वति [इन्द्रः] पढ़ानेवाले और नचानेवालेके बंधी हैं ॥ ४ ॥

शे०—यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिद्धिने :

के कृपाल बिनु पालिहै विरिदावलि करिने ।

इस प्रकार अपने सेवकोंकी [बिरहो] बात सुधारकर बंदर बनें ।
उन्हें हाथोंका शिरोमणि बना दिया । कृपालु (बाप) के लिए बन्दि प्रसन्न
बौर कौन चबदंस्ती (हठपूर्वक) पालन करेगा ? ॥ २६६ ॥

शे०—सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ । आयउँ लख लखु बन्दि ।

तवहुँ कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि मति करिने करे ।

मैं शोकसे या स्नेहसे या बातकृत्यभावसे आनाको बन्दि बनाने

ना बाया, तो भी कृपालु स्वामी (बाप) ने अपना बन्दि बनाने

ना ही माना (मेरे इस अनुचित कार्यको बन्धा ही बनाने) ॥ २६७ ॥

देखेउँ पाय सुमंगल मूला । जानेउँ लख लखु बन्दि ।

देँ समाज बिलोकेउँ भागू । बड़ी लख लखु बन्दि ।

मैंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल शारङ्गे शरणांका बन्दि बनाने

स्वामी मुखपर स्वभावसे ही अनुकूल है । इस बड़े सन्तोके बन्दि बनाने

की चूक होनेपर भी स्वामीका मुखपर स्मिताना अनुग्रह है ॥ २६८ ॥

पा अनुग्रह अंगु अशई । कीन्हि लख लखु बन्दि ।

खा मोर दुलार गोसाईं । अपने लख लखु बन्दि ।

कृपानिधानने मुखपर शारङ्गे शरणांका बन्दि बनाने

वर्षति में जिसके जरा भी साधक नहीं था, उन्हीं बन्दि बनाने

की है) । हे गोसाईं ! आपने अपने हीन, स्वयंसेवक बन्दि बनाने

य निपट में कीन्हि शिर्ष । स्वामि लख लखु बन्दि ।

विनय विनय जथारुधि बरपी । छनिहि लख लखु बन्दि ।

हे नाथ ! मैंने स्वामी और स्वामीके बन्दि बनाने

॥ २६९ ॥

उनका अत्यन्त विछोह नहीं हुआ (अर्थात् उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बन ही रहा) ॥ २ ॥

**भय उचाट वस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥**

भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है । क्षणमें उनकी बनमें रहनेकी इच्छा होती है और क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं । मनकी इस प्रकारकी दुविधा मयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है । मानो नदी और समुद्रके सङ्गमका जल क्षुब्ध हो रहा हो । (जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी) ॥ ३ ॥

**दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरमु न कहहीं ।
लखि हियँ हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥**

चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मम भी नहीं कहते । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने लगे—कुता इन्द्र और नवयुवक (कामी पुरुष) एक-सरीखे (एक ही स्वभावके) हैं । [पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्, युवन् और मघवन् शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे होते हैं] ॥ ४ ॥

दो०—भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ ।

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥ ३०२ ॥

भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री और ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्यको जिस योग्य (जिस प्रकृति और जिस स्थितिका) पाया, उसपर वैसे ही देवमाया लग गयी ॥ ३०२ ॥

चौ०—कृपासिंधु लखि लोग दुखारे । निज सनेहँ सुरपति छल भारे ॥

सभा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब कै मति जंत्री ॥

कृपासिंधु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छल देखा । सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको भरतजीके भक्तिने कील दिया ॥ १ ॥

उनको अपने पास बिठा लिया । भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ४ ॥

छं०—रघुराज सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी ।

मन महँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा धनी ॥

भरतहि प्रसंसत विबुध वरषत सुमन मानस मलिन से ।

तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥

श्रीरघुनाथजी, साधुओंका समाज, मुनि वसिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी स्नेहसे शिथिल हो गये । सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन और उनको भक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे । देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे । तुलसीदासजी कहते हैं—सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुल हो गये और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल ।

सो०—देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब ।

मधवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत ॥ ३०१ ॥

दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र मरे हुआंको मारकर अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१ ॥

चो०—कपट कुचालि सीवँ सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥

काक समान पाकारिपु रीती । छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥

देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है । उसे परायी हानि और अपना लाभ ही प्रिय है । इन्द्रकी रीति कोएके समान है । वह छली और मलिन-मन है, उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है ॥ १ ॥

प्रथम कुमत करि कपटु सँकेला । सो उचाटु सब कें सिर मेला ॥

सुरमायाँ सब लोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न विछोहे ॥

पहले तो कुमत (बुरा विचार) करके कपटकी बटोरा (अनेक प्रकारके कपटका साज सजा) । फिर वह (कपटजनित) उचाट सबके सिरपर डाल दिया । फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया । किंतु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे

सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहिनसुलभुतेहि सरिसवामको ॥
देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम (अमागा) और कौन होगा ? दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी) के हृदयकी स्थिति जानकर, ॥ २ ॥

धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह शील सुख सागर ॥
देसु कालु लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥

धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुखके समृद्ध; नीति और प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजको देखकर, ॥ ३ ॥

बोले वचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोक वेद विद प्रेम प्रवीना ॥

[तदनुसार] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममें हितकारी थे और सुननेमें चन्द्रमाके रस (अमृत) सरीखे थे । [उन्होंने कहा—] हे तात भरत ! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥

दो०—करम वचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात ॥ ३०४ ॥

हे तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो । गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाइँके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ? ॥ ३०४ ॥

चौ०—जानहु तात तरनि कुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥

समउ समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥

हे तात ! तुम सूर्यकुलकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पित्ताजीकी कीर्ति और प्रीतिको, समय, समाज और गुरुजनोंकी लज्जा (मर्यादा) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी बातको जानते हो ॥ १ ॥

तुम्हहि विदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥

मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहउँ अवसर अनुसार ॥

रामहि चितवत चित्र लिखे से । सकुचत बोलत वचन सिखे से ॥

भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । सुनत सुखद वरनत कठिनाई ॥

सब लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं । सकुचाते हुए सिखाये हुए-से वचन बोलते हैं । भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुननेमें सुख देनेवाली है, पर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ २ ॥

जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥

महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभायँ सुमति हियँ हुलसी ॥

जिनकी भक्तिका लवलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ? उनकी भक्ति और सुन्दर भावसे [कविके] हृदयमें सुबुद्धि हुलस रही है (विकसित हो रही है) ॥ ३ ॥

आपु छोटे महिमा बड़ि जानी । कविकुल्ल कानि मानि सकुचानी ॥

कहिन सकति गुनरुचि अधिकाई । मति गति बाल वचन की नाई ॥

परंतु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर कवि-परम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी । (उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर सकी ।) उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें कह नहीं सकती । बुद्धिकी गति बालक-के वचनोंकी तरह हो गयी (वह कृष्ण हो गयी) ! ॥ ४ ॥

दो०—भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चक्रोरकुमारि ।

उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥

भरतजीका निर्मल यज्ञ निर्मल चन्द्रमा हैं और कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल आकाशमें उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है [तब उसका वर्णन कौन करे ?] ॥ ३०३ ॥

चो०—भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघुमति चापलता कवि छमहूँ ॥

कहत सुनतसति भाउ भरतको । सीय राम पद होइ न रत को ॥

भरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है । [अतः] मंगे नुच बुद्धिकी चञ्चलताको कवि लोग क्षमा करें । भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते कौन म श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥ १ ॥

सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को । जेहि नसुलभुतेहि सरिसबामको ॥

देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम (अभागा) और कौन होगा? दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी) के हृदयकी स्थिति जानकर, ॥ २ ॥

धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥

देसु कालु लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥

धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुखके समृद्ध; नीति और प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजको देखकर, ॥ ३ ॥

बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥

तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोक वेद विद प्रेम प्रवीना ॥

[तदनुसार] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममें हितकारी थे और सुननेमें चन्द्रमाके रस (अमृत)-सरीखे थे । [उन्होंने कहा—] हे तात भरत ! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥

दो०—करम बचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात ॥ ३०४ ॥

हे तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो । गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाइँके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं? ॥३०४॥

बो०—जानहु तात तरनि कुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥

समउ समाजू लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥

हे तात ! तुम सूर्यकुलकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीर्ति और प्रीतिको, समय, समाज और गुरुजनोंकी लज्जा (मर्यादा) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी बातको जानते हो ॥ ५ ॥

तुम्हहि विदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥

मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहउँ अवसर अनुसार ॥

तुमको सबके कर्मों (कर्तव्यों) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्मका पता है।
यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है, तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता हूँ ॥२॥
तात तात विनु बात हमारी। केवल गुरुकुल कृपाँ सँभारी ॥
नतरु प्रजा परिजन परिवारु। हमहि सहित सबु होत खुआरु ॥

हे तात ! पिताजीके बिना (उनकी अनुपस्थितिमें) हमारी बात केवल गुरुवंशकी कृपाने
ही सम्हाल रखी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभी वरबाद हो जाते ॥३॥
जौँ विनु अवसर अथवँ दिनेसू। जग कोहि कहहु न होइ कलेसू ॥
तस उतपातु तात विधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखिसबु लीन्हा ॥

यदि बिना समयके (सन्ध्यासे पूर्व ही) सूर्य अस्त हो जाय, तो कही जगत्में किस-
को क्लेश न होगा ? हे तात ! उसी प्रकारका उत्पात विघाताने यह (पिताकी असामयिक
मृत्यु) किया है। परः मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया ॥ ४ ॥

दो०—राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम ।

गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ ३०५ ॥

राज्यका सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर—इन सभीका पालन
(रक्षण) गुरुजीका प्रभाव (सामर्थ्य) करेगा और परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५ ॥

चौ०—साहित समाज तुम्हार हमारा। घर वन गुर प्रसाद रखवारा ॥

मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥

गुरुजीका प्रसाद (अनुग्रह) ही घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और
हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामीकी आज्ञा [का पालन] समस्त धर्मरूपी
पृथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान है ॥ १ ॥

सो तुम्ह करहु करावहु मोहु। तात तरनिकुल पालक होहु ॥

साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥

हे तात ! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके रक्षक बनो।
साधकके लिये यह एक ही (आज्ञापालनरूपी साधना) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली
कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है ॥ २ ॥

सो विचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥

बाँटी विपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहिअवधिभरिबड़ि कठिनाई ॥

इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो । हे भाई ! मेरी विपत्ति सभीने बाँट ली है, परंतु तुमको तो अवधि (चौदह वर्ष) तक बड़ी कठिनाई है (सबसे अधिक दुःख है) ॥ ३ ॥

जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥

होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए । ओड़िअहि हाथ असनिहु के घाए ॥

तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर (वियोगकी बात) कह रहा हूँ । हे तात ! बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है । कुठोर (कुअवसर) में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं । वज्रके आघात भी हाथसे ही रोके जाते हैं ॥ ४ ॥

दो०—सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिवु होइ ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहहिं सोइ ॥ ३०६ ॥

सेवक हाथ, पैर और नेत्रोंके समान और स्वामी मुखके समान होना चाहिये । तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं ॥ ३०६ ॥

चो०—सभा सकल सुनि रघुवर बानी । प्रेम पयोधिअमिअँ जनु सानी ॥

सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साथी ॥

श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [मन्थनसे निकले हुए] अमृतमें सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेमसमाधि लग गयी । यह दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली ॥ १ ॥

भरतहि भयउ परम संतोषू । सनमुखस्वामिविमुखदुखदोषू ॥

मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू । भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू ॥

भरतजीको परम संतोष हुआ । स्वामीके सम्मुख (अनुकूल) होते ही उनके दुःख और दोषोंने मुँह मोड़ लिया (वे उन्हें छोड़कर भाग गये) । उनका मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया । मानो गूँगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २ ॥

कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी ॥

नाथ भयउ सुखु साथ गए को । लहेउँ लाहु जग जनमु भए को ॥

तुमको सबके कर्मों (कर्तव्यों) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्मका पता है ।
यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है, तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता हूँ ॥२॥
तात तात विनु बात हमारी । केवल गुरुकुल कृपाँ सँभारी ॥
नतरु प्रजा परिजन परिवारु । हमहि सहित सबु होत खुआरु ॥

हे तात ! पिताजीके बिना (उनकी अनुपस्थितिमें) हमारी बात केवल गुरुवंशकी कृपाने
ही सम्हाल रखी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते ॥३॥
जौं विनु अवसर अथवँ दिनेसू । जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥
तस उतपातु तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखिसबु लीन्हा ॥

यदि बिना समयके (सन्ध्यासे पूर्व ही) सूर्य अस्त हो जाय, तो कही जगत्में किस-
को क्लेश न होगा ? हे तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह (पिताकी असामयिक
मृत्यु) किया है । परःमुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया ॥ ४ ॥

दो०—राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम ।

गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ ३०५ ॥

राज्यका सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर—इन सभीका पालन
(रक्षण) गुरुजीका प्रभाव (सामर्थ्य) करेगा और परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५ ॥

चौ०—साहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥

मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥

गुरुजीका प्रसाद (अनुग्रह) ही घरमें और बनमें समाजसहित तुम्हारा और
हमारा रक्षक है । माता, पिता, गुरु और स्वामीकी आज्ञा [का पालन] समस्त धर्मरूपी
पृथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान है ॥ १ ॥

सो तुम्ह करहु करावहु मोहू । तात तरनिकुल पालक होहू ॥

साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥

हे तात ! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके स्वामी
साधकके लिये यह एक ही (आज्ञापालनरूपी साधना) सम्पूर्ण निजिकोषी
कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है ॥ २ ॥

रिषिनायक जहँ आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं ॥
सुनि प्रभु वचन भरत सुखु पावा । मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा ॥

और ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [लाया हुआ] तीर्थोंका जल स्थापित कर देना । प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ ॥

दो०—भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल ।

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥ ३०८ ॥

समस्त सुन्दर मङ्गलोंका मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल बरसाने लगे ॥ ३०८ ॥

चौ०—धन्य भरत जय राम गोसाईं । कहत देव हरषत बरिआईं ॥

मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत वचन सुनि भयउ उछाहू ॥

‘भरतजी धन्य हैं, स्वामी श्रीरामजीकी जय हो ।’ ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक (अत्यधिक) हर्षित होने लगे । भरतजीके वचन सुनकर मुनि वसिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी और सभामें सब किसीको बड़ा उत्साह (आनन्द) हुआ ॥ १ ॥

भरत राम गुन ग्राम सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू ॥

सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेसु पेसु अति पावन पावन ॥

भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं । सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर स्वभाव है । इनके नियम और प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले हैं ॥ २ ॥

मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सब अनुरागे ॥

सुनि सुनि राम भरत संवादू । दुहु समाज हियँ हरषु विषादू ॥

मन्त्री और सभासद सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना करने लगे । श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोंमें हर्ष और विषाद (भरतजीके सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे विषाद) दोनों हुए ॥ ३ ॥

उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोले—हे नाथ ! मुझे आपके साथ जानेका सुख प्राप्त होगया और मैंने जगत्में जन्म लेनेका लाभ भी पा लिया ॥३॥

अब कृपालु जस आयसु होई । करौं सीस धरि सादर सोई ॥

सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पारु पावौं जेहि सेई ॥

हे कृपालु ! अब जैसी आज्ञा हो, उसीको मैं सिरपर धरकर आदरपूर्वक करूँ । परंतु देव ! आप मुझे वह अवलम्बन (कोई सहारा) दें, जिसकी सेवा कर मैं अवधिका पार पा जाऊँ (अवधिको बिता दूँ) ॥ ४ ॥

चो०—देव देव अभिषेक हित गुरु अनुसासनु पाइ ।

आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहँ कन्ह रजाइ ॥ ३०७ ॥

हे देव ! स्वामी (आप) के अभिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थोंका जल लेता आया हूँ, उसके लिये क्या आज्ञा होती है ? ॥ ३०७ ॥

चो०—एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभयँ सक्रोच जात कहि नाहीं ॥

कहहु तात प्रभु आयसु पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥

मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोचके कारण कहा नहीं जाता । [श्रीरामचन्द्रजीने कहा—] हे भाई ! कहो । तब प्रभुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहपूर्ण सुन्दर वाणी बोले—॥ १ ॥

चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खगमृगसरसरिनिर्झरगिरिगन ॥

प्रभु पद अंकितअवनि बिसेषी । आयसु होइ त आवौं देखी ॥

आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, बन, पक्षी-पशु, तालाब-नदी, झरने और पर्वतोंके समूह तथा विशेषकर प्रभु (आप) के चरण-चिह्नोंसे अङ्कित भूमिको देख जाऊँ ॥२॥

अवसि अत्रि आयसु सिरधरहु । तात बिगतभय कानन चरहु ॥

मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन आता ॥

[श्रीरघुनाथजी बोले—] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर धारण करो (उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो) और निर्भय होकर वनमें विचरो । हे भाई ! अत्रि मुनिके प्रसादसे वन मङ्गलोंका देनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है—॥ ३ ॥

अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थोंके जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेमपूर्वक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन, वचन और कर्मसे निर्मल हो जायेंगे।

दो०—कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराज ।

अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥ ३१० ॥

कूपकी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। श्रीरघुनाथजीको अत्रिजीने उस तीर्थका पुण्य प्रभाव सुनाया ॥ ३१० ॥

चौ०—कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥

नित्य निबाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥

प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह रात सुखसे बीत गयी और सबेरा हो गया। भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य-क्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अत्रिजी और गुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर ॥ १ ॥

सहित समाज साज सब सादे । चले राम बन अटन पयादे ॥

कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइमृदुभूमिसकुचिमनमनहीं ॥

समाजसहित सब सादे साजसे श्रीरामजीके वनमें भ्रमण (प्रदक्षिणा) करनेके लिये पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूतेके चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल हो गयी ॥ २ ॥

कुस कंटक काँकरीं कुराई । कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥

महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥

कुश, काँटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओंको छिपाकर पृथ्वीने सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये। सुखोंको साथ लिये (सुखदायक) शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा चलने लगी ॥ ३ ॥

सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं । बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं ॥

मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥

रास्तेमें देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, तृण अपनी कोमलतासे, मृग (पशु) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर—सभी भरतजीको श्रीराम-चन्द्रजीक प्यारें जानकर उनकी सेवा करने लगे ॥ ४ ॥

राम मातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधीं रानी ॥
एक कहहिं रघुवीर बड़ाई । एक सराहत भरत भलाई ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीराम-
जीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको धर्म बंधाया । कोई श्रीरामजीकी बड़ाई (बड़प्पन)
की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—अत्रि कहेउ तव भरत सन सैल समीप सुकूप ।

राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥ ३०६ ॥

तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा—इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है । इस
पवित्र, अनुपम और अमृत—जैसे तीर्थ—जलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०६ ॥

चौ०—भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई ॥

सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गए जहँ कूप अगाधू ॥

भरतजीने अत्रि मुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई
शत्रुघ्न, अत्रिमुनि तथा अन्य साधु-संतोंसहित आप वहाँ गये जहाँ वह अयाह कुआँ था ॥ १ ॥

पावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥

तात अनादि सिद्ध थल एहू । लोपेउ काल विदित नहिं केहू ॥

और उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमें रख दिया । तब अत्रि ऋषिने प्रेमसे
आनन्दित होकर ऐसा कहा—हे तात ! यह अनादि सिद्धस्थल है । काल-क्रमसे यह लोप
हो गया था, इसलिये किसीको इसका पता नहीं था ॥ २ ॥

तव सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा ॥

विधिवस भयउ विस्व उपकारू । सुगमअगमअति धरम विचारू ॥

तब [भरतजीके] सेवकोंने उस जलयुक्त स्थानको देखा और उस सुन्दर [तीर्थके]
जलके लिये एक खास कुआँ बना लिया । देवयोगसे विश्वभरका उपकार हो गया । धर्म-
का विचार जो अत्यन्त अगम था, वह [इस कूपके प्रभावसे] सुगम हो गया ॥ ३ ॥

भरतकूप अब कहिहहिं लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥

प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी । होइहहिं विमल करम मन वानी ॥

दो०—देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ ।

कहत सुनत हरि हरसुजसु गयउ दिवसु भइसाँझ ॥ ३१२ ॥

भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थ-स्थानोंके दर्शन कर लिये । भगवान् विष्णु और महा-देवजीका सुन्दर यज्ञ कहते-सुनते वह (पाँचवाँ) दिन भी बीत गया; सन्ध्या हो गयी ॥ ३१२ ॥

चौ०—भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥

भलदिनआजुजानिमनमाहीं । रामु कृपाल कहत सकुचार्हीं ॥

[अगले छठे दिन] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा । आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है, यह मनमें जानकर भी कृपालु श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं ॥ १ ॥

गुरु नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचिराम फिरि अवनिविलोकी ॥

सील सराहि सभा सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि संकोची ॥

श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभाकी ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वीकी ओर ताकने लगे । सभा उनके शीलकी सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं ॥ २ ॥

भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर विसेषी ॥

करि दंडवत कहत कर जोरी । राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥

सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डवत् करके हाथ जोड़कर कहने लगे—हे नाथ ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रक्खीं ।

मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥

अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई । सेवौं अवध अवधि भरि जाई ॥

मेरे लिये सब लोगोंने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया । अब स्वामी मुझे आज्ञा दें । मैं जाकर अवधिभर (चौदह वर्षतक) अवधका सेवन करूँ ॥ ४ ॥

दो०—जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखै दीनदयाल ।

सो सिख देइअ अवधि लागि कोसलपाल कृपाल ॥ ३१३ ॥

हे दीनदयाल ! जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे—हे कोसला-धीश ! हे कृपालु ! अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ ॥

दो०—सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात ।

राम प्रानप्रिय भरत कहँ यह न होइ बड़ि बात ॥ ३११ ॥

जब एक साधारण मनुष्यको भी [आत्मस्यसे] जंभाई लेते समय 'राम' कह देनेसे ही सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बड़ी (आश्चर्यकी) बात नहीं है ॥ ३११ ॥

चौ०—एहि विधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचार्हीं ॥

पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । स्वग मृग तरु तृन गिरिबनबागा ॥

इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हैं । उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं । पवित्र जलके स्थान (नदी, बावली, कुण्ड आदि), पृथ्वीके पृषक्-पृषक् भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण (घास), पर्वत, वन और बगीचे—॥ १ ॥

चारु विचित्र पवित्र विसेषी । वृझत भरतु दिव्य सब देखी ॥

सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥

सभी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभावको कहते हैं ॥ २ ॥

कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा । कतहुँ विलोकत मन अभिरामा ॥

कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥

भरतजी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानोंके दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकर बैठकर, सीताजीसहित श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंका स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥

देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहिं असीस मुदित बनदेवा ॥

फिरहिं गएँ दिनु पहर अढ़ाई । प्रभु पद कमल विलोकिहिं आई ॥

भरतजीके स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर बनदेवता आनन्दित होकर आशीर्वाद देते हैं । यों धूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर सौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ ।

कहत सुनत हरि हरसुजसु गयउ दिवसु भइसाँझ ॥ ३१२ ॥

भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थ-स्थानोंके दर्शन कर लिये। भगवान् विष्णु और महा-देवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (पाँचवाँ) दिन भी बीत गया; सन्ध्या हो गयी ॥ ३१२ ॥

चौ०—भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥

भलदिनआजुजानिमनमाहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥

[अगले छठे दिन] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है, यह मनमें जानकर भी कृपालु श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं ॥ १ ॥

गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचिराम फिरि अवनिबिलोकी ॥

शील सराहि सभा सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥

श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभाकी ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वीकी ओर ताकने लगे। सभा उनके शीलकी सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं ॥ २ ॥

भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥

करि दंडवत कहत कर जोरी । राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥

सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डवत् करके हाथ जोड़कर कहने लगे—हे नाथ ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रक्खीं।

मोहि लागि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥

अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई । सेवौं अवध अवधि भरि जाई ॥

मेरे लिये सब लोगोंने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें। मैं जाकर अवधिभर (चौदह वर्षतक) अवधका सेवन करूँ ॥ ४ ॥

दो०—जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखै दीनदयाल ।

सो सिख देइअ अवधि लागि कोसलपाल कृपाल ॥ ३१३ ॥

हे दीनदयाल ! जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे—हे कोसला-धीश ! हे कृपालु ! अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ ॥

चौ०—पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं । सब सुचि सरस सनेहँ सगाईं ॥

राउर वादि भल भव दुख दाहू । प्रभु विनु वादि परम पद लाहू ॥

हे गोसाईं ! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा सभी पवित्र और रस (आनन्द) से युक्त हैं। आपके लिये भव-दुःख (जन्म-मरणके दुःख) की ज्वालामें जलना भी अच्छा है और प्रभु (आप) के बिना परमपद (मोक्ष) का लाभ भी व्यर्थ है ॥१॥

स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥

प्रनतपालु पालिहि सब काहू । देउ दुहू दिसि ओर निवाहू ॥

हे स्वामी ! आप सुजान हैं, सभीके हृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि, लालसा (अभिलाषा) और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल ! आप सब किसीका पालन करेंगे और हे देव ! दोनों तरफको और-अन्ततक निवाहेंगे ॥ २ ॥

अस मोहिसव विधि भूरि भरोसो । किएँ विचारु न सोचु खरो सो ॥

आरति मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिलि कीन्ह दीठु हठि मोहू ॥

मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके बराबर (जरा-सा) भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामीका स्नेह दोनोंने मिलकर मुझे जबदस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ३ ॥

यह बड़ दोषु दूर करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥

भरत विनय सुनि सवहिँ प्रसंसी । खीर नीर विवरन गति हंसी ॥

हे स्वामी ! इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये। दूध और जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥

दो०—दीनबंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन ।

देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रवीन ॥ ३१४ ॥

दीनबंधु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश, काल और अवसरके अनुकूल वचन बोले—॥ ३१४ ॥

चौ०—ताततुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुरहि नृपहि घर बन की ॥

माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू । हमहितुम्हहि सपनेहुँ न

हे तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु वसिष्ठजी और महाराज जनकजीको है । हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी और मिथिलापति जनकजी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी क्लेश नहीं है ॥ १ ॥

मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥

पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई । लोक वेद भल भूप भलाई ॥

मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्य, सुयश, धर्म और परमार्थ इसीमें है कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें । राजाकी भलाई (उनके व्रतकी रक्षा) से ही लोक और वेद दोनोंमें भला है ॥ २ ॥

गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परहिं न खालें ॥

अस विचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥

गुरु, पिता, माता और स्वामीकी शिक्षा (आज्ञा) का पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पैर गड्ढेमें नहीं पड़ता (पतन नहीं होता) । ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन करो ॥ ३ ॥

देसु कोसु परिजन परिवारु । गुर पद रजहिं लाग छरुभारु ॥

तुम्ह मुनिमातुसचिवसिखमानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥

देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरणरजपर है । तुम तो मुनि वसिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन (रक्षा) भर करते रहना ॥ ४ ॥

दो०—मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक ।

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥ ३१५ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं—[श्रीरामजीने कहा—] मुखिया मुखके समान होना चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक (अकेला) है, परंतु विवेकपूर्वक सब अङ्गोंका पालन-पोषण करता है ।

चो०—राजधरम सरवसु एतनोई । जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ॥

बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भौंती । विनु अधार मन तोषु न साँती ॥

राजधर्मका सर्वस्व (सार) भी इतना ही है । जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता है । श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया । परंतु कोई अवलम्बन पाये बिना उनके मनमें न संतोष हुआ, न ज्ञान्ति ॥ १ ॥

चौ०—पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं । सब सुचि सरस सनेहँ सगाईं ॥

राउर वादि भल भव दुख दाहू । प्रभु विनु वादि परम पद लाहू ॥

हे गोसाईं ! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा सभी पवित्र और रस (आनन्द) से युक्त हैं। आपके लिये भव-दुःख (जन्म-मरणके दुःख) की ज्वालामें जलना भी अच्छा है और प्रभु (आप) के बिना परमपद (मोक्ष) का लाभ भी व्यर्थ है ॥१॥

स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥

प्रनतपालु पालिहि सब काहू । देउ दुहू दिसि ओर निवाहू ॥

हे स्वामी ! आप सुजान हैं, सभीके हृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि, लालसा (अभिलाषा) और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल ! आप सब किसीका पालन करेंगे और हे देव ! दोनों तरफको ओर-अन्ततक निवाहेंगे ॥ २ ॥

अस मोहिसव विधि भूरि भरोसो । किँ विचारु न सोचु खरो सो ॥

आरति मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोहू ॥

मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके वरावर (जरा-सा) भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दोनता और स्वामीका स्नेह दोनोंने मिलकर मुझे जबदंस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ३ ॥

यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥

भरत विनय सुनि सवहिं प्रसंसी । खीर नीर विवरन गति हंसी ॥

हे स्वामी ! इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये। दूध और जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥

दो०—दीनबंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन ।

देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रवीन ॥ ३१४ ॥

दीनबंधु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश, काल और अवसरके अनुकूल वचन बोले—॥ ३१४ ॥

चौ०—ताततुम्हारिमोरि परिजनकी । चिंता गुरहि नृपहि घर बन की ॥

माथे पर गुर सुनि मिथिलेसू । हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू ॥

श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब लोग घबड़ाकर (हाय-हाय करके) मर ही जाते ।
रामकृपाँ अवरैब सुधारी । विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥

श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो लूटने आयी थी, वही गुणदायक (हितकारी) और रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाओंमें भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं । श्रीरामजीके प्रेमका वह रस (आनन्द) कहते नहीं बनता ॥ २ ॥

तन मन वचन उमग अनुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा ॥
वारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥

तन, मन और वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा । धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीने भी धीरज त्याग दिया । वे कमलसदृश नेत्रोंसे [प्रेमाश्रुओंका] जल बहाने लगे । उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी सभा (समाज) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥

मुनिगन गुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनल मन कसें कनक से ॥
जे विरंचि निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥

मुनिगण, गुरु वसिष्ठजी और जनकजी-सरीखे धीर-धुरन्धर जो अपने मनोंको ज्ञान-रूपी अग्निमें सोनेके समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निर्लेप ही रचा और जो जगत्-रूपी जलमें कमलके पत्तेकी तरह ही (जगत्में रहते हुए भी जगत्से अनासक्त) पैदा हुए, ॥४॥

दो०—तेउ बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार ।

भए मगन मन तन वचन सहित विराग विचार ॥ ३१७ ॥

वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और विवेकसहित तन, मन, वचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३१७ ॥

चौ०—जहाँ जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥

बरनत रघुवर भरत वियोगू । सुनिकठोर कविजानिहि लोगू ॥

जहाँ जनकजी और गुरु वसिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य प्रेमको प्राकृत (लौकिक) कहनेमें बड़ा दोष है । श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीके वियोगका वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोर-हृदय समझेंगे ॥ १ ॥

सो सकोच रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥
भेंटि भरतु रघुवर समुझाए । पुनि रिपुदवनु हरषि हियँ लाए ॥

भरत सील गुर सचिव समाजू । सकुच सनेह विवस रघुराजू ॥
प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हों । सादर भरत सीस धरि लीन्हों ॥

इधर तो भरतजीका शील (प्रेम) और उधर गुरुजनों, मन्त्रियों तथा समाजकी उपस्थिति। यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये। (अर्थात् भरतजीके प्रेमवश उन्हें पाँवरी देना चाहते हैं; किंतु साथ ही गुरु आदिका संकोच भी होता है।) आखिर [भरतजीके प्रेमवश] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपाकर खड़ाऊँ दे दीं और भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २ ॥

चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के ॥

करुनानिधान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो दो पहरेदार हैं । भरतजीके प्रेमरूपी रतनके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनके लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥ ३ ॥

कुल कपाट कर कुसल करम के । विमल नयन सेवा सुधरम के ॥
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस सुख जस सिय रामु रहे ते ॥

रघुकुल [की रक्षा] के लिये दो किवाड़ हैं । कुशल (श्रेष्ठ) कर्म करनेके लिये दो हाथकी भाँति (सहायक) हैं । और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेत्र हैं । भरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे परम आनन्दित हैं । उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जैसा श्रीसीता-रामजीके रहनेसे होता ॥ ४ ॥

दो०—मागेउ विदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ ।

लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥ ३१६ ॥

भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया। इधर कुटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥

चौ०—सोकुचालि सब कहँ भइ नीकी । अवाधि आस सम जीवनिजीकी ॥

नतरु लखन सिय राम बियोगा । हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥

वह कुचाल भी सबके लिये हितकर हो गयी। अवाधिकी आशाके समान ही वह जीवनिजीकी भी सबके लिये हितकर हो गयी। इन्हीं दो (उच्चाटन न होता तो) लक्ष्मणजी, सीताजी व

सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे वंदि पग आसिष पाई ॥
कौंसिक वामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥

तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास (सुनयनाजी) के पास गये और उनके चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर लौट आये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावालि और शुभ आचरणवाले कुटुम्बी, नगरनिवासी और मन्त्री—॥ ३ ॥

जथा जोगु करि विनय प्रनामा । विदा किए सब सानुज रामा ॥
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥

सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम (मञ्जले) और बड़े सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको लौटाया ॥ ४ ॥

दो०—भरत मातु पद वंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि ।

विदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥ ३१६ ॥

भरतकी माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र (निश्छल) प्रेमके साथ उनसे मिल-भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया ॥ ३१६ ॥

ची०—परिजनमातुपितहि मिलिसीता । फिरी प्राणप्रिय प्रेम पुनीता ॥

करि प्रनामु भेंटिँ सब सासू । प्रीतिकहतकबिहियँनहुलासू ॥

प्राणप्रिय पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नैहरके कुटुम्बियोंसे तथा माता-पितासे मिलकर लौट आयीं । फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गले लगाकर मिलीं । उनके प्रेमका वर्णन करनेके लिये कविके हृदयमें हुलास (उत्साह) नहीं होता ॥ १ ॥

सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥

रघुपति पटु पालकीं मगाई । करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई ॥

उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता-पिता दोनों ओरकी प्रीतिमें समायी (बहुत देरतक निमग्न) रहीं । [तब] श्रीरघुनाथजीने सुन्दर पालकियाँ मँगवायीं और सब माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥

वह संकोच-रस अकथनीय है। अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको स्मरण करके सकुचा गयी। भरतजीको भेंटकर श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्नजीको हृदयसे लगा लिया ॥ २ ॥

सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥

सुनि दारुण दुखु दुहँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥

सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजोंमें दारुण दुःख छा गया। वे चलनेकी तैयारियाँ करने लगे ॥ ३ ॥

प्रभु पद पटुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥

मुनि तापस वनदेव निहोरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥

प्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर रखकर भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करके उनकी विनती की ॥ ४ ॥

दो०—लखनहि भेंटि प्रनासु करि सिर धरि सिय पद धूरि ।

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥ ३१८ ॥

फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिको सिरपर धारण करके और समस्त मङ्गलोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ॥ ३१८ ॥

चौ०—सानुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत विधि विनय बड़ाई ॥

देव दया बस बड़ दुखु पायउ । सहित समाज काननहिं आयउ ॥

छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [और कहा—] हे देव! दयावश आपने बहुत दुःख पाया। आप समाजसहित वनमें आये ॥ १ ॥

पुर पगु धारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥

मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किए हरि हर सम जाने ॥

अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये। यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु और शिवके समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥ २ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मकी प्रीति तथा विश्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जलकी मछलियाँ, चित्रकूटके सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गये ॥ ३ ॥

**विवुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की ॥
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डर न खरो सो ॥**

श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घरकी दशा कही (दुखड़ा सुनाया)। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मनमें जरा-सा भी डर न रहा ॥ ४ ॥

दो०—सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर ।

भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥ ३२१ ॥

छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥ ३२१ ॥

चौ०—मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम विरहँ सबु साजु बिहालू ॥

प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥

मुनि, ब्राह्मण, गुरु वसिष्ठजी, भरतजी और राजा जनकजी—सारा समाज श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विह्वल है। प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १ ॥

जमुना उतरि पार सबु भयऊ । सो बासरु विनु भोजन गयऊ ॥

उतरि देवसरि दूसर बासू । रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू ॥

[पहले दिन] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजनके ही बीत गया। दूसरा मुकाम गङ्गाजी उतरकर (गङ्गापार शृङ्गवेरपुरमें) हुआ। वहाँ रामसखा निपादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया ॥ २ ॥

सई उतरि गोमतीं नहाए । चौथें दिवस अवधपुर आए ॥

जनकु रहे पुर वासर चारी । राज काज सब साज सँभारी ॥

फिर सई उतरकर गोमतीजीमें स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे। जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानको सम्हालकर, ३

वार वार हिलि मिलि दुहु भाई । सम सनेहँ जननी पहुँचाई ॥
साजि बाजि गज बाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥

दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे वार-वार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया । भरतजी और राजा जनकजीके दलोंने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥

हृदयँ रामु सिय लखन समेता । चले जाहिँ सब लोग अचेता ॥
बसह बाजि गज पसु हियँ हारें । चले जाहिँ परवस मन मारें ॥

सीताजी एवं लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं । बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदयमें हारे (शिथिल) हुए परवश मनमारे चले जा रहे हैं ॥ ४ ॥

दो०—गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत ।

फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥ ३२० ॥

गुरु वसिष्ठजी और गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हृष और विपादके साथ लोटकर पणकुटीपर आये ॥ ३२० ॥

चौ०—बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदयँ बड़ विरह विषादू ॥

कोल किरात भिल्ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥

फिर सम्मान करके निषादराजको विदा किया । वह चला तो सही, किंतु उसके हृदयमें विरहका बड़ा भारी विपाद था । फिर श्रीरामजीने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगोंको लौटाया । वे सब जोहार-जोहारकर (वन्दना कर-करके) लौटे ॥ १ ॥

प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं । प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं ॥

भरत सनेह सुभाउ सुवानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी बड़की छायामें बैठकर प्रियजन एवं परिवारके वियोगसे दुखी हो रहे हैं । भरतजीके स्नेह, स्वभाव और सुन्दर वाणीको बखान-बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २ ॥

प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेम बस वरनी ॥

तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥

आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ। मुनिवसिष्ठजी पुलकित शरीर हो प्रेमके साथ बोले—
हे भरत ! तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत्में धर्मका सार होगा ॥ ४ ॥

दो०—सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि ।

सिंघासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥

भरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको बुलाया और दिन (अच्छा मुहूर्त) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासनपर विराजित कराया ॥ ३२३ ॥

ती०—राम मातु गुर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥

नंदिगावँ करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥

फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और प्रभुकी चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर उसीमें निवास किया ॥ १ ॥

जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥

असन बसन बासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥

सिरपर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके (वल्कल) वस्त्र धारण कर, पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी बिछायी । भोजन, वस्त्र, बरतन, व्रत, नियम—सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे ॥ २ ॥

भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥

अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥

गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मन, तन और वचनसे तृण तोड़कर (प्रतिज्ञा करके) त्याग दिया । जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिंहाते थे और [जहाँके राजा] दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ॥ ३ ॥

तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥

रमा विलासु राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़भागी ॥

उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे

सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥

नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥

तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौंपकर, सारा साज-सामान ठीक करके तिरहुतको चले । नगरके स्त्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ४ ॥

दो०—राम दरस लागि लोग सब करत नेम उपवास ।

तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२ ॥

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने लगे । वे भूषण और भोग-सुखोंको छोड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं ॥ ३२२ ॥

चौ०—सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥

पुनि सिख दीन्हि बोलिल धु भाई । सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥

भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया । वे सब सीख पाकर अपने-अपने काममें लग गये । फिर छोटे भाई शत्रुघ्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥

भूसुर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम बय विनय निहोरे ॥

ऊँच नीच कारजु भल पोचू । आयसु देव न करव संकोचू ॥

ब्राह्मणोंको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके अनुसार विनय और निहोरा किया कि आपलोग ऊँचा-नीचा (छोटा-बड़ा), अच्छा-मन्दा जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा । संकोच न कीजियेगा ॥ २ ॥

परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि सुवस वसाए ॥

सानुज गे गुर गेहँ बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥

भरतजीने फिर परिवारके लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया । फिर छोटे भाई शत्रुघ्नजीसहित वे गुरुजीके घर गये और दण्डवत् करके हाथ जोड़कर बोले— ॥ ३ ॥

आयसु होइ त रहौं सनेमा । बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥

समुझव कहव करव तुम्ह जोई । धरम सारु जग होइहि सोई ॥

है। रामप्रेम ही अचल (सदा रहनेवाला) और कलङ्करहित चन्द्रमा है। वह
राज (नक्षत्रों) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है ॥ ३ ॥

रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन विमल विभूती ॥
न सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥

भरतजीकी रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वर्णन
में सभी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ [औरोंकी तो बात ही क्या] स्वयं शेष,
और सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ ४ ॥

०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति ।
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥ ३२५ ॥

वे नित्यप्रति प्रभुकी पादुकाओंका पूजन करते हैं; हृदयमें प्रेम समाता नहीं है।
पादुकाओंसे आज्ञा माँग-माँगकर वे बहुत प्रकार (सब प्रकारके) राज-काज करते हैं ॥ ३२५ ॥

वै०-पुलक गात हियँ सिय रघुबीरु । जीह नामु जप लोचन नीरु ॥
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥

शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं। जीभ राम-नाम जप रही है, नेत्रोंमें
प्रेमका जल भरा है। लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो वनमें बसते हैं, परंतु भरतजी
घरहीमें रहकर तपके द्वारा शरीरको कस रहे हैं ॥ १ ॥

दोड दिसि समुझि कहत सबु लोगू । सब विधि भरत सराहन जोगू ॥
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥

दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराह
योग्य हैं। उनके व्रत और नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थि
देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं ॥ २ ॥

परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगल करन
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह निसि दलन दिने

भरतजीका परम पवित्र आचरण (चरित्र) मधुर, सुन्दर और आनन्द-म
का करनेवाला है। कलियुगके कठिन पापों और क्लेशोंको हरनेवाला है। महाम
रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है ॥ ३ ॥

चम्पाके बागमें भीरा । श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके विलास (भोगेश्वर्यं) को वमनकी भाँति त्याग देते हैं (फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं) ॥ ४ ॥

दो०—राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति ।

चातक हंस सराहिअत टेंक विवेक विभूति ॥ ३२४ ॥

फिर भरतजी तो [स्वयं] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं । वे इस (भोगेश्वर्यं-त्यागरूप) करनीसे बड़े नहीं हुए (अर्थात् उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है ।) [पृथ्वीपरका जल न पीनेकी] टेकसे चातककी और नीर-क्षीर-विवेककी विभूति (शक्ति) से हंसकी भी सराहना होती है ॥ ३२४ ॥

चौ०—देह दिनहुँ दिन दूवरि होई । घटइ तेजु बलु मुखछवि सोई ॥

नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥

भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता है । तेज (अन्न, घृत आदिसे उत्पन्न होनेवाला मेद) घट रहा है । बल और मुखछवि (मुखकी कान्ति अथवा शोभा) वैसी ही बनी हुई है । राम-प्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्मका दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है (अर्थात् प्रसन्न है) ॥ १ ॥

*संस्कृत कोषमें 'तेज' का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेनेसे 'घटइ' के अर्थमें भी किसी प्रकारकी खींच-तान नहीं करनी पड़ती ।

जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे* । विलसत बेतस वनज विकासे ॥

सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल अकासा ॥

जैसे शरद् ऋतुके प्रकाश (विकास) से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं । शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके हृदय-रूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र (तारागण) हैं ॥ २ ॥

ध्रुव विस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी ॥

राम पेम विधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चौखा ॥

विश्वास ही [उस आकाशमें] ध्रुवतारा है, चौदह वर्षकी अवधि [का ध्यान] पूर्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति (स्मृति) आकाशगङ्गा ी

अत्रिके अतिथि



करि पूजा कहि वचन सुहाए ।
दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥

पाप पुंज कुंजर मृगराजू । समन सकल संताप समाजू ॥
जन रंजन भंजन भव भारू । राम सनेह सुधाकर सारू ॥

पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है । सारे संतापोंके दलका नाश करनेवाला है । भक्तोंको आनन्द देनेवाला और भवके भार (संसारके दुःख) का भञ्जन करनेवाला तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार (अमृत) है ॥ ४ ॥

छं०—सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को ।
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को ॥
दुख दाह दारिद्र दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को ।
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥

श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होता तो मुनियोंके मनको भी अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतोंका आचरण कौन करता ? दुःख, संताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोषोंको अपने सुयशके बहाने कौन हरण करता ? तथा कलिकालमें तुलसीदास-जैसे शठोंको हठपूर्वक कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ?

सो०—भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं ।
सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस विरति ॥ ३२६ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा ॥ ३२६ ॥

मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सरुतकृतिरनुपदिष्टंने द्वितीयः सोपानः समाप्तः ।

कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका

यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ ।

(अयोध्याकाण्ड समाप्त)

उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित है, कमलके समान विशाल नेत्र हैं और मस्तकपर जटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित मार्गमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ २ ॥

सो०—उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति ।

पावहिं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति ॥

हे पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं, पण्डित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं । परंतु जो भगवान्से विमुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ [उन्हें सुनकर] मोहको प्राप्त होते हैं ।

चौ०—पुर नर भरत प्रीति में गाई । मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥

अव प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे वनसुर नर मुनि भावन ॥

पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार गान किया । अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वनमें कर रहे हैं ॥ १ ॥

एक वार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥

सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥

एक वार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथों से भाँति-भाँतिके गहने बनाये और सुन्दर स्फटिक शिलापर बैठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये २

सुरपति सुत धरि बायस बेषा । सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥

जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥

देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका बल देखना चाहता है । जैसे महान् मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ ॥

सीता चरन चौंच हति भागा । मूढ़ मंदमति कारन कागा ॥

चला रुधिर रघुनायक जाना । सीक धनुष सायक संधाना ॥

वह मूढ़, मन्दबुद्धि कारणसे (भगवान्के बलकी परीक्षा करनेके लिये) बना हुआ कौआ सीताजीके चरणोंमें चौंच मारकर भागा । जब रक्त वह चला, तब श्रीरघुनाथजीने जाना और धनुषपर सीक (सरकंडे) का बाण संधान किया ॥ ४ ॥

नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि संतोंका चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे [समझाकर] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया। उसने [जाकर] पुकारकर कहा—हे शरणागतके हितकारी! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥

आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [और कहा—] हे दयालु रघुनाथजी! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता (सामर्थ्य) को मैं मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६ ॥

निज कृत कर्म जनित फल पायउँ । अब प्रभु पाहिसरन तकि आयउँ ॥
सुनि कृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥

अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु! मेरी रक्षा कीजिये। मैं आपकी शरण तककर आया हूँ। [शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती! कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आर्त्त (दुःखभरी) वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥

सो०—कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित ।

प्रभु उ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम ॥ २ ॥

उसने किया था, इस पि उसका वध ही उचित था, पर प्रभुने और कौन होगा ? ॥ २ ॥

किए श्रुति सुधा समाना ॥

भीर सबहिं मोहि जाना ॥

किये, जो कानोंको अमृतके

मनमें ऐसा अनुमान किया

हो जायगी ॥ १ ॥

त चले द्यौ भाई ॥

हरषित भयऊ ॥

दो०—अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह ।

ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ १ ॥

श्रीरघुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपालु हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥

चौ०—प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥

धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विमुख राखा तेहि नाहीं ॥

मन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दौड़ा । कौआ भयभीत होकर भाग चला । वह अपना असली रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रक्खा ॥ १ ॥

भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ॥

ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥

तब वह निराश हो गया, उसके मनमे भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वासा ऋषिको चक्रसे भय हुआ था । वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमें थका हुआ और भय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा ॥ २ ॥

काहूँ बैठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥

मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥

[पर रखना तो दूर रहा] किसीने उसे बैठने तकके लिये नहीं कहा । श्रीरामजीके द्रोहीको कौन रख सकता है ? [काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़ सुनिये, उसके लिये माता मृत्युके समान, पिता यमराजके समान और अमृत विषके समान हो जाता है ।

मित्र करइ सत रिपु कै करनी । ता कहूँ विबुधनदी वैतरनी ॥

सब जगुताहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥

मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता है । देवनदी गङ्गाजी उसके लिये वैतरणी (यमपुरीकी नदी) हो जाती हैं । हे भाई ! सुनिये, जो श्रीरघुनाथजीके विमुख होता है, समस्त जगत् उसके लिये अग्निसे भी अधिक गरम (जलानेवाला) हो जाता है ।

नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित ॥

पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित ॥

हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय (बुद्धिके परे अथवा असीम) है। आप तरकस और धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों लोकोंके स्वामी, १३।

दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं ॥

मुनींद्र संत रंजनं । सुरारि वृंद भंजनं ॥ ४ ॥

सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संतोंको आनन्द देनेवाले तथा देवताओंके शत्रु असुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं ॥ ४ ॥

मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥

विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ ५ ॥

आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित, वैशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥

नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गतिं ॥

भजे सशक्ति सानुजं । शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥

हे लक्ष्मीपते ! हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति (इन्द्र) के प्रिय छोटे भाई (वामनजी) ! स्वरूपा-शक्ति श्री-गीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको मैं भजता हूँ ॥ ६ ॥

त्वदंघ्रि मूल ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥

पतंति नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले ॥ ७ ॥

जो मनुष्य मत्सर (डाह) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, तर्क-वितर्क (अनेक प्रकारके संदेह) रूपी तरंगोंसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते (आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते) ॥ ७ ॥

विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥

निरस्य इंद्रियादिकं । प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ ८ ॥

जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इंद्रियादिका निग्रह करके (उन्हें विषयोंसे हटा-कर) प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं वे स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

तमेकमद्भुतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विभुं ॥

जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥ ९ ॥

[इसलिये] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले । जब प्रभु अत्रिजीके आश्रममें गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये ॥ २ ॥

पुलकित गात अत्रि उठि धाए । देखि रामु आतुर चलि आए ॥
करत दंडवत मुनि उर लाए । प्रेम वारि द्वौ जन अन्हवाए ॥

शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दौड़े । उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी और भी शीघ्रतासे चले आये । दण्डवत् करत हुए ही श्रीरामजीको [जठाकर] मुनिने हृदयसे लगा लिया और प्रेमाश्रुओंके जलसे दोनों जनकों (दोनों भाइयोंको) नहला दिया ॥ ३ ॥

देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तव आने ॥
करि पूजा कहि वचन सुहाए । दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥

श्रीरामजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये । तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें ले आये । पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूल और फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥ ४ ॥

सो०—प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि ।

मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥

प्रभु आसनपर विराजमान हैं । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—॥ ३ ॥

छं०—नमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमलं ॥

भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥ १ ॥

हे भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल स्वभाववाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥

निकाम श्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं ॥

प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ २ ॥

आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार (आवागमन) रूपी समुद्रको मचनेके लिये मन्दराचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रवाले और मद आदि दोषोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ २ ॥

प्रलंब वाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥

निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ ३ ॥

दिव्य वसन भूपन पहिराए । जे नित नूतन अमल सुहाए ॥
कह गिपिवधू सरस मृदु वानी । नारिधर्म कछु व्याज बखानी ॥

और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाये, जो नित्य नये, निर्मल और नूतनसे बने रहते हैं। फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे स्त्रियोंके कुछ धर्म बखानकर कहने लगीं—॥ २ ॥

मानु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता वयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥

हे राजकुमारी ! मुनिये—माता, पिता भाई सभी हित करनेवाले हैं; परंतु ये सब एक सीमानक ही [सुख] देनेवाले हैं। परंतु हे जानकी ! पति तो [मोक्षरूप] असीम [सुख] देनेवाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३ ॥

धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥
वृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥

धर्म, धर्म, मित्र और स्त्री—इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, गंधी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन—॥ ४ ॥

गंसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कायँ वचन मन पति पद प्रेमा ॥

ऐसे भी पतिके अपमान करनेसे स्त्री जमपुरमें भाँति-भाँतिके दुःख पाती है। शरीर, वचन और मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना स्त्रीके लिये, वस, यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है ॥ ५ ॥

जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीं ॥
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥

जगत्में चार प्रकारकी पतिव्रताएँ हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी पतिव्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत्में [मेरे पतिको छोड़कर] हमारा पुरुष स्वप्नमें भी नहीं है ॥ ६ ॥

मध्यम परपति देखइ कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥
धर्म विचारि समुझि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥

उन (आप) को, जो एक (अद्वितीय), अद्भुत (मायिक जगत्से विलक्षण), प्रभु (सर्वसमर्थ), इच्छारहित, ईश्वर (सबके स्वामी), व्यापक, जगद्गुरु, सनातन (नित्य), तुरीय (तीनों गुणोंसे सर्वथा परे) और केवल (अपने स्वरूपमें स्थित) हैं ॥ ६ ॥

भजामि भाव वल्लभं । कृयोगिनां सुदुर्लभं ॥

स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥

[तथा] जो भावप्रिय, कृयोगियों (विपयी पुरुषों) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष (अर्थात् उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले), सम (पक्षपातरहित) और सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य हैं, मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ १० ॥

अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुर्विजा पतिं ॥

प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ ११ ॥

हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे जानकीनाथ ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मुझपर प्रसन्न होइये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये ।

पठन्ति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥

व्रजन्ति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२ ॥

जो मनुष्य इस स्तुतिकी आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपके परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ १२ ॥

दो०—विनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि ।

चरन सरोरुह नाथ जनि कवहुँ तजै मनि मोरि ॥ ४ ॥

मुनिने [इस प्रकार] विनती करके और फिर सिर नवा... नाथ और फर कहा—हे नाथ ! मेरी बुद्धि आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े ॥ ४ ॥

चौ०—अनुसुइया के पद गहि सीता । मिली यतोमि गुरीति विनीता ।

रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आरिषि नेप विनाट बैठा

फिर परम शीलवती और विनम्र सीताजीके [चरणकमलोंके] चरण पकड़कर उनसे मिली । रिषिपतिनीके पास बैठा

सीताजीको पास बैठा लिया—॥ ५ ॥

करेंगी। तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; यह (पातिव्रत-धर्मकी) कथा तो मैंने संसारके हितके लिये कही है ॥ ५ (ख) ॥

ची०—सुनि जानकीं परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥
तव मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना ॥

जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया । तब कृपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा—आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें जाऊँ ॥ १ ॥

संतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥
धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥

मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा । धर्मधुरन्धर प्रभु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले— ॥ २ ॥

जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी ॥
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीन बंधु मृदु बचन उचारे ॥

ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी (तत्त्ववेत्ता) जिनकी कृपा चाहते हैं, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके बन्धु भगवान् हैं; जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं ॥ ३ ॥

अब जानी मैं श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥

अब मैंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपहीको भजा । जिसके समान [सब बातोंमें] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील, भला ऐसा क्यों न होगा ? ॥ ४ ॥

केहि विधि कहौं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥
अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥

मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी ! आप अब जाइये ? हे नाथ ! आप अन्तर्यामी हैं, आप ही कहिये । ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । मुनिके नेत्रोंसे [प्रेमाधुओंका] जल बह रहा है और शरीर पुलकित है ॥ ५ ॥

मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता परायें पतिको कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना मगा भाई, पिता या पुत्र हो। (अर्थात् समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती है, बड़ेको पिताके रूपमें और छोटेको पुत्रके रूपमें देखती है।) जो धर्मको विचारकर और अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट (निम्नश्रेणीकी) स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं ॥७॥

बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥
पति वंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥

और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत्में उसे अधम स्त्री जानना। पतिको धोखा देनेवाली जो स्त्री परायें पतिसे रति करती है, वह तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है ॥ ८ ॥

छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझतेहि सम कोखोटी ॥
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥

क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ (असंख्य) जन्मोंके दुःखको नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी ? जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत-धर्मको ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती है ॥ ९ ॥

पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥

किंतु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानीमें) विधवा हो जाती है ॥ १० ॥

सो—सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ ।

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५(क) ॥

स्त्री जन्मसे ही अपवित्र है, किंतु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। [पातिव्रत-धर्मके कारण ही] आज भी 'तुलसीजी' भगवान्को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ (क) ॥

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं ।

तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥ ५(ख) ॥

हे सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर स्त्रियाँ पातिव्रत-धर्मका पालन

दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीच
पाया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने स्वामीको पहचानकर सुन्दर
रास्ता दे देते हैं ॥ २ ॥

जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया । करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥

मिला असुर विराध मग जाता । आवतहीं रघुबीर निपाता ॥

जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते जाते
हैं। रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला।

तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥

मुनि आए जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संग्ता ॥

[श्रीरामजीके हाथसे मरते ही] उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य) रूप प्राप्त कर
लिया। दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया। फिर वे सुन्दर छोटे भाई
लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी थे ॥ ४ ॥

दो०—देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग ।

सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौरे अत्यन्त आदर-
पूर्वक उसका [मकरन्दरस] पान कर रहे हैं। शरभंगजीका जन्म धन्य है ॥ ७ ॥

चौ०—कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥

जात रहेउँ विरंचि के धामा । सुनेउँ श्रवन वन ऐहहिं रामा ॥

मुनिने कहा—हे कृपालु रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राज-
हंस ! सुनिये, मैं ब्रह्मलोकको जा रहा था। [इतनेमें] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें
आवेंगे ॥ ९ ॥

चितवत पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥

नाथ सकल साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥

तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब (आज) प्रभुको देखकर
मेरी छाती शीतल हो गयी। हे नाथ ! मैं सब साधनोंसे हीन हूँ। आपने अपना दीन
सेवक जानकर मुझपर कृपा की है ॥ २ ॥

छं०—तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए ।

मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए ॥

जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई ।

रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥

मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंको श्रीरामजीके मुखकमलमें लगाये हुए हैं। [मनमें विचार रहे हैं कि] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये थे, जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके दर्शन पाये। जप, योग और धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है। श्रीरघुवीरके पवित्र चरित्रको तुलसीदास अत-दिन गाता है।

दो०—कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल ।

सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ६(क) ॥

श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला, मनको दमन करनेवाला और सुखका मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर श्रीरामजी सन्न रहते हैं ॥ ६ (क) ॥

सो०—कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप ।

परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ ६(ख) ॥

यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न जोग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६ (ख) ॥

ती०—मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले वनहि सुर नर मुनि ईसा ॥

आगे राम अनुज पुनि पाछें । मुनि बर वेष बने अति काछें ॥

मुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके स्वामी श्रीरामजीको चले। आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं। दोनों ही मुनियों-नु सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ १ ॥

भय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥

परिता वन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं वर बाटा ॥

फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमें चले । श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके साथ हो लिये । हड्डियोंका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होंने मुनियोंसे पूछा । ३।
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥
निसिचर निकर सकल मुनिखाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥

[मुनियोंने कहा—] हे स्वामी ! आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ) और अन्तर्यामी (सबके हृदयकी जाननेवाले) हैं । जानते हुए भी [अनजानकी तरह] हमसे कैसे पूछ रहे हैं ? राक्षसोंके दलोंने सब मुनियोंको खा डाला है [ये सब उन्हींकी हड्डियोंके ढेर हैं] । यह सुनते ही श्रीरघुवीरके नेत्रोंमें जल छा गया (उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये) ॥ ४ ॥

दो०—**निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।**

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ६ ॥

श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूंगा । फिर समस्त मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [दर्शन एवं सम्भाषणका] सुख दिया ॥ ६ ॥

चौ०—**मुनिअगस्ति कर सिष्यसुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥**

मन क्रम वचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्षण नामक सुजान (ज्ञानी) शिष्य थे, उनकी भगवान्में प्रीति थी । वे मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे । उन्हें स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥ १ ॥

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥
हे विधि दीनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥

उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारके मनोरथ करते हुए वे आतुरता (शीघ्रता) से दौड़ चले । हे विधाता ! क्या दीनबन्धु श्रीरघुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया करेंगे ? ॥ २ ॥

सहित अनुज मोहि राम गोसाईं । मिलिहहिं निज सेवक की नाईं ॥
मारे जियँ भरोस दृढ़ नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥

क्या स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित मुझसे अपने सेवककी तरह मिलेंगे ? मेरे हृदयमें दृढ़ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है ।

सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज प्रन राखेउ जन मन चोरा ॥
तव लागि रहहु दीन हित लागी । जब लागि मिलौं तुम्ह हित नुत्यागी ॥

हे देव ! यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है । हे भक्त-मनचोर ! ऐसा करके आपने अपने प्रणकी ही रक्षा की है । अब इस दीनके कल्याणके लिये तब-तक यहाँ ठहरिये जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे- [आपके घाममें न] मिलूं ॥ ३ ॥

जोग जग्य जप तप व्रत कीन्हा । प्रभु कहँ देइ भगति वर लीन्हा ॥
एहि विधिसर रचि मुनि सरभंगा । बैठे हृदयँ छाड़ि सब संग्गा ॥

योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको समर्पण करके बदलेमें भक्तिका वरदान ले लिया । इस प्रकार [दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर] चित्ता रचकर मुनि शरभंगजी हृदयसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे ॥४॥

दो०—सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम ।

मम हियँ वसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥

हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी ! सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु (आप) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ८ ॥

चौ०—असकहिजोगअगिनितनुजारा । राम कृपाँ वैकुण्ठ सिधारा ॥

ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगतिवरलयऊ ॥

ऐसा कहकर शरभंगजीने योगाग्निसे अपने शरीरको जला डाला और श्रीरामजीकी कृपासे वे वैकुण्ठको चले गये । मुनि भगवान्में लीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १ ॥

रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदयँ विसेषी ॥

अस्तुति करहिं सकल मुनि वृन्दा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥

ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [दुर्लभ] गति देखकर अपने हृदयमें विशेष रूपसे सुखी हुए । समस्त मुनिवृन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [और कह रहे हैं] शरणागतहितकारी करुणाकन्द (करुणाके मूल) प्रभुकी जय हो ! ॥ २ ॥

पुनि रघुनाथ चले वन आगे । मुनिवर वृन्द विपुल सँग लागे ॥

अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥

उनका णरीर रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान [कण्टकित] हो गया । तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने भक्त की प्रेमदशा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥

मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥

भूप रूप तव राम दुरावा । हृदयँ चतुर्भुज रूप देखावा ॥

श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्योंकि उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था । तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया और उनके हृदयमें अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥ ९ ॥

मुनि अकुलाइ उठा तव कैसें । विकल हीन मनि फनिवर जैसें ॥

आगेँ देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥

तब (अपने इष्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही) मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ (मणिधर) सर्प मणिके बिना व्याकुल हो जाता है । मुनिने अपने सामने सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दरविग्रह, सुखधाम श्रीरामजीको देखा ॥ १० ॥

परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी ॥

भुज विसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥

प्रेममें मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणोंमें लग गये । श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हृदयसे लगा रखवा ॥ ११ ॥

मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥

राम वदनु विलोक मुनि ठाढ़ा । मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥

कृपालु श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके वृक्षसे तमालका वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो । मुनि [निस्तब्ध] खड़े हुए [टकटकी लगाकर] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं । मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों ॥ १२ ॥

दो०—तव मुनि हृदयँ धीर धरि गहि पद बारहिं बार ।

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥ १० ॥

तब मुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया । फिर प्रभुको अपने आश्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० ॥

नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा ॥
एक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥

मनं न तो सत्सङ्ग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रभुके चरणकमलोंमें मेरा दृढ़ अनुराग ही है । हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक वान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है ॥ ४ ॥

होइहैं सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भव मोचन ॥
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥

[भगवान्की इस वानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्न होकर मन-ही-मन कहने लगे—] अहा ! भवबन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे । [शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमग्न हैं । उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ ५ ॥

दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा ॥
कवहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥

उन्हें दिशा-विदिशा (दिशाएँ और उनके कोण आदि) और रास्ता, कुछ भी नहीं सूझ रहा है । मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते (इसका भी ज्ञान नहीं है) । वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी [प्रभुके] गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं ॥ ६ ॥

अविरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखैं तरु ओट लुकाई ॥
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा ॥

मुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । प्रभु श्रीरामजी वृक्षकी आड़में छिपकर [भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा] देख रहे हैं । मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय (आवा-गमनके भय) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥

मुनि मग माझ अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥
तव रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥

[हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर] मुनि बीच रास्तेमें अचल (स्थिर) होकर

हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप ! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत !
हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी !
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

भक्त कल्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥

जो भक्तोंके लिये कल्पवृक्षके वगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और कामको डरानेवाले
हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वजा
श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभंजन नामः ॥
धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥

जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम कलियुगके
बड़े भारी पापोंका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच (रक्षक) हैं और जिनके गुण-
समूह आनन्द देनेवाले हैं, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८ ॥

जदपि विरज व्यापक अविनासी । सब के हृदयँ निरन्तर बासी ॥
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥

यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदयमें निरन्तर निवास करने-
वाले हैं; तथापि हे खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले
॥ १५ ॥ इसी रूपमें मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ९ ॥

जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥
जो कोसल पति राजिव नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥

हे स्वामी ! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें,
मेरे हृदयको तो कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावे ॥ १० ॥

अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥
सुनि मुनि वचन राम मन भाए । बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए ॥

ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी मेरे स्वामी

चौ०—कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी ॥

महिमा अमित मोरि मति थोरी । रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी ॥

मुनि कहने लगे—हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये । मैं किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ ? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है । जैसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला ! ॥१॥

श्याम तामरस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं ॥

पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥

हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाले ! हे जटामोंका मुकुट और मुनियोंके (वल्कल) वस्त्र पहने हुए, हाथोंमें धनुष-बाण लिये तथा कमरमें तरकस बसे हुए श्रीरामजी ! मैं आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥

निशिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग वाजः ॥

जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हैं, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं और भव (आवागमन) रूपी पक्षीके मारनेके लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥

अरुण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकौर निशेशं ॥

हर हृदि मानस बाल मरालं । नौमि राम उर बाहु विशालं ॥

हे लाल कमलके समान नेत्र और सुन्दर बंधवाले ! सीताजीके नेत्ररूपी चकौरके चन्द्रमा, शिवजीके हृदयरूपी मानमरोवरके बालहंस, विशाल हृदय और भुजावाले श्रीराम-चन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥

संशय सर्प ग्रसन उरगादः । शमन सुकर्कश तर्क विपादः ॥

भव भंजन रंजन सुर यूथः । त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥

जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं, अत्यन्त कठोर तर्कने उत्पन्न होनेवाले विपादनाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवनाओंके समूहको आनन्द देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥

निर्गुण सगुण विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥

अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं ॥

अब मैं भी प्रभु (आप) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ । इसमें हे नाथ ! आपपर मेरा कोई एहसान नहीं है । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे ॥ २ ॥

पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥
तुरत सुतीक्ष्ण गुर पहिं गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥

रास्तेमें अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओके राजराजेश्वर श्रीरामजी अगस्त्य मुनिके आश्रमपर पहुँचे । सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये और दण्डवत् करके ऐसा कहने लगे—॥ ३ ॥

नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥
राम अनुज समेत बैदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥

हे नाथ ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव ! आप रात-दिन जप करते रहते हैं ॥ ४ ॥

सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥
मुनि पद कमल परे द्यौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥

यह गुनने ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े । भगवान्को देखते ही उनके नेत्रोंमें [आनन्द और प्रेमके आँसुओंका] जल भर आया । दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर गिर पड़े । ऋषिने [उठाकर] बड़े प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥ ५ ॥

सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी । आसन बर बैठारे आनी ॥
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥

जानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया । फिर बहूत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा—मेरे समान भाग्यवान् आज दूसरा कोई नहीं है ।

जहँ लगि रहे अपर मुनिवृंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥

वहाँ ब्रह्मलोक (जितने भी) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके दर्शन करते हर्षित हो गये ॥ ७ ॥

हैं। मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनिको हृदयसे लगा लिया ॥ ११ ॥

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो वर मागहु देउँ सो तोही ॥
मुनि कह मैं वर कवहुँ न जाचा । समुझि न परइ झूठ का साचा ॥

[और कहा—] हें मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर मांगो, वही मैं तुम्हें दूँ । मुनि सुतीक्ष्णजीने कहा—मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है (क्या माँगूँ, क्या नहीं) ॥ १२ ॥

तुम्हहि नीक लागै रघुराई । सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥
अविरल भगति विरति विग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥

[अतः] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिये । [श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे मुनि !] तुम प्रगाढ़ भक्ति, वंराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥

प्रभु जो दीन्ह सो वरु मैं पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥

[तब मुनि बोले—] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया । अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिये—॥ १४ ॥

दो०—अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान धर राम ।

मम हिय गगन इंदु इव वसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥

हे प्रभो ! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजी सहित धनुष-बाणधारी आप निष्काम (स्थिर) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये ।

चौ०—एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चलेकुंभज रिषि पासा ॥

बहुत दिवस गुरु दरसन पाएँ । भए मोहि एहि आश्रम आएँ ॥

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले । [तब सुतीक्ष्णजी बोले—] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये और इस आश्रममें आये मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥

अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥

देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग विहसे द्यौँ भाई ॥

सिवा] दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षण करनेवाला कठिन और कराल काल है । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है ॥ ४ ॥

ते तुम्ह सकल लोकपति साईं । पूँछेहु मोहि मनुज की नाईं ॥
यह वर मागउँ कृपानिकेता । वसहु हृदयँ श्री अनुज समेता ॥

उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रश्न किया । हे कृपाके धाम ! मैं तो यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसा—रि हृदयमें [सदा] निवास कीजिये ॥ ५ ॥

अविरल भगति विरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता ॥

मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग और आपके चरणकमलोंमें अटूट प्रेम प्राप्त हो । यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं; ॥ ६ ॥

अस तव रूप बखानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरति मानउँ ॥
संतत दासन्ह देहु बड़ाई । तातेँ मोहि पूँछेहु रघुराई ॥

यद्यपि मैं आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ । तो भी लौट-लौटकर मैं सगुण ब्रह्ममें (आपके इस सुन्दर स्वरूपमें) ही प्रेम मानता हूँ । आप मेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसीसे हे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥७॥

है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचवटी तेहि नाऊँ ॥
दंडक वन पुनीत प्रभु करहू । उग्र साप मुनिबर कर हरहू ॥

हे प्रभो ! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है । हे प्रभो ! आप दण्डकवनको [जहाँ पञ्चवटी है] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ ॥

वास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल मुनिह पर दाया ॥
चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहिं पंचवटी निअराई ॥

हे रघुकुलके स्वामी ! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं निवास कीजिये । मुनिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये और शीघ्र ही पञ्चवटीके निकट पहुँच गये ॥९॥

दो०—मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब की ओर ।

सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥

मुनियोंके समूहमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं (अर्थात् प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हैं)। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२ ॥

चौ०—तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥

तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुझायउँ ॥

तब श्रीरामजीने मुनिसे कहा—हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं । मैं जिस कारणसे आया हूँ, वह आप जानते ही हैं । इसीसे हे तात ! मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा ॥ १ ॥

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारौं मुनिद्रोही ॥

मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥

हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र (सलाह) दीजिये, जिस प्रकार मैं मुनियोंके द्रोही राक्षसोंको मारूँ । प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये और बोले—हे नाथ ! आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है ? ॥ २ ॥

तुम्हरेइँ भजन प्रभाव अघारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥

ऊमरि तरु विसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥

हे पापोंका नाश करनेवाले ! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी-सी महिमा जानता हूँ । आपकी माया गूलरके विशाल वृक्षके समान है, अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं ॥ ३ ॥

जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥

ते फल भच्छक कठिन कराला । तब भयँ डरत सदा सोड काला ॥

चर और अचर जीव [गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे] जन्तुओंके समान उन [ब्रह्माण्डरूपी फलों] के भीतर बसते हैं और वे [अपने उस छोटे-से जगत्के

हे प्रभो ! ईश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें
री प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायँ ॥ १४ ॥

१०—थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥
मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे तात ! मैं थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ । तुम
न, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो । मैं और मेरा, तू और तेरा—यही माया है, जिसने
मस्त जीवोंको वशमें कर रक्खा है ॥ १ ॥

गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥
बिहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥

इन्द्रियोंके विषयोंको और जहाँतक मन जाता है, हे भाई ! उस सबको माया
मानना । उसके भी—एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो—॥ २ ॥

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कूपा ॥
एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥

एक (अविद्या) दुष्ट (दोषयुक्त) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर
जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है । और एक (विद्या) जिसके वशमें गुण है और जो जगत्-
की रचना करती है, वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥

ध्यान मान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥
कहिअ तात सो परम विरागी । तृन सम सिद्धि तीनिगुन त्यागी ॥

ज्ञान वह है जहाँ (जिसमें) मान आदि एक भी [दोष] नहीं है और जो सबमें
समानरूपसे ब्रह्मको देखता है । हे तात ! उसीको परम वैराग्यवान् कहना चाहिये जो सारी
सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४ ॥

[जिसमें मान-दम्भ हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्यसेवाका अभाव, अपवित्रता,
अस्थिरता, मनका निगूहीत न होना, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-
जरा-व्याधिमय जगत्में सुखबुद्धि, स्त्री-पुत्र, घर आदिमें आसक्ति तथा ममता, इष्ट और
अनिष्टको प्राप्तिमें हर्ष-शोक, भक्तिका अभाव, एकान्तमें मन न लगाना, विषयी मनुष्योंके संग-
में प्रेम—ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म (आत्मा) में स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ

दो०—गोधराज सैं भेंट भइ बहु विधि प्रीति बढ़ाइ ।

गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ॥ १३ ॥

वहाँ गृध्रराज जटायुसे भेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीराम-चन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पणकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥

चौ०—जब ते राम कीन्ह तहँ वासा । सुखी भए मुनि वीती त्रासा ॥

गिरि वन नदीं ताल छवि छाए । दिनदिन प्रतिअतिहोहिं सुहाए ॥

जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता रहा । पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुहावने [मालूम] होने लगे ॥ १४ ॥

खग मृग वृंद अनंदित रहहीं । मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं ॥

सो वन वरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा ॥

पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं ! जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं, उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २ ॥

एक वार प्रभु सुख आसीना । लछिमन वचन कहे छलहीना ॥

सुर नर मुनि सचराचर साईं । मैं पूछउँ निज प्रभु की नाईं ॥

एक वार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे । उस समय लक्ष्मणजीने उनसे छल-रहित (सरल) वचन कहे—हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी ! मैं अपने प्रभुकी तरह (अपना स्वामी समझकर) आपसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥

मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥

कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सोभगति करहु जेहिं दाया ॥

हे देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरणरजकी ही सेवा करूँ । ज्ञान, वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४ ॥

दो०—ईस्वर जीव भेट प्रभु सकल कहौ समुझाइ ।

जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ १४ ॥

संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥

जिसका संतोंके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे भजनका दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो; ॥ ५ ॥

मम गुण गावत पुलक सरीरा । गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाकेँ । तात निरंतर बस मैं ताकेँ ॥

मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय और नेत्रोंसे [प्रेमाश्रुओंका] जल बहने लगे और काम, मद और दम्भ आदि जिसमें न हों, हे भाई ! मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥ ६ ॥

दो०—वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम ।

तिन्ह के हृदय कमल महँ करउँ सदा विश्राम ॥ १६ ॥

जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी ही गति है; और जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमें मैं सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ ॥

चौ०—भगतिजोगसुनिअतिसुखपावा।लछिमनप्रभुचरनन्हिसिरुनावा॥

एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥

इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रीराम-चन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया । इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥

सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥

पंचवटी सो गइ एक वारा । देखि विकल भइ जुगल कुमारा ॥

शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिनके समान भयानक और दुष्ट हृदयकी थी । वह एक वार पञ्चवटीमें गयी और दोनों राजकुमारोंको देखकर विकल (कामसे पीड़ित) हो गयी ॥ २ ॥

भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥

होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्रवरविहि विलोकी ॥

(तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है ।
[देखिये गीता अ० १३ । ७ से ११]

बो०—माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव ।

बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ १५ ॥

जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिये ।

जो [कर्मानुसार] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है ।

बो०—धर्म तें विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥

जातें वेगि द्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥

धर्म [के आचरण] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है—ऐसा वेदोंने वर्णन किया है । और हे भाई ! जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ १ ॥

सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥

भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥

वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसको [ज्ञान-विज्ञान आदि किसी] दूसरे साधनका सहारा (अपेक्षा) नहीं है । ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूल है; और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल (प्रसन्न) होते हैं ॥ २ ॥

भगति कि साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्राणी ॥

प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती । निजनिज कर्म निरत श्रुतिरीती ॥

अब मैं भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ—यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं । पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [वर्णाश्रमके] कर्मोंमें लगा रहे ॥ ३ ॥

एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तव मम धर्म उपज अनुरागा ॥

श्रवनादिक नव भक्ति दृढाहीं । मम लीलारति अति मन माहीं ॥

इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब (वैराग्य होनेपर) मेरे धर्म (भागवत धर्म) में प्रेम उत्पन्न होगा । तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मनुमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥

मोक्ष चाहे; तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चाहते हैं (अर्थात्
 तको सम्भव करना चाहते हैं) ॥ ८ ॥

तहिर राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहिं बहुरि पठाई ॥
 न कहा तोहि सो बरई । जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥

वह लौटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी । प्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास
 दिया । लक्ष्मणजीने कहा—तुम्हें वही वरेगा जो लज्जाको तृण तोड़कर (अर्थात्
 करके) त्याग देगा (अर्थात् जो निपट निर्लज्ज होगा) ॥ ९ ॥

खिसिआनि राम पहिं गई । रूप भयंकर प्रगटत भई ॥
 तहि समय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥

तब वह खिसियायी हुई (क्रुद्ध होकर) श्रीरामजीके पास गयी और उसने अपना
 यङ्कर रूप प्रकट किया । सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा
 कर कहा ॥ १० ॥

दो०—लछिमन अति लाघवँ सो नाक कान विनु कीन्हि ।
 ताके कर रावन कहँ मनौ चुनौती दीन्हि ॥ १७ ॥

लक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया । मानो उसके हाथ
 रावणको चुनौती दी हो ! ॥ १७ ॥

चौ०—नाक कान विनु भइ विकरारा । जनु खव सैल गेरु कै धारा ।
 खर दूषन पहिं गइ विलपाता । धिग धिगतव पौरुष बल भ्राता ।

बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी । [उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार ब
 लगा] मानो [काले] पर्वतसे गेरुकी धारा बह रही हो । वह विलाप करती हुई
 दूषणके पास गयी [और बोली—] हे भाई ! तुम्हारे पौरुष (वीरता) को धि
 है, तुम्हारे बलको धिक्कार है ॥ १८ ॥

तेहिं पूछ सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बन
 धाए निसिचर निकर बरुथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि ज

उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखाने सब समझाकर कहा । सब सुनकर राक्ष
 तैवार की । राक्षससमूह झुंड-के-झुंड दौड़े । मानो पंखधारी काजलके पर्वतोंका झुंड

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं— [हे गहड़जी ! [शूर्पणखा-जैसी राक्षसी, धर्मज्ञान-शून्य कामान्ध] स्त्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती । जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो जाती है (ज्वालासे पिघल जाती है) ॥ ३ ॥

रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली वचन बहुत मुसुकाई ॥
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा विचारी ॥

वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली—
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री ! विधाताने यह संयोग (जोड़ा) बहुत विचारकर रचा है ॥ ४ ॥

मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेउँ खोजि लोक तिहु नाहीं ॥
तातेँ अब लागि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥

मेरे योग्य पुरुष (वर) जगत्भरमें नहीं है, मैंने तीनों लोकोंको खोज देखा । इसीसे मैं अबतक कुमारी (अविवाहित) रही । अब तुमको देखकर कुछ मन माना (चित्त ठहरा) है ॥ ५ ॥

सीतहि चितइ कही प्रभु वाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥

सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है । तब वह लक्ष्मणजीके पास गयी । लक्ष्मणजी उसे शत्रुकी बहिन समझकर और प्रभुकी ओर देखकर कोमल वाणीसे बोले— ॥ ६ ॥

सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा । पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहिं उनहि सव छाजा ॥

हे सुन्दरी ! सुन, मैं तो उनका दास हूँ । मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता (सुख) न होगा । प्रभु समर्थ हैं, कोसलपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फवता है ॥ ७ ॥

सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति विभिचारी ॥
लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी ॥

सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी (जिसे जुए, शराब आदिका व्यसन)

कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकतमणि (पत्ते) के पर्वतपर करोड़ों विजलियोंसे दो साँप लड़ रहे हों । कमरमें तरकस कसकर, विशाल भुजाओंमें धनुष लेकर और वाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं । मानो मतवाले हाथियोंके समूहको [आता] देखकर सिंह [उनकी ओर] ताक रहा हो ।

सो०—आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट ।

जथा बिलोकि अकेल बाल रविहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥

‘पकड़ो-पकड़ो’ पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर (बड़ी तेजीसे) दौड़े हुए आये [और उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया], जैसे बालसूर्य (उदय-कालीन सूर्य) को अकेला देखकर मन्देह नामक दैत्य घेर लेते हैं ॥ १८ ॥

चौ०—प्रभु बिलोकिसर सकहिं न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥

सचिव बोलि बोले खर दूषन । यह कोउ नृपबालक नर भूषन ॥

[सौन्दर्य-माधुर्य-निधि] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना थकित रह गयी । वे उनपर वाण नहीं छोड़ सके । मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा—यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण है ॥ १ ॥

नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥

हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥

जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं । पर हे सब भाइयो ! सुनो, हमने जन्मभरमें ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २ ॥

जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । वध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥

देहु तुरत निज नारि दुराई । जीअत भवन जाहु द्वौ भाई ॥

यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं । ‘छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ’ ॥ ३ ॥

मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥

दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत राम बोले मुसुकाई ॥

नाना वाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥
सूपनखा आगे करि लीनी । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥

वे अनेकों प्रकारकी सवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार (सूरतों) के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए हैं। उन्होंने नाक-कान कटो हुई अमङ्गलरूपिणी शूर्पणखाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥

असगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मृत्यु विवस सबझारी ॥
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं । देखि कटकु भट अति हरषाहीं ॥

अनगिनत भयंकर अशकून हो रहे हैं। परंतु मृत्युके वश होनेके कारण वे सबके-सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाशमें उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धालोग बहुत ही हर्षित होते हैं ॥ ४ ॥

कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई । धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई ॥
धूरि पूरि नभ मंडल रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥

कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्रीको छीन लो, आकाशमण्डल धूलसे भर गया। तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कहा—

लै जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥
रहेहु सजग सुनि प्रभु कै वानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥

राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें धनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६ ॥

देखि राम रिपुदल चलि आवा । विहसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥
शत्रुओंकी सेना [समीप] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हँसकर कठिन धनुषको चढ़ाया ॥ ७ ॥

छं०—कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों ।
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥
कटि कसि निपंग विसाल भुज गहि चाप त्रिसिखसुधारि कै ।
चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि

का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टड्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और
 डुल हो गये। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा।

०-सावधान होइ धाए जानि सबल आराति ।
 लागे बरषन राम पर अस्र सस्र बहुभाँति ॥१६(क)॥

फिर वे शत्रुको बलवान् जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर
 हुत प्रकारके अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे ॥ १६ (क) ॥

तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर ।
 तानि सरासन श्रवन लागि पुनि छाँड़े निज तीर ॥१६(ख)॥

श्रीरघुबीरजीने उनके हथियारोंको तिलके समान (टुकड़े-टुकड़े) करके काट
 डाला। फिर धनुषको कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १६(ख) ॥

छ०-तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥
 कोपेउ समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥

तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं। श्रीरा
 मचन्द्रजी संग्राममें क्रुद्ध हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले ॥ १ ॥

अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥
 भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ ॥

अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब
 दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले—जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २ ॥

तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥
 आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहिं प्रहार ॥

उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए र
 पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे श्रीरामजीपर प्रहार करने ल

रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि
 छाँड़े बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच

शत्रुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-
 जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे ॥ ४ ॥

मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन (उत्तर) सुनकर शीघ्र आओ । दूतोंने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी मुसकराकर बोले—॥ ४ ॥

हम छत्री मृगया वन करहीं । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं । एक वार कालहु सन तरहीं ॥

हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो ढूँढ़ते ही फिरते हैं । हम बलवान् शत्रुको देखकर नहीं डरते । [लड़नेको आवे तो] एक वार तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं ॥ ५ ॥

जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥
जौं न होइ बल घर फिरि जाहू । समर विमुख में हतउँ न काहू ॥

यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्यकुलका नाश करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हैं । हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाले । यदि बल न हो तो घर लौट जाओ । संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको मैं नहीं मारता ॥ ६ ॥

रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ ॥

रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना (दया दिखाना) तो बड़ी भारी कायरता है । दूतोंने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ ७ ॥

छं०—उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए विकट भट रजनीचरा ।

सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा ॥

प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ।

भए वधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥

[खर-दूषणका] हृदय जल उठा । तब उन्होंने कहा—पकड़ लो (कैद कर लो) ।

[यह सुनकर] भयानक राक्षस योद्धा वाण, धनुष, तोमर, शक्ति (सांग), शूल (बरछी), कृपाण (कटार), परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े, प्रभु श्रीरामजीने

बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये। बहुत-से, जिनके हृदय विदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर-दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुड़े ॥ २ ॥

सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं ।

करि कोप श्रीरघुवीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥

प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका ।

दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥३॥

अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे। प्रभुने पलभरमें शत्रुओंके बाणोंको काटकर ललकारकर उनपर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥

महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी ।

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो ।

देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरयो ॥४॥

योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं। फिर उठकर भिड़ते हैं। मरते नहीं, बहुत प्रकारकी अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत (राक्षस) चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं। देवता और मुनियोंको भयभीत देखकर मायाके स्वामी प्रभुने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओंकी सेना एक-दूसरेको रामरूप देखने लगी और आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥

दो०—राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्वाण ।

करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान ॥२०(क)॥

सब ['यही राम है, इसे मारो' इस प्रकार] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण (मोक्ष) पद पाते हैं। कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके क्षणभरमें शत्रुओंको मार डाला ॥ २० (क) ॥

हरषित वरषहिं सुमन सुर वाजहिं गगन निसान ।

अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध विमान ॥२०(ख)॥

उर सीस भुज कर चरन । जहँ तहँ लगे महि परन ॥

चिक्करत लागत वान । धर परत कुधर समान ॥

उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिरने लगे । बाण लगते ही वे हाथीकी तरह चिगाड़ते हैं । उनके पहाड़के समान घड़ कट-कटकर गिर रहे हैं ॥ ५ ॥

भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड ॥

नभ उड़त बहु भुज मुंड । विनु मौलि धावत रुंड ॥

योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं । वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं । आकाशमें बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिरके घड़ दौड़ रहे हैं ॥ ६ ॥

खग कंक काक सृगाल । कटकटहिं कठिन कराल ॥

चील [या क्राँच], कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट-कट शब्द कर रहे हैं ॥ ७ ॥

छं०—कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं ।

वेताल वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नंचहीं ॥

रघुवीर वान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा ।

जहँ तहँ परहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहिं भयकर गिरा ॥१॥

सियार कटकटाते हैं, भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं [अथवा ब्रप्पर भर रहे हैं] । वीर-वेताल खोपड़ियोंपर ताल दे रहे हैं और योगिनिर्धा नाच रही हैं । श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओंके वक्षःस्थल, भुजा और सिरोंके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं । उनके घड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं । फिर उठते और लड़ते हैं और 'पकड़ो-पकड़ो' का भयंकर शब्द करते हैं ॥ १ ॥

अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं ।

संग्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥

मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहँरत परे ।

अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ २ ॥

अंतद्वियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हींका दूसरा छोर हाथसे पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं । ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से

नम्रताके बिना (नम्रता न होनेसे) प्रीति और मद (अहंकार) से गुणवान् शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है ॥ ६ ॥

सो०—रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि ।

अस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२१(क)॥

शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहिये ।

ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (क) ॥

दो०—सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ ।

तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२१(ख)॥

[रावणकी] सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ? ॥ २१ (ख) ॥

चौ०—सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुझाई गहि बाँह उठाई ॥

कह लंकेस कहसि निज बाता । केइँ तव नासा कान निपाता ॥

शूर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद् अकुला उठे । उन्होंने शूर्पणखाकी बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया । लङ्कापति रावणने कहा—अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक-कान काट लिये ? ॥ १ ॥

अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुष सिंघ बन खेलन आए ॥

समुझि परी मोहि उन्ह कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥

[वह बोली—] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, वनमें शिकार खेलने आये हैं । मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे ॥ २ ॥

जिन्ह कर भुजवल पाइ दसानन । अभय भए बिचरत मुनि कानन ॥

देखत बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥

जिनकी भुजाओंका बल पाकर दशमुख ! मुनिलोग वनमें निर्भय होकर विचरने लगे हैं । वे देखनेमें तो बालक हैं, पर हैं कालके समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३ ॥

देवता हृषित होकर फूल बरसाते हैं, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर-करके अनेकों विमानोंपर सुशोभित हुए चले गये ॥ २० (ख) ॥

चौ०—जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय वीते ॥

तब लछिमन सीतहि लै आए । प्रभु पद परत हरषि उर लाए ॥

जब श्रीरघुनाथजीने युद्धमें शत्रुओंको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीकी ले आये। चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥

सीता चितव स्याम मृदु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥

पंचवटीं वसि श्रीरघुनाथक । करत चरित सुर मुनिसुखदायक ॥

सीताजी श्रीरामजीके श्याम और कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पञ्चवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २ ॥

धुआँ देखि खरदूषण केरा । जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा ॥

वोली वचन क्रोध करि भारी । देस कोस कै सुरति बिसारी ॥

खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली—तूने देश और खजानेकी सुधि ही भुला दी ॥ ३ ॥

करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥

राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥

विद्या बिनु विवेक उपजाएँ । श्रम फल पदें किँएँ अरु पाएँ ॥

संग तें जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥

शराब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिरपर खड़ा है? नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे, भगवान्को समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़नेसे परिणाममें श्रम ही हाथ लगता है। विषयोंके सङ्गसे संन्यासी, दुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरा-पानसे लज्जा, ॥ ४-५ ॥

प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहिं वेगि नीति अस

पार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभुके बाण [के आघात]
 बाण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ २ ॥

इहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृढ एहा ॥
 नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥

इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन, वचन और कर्मसे यही
 दृढ निश्चय है। और यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर
 उनकी स्त्रीको हर लूँगा ॥ ३ ॥

चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ । बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥
 इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥

[यों विचारकर] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके
 तटपर मारीच रहता था। [शिवजी कहते हैं कि—] हे पार्वती! यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने
 जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥

दो०—लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद ।
 जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बृंद ॥ २३ ॥

लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वनमें गये तब [अकेलेमें] कृपा अ
 सुखके समूह श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे बोले—॥ २३ ॥

चौ०—सुनहुप्रियाव्रतरुचिरसुसीला । मैं कछु करबि ललित नरलीला
 तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौ लागि करौं निसाचर नासा

हे प्रिये ! हे सुन्दर पातिव्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो । मैं
 कुछ मनोहर मनुष्यलीला करूँगा । इसलिये जबतक मैं राक्षसोंका नाश करूँ, तबतक
 अग्निमें निवास करो ॥ १ ॥

जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभुपद धरि हियँ अनलसमान
 निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तैसइ सील रूप सुबिनी

श्रीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके च
 हृदयमें धरकर अग्निमें समा गयीं । सीताजीने अपनी ही छायामूर्ति वहाँ रख दी, ज
 जैसे ही शील-स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र थी ॥ २ ॥

अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता । खल वध रत सुर मुनि सुखदाता ॥

सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥

दोनों भाइयोंका बल और प्रताप अतुलनीय है । वे दुष्टोंके वध करनेमें लगे हैं और देवता तथा मुनियोंको सुख देनेवाले हैं । वे शोभाके धाम हैं, 'राम' ऐसा उनका नाम है । उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्त्री है ॥ ४ ॥

रूप रासि विधि नारि सँवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥

तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनितवभगिनिकरहिं परिहासा ॥

विघाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ रति (काम-देवकी स्त्री) उसपर निछावर हैं । उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले । मैं तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने लगे ॥ ५ ॥

खर दूषन सुनि लगे पुकारा । छन महुँ सकलकटक उन्ह मारा ॥

खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥

मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणभरमें सारी सेनाको मार डाला । खर-दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अङ्ग जल उठे ॥ ६ ॥

दो०—सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भौँति ।

गयउ भवन अति सोचवस नीद परइ नहिं राति ॥ २२ ॥

उसने शूर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया; किंतु [मनमें] वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ २२ ॥

दो०—सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीं ॥

खर दूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को मारइ विनु भगवंता ॥

[वह मन-ही-मन विचार करने लगा—] देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियोंमें कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके । खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान् थे । उन्हें भगवान्के सिवा और कौन मार सकता है ? ॥ १ ॥

सुर रंजन भंजन माहि भारा । जौं भगवंत लीन्ह अवतारा ॥

तौ में जाइ वैरु हठि करउँ । प्रभु सर प्रान तजें भव तरउँ ॥

देवताओंको आनन्द देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवान्ने ही

रघुनाथजीने विना फलका बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षणभरमें सौ योजनपर आ गिरा
उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं है ॥ ३ ॥

भइ मम कीट भृंग की नाई । जहँ तहँ मैं देखउँ दोउ भाई ।
जौं नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहिबिरोधि न आइहि पूरा ॥

मेरी दशा तो भृंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब मैं जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण
दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ। और हे तात ! यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं
उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा (सफलता नहीं मिलेगी) ॥ ४ ॥

दो०—जेहिं ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड ।

खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस वरिबंड ॥ २५ ॥

जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ लिया और खर, दूषण
और त्रिशिराका बध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है ॥ २५ ॥

चौ०—जाहु भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥

गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥

अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप घर लौट जाइये। यह सुनकर रावण जल
उठा और उसने ब्रह्म-सी गालियाँ दीं (दुर्वचन कहे) । [कहा—] अरे मूर्ख ! तू गुरुकी
तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो, संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है ? ॥ १ ॥

तव मारीच हृदयँ अनुमाना । नवहि विरोधें नहिं कल्याणा ॥

सखी मर्मी प्रभु सठ धनी । बैद बंदि कवि भानस गुनी ॥

तव मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शस्त्री (शस्त्रधारी), मर्मी (भेद
जाननेवाला), समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान्, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया—इन नौ
व्यक्तियोंसे विरोध (वैर) करनेमें कल्याण (कुशल) नहीं होता ॥ २ ॥

उभय भाँति देखा निज मरना । तव ताकिसि रघुनाथक सरना ॥

उतरु देत मोहि बधव अभागें । कस न मरौं रघुपति सर लागें ॥

जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तब उसने श्रीरघुनाथजीकी शरण तकी
(अर्थात् उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा) । [सोचा कि] उत्तर देते ही (नहीं करते ही)
यह अभागा मुझे मार डालेगा । फिर श्रीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मरूँ ? ॥ ३ ॥

लछिमनहूँ यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥

भगवान्ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । स्वार्थ-परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया ॥ ३ ॥

नवनि नीच कै अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग विलाई ॥
भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥

नीचका झुकना (नम्रता) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है । जैसे अङ्कुश, धनुष, साँप और विल्लीका झुकना । हे भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भी [उसी प्रकार] भय देनेवाली होती है, जैसे बिना ऋतुकें फूल ! ॥ ४ ॥

दो०—करि पूजा मारीच तव सादर पूछी बात ।

कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात ॥ २४ ॥

तव मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी —हे तात ! आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं ? ॥ २४ ॥

चौ०—दसमुखसकल कथातेहि आगें । कही सहित अभिमान अभागें ॥
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनों नृपनारी ॥

भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [और फिर कहा—] तुम छल करनेवाले कपट-मृग बनो, जिस उपायसे मैं उस राजवधूको हर लाऊँ ॥ १ ॥

तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥
तासों तात बयरु नहिं कीजै । मारे मरिअ जिआएँ जीजै ॥

तब उसने (मारीचने) कहा—हे दशशीश ! सुनिये । वे मनुष्यरूपमें चराचरके ईश्वर हैं । हे तात ! उनसे बँर न कीजिये । उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे जीना होता है । (सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन है) ॥ २ ॥

मुनि मख राखन गयउ कुमारा । विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥

सत जोजन आयउँ छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाहौं ।

यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे । तब

मनोहर थी । [वे कहने लगीं—] हे देव ! हे कृपालु रघुवीर ! सुनिये । इस मृगकी छाल बहुत ही सुन्दर है ॥ २ ॥

सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥

जानकीजीने कहा—हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिये । तब श्रीरघुनाथजी (मारीचके कपटमृग बननेका) सब कारण जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये हर्षित होकर उठे ॥ ३ ॥

मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥

हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर उसपर सुन्दर (दिव्य) वाण चढ़ाया । फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा—हे भाई ! वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं ॥ ४ ॥

सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि विवेक बल समय बिचारी ॥
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए रामु सरासन साजी ॥

तुम बुद्धि और विवेककेद्वारा बल और समयका विचारकरके सीताकी रखवाली करना । प्रभुको देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े ॥ ५ ॥

निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछें सो धावा ॥
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई ॥

वेद जिनके विषयमें 'नेति-नेति' कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते (अर्थात् जो मन और वाणीसे नितान्त परे हैं), वे ही श्रीरामजी मायासे बने हुए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं । वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है । कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥

प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रभुहि गयउ लै दूरी ॥
तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥

इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभुको

अस जियँ जानि दसानन संगी । चला राम पद प्रेम अभंगा ॥
मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहउँ परम सनेही ॥

हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला । श्रीरामजीके चरणोंमें उमका अखण्ड प्रेम है । उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं अपने परम मनेही श्रीरामजीको देखूंगा; किंतु उसने यह हर्ष रावणको नहीं जनाया ॥ ४ ॥

छं०—निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों ।

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥

निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि बसकरी ।

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥

[वह मन-ही-मन सोचने लगा—] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल करके सुख पाऊंगा । जानकीजीसहित और छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत कृपानिधान श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाऊंगा । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है और जिनकी भक्ति उन अवश (किसीके वशमें न होनेवाले स्वतन्त्र भगवान्) को भी वशमें करनेवाली है; अहा ! वे ही आनन्दको समुद्र श्रीहरि अपने हाथोंसे बाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे !

दो०—मम पाछें धर धावत धरें सरासन वान ।

फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥

धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर (पकड़नेके लिये) दीडते हुए प्रभुको मैं फिर-फिरकर देखूंगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

चौ०—तेहि वन निकट दसानन गयऊ । तव मारीच कपटमृग भयऊ ॥

अति विचित्र कछु वरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥

जब रावण उस वनके (जिस वनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे) निकट पहुँचा, तब मारीच कपटमृग बन गया । वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था ॥ १ ॥

सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेपा ॥

सुनहु देव रघुवीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥

मलोहर थी । [वे कहने लगीं—] हे देव ! हे कृपालु रघुवीर ! सुनिये । इस मृगकी
 काल बहुत ही सुन्दर है ॥ २ ॥

सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥

तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥

जानकीजीने कहा—हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला
 लीजिये । तब श्रीरघुनाथजी (मारीचके कपटमृग बननेका) सब कारण जानते हुए भी,
 देवताओंका कायं बनानेके लिये हर्षित होकर उठे ॥ ३ ॥

मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥

प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥

हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर उसपर
 सुन्दर (दिव्य) बाण चढ़ाया । फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको साथमें ले जाया ।
 तब दोनों बहुत-से राक्षस फिरते हैं ॥ ४ ॥

सीता केरि करेहु रर ॥

प्रभुहि बिलोकि चला मृग ॥

मृग बुद्धि और विवेककेद्वारा ।

प्रभुको देखकर मृग भाग चला । धनुष

निगम नेति सिव ध्यान

कबहूँ निकट पुनि ॥

वेद जिनके विषयमें नेति
 नहीं पाते (अर्थात् जो मन और
 हुए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं । वह
 कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी

प्रग

तब

दूर ले गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर (निशाना साधकर) कठोर बाण मारा,
[जिसके लगते ही] वह घोर शब्द करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥

लछिमन कर प्रथमहिं लै नामा । पाछें सुमिरेसि मन महूँ रामा ॥

प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥

पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया ।
प्राण त्याग करते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित
श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ ॥

अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥

सुजान (सर्वज्ञ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति
(अपना परमपद) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥

चौ०—विपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ ।

निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥

देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी गाथाएँ (स्तुतियाँ) गा रहे हैं
[कि] श्रीरघुनाथजी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥ २७ ॥

चौ०—खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप कर काटि तूनीरा ॥

आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लछिमन सन परम सभिता ॥

दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े । हाथमें धनुष और कमरमें तरकस
शोभा दे रहा है । इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी (भरते समय मारीचकी 'हा लक्ष्मण'
की आवाज) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगीं—॥ १ ॥

जाहु वेगि संकट अति भ्राता । लछिमन विहसि कहा सुनु माता ॥

भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥

तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं । लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे
माता ! सुनो, जिनके भृकुटिविलास (भौंके इशारे) मात्रसे सारी सृष्टिका लय (प्रलय)
हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कभी स्वप्नमें भी संकटमें पड़ सकते हैं ॥ २ ॥

मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥

बन दिसि देव सौंपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥

इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वचन (हृदयमें चुभनेवाले वचन) कहने लगीं तब भगवान्की प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा। वे श्रीसीताजीको वन और दिशाओंके देवताओंको साँपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे।

सून व्रीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के वेषा ॥
जाके डर सुर असुर डेराहीं। निसिन नीद दिन अन्न न खाहीं ॥

रावण सूना मौका देखकर यति (संन्यासी) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया। जिमके डरसे देवता और दैत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें [भरपेट] अन्न नहीं खाते—॥ ४ ॥

सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥
इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥

वही दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई* (चोरी) के लिये चला [काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कुमार्गपर पैर रखते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं बलका लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५ ॥

*सूना पाकर कुत्ता चुपकेसे वर्तन-भाँड़ोंमें मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे 'भड़िहाई' कहते हैं।

नाना विधि करि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई ॥
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु वचन दुष्ट की नाई ॥

रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीताजीने कहा—हे यति गोसाई ! सुनो, तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे ॥ ६ ॥

तव रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥

तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीताजी भयभीत हो गयीं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा—अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, प्रभु आ गये।

जिमि हरिवधुहि ह्युद्र सस चाहा। भएसि कालवस निसिचर नाहा ॥
सुनत वचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥

जैसे सिंहकी स्त्रीको तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज ! तू [मेरी चाह

दूर ले गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर (निशाना साधकर) कठोर बाण मारा, [जिसके लगते ही] वह घोर शब्द करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥

लछिमन कर प्रथमहिं लै नामा । पाछें सुमिरेसि मन महूँ रामा ॥

प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥

पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया । प्राण त्याग करते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ ॥

अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥

सुजान (सर्वज्ञ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति (अपना परमपद) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥

वो०—बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ ।

निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥

देवता बहुतसे फूल बरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी गाथाएँ (स्तुतियाँ) गा रहे हैं [कि] श्रीरघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥ २७ ॥

चो०—खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥

आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लछिमन सन परमसभीता ॥

दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े । हाथमें धनुष और कमरमें तरकस शोभा दे रहा है । इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी (भरते समय मारीचकी 'हा लक्ष्मण' की आवाज) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगीं— ॥ १ ॥

जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥

भृकुटि विलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥

तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं । लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे माता ! सुनो, जिनके भृकुटिविलास (भौंके इशारे) मात्रसे सारी सृष्टिका लय (प्रलय) हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कभी स्वप्नमें भी संकटमें पड़ सकते हैं ॥ २ ॥

मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥

बन दिसि देव सौंपि सब काहु । चले जहाँ रावन ससि राहु ॥

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउँ जातुधान कर नासा ॥
धावा क्रोधवंत खग कैसें । छूटइ पवि परबत कहूँ जैसें ॥

[वह बोला—] हे सीते पुत्री ! भय मत कर । मैं इस राक्षसका नाश करूँगा ।

[यह कहकर] वह पक्षी क्रोधमें भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतकी ओर वज्र छूटता हो ।

रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥

आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥

[उसने ललकारकर कहा—] रे-रे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर होकर

चल दिया ! मुझे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मनमें अनुमान करने लगा—॥ ६ ॥

की मैनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥

जाना जरठ जटायू एहा । मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा ॥

यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ । पर वह (गरुड़) तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है । [कुछ पास आनेपर] रावणने उसे पहचान लिया [और बोला] — यह तो बूढ़ा जटायु है । यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा ॥ ७ ॥

सुनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥

तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहिं त अस होइहि बहुबाहू ॥

यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला—रावण ! मेरी सिखावन सुन । जानकीजीको छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा । नहीं तो हे बहुत भुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि—॥ ८ ॥

राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सत्तभ कुल तोरा ॥

उतरु न देत दसानन जोधा । तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥

श्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निमें तेरा सारा वंश पतिगा [होकर भस्म] हो जायगा । योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीध क्रोध करके दौड़ा ॥ ९ ॥

धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥

चोचन्ह मारि बिदारोसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥

उसने [रावणके] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया, रावण पथ्वीपर गिर

करके] कालके वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया। परंतु मनमें उसने सीताजीके चरणोंकी वन्दना करके सुख माना ॥ ८ ॥

दो०—क्रोधवंत तव रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ ।

चला गगनपथ आतुर भयँ रथ हाँकि न जाइ ॥ २८ ॥

फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी उतावलीके साथ आकाशमार्गसे चला; किंतु डरके मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था ॥ २८ ॥

चौ०—हा जग एक वीर रघुराया । केहि अपराध विसारेहु दाया ॥

आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥

[सीताजी विलाप कर रही थीं—] हा जगत्के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी ! आपने किस अपराधसे मुझपर दया भुला दी। हे दुःखोंके हरनेवाले, हे शरणागतको सुख देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमलके सूर्य ! ॥ १ ॥

हा लछिमन तुम्हार नहिँ दोसा । सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा ॥

विविध विलाप करति वैदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥

हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं—[हाय !] प्रभुकी कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं ॥ २ ॥

विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडांस चह रासभ खावा ॥

सीता कै विलाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी ॥

प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ? यज्ञके अन्नको गदहा खाना चाहता है। सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३ ॥

गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुलनिलक नारि पहिचानी ॥

अधम निसाचर लीन्हें जाई । जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥

गृधराज जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल-तिसक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी है। [उसने देखा कि] नीच राक्षस इनको [बुरी तरह] लिये जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छके पाले पड़ गयी हो ॥ ४ ॥

ची०—रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिंता कीन्हि विसेषी ।

जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ।

[इधर] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्यरूपमें बहुत चिन्ता की [और कहा—] हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरे आज्ञाका उल्लंघन कर यहाँ चले आये ! ॥ १ ॥

निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ।

गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ।

राक्षसोंके झुंड वनमें फिरते रहते हैं । मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं है । छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा— हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है ॥ २ ॥

अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥

आश्रम देखि जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना ॥

लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था । आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुल और दीन (दुखी) हो गये ॥ ३ ॥

हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥

लछिमन समुझाए बहु भाँती । पूछत चले लता तरु पाँती ॥

[वे विलाप करने लगे—] हा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और नियमोंमें पवित्र सीते ! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया । तब श्रीरामजी लताओं और वृक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले— ॥ ४ ॥

हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ॥

खंजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥

हे पक्षियो ! हे पशुओ ! हे भौरोंकी पंक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा है ? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरोंका समूह, प्रवीण कोयल, ॥ ५ ॥

कुंद कली दाड़िम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥

वरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥

पड़ा। गीघ सोताजीको एक ओर बैठकर फिर लौटा और चोंचोंसे मार-मारकर रावणके शरीरको विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी ॥ १० ॥

तव सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरिरामकरि अद्भुतकरनी ॥

तब खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली और उससे जटायुके पंख काट डाले। पक्षी (जटायु) श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका स्मरण करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥

सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी । चला उताइल त्रास न थोरी ॥
करति विलाप जाति नभ सीता । व्याध विवस जनु मृगी सभिता ॥

सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम न था। सीताजी आकाशमें विलाप करती हुई जा रही हैं। मानो व्याधके वशमें पड़ी हुई- (जालमें फँसी हुई) कोई भयभीत हिरनी हो ! ॥ १२ ॥

गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी ॥
एहि विधि सीतहि सो लै गयऊ । वन असोक महँ राखत भयऊ ॥

पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रक्खा ॥ १३ ॥

दो०—हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाइ ।

तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२६(क)॥

सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराके (सब व्यवस्था ठीक कराके) अशोक वृक्षके नीचे रख दिया ॥ २६ (क) ॥

नवाह्लपारायण, छठा विश्राम

जेहि विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम ।

सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२६(ख)॥

जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे, उसी छविको हृदयमें वे हरिनाम (राम-नाम) रटती रहती हैं ॥ २६ (ख) ॥

तब धीरज धरकर गीघने यह वचन कहा—हे भव (जन्म-मृत्यु) के भयका नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी यह दशा की है । उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया है ॥ १ ॥

तै दक्षिण दिसि गयउ गोसाईं । बिलपति अति कुररी की नाई ॥
दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राणा । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥

हे गोसाईं ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है । सीताजी कुररी (कुर्ज) की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं । हे प्रभो ! मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रखे थे । हे कृपानिधान ! अब ये चलना ही चाहते हैं ॥ २ ॥

राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥
जा कर नाम मरत मुख आवा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे तात ! शरीरको बनाये रखिये । तब उसने मुसकराते हुए मुंहसे यह बात कही—मरते समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम (महान् पापी) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं—॥ ३ ॥

सो मम लोचन गोचर आगें । राखौं देह नाथ केहि खाँगें ॥
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥

वही (आप) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने खड़े हैं । हे नाथ ! अब मैं किस कमी [की पूर्ति] के लिये देहको रखूँ ? नेत्रोंमें जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे—हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोंसे [दुर्लभ] गति पायी है ॥ ४ ॥

परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा ॥

जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समाया रहता है), उनके लिये जगत्में कुछ भी (कोई भी गति) दुर्लभ नहीं है । हे तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परमधाममें जाइये । मैं आपको क्या दूँ ? आप तो पूर्णकाम हैं (सब कुछ पा चुके हैं) ॥ ५ ॥

दो०—सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ ।

जौं मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥

कुन्दकली, अनार, विजली, कमल, शरदका चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका पाश, कामदेवका धनुष, हंस, गज और सिंह—ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥ ६ ॥

श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥

सुनु जानकी तोहि विनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥

बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं । इनके मनमें जरा भी शङ्का और संकोच नहीं है । हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं, मानो राज पा गये हों । (अर्थात् तुम्हारे अङ्गोंके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे । आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल रहे हैं) ॥ ७ ॥

किमिसहिजातअनखतोहिपाहीं । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥

एहि विधिखोजत विलपत स्वामी । मनहुँ महा विरही अति कामी ॥

तुमसे यह अनख (स्पर्धा) कैसे सही जाती है ? हे प्रिये ! तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती ? इस प्रकार [अतन्त्र ब्रह्माण्डोंके अथवा महामहिमामयी स्वरूपा-शक्ति श्रीसीताजीके] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको खोजते हुए [इस प्रकार] विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥

पूरनकाम राम सुखरासी । मनुजचरित करअज अविनासी ॥

आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥

पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योंके-से चरित्र कर रहे हैं । आगे [जानेपर] उन्होंने गृध्रपति जटायुको पड़ा देखा । वह श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ध्वजा, कुलिश आदिकी] रेखाएँ (चिन्ह) हैं ॥ ९ ॥

दो०—कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुवीर ।

निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर ॥ ३० ॥

कृपासागर श्रीरघुवीरने अपने कर-कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया (उसके सिरपर कर-कमल फेर दिया) । शोभाधाम श्रीरामजीका [परम सुन्दर] मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥

चौ०—तब कह गीधबचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥

नाथदसानन यह गतिकीन्ही । तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं ।
 करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥
 सो प्रगट करुना कंद सोभा बृंद अग जग मोहई ।
 मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छवि सोहई ॥३॥

जिनको श्रुतियाँ निरंजन (मायासे परे), ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। वे ही कृष्णाकन्द, शोभाके समूह [स्वयं श्रीभगवान्] प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत्को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके भ्रमररूप उनके अङ्ग-अङ्गमें बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥

जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा ।
 पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥
 सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी ।
 मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥४॥

जो अगम और सुगम हैं, निर्मलस्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल (शान्त) हैं। मन और इन्द्रियोंको सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर जित्ने देख पाते हैं, वे तीनों लोकोंके स्वामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वशमें रहते हैं। वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमनको मिटानेवाली है

दो०—अविरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम ।

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥

अखण्ड भक्तिका बर मांगकर गृधराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया। श्रीरामचन्द्रजीने उसकी [दाहकर्म आदि सारी] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे कीं ॥३२॥

चौ०—कोमल चित अति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥

गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥

श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध [पक्षियोंमें भी] अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं ॥ १ ॥

हे तात ! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥

चो०—गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥

श्याम गात विसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥

जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम (दिव्य) आभूषण और [दिव्य] पीताम्बर पहन लिये । श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएँ हैं और नेत्रोंमें [प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है—॥ १ ॥

छ०—जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ।

दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं ।

नित नौमि राम कृपाल बाहु विसाल भव भय मोचनं ॥ १ ॥

हे रामजी ! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणोंके (मायाके) प्रेरक हैं । दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजाओंको खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वीको सुशोभित करनेवाले, जल-युक्त मेघके समान श्याम शरीरवाले, कमलके समान मुख और [लाल] कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले, विशाल भुजाओंवाले और भव-भयसे छुड़ानेवाले कृपालु श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं ।

गोविंद गोपर द्वंद्वहर विग्यानघन धरनीधरं ॥

जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं ।

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ २ ॥

आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त (निराकार), एक, अगोचर (अलक्ष्य), गोविन्द (वेदवाक्योंद्वारा जानने योग्य), इन्द्रियोंसे अतीत, [जन्म-मरण, सुख-दुःख, हर्ष-शोकादि] द्वन्द्वोंको हरनेवाले, विज्ञानकी घन-मूर्ति और पृथ्वीके आधार हैं । तथा जो संत राम-मन्त्रको जपते हैं, उन अनन्त सेवकोंके मनको आनन्द देनेवाले हैं । उन निष्कामप्रिय (निष्कामजनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय) तथा काम आदि दुष्टों (दुष्ट वृत्तियों) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥

श्रीरामजीने अपना धर्म (भागवत-धर्म) कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंमें प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर वह अपनी गति (गन्धर्वका स्वरूप) पाकर आकाशमें चला गया ॥ २ ॥

ताहि देइ गति राम उदारा । सबरी कें आश्रम पगु धारा ॥
सबरी देखि राम गृहँ आए । मुनि के बचन समुझि जियँ भाए ॥

उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे । शबरीजीने श्रीरामचन्द्रजीको घरमें आये देखा, तब मुनि मतङ्गजीके वचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ३ ॥

सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥

कमलसदृश नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जटाओंका मुकुट और हृदयपर बनमाला धारण किय हुए सुन्दर साँवले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं । ४ ॥

प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥
सादर जल लै चरन पखारे । पुनि सुंदर आसन बैठारे ॥

वे प्रेममें मग्न हो गयीं, मुखसे वचन नहीं निकलता । बार-बार चरणकमलोंमें सिर नवा रही हैं । फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण धोये और फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बैठाया ॥ ५ ॥

दो०—कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहँ आनि ।

प्रेम सहित प्रभु खाए वारंवार बखानि ॥ ३४ ॥

उन्होंने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द, मूल और फल लाकर श्रीरामजीको दिये । प्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥

चो०—पानि जोरि आगें भइ ठाढ़ी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥

केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥

फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं । प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । [उन्होंने कहा—] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ? मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूढ़बुद्धि हूँ ॥ १ ॥

सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहिं विषय अनुरागी ॥
पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई । चले विलोकत वन बहुताई ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌को छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं ! फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चले । वे वनकी सघनता देखते जाते हैं ॥ २ ॥

संकुल लता विटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहिं सब कही साप कै वाता ॥

वह सघन वन लताओं और वृक्षोंसे भरा है । उसमें बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं । श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला । उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥

दुरवासा मोहि दीन्ही सापा । प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥
सुनु गंधर्व कहउँ मैं तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥

[वह बोला—] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था । अब प्रभुके चरणोंको देखनेसे वह पाप मिट गया । [श्रीरामजीने कहा—] हे गन्धर्व ! सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण-कुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता ॥ ४ ॥

दो०—मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव ।

मोहि समेत विरंचि सिव बस ताकें सब देव ॥ ३३ ॥

मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझ-समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

चो०—सापत ताड़त परुष कहंता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥

पूजिअ विप्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना ॥

शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं । शील और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है । और गुणगणोंसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥

कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥

रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपनि गति पाई ॥

सातवीं भक्ति है जगत्भरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत (राममय) देखना और संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना । आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष करना और स्वप्नमें भी पराये दोषोंको न देखना ॥ २ ॥

नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियँ हरष न दीना ॥
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥

नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बतवि करना, हृदयमें मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य (विषाद) का न होना । इन नवोंमेंसे जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो—॥ ३ ॥

सोइ अतिसय प्रियभामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥
जोगि वृंद दुरलभ गति जोई । तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई ॥

हे भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ है । अतएव जो गति योगियोंको भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है ॥ ४ ॥

मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥
जनकसुता कइ सुधि भामिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी ॥

मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । हे भामिनि ! अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५ ॥

पंपा सरहि जाहु रघुराई । तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानतहूँ पूछहु मतिधीरा ॥

[शबरने कहा—] हे रघुनाथजी ! आप पंपा नाभक सरोवरको जाइये । वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी । हे देव ! हे रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा । हे धीर-आप सब जानते हैं । मुझसे पूछते हैं ! ॥ ६ ॥

प्रभु पद नई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥

प्रभुके

नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥ ७ ॥

स

हरि मुख हृदयँ पद पंकज धरे ।

प

पद लीन भइ जहँ नहिं फिरे ॥

अधमते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महुँ मैं मतिमंद अघारी ॥
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥

जो अधमसे भी अधम हैं, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी हे पापनाशन ! मैं मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरघुनाथजीने कहा—हे भामिनि ! मेरी बात सुन । मैं तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २ ॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥
भगति हीन नर सोहइ कैसा । विनु जल वारिद देखिअ जैसा ॥

जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता—इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल [मोभाहीन] दिखायी पड़ता है ॥ ३ ॥

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥
प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम कथा प्रसंगी ॥

मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन और मनमें धारण कर । पहली भक्ति है संतोंका सत्सङ्ग । दूसरी भक्ति है मेरे कथाप्रसङ्गमें प्रेम ॥ ४ ॥

दो०—गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥

तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा । और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३५ ॥

चो०—मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥

छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥

मेरे (राम) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास—यह पाँचवीं भक्ति है, जो वेदोंमें प्रसिद्ध है । छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शील (अच्छा स्वभाव या चरित्र), बहुत कार्योंसे वैराग्य और निरन्तर संतपुत्रोंके धर्म (आचरण) में लगे रहना ॥ १ ॥

सातवँ सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥

आठवँ जथालाम संतोषा । सपनेहुँ नहिँ देखइ परदोषा ॥

संग लाइ करिनीं करि लेहीं । मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं ॥

सास्त्र सुचिंतित पुनिपुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ ॥

हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये] । भलीभाँति चिन्तन किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥

राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीं ॥

देखहु तात वसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥

और स्त्रीको चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा—किसीके वशमें नहीं रहते । हे तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो । प्रियाके बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है ॥ ५ ॥

दो०—विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल ।

सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥३७(क)॥

मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौरों और पक्षियोंको साथ लेकर मुझपर धावा बोल दिया ॥ ३७ (क) ॥

देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात ।

डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३७(ख)॥

परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाईके साथ हूँ (अकेला नहीं हूँ), तब उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया है ॥ ३७ (ख) ॥

चौ०—विटप बिसाल लता अरुझानी । विविध बितान दिए जनु तानी ।

कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ।

विशाल वृक्षोंमें लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंतु तान दिये गये हैं । केला और ताड़ सुन्दर छवजा-पताकाके समान हैं । इन्हें देखकर वहाँ नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर है ॥ १ ॥

विविध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना ।

कहुँ कहुँ सुंदर विटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होइछाए ।

नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू ।

विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥

सब क्या कहकर भगवान्‌के मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंको धारण कर लिया और योगाग्निसे देहको त्यागकर (जलाकर) वह उस दुर्लभ हरिपदमें लीन हो गयी, जहाँसे लौटना नहीं होता । तुलसीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत-से मत, ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम करो ।

दो०—जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि ।

महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि विसारि ॥ ३६ ॥

जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्रीको भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्धि मन ! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुख चाहता है ? ॥ ३६ ॥

चौ०—चले राम त्यागा वन सोऊ । अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥

विरही इव प्रभु करत विषादा । कहत कथा अनेक संवादा ॥

श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले । दोनों भाई अतुलनीय बलवान् और मनुष्योंमें सिंहके समान हैं । प्रभु विरहीकी तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद कहते हैं—॥ १ ॥

लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥

नारि सहित सब खग मृग वृंदा । मानहुँ मोरि करत हहिं निंदा ॥

हे लक्ष्मण ! जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ? पक्षी और पशुओंके समूह सभी स्त्रीसहित हैं । मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २ ॥

हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगीं कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥

तुम्ह आनंद करहु मृग जाए । कंचन मृग खोजन ए आए ॥

हमें देखकर [जब डरके मारे] हिरनोंके झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं—तुमको भय नहीं है । तुम तो साधारण हिरनोसे पंदा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो । ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं ॥ ३ ॥

संग लाइ करिनीं करि लेहीं । मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं
साख सुचिंतित पुनिपुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ

हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [कि स्त्री को क
अकेली नहीं छोड़ना चाहिये] । भलीभाँति चिन्तन किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देख
रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये ॥ ४

राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुवती साख नृपति बस नाहीं
देखहु तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा

और स्त्रीको चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परंतु युवती स्त्री, शास्त्र अ
राजा—किसीके वशमें नहीं रहते । हे तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो । प्रियाके बि
मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है ॥ ५ ॥

दो०—विरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल ।

सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥३७(क)

मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भी
और पक्षियोंको साथ लेकर मुझपर घावा बोल दिया ॥ ३७ (क) ॥

देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात ।

डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३७(ख)

परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाईके साथ हूँ (अकेला नहीं हूँ),
उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया है ॥ ३७ (ख) ॥

चो०—बिटप बिसाल लता अरुझानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी

कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका

विशाल वृक्षोंमें लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके
तान दिये गये हैं । केला और ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं । इन्हें देखकर व
नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर है ॥ १ ॥

बिबिध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना

कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होइ छाए

अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना (वर्दी) धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों। कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं। मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाले हों ॥ २ ॥

कूजत पिक मानहुँ गज माते । ठेक महोख ऊँट विसराते ॥
मोर चकोर कीर वर वाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥

कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [चिघाड़ रहे] हैं। ठेक और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी (अरबी) घोड़े हैं ॥ ३ ॥

तीतिर लावक पदचर जूथा । वरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥
रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना । चातक बंदी गुन गन वरना ॥

तीतर और बटेर पंदल सिपाहियोंके झुंड हैं। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं, जो गुणसमूह (विरदावली) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वयारि वसीठीं आई ॥
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । विचरत सवहि चुनौती दीन्हें ॥

भौरोंकी गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल, मन्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका काम लेकर आयी है। इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥

लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ॥
एहि कें एक परम बल नारी । तेहि तें उवर सुभट सोइ भारी ॥

हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत्में उन्हींकी [वीरोंमें] प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा है ॥ ६ ॥

दो०—तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ ।

मुनि विग्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥३८(क)॥

हे तात ! काम, क्रोध और लोभ—ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके धाम मुनियोंके भी मनोंको पलभरमें क्षुब्ध कर देते हैं ॥ ३८ (क) ॥

लोभ कें इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि ।

क्रोध कें परुष वचन बल मुनिवर कहहिं विचारि ॥ ३८ (ख) ॥

लोभको इच्छा और दम्भका बल है, कामको केवल स्त्रीका बल है और क्रोधको कठोर वचनोंका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ॥ ३८ (ख) ॥

चौ०—गुणातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥

कामिन्ह कै दीनता देखाई । धीरन्ह कें मन विरति दढ़ाई ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत (तीनों गुणोंसे परे), चराचर जगत्के स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं। [उपर्युक्त बातें कहकर] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता (बेवसी) दिखलायी है और धीर (विवेकी) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है ॥ १ ॥

क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम कीं दया ॥

सो नर इंद्रजाल नहिं भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥

क्रोध, काम, लोभ, मद और माया—ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं। वह नट (नटराज भगवान्) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल (माया) में नहीं भूलता ॥ २ ॥

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥

पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥

हे उमा ! मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ—हरिका भजन ही सत्य है, यह सारा जगत् तो स्वप्न [की भाँति झूठा] है, फिर प्रभु श्री रामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीरपर गये ॥ ३ ॥

संत हृदय जस निर्मल वारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥

जहँ तहँ पिअहिं विविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥

उसका जल संतोंके हृदय-जैसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट

अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना (वर्दी) धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों। कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं। मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाले हों ॥ २ ॥

कूजत पिक मानहुँ गज माते । ठेक महोख ऊँट बिसराते ॥

मोर चकोर कीर वर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥

कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [चिघाड़ रहे] हैं। ठेक और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी (अरबी) घोड़े हैं ॥ ३ ॥

तीतिर लावक पदचर जूथा । वरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥

रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना । चातक बंदी गुन गन वरना ॥

तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं, जो गुणसमूह (विरदावली) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वयारि बसीठीं आई ॥

चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । विचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥

भौरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल, मन्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका धाम लेकर आयी है। इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥

लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ॥

एहि कें एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥

हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत्में उन्हींकी [वीरोंमें] प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा है ॥ ६ ॥

दो०—तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ ।

मुनि विग्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥३८(क)॥

बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों [सुगन्धित] पुष्पोंसे युक्त हैं, [जिनपर] भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है ॥ ४ ॥

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि ख सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥

कोयलें 'कुहू', 'कुहू' का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोंका भी ध्यान टूट जाता है ॥ ५ ॥

दो०—फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ ।

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥

फलोंके बोझसे झुककर सारे वृक्ष पृथ्वीके पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर [विनयसे] झुक जाते हैं ॥ ४० ॥

ची०—देखिराम अति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥

देखी सुंदर तरुवर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया ॥

श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाव देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुन्दर उत्तम वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित बैठ गये ॥ १ ॥

तहँ पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥

बैठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले गये। कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥ २ ॥

विरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥

मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥

भगवान्को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ। [उन्होंने विचार किया कि] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोंका भार सह रहे हैं (दुःख उठा रहे हैं) ॥ ३ ॥

ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरुआई ॥

यह विचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥

बँधे हुए हैं। भाँति-भाँतिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भौड़ लगी हो ! ॥ ४ ॥

दो०—पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म ।

मायाछन्न न देखिए जैसें निर्गुन ब्रह्म ॥३६(क)॥

घनी पुरइनों (कमलके पत्तों) की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता । जैसे मायासे ढके रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३६ (क) ॥

सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहिं ।

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं ॥३६(ख)॥

उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस (एक समान) सुखी रहती हैं । जैसे धर्मशील पुरुषोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥ ३६ (ख) ॥

चौ०—विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर सुखर गुंजत बहु भृंगा ॥

बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा ॥

उसमें रंग-विरंगे कमल खिले हुए हैं । बहुत-से भौरे मधुर स्वरसे गुंजार कर रहे हैं । जलके मुँगे और राजहंस बोल रहे हैं । मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १ ॥

चक्रबाक बक खग समुदाई । देखत बनइ वरनि नहिं जाई ॥

सुंदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥

चक्रबाक, बगुले आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो [रास्तेमें] जाते हुए पथिककी बुलाये लेती हो ॥ २ ॥

ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुहाए ॥

चंपक बकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥

उस झील (पंपासरोवर) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रखे हैं । उसके चारों ओर वनके सुन्दर वृक्ष हैं । चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि—॥ ३ ॥

नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर

सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत बहइ

बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों [सुगन्धित] पुष्पोंसे युक्त हैं, [जिनपर भीरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं]। स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाला हवा सदा बहती रहती है ॥ ४ ॥

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि खसरस ध्यान मुनि टरहीं ।

कोयलें 'कुहू', 'कुहू' का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोंका भी ध्यान टूट जाता है ॥ ५ ॥

दो०—**फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ ।**

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥

फलोंके बोझसे झुककर सारे वृक्ष पृथ्वीके पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष वड़ी सम्पत्ति पाकर [विनयसे] झुक जाते हैं ॥ ४० ॥

ची०—**देखिराम अति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ।**

देखी सुंदर तरुवर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया ।

श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुन्दर उत्तम वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित बैठ गये ॥ १

तहँ पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए

बैठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले गये। कृपालु श्रीरामजी परम-प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ बतल रहे हैं ॥ २ ॥

बिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी

मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा

भगवान्को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ। [उन्हें विचार किया कि] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोंका भोग सह रहे हैं (दुःख उठा रहे हैं) ॥ ३ ॥

ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरुआई

यह बिचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना

ऐसे (भक्तवत्सल) प्रभुको जाकर देखूँ । फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा । य
विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूवक बैठे हुए थे ॥ ४ ॥
गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ।
करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ।

वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान
कर [ते हुए चले आ] रहे थे । दण्डवत् करते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठ
लिया और बहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्खा ॥ ५ ॥

स्वागत पूँछि निकट वैठारे । लछिमन सादर चरन पखारे ।

फिर स्वागत (कुशल) पूछकर पास बंठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साथ
उनके चरण धोये ॥ ६ ॥

दो०—नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि ।

नारद बोले वचन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥

बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके
समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले—॥ ४१ ॥

चौ०—सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम वर दायक ॥

देहु एक वर मागउँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥

हे स्वभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर, अगम और सुगम
वरके देनेवाले हैं । हे स्वामी ! मैं एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी
होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ ॥

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कवहुँ कि करउँ दुराऊ ॥

कवन वस्तु असिप्रियमोहिलागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो । क्या मैं अपने
भक्तोंसे कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि-
श्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते ? ॥ २ ॥

जन कहूँ कछु अदेय नहिँ मोरें । अस विस्वास तजहु जनि भोरें ॥

तव नारद बोले हरषाई । अस वर मागउँ करउँ ढिठाई ॥

मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारदजी हर्षित होकर बोले—मैं ऐसा वर माँगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ—॥ ३ ॥

जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥

यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये यह वधिकके समान हो ॥ ४ ॥

दो०—राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम ।

अपर नाम उडगन विमल बसहुँ भगत उर ब्योम ॥४२(क)॥

आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें 'राम' नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल आकाशमें निवास करें ॥४२ (क)॥

एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ ।

तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ ॥४२(ख)॥

कृपासागर श्रीरघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा। तब नारदजीने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ ४२ (ख) ॥

चौ०—अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥

राम जबहिं प्रेरेउ निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥

श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी बोले—हे रामजी ! हे रघुनाथजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, ॥ १ ॥

तब विवाह मैं चाहउँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥

सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहिं जेमोहि तजिसकल भरोसा ॥

तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया ? [प्रभु बोले—] हे मुनि ! सुनो, मैं तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, ॥ २ ॥

ऐसे (भक्तवत्सल) प्रभुको जाकर देखूँ । फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा । यह विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बंठे हुए थे ॥ ४ ॥

गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥
करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥

वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान कर [ते हुए चले आ] रहे थे । दण्डवत् करते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा लिया और बहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्खा ॥ ५ ॥

स्वागत पूँछि निकट बैठारे । लछिमन सादर चरन परखारे ॥

फिर स्वागत (कुशल) पूछकर पास बंठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके चरण धोये ॥ ६ ॥

दो०—नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि ।

नारद बोले वचन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥

बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले—॥ ४१ ॥

चौ०—सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम वर दायक ॥

देहु एक वर मागउँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥

हे स्वभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर, अगम और सुगम वरके देनेवाले हैं । हे स्वामी ! मैं एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ ॥

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ ॥

कवनवस्तु असिप्रियमोहिलागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो । क्या मैं अपने भक्तोंसे कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि-श्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते ? ॥ २ ॥

जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरें । अस विस्वास तजहु जनि भोरें ॥

तव नारद बोले हरषाई । अस वर मागउँ करउँ ढिठाई ॥

हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [को विकसित करने] के लिये स्त्री वसन्तऋतुके समान है । जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानोंको स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती है ॥ १ ॥

काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका ॥
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥

काम, क्रोध, मद और मत्सर (डाह) आदि मेढक हैं । इनको वर्षाऋतु होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्त्री) है । बुरी वासनाएँ कुमुदोंके समूह हैं । उनको सदैव सुख देनेवाली यह शरदऋतु है ॥ २ ॥

धर्म सकल सरसीरुह वृंदा । होइ हिम तिन्हहि दहइ सुखमंदा ॥
पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥

समस्त धर्म कमलोंके झुंड हैं । यह नीच (विषयजन्य) सुख देनेवाली स्त्री हिमऋतु होकर उन्हें जला डालती है । फिर ममतारूपी जवासका समूह (वन) स्त्रीरूपी शिशिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाता है ॥ ३ ॥

पाप उल्लूक निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधिआरी ॥
बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥

पापरूपी उल्लुओंके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि है । बुद्धि, बल, शील और सत्य—ये सब मछलियाँ हैं । और उन [को फँसाकर नष्ट करने] के लिये स्त्री वंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—अवगुन मूल सूतप्रद प्रमदा सब दुख खानि ।

ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जियँ जानि ॥ ४४ ॥

युवती स्त्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खान है । इसलिये हे मुनि ! मंने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥

चौ०—सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥

कहहु कवन प्रभु कै असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥

श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र

करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥

मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालककी रक्षा करती है । छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांपको पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे [अपने हाथों] अलग करके बचा लेती है ॥ ३ ॥

प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥

सथाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती (अर्थात् मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती, क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है) । ज्ञानी मेरे प्रौढ़ (सथाने) पुत्रके समान है और [तुम्हारे-जैसा] अपने बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है ॥ ४ ॥

जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ग्यानभगति नहिं तजहीं ॥

मेरे सेवकको केवल मेरा ही बल रहता है और उसे (ज्ञानीको) अपना बल होता है । पर काम-क्रोधरूपी शत्रु तो दोनोंके लिये हैं । [भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है; परंतु अपने बलको माननेवाले ज्ञानीके शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है ।] ऐसा विचारकर पण्डितजन (बुद्धिमान् लोग) मुझको ही भजते हैं । वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्ति को नहीं छोड़ते ॥ ५ ॥

दो०—काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि ।

तिन्ह महुँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥ ४३ ॥

काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह (अज्ञान) की प्रबल सेना है । इनमें मायारूपिणी (मायाकी साक्षात् मूर्ति) स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है ॥ ४३ ॥

चौ०—सुनु मुनि कह पुरान श्रुतिसंता । मोह विपिन कहँ नारि वसंता ॥

जप तप नेम जलाश्रय झारी । होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी ॥

हैं । सम और शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरलस्वभाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं ॥ १ ॥

जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा क्षमा मयत्री दया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥

वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता (प्रसन्नता) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥ २ ॥

विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥
दंभ मान मद करहिं न काऊ । भूलि न देहिं कुमारग पाऊ ॥

तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान (परमात्माके तत्त्वका ज्ञान) और वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान रहता है । वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमारगपर पैर नहीं रखते ॥ ३ ॥

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहिं सादर श्रुति तेते ॥

सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके हितमें लगे रहनेवाले होते हैं । हे मुनि ! सुनो, संतोंके जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते ॥ ४ ॥

छं०—कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे ।

अस दीनबंधु कृपालु अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥

सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए ।

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रँग ॥

‘शेष और शारदा भी नहीं कह सकते’ यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके चरण-कमल पकड़ लिये । दीनबन्धु कृपालु प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण कहे । भगवान्के चरणोंमें बार-बार सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये । तुलसीदास-जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके रंगमें रँग गये हैं ।

[प्रेमाश्रुओंके जलसे] भर आये । [वे मन-ही-मन कहने लगे—] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो ॥ १ ॥

जे न भजहिँ अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विग्यान विसारद ॥

जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारदमुनि आदरसहित बोले—हे विज्ञानविशारद श्रीरामजी ! सुनिये—

संतन्ह के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्ह केँ वस रहऊँ ॥

हे रघुवीर ! हे भव-भय (जन्म-मरणके भय) का नाश करनेवाले मेरे नाथ ! अब कृपा कर संतोंके लक्षण कहिये । [श्रीरामजीने कहा—] हे मुनि ! सुनो, मैं संतोंके गुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हूँ ॥ ३ ॥

षट विकार जित अनघ अकामा । अचलअकिंचनसुचिसुखधामा ॥
अमित बोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥

वे संत [काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन] छः विकारों (दोषों) को जीते हुए, पापरहित, कामनारहित, निश्चल (स्थिर बुद्धि), अकिंचन (सर्वत्यागी), बाहर-भीतरसे पवित्र सुखके धाम, असीम ज्ञानवान्, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान्, योगी, ॥४॥

सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥
सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धैर्यवान्, धर्मके ज्ञान और आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५ ॥

दो०—गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह ।

तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५ ॥

गुणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनकी न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥ ४५ ॥

चौ०—निज गुन श्रवन सुनत सकुचार्हीं । पर गुन सुनत अधिक हरपार्हीं ॥

सम सीतल नहिँ त्यागहिँ नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥

कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष-इषित होते

भगवान् श्रीरामकी सुग्रीवसे मैत्री



सखा सोच त्यागहु बल मोरें ।

सब विधि घटव काज में तोरें ॥

दो०—रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग ।

राम भगति दृढ़ पावहिं बिनु विराग जप जोग ॥४६(क)॥

जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वंराग्य, जप और योगके बिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ४६ (क) ॥

दीप सिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग ।

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥

युवती स्त्रियोंका शरीर दीपककी लौके समान है; हे मन तू ! उसका प्रतिगा न बन । काम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर ॥ ४६ (ख) ॥


मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम ।

इति श्रीमद्रामचरितमानसे मकलकलिकनूपविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः ।

कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह

तीसरा सोपान समाप्त हुआ ।

(अरण्यकाण्ड समाप्त)



मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको सुख देनेवाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥२॥

सो०—मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर ।

जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥

जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, जानकी खान और पापोंका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय ?

जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहिं पान किय ।

तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥

जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपालु [और] कौन है ?

सो०—आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्वत निअराया ॥

तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥

श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया । वहाँ (ऋष्यमूक पर्वतपर) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर—॥ १ ॥

अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥

धरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥

सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले—हे हनुमान् ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूपके निधान हैं । तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने हृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ ॥

पठए बालि होहिं मन मैला । भागौं तुरत तजौं यह सैला ॥

विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥

यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊँ । [यह सुनकर] हनुमान्जी ब्राह्मणका रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे—॥ ३ ॥

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

श्रीरामचरितमानस

चतुर्थ सोपान

किष्किन्धाकाण्ड

श्लोक

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवली विज्ञानधामावुभौ
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ ।
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मो हितौ
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ १ ॥

कुन्दपुष्प और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान्, विज्ञानके धाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदोंके द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राह्मणोंके समूहके प्रिय [अथवा प्रेमी] मायासे मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचस्वरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए, पथिकरूप रघुकुलके श्रेष्ठ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १ ॥

ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा ।
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् ॥ २ ॥

वे सुकृती (पुण्यात्मा पुरुष) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [के मथने] से उत्पन्न हुए कलियुगके मलको सर्वथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान् श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ

मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको सुख देनेवाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥२॥

सो०—मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर ।

जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥

जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान और पापोंका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय ?

जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहिं पान किय ।

तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥

जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपालु [और] कौन है ?

चौ०—आगें चले बहुरि रघुराया । ऋष्यमूक पर्वत निअराया ॥

तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥

श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया । वहाँ (ऋष्यमूक पर्वतपर) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर—॥ १ ॥

अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥

धरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥

सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले—हे हनुमान् ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूपके निधान हैं । तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने हृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ ॥

पठए बालि होहिं मन मैला । भागौं तुरत तजौं यह सैला ॥

विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥

यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊँ । [यह सुनकर] हनुमान्जी ब्राह्मणका रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे—॥ ३ ॥

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥

कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥

हे वीर ! साँवले और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियके रूपमें वनमें फिर रहे हैं? हे स्वामी ! कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं? ॥ ४ ॥

मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप वाता ॥

की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥

मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अङ्ग हैं और आप वनके दुःसह धूप और वायुको सह रहे हैं । क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीन देवताओंमेंसे कोई हैं; या आप दोनों नर और नारायण हैं? ॥ ५ ॥

दो०—जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार ।

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥

अथवा आप जगत्के मूल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी स्वयं भगवान् हैं, जिन्होंने लोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्य-रूपमें अवतार लिया है ॥ १ ॥

चौ०—कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु वचन मानि बन आए ॥

नाम राम लछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥

[श्रीरामचन्द्रजीने कहा—] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका वचन मानकर वन आये हैं । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं । हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी ॥ १ ॥

इहाँ हरी निसिचर वैदेही । विप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥

आपन चरित कहा हम गाई । कहहु विप्र निज कथा बुझाई ॥

यहाँ (वनमें) राक्षसने [मेरी पत्नी] जानकीको हर लिया । हे ब्राह्मण ! हम उसे ही खोजते-फिरते हैं । हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २ ॥

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष कै रचना ॥

प्रभुको पहचानकर हनुमान्जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े (उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम किया) । [शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित है, मुखसे वचन नहीं निकलता । वे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं ! ॥ ३ ॥

पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदयँ निज नाथहि चीन्ही ॥
मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥

फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयमें हर्ष हो रहा है । [फिर हनुमान्जीने कहा—] हे स्वामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, [वर्षोंके बाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेषमें और मेरी वानरी-बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके अनुसार मैंने आपसे पूछा] परंतु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं ? ॥ ४ ॥

तव माया बस फिरउँ भुलाना । ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥
मैं तो आपकी मायाके वश भूला फिरता हूँ, इसीसे मैंने अपने स्वामी (आप) को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥

दो०—एकु मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान ।

पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥

एक तो मैं यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ, तीसरे हृदयका कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर हे दीनबन्धु भगवान् ! प्रभु (आप) ने भी मुझे भुला दिया ! ॥ २ ॥

चो०—जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें । सेवक प्रभुहि परै जनि भोरें ॥
नाथ जीव तव मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥

हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं तथापि सेवक स्वामीकी विस्मृतिमें न पड़े (आप उसे न भूल जायें) । हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है । वह आपहीकी कृपासे निस्तार पा सकता है ॥ १ ॥

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥

कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥

हे वीर ! साँवले और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियके रूपमें वनमें फिर रहे हैं ? हे स्वामी ! कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं ? ॥ ४ ॥

मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप वाता ॥

की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥

मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अङ्ग हैं और आप वनके दुःसह धूप और वायुको सह रहे हैं । क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीन देवताओंमेंसे कोई हैं ; या आप दोनों नर और नारायण हैं ? ॥ ५ ॥

दो०—जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार ।

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥

अथवा आप जगत्के मूल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी स्वयं भगवान् हैं, जिन्होंने लोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्य-रूपमें अवतार लिया है ॥ १ ॥

चौ०—कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु वचन मानि बन आए ॥

नाम राम लछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥

[श्रीरामचन्द्रजीने कहा—] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका वचन मानकर वन आये हैं । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं । हमारे साथ सुन्दर सुकुमारो स्त्री थी ॥ १ ॥

इहाँ हरी निसिचर वैदेही । विप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥

आपन चरित कहा हम गाई । कहहु विप्र निज कथा बुझाई ॥

यहाँ (वनमें) राक्षसने [मेरी पत्नी] जानकीको हर लिया । हे ब्राह्मण ! हम उसे ही खोजते-फिरते हैं । हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २ ॥

तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥
सो सीता कर खोज कराइहि । जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥

हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये । वह सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २ ॥

एहि विधि सकल कथा समुझाई । लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥
जब सुग्रीवँ राम कहँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥

इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान्जीने (श्रीराम-लक्ष्मण) दोनों जनोंको पीठपर चढ़ा लिया । जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा ॥ ३ ॥

सादर मिलेउ नाइ पद माथा । भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥
कपि कर मन विचार एहि रीती । करिहहिं विधि मो सन ए प्रीती ॥

सुग्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले । श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाई-सहित उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ? ॥ ४ ॥

दो०—तव हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ ।

पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ ॥ ४ ॥

तब हनुमान्जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अग्निको साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी (अर्थात् अग्निकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मंत्री करवा दी) ॥ ४ ॥

चौ०—कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाषा ॥

कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥

दोनोंने [हृदयसे] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा । तब लक्ष्मणजीने श्रीराम-चन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । सुग्रीवने नेत्रोंमें जल भरकर कहा—हे नाथ ! मिथिलेश-कुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥ ५ ॥

मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेउँ मैं करत विचारा ॥

गगन पंथ देखी मैं जाता । परबस परी बहुत बिलपाता ॥

मैं एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब मैंने पराये (शत्रु) के वशमें पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे जाते देखा था ॥ २ ॥

ता पर मैं रघुवीर दोहाई । जानउँ नहिं कछु भजन उपाई ॥
सेवक सुत पति मातु भरोसें । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें ॥

उसपर हे रघुवीर ! मैं आपकी दुहाई (शपथ) करके कहता हूँ कि मैं भजन-साधन कुछ नहीं जानता । सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है । प्रभुको सेवकका पालन-भोषण करते ही बनता है (करना ही पड़ता है) ॥ २ ॥

अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥

ऐसा कहकर हनुमान्जी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े; उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया । तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींचकर शीतल किया ॥ ३ ॥

सुनु कपिजियँमानसिजनिऊना । तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥

[फिर कहा—] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना (मन छोटा न करना) । तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो । सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं (मेरे लिये न कोई प्रिय है, न अप्रिय), पर मुझको सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता है (मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता) ॥ ४ ॥

दो०—सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३ ॥

और हे हनुमान् ! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर (जड़-चेतन) जगत् मेरे स्वामी भगवान्का रूप है ॥ ३ ॥

चो०—देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदयँ हरष वीती सब सूला ॥
नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहई ॥

स्वामीको अनुकूल (प्रसन्न) देखकर पवनकुमार हनुमान्जीके हृदयमें हर्ष छा गया और उनके सब दुःख जाते रहे । [उन्होंने कहा—] हे नाथ ! इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है ॥ १ ॥

तुम एक पखवाड़े (पंद्रह दिन) तक मेरी वाट देखना । यदि मैं उतने दिनोंमें न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया ॥ ३ ॥

मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी । निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चलेउँ पराई ॥

हे खरारि ! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा । वहाँ (उस गुफामेसे) रक्तकी बड़ी भारी धारा निकली । [तब मैंने समझा कि] उसने बालिको मार डाला; अब आकर मुझे मारेगा । इसलिये मैं वहाँ (गुफाके द्वारपर) एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४ ॥

मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राज बरिआई ॥
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियँ भेद बढ़ावा ॥

मन्त्रियोंने नगरको विना स्वामी (राजा) का देखा, तो मुझको जवर्दस्ती राज्य दे दिया । बालि उसे मारकर घर आ गया । मुझे [राजसिंहासनपर] देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया (बहुत ही विरोध माना) । [उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे ही गुफाके द्वारपर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर राजा बन बैठा]

रिपु सममोहि मारेसिअति भारी । हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी ॥
ताकेँ भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ विहाला ॥

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्रीको भी छीन लिया । हे कृपालु रघुवीर ! मैं उसके भयसे समस्त लोकोंमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥६॥

इहाँ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहउँ मन माहीं ॥
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठीं द्वै भुजा विसाला ॥

वह शापके कारण यहाँ नहीं आता । तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ । सेवकका दुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं ॥७॥

वो०—सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं वान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उवरिहिं प्रान ॥ ६ ॥

[उन्होंने कहा—] हे सुग्रीव ! सुनो, मैं एक ही वाणसे बालिको मार डालूँगा ।

ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न चनें ॥ ६ ॥

राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥

मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥

हमें देखकर उन्होंने 'राम ! राम ! हा राम !' पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था । श्रीरामजीने उसे मांगा, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया । वस्त्रको हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥

सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥

सुग्रीवने कहा—हे रघुवीर ! सुनिये ! सोच छोड़ दीजिये और मनमें धीरज लाइये । मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूंगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥ ४ ॥

दो०—सखा वचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसीव ।

कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥

कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित हुए ।

[और बोले—] हे सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम वनमें किस कारण रहते हो ? ॥ ५ ॥

चौ०—नाथ बालि अरु मैं द्वौ भाई । प्रीति रही कछु वरनि न जाई ॥

मय सुत मायावी तेहि नाऊँ । आवा सो प्रभु हमरें गाऊँ ॥

[सुग्रीवने कहा—] हे नाथ ! बालि और मैं दो भाई हूँ । हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था । एक बार वह हमारे गाँवमें आया ॥ ६ ॥

अर्ध राति पुर द्वार पुकारा । बाली रिपु बल सहै न पारा ॥

धावा बालि देखि सो भागा । मैं पुनि गयउँ बंधु संग लागा ॥

उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा (ललकारा) । बालि शत्रुके बल (ललकार) को सह नहीं सका, वह दौड़ा । उसे देखकर मायावी भागा । मैं भी भाईके सङ्ग लगा चला गया ॥ ७ ॥

गिरिवर गुहाँ पैठ सो जाई । तव वालीं मोहि कहा बुझाई ॥

परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवौं तव जानेसु मारा ॥

वह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा । तब बालिने मुझे समझाकर कहा—

तुम एक पखवाड़े (पंद्रह दिन) तक मेरी बाट देखना । यदि मैं उतने दिनोंमें न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया ॥ ३ ॥

मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी । निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चलेउँ पराई ॥

हे खरारि ! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा । वहाँ (उस गुफामेंसे) रक्तकी बड़ी भारी धारा निकली । [तब मैंने समझा कि] उसने बालिको मार डाला; अब आकर मुझे मारेगा । इसलिये मैं वहाँ (गुफाके द्वारपर) एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४ ॥

मन्त्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राज बरिआई ॥
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियँ भेद बढ़ावा ॥

मन्त्रियोंने नगरको बिना स्वामी (राजा) का देखा, तो मुझको जबर्दस्ती राज्य दे दिया । बालि उसे मारकर घर आ गया । मुझे [राजसिंहासनपर] देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया (बहुत ही विरोध माना) । [उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे ही गुफाके द्वारपर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर राजा बन बैठा]

रिपु सममोहि मारेसिअति भारी । हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी ॥
ताकेँ भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ बिहाला ॥

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्रीको भी छीन लिया । हे कृपालु रघुवीर ! मैं उसके भयसे समस्त लोकोंमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥ ६ ॥

इहाँ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहउँ मन माहीं ॥
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठीं द्वै भुजा बिसाला ॥

वह शापके कारण यहाँ नहीं आता । तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ । सेवकका दुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं ॥ ७ ॥

वो०—सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं वान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं प्राण ॥ ६ ॥

[उन्होंने कहा—] हे सुग्रीव ! सुनो, मैं एक ही वाणसे बालिको मार डालूंगा ।

ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ६ ॥

चौ०—जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥

जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता है । अपने पर्वतके समान दुःखको घूलके समान और मित्रके घूलके समान दुःखको सुमेरु (बड़े भारी पर्वत) के समान जाने ॥ १ ॥

जिन्हके असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मितार्ई ॥

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटै अवगुनन्हि दुरावा ॥

जिन्हें स्वभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसीसे मित्रता करते हैं ? मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे । उसके गुण प्रकट करे और अवगुणोंको छिपावे ॥ २ ॥

देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥

विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥

देने-लेनेमें मनमें शंका न रखे । अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रहे विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत (श्रेष्ठ) मित्रके गुण (लक्षण) ये हैं ॥ ३ ॥

आगे कह मृदु वचन बनाई । पाखें अनहित मन कुटिलाई ॥

जाकर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरैहिं भलाई ॥

जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिलता रखता है—हे भाई ! [इस तरह] जिसका मन साँपकी चालके समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है ॥ ४ ॥

सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥

सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब विधि घटव काज में तोरें ॥

मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र—ये चारों शूलके समान [पीड़ा देनेवाले] हैं । हे सखा ! मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । मैं सब प्रकारसे तुम्हारे काम आऊँगा (तुम्हारी सहायता करूँगा) ॥ ५ ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । बालि महाबल अति रणधीरा ॥
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥

सुग्रीवने कहा—हे रघुवीर ! सुनिये, बालि महान् बलवान् और अत्यन्त रणधीर है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हड्डियाँ और तालके वृक्ष दिखलाये। श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके (आसानीसे) ढहा दिया ॥ ६ ॥

देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बधव इन्ह भइ परतीती ॥
बार बार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥

श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने लगे। प्रभुको पहचानकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे ॥ ७ ॥

उपजा ग्यान वचन तव बोला । नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला ॥
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥

जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई (बड़प्पन) सबको त्यागकर मैं आपकी सेवा ही करूँगा ॥ ८ ॥

ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं । माया कृत परमारथ नाहीं ॥

क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब (सुख-सम्पत्ति आदि) राम-भक्तिके विरोधी हैं। जगत्में जितने भी शत्रु-मित्र और सुख-दुःख [आदि द्वन्द्व] हैं, सब-के-सब मायारचित हैं, परमार्थतः (वास्तवमें) नहीं हैं ॥ ९ ॥

बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥
सपनें जेहि सन होइ लराई । जागें समुझत मन सकुचाई ॥

हे श्रीरामजी ! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपासे शोकका नाश करनेवाले आप मुझे मिले; और जिसके साथ अब स्वप्नमें भी लड़ाई हो तो जागनेपर उसे समझकर मनमें संकोच होगा [कि स्वप्नमें भी मैं उससे क्यों लड़ा] ॥ १० ॥

अब प्रभु कृपा करहु एहि भौंती । सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥
सुनि विराग संजुत कपि बानी । बोले विहँसि रामु धनुपानी ॥

हे प्रभो ! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात में आपका भजन ही करूँ । सुग्रीवकी वंराग्ययुक्त वाणी सुनकर (उसके क्षणिक वंराग्यको देखकर) हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी मुसकराकर बोले—॥ ११ ॥

जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा वचन मम मृषा न होई ॥
नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु खगोस वेद अस गावत ॥

तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परंतु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होता (अर्थात् बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा) । [काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि—] हे पक्षियोंके राजा गरुड़ ! नट (मदारी) के बंदरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥

लै सुग्रीव संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥

तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धनुष-बाण धारण करके श्रीरघुनाथजी चले । तब श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा । वह श्रीरामजीका बल पाकर बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥

सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा ॥

बालि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा । उसकी स्त्री ताराने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलकी सीमा हैं ॥ १४ ॥

कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥
वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं ।

दो०—कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ ।
जौं कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होउँ सनाथ ॥ ७ ॥
बालिने कहा—हे भीरु (डरपोक) प्रिये ! सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं । जो

कदाचित् वे मुझे मारेंगेही तो मैं सनाथ हो जाऊँगा (परमपद पा जाऊँगा) ॥ ७ ॥

चौ०—अस कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥

भिरे उभौ बाली अति तर्जा । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥

ऐसा कहकर वह महान् अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला । दोनों भिड़ गये । बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और घूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा ॥ १ ॥

तव सुग्रीव विकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा ॥

मैं जो कहा रघुवीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥

तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा । घूँसेकी चोट उसे वज्रके समान लगी । [सुग्रीवने आकर कहा—] हे कृपालु रघुवीर ! मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि मेरा भाई नहीं है, काल है ॥ २ ॥

एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥

कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥

[श्रीरामजीने कहा—] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है । उसी भ्रमसे मैंने उसको नहीं मारा । फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्रके समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥

मेली कंठ सुमन कै माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥

पुनि नाना विधि भई लराई । बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥

तब श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल कर भेजा । दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ । श्रीरघुनाथजीवृक्षकी आड़से देख रहे थे ।

बो०—बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि ।

मारा बालि राम तव हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥

सुग्रीवने बहुत-से छल-बल किये, किंतु [अन्तमें] भय मानकर हृदयसे हार पा । तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा ॥ ८ ॥

१०—परा विकल महि सर के लागें । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें ॥

स्याम गात सिर जटा बनाएँ । अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥

बाणके लगते ही बालि व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । किंतु प्रभु श्रीरामचन्द्र-

जीको आगे देखकर वह फिर उठ बैठा । भगवान्का श्याम शरीर है, सिरपर जटा बनाये हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥

पुनिपुनिचितइ चरनचितदीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥
हृदयँ प्रीति मुख वचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥

बालिने बार-बार भगवान्की ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लगा दिया । प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना । उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें कठोर वचन थे । वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला—॥ २ ॥

धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं । मारेहु मोहि व्याध की नाईं ॥
मैं बैरी सुग्रीव पिआरा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥

हे गोसाईं ! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह (छिपकर) मारा ? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा ? हे नाथ ! किस दोषसे आपने मुझे मारा ? ॥ ३ ॥

अनुंज वधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥
इन्हहि कुदृष्टि विलोकइ जोई । ताहि बधे कछु पाप न होई ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे मूर्ख ! सुन, छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी स्त्री और कन्या—ये चारों समान हैं । इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता ।

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥

हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अभिमान है । तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी कान (ध्यान) नहीं दिया । सुग्रीवको मेरी भुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५ ॥

दो०—सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि ।
प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥ ६ ॥

[बालिने कहा—] हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी (आप) से मेरी चतुराई नहीं चल सकती । हे प्रभो ! अन्तकालमें आपकी गति (शरण) पाकर मैं अब भी पापी ही रहा ? ॥ ६ ॥

चो०—सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥
अचल करौं तनु राखहु प्राणा । बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥

वालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे स्पर्श किया [और कहा—] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ; तुम प्राणोंको रक्खो ! वालिने कहा—हे कृपानिधान ! सुनिये—॥ १ ॥

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥

जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥

मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्ममें) [अनेकों प्रकारका] साधन करते रहते हैं। फिर भी अन्तकालमें उन्हें 'राम' नहीं कह आता (उनके मुखसे रामनाम नहीं निकलता)। जिनके नामके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समानरूपसे अविनाशिनी गति (मुक्ति) देते हैं।

मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥

वह श्रीरामजी स्वयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। हे प्रभो ! ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा ? ॥ ३ ॥

छं०—सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं ।

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥

मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही ।

अस कवन सठ हाठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥ १ ॥

श्रुतियाँ 'नेति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं; तथा प्राण और मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको [विषयोंके रससे सर्वथा] नीरस बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी क्वचित् ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु (आप) साक्षात् मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो। परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्षको काटकर उससे बबूरके बाड़ लगावेगा (अर्थात् पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा) ? ॥ १ ॥

अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ ।

जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥

यह तनय मम सम बिनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिए ।

गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ २ ॥

जीको आगे देखकर वह फिर उठ बैठा । भगवान्का श्याम शरीर है, सिरपर जटा बनाये हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥

पुनिपुनिचितइ चरनचितदीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥
हृदयँ प्रीति मुख वचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥

बालिने बार-बार भगवान्की ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लंगा दिया । प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना । उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें कठोर वचन थे । वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला—॥ २ ॥

धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं । मारेहु मोहि व्याध की नाईं ॥
में वैरी सुग्रीव पिआरा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥

हे गोसाईं ! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह (छिपकर) मारा ? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा ? हे नाथ ! किस दोषसे आपने मुझे मारा ? ॥३॥

अनुंज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥
इन्हहि कुदृष्टि विलोकइ जोई । ताहि बधें कछु पाप न होई ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे मूर्ख ! सुन,छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी स्त्री और कन्या—ये चारों समान हैं । इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता ।

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥

हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अभिमान है । तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी कान (ध्यान) नहीं दिया । सुग्रीवकी मेरी भुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५ ॥

बो०—सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि ।
प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥ ६ ॥

[बालिने कहा—] हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी (आप) से मेरी चतुराईं नहीं चल सकती । हे प्रभो ! अन्तकालमें आपकी गति (शरण) पाकर मैं अब भी पापी ही रहा ? ॥६॥

बो०—सुनत राम अति कोमल बानी । बालिसीस परसेउ निज पानी ॥
अचल करौं तनु राखहु प्राणा । बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥

नवाते हैं। तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक-मार्ग किया ॥ ४ ॥

राम कहा अनुजहि समुझाई । राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको राज्य दे दो। श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा (आज्ञा) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मरतक नवाकर चले ॥ ५ ॥

श्लो०—लछिमन तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज ।

राजु दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुवराज ॥ ११ ॥

लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया और [उनके सामने] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद दिया ॥ ११ ॥

श्लो०—उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥

सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वार्थ लागि करहिं सब प्रीती ॥

हे मावेंती ! जगत्में श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, बन्धु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थके लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥

गालि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंताँ जर छाती ॥

गोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ ॥

जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीरमें बहुत-से तन हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सुग्रीवको उन्होंने मरौतक राजा बना दिया। श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृपालु है ॥ २ ॥

मानतहँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥

मुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥

जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तिके जालमें पड़ें ? श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी ॥ ३ ॥

हे नाथ ! अब मुझपर दयादृष्टि कीजिये और मैं जो वर माँगता हूँ उसे दीजिये ! मैं कर्मवश जिस योनिमें जन्म लूँ, वहीं श्रीरामजी (आप) के चरणोंमें प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो ! यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिये। और हे देवता और मनुष्योंके नाथ ! बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २ ॥

दो०—राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग ।

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १० ॥

श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही (आसानीसे) त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥

चौ०—राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥

नाना विधि विलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ॥

श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बालिकी स्त्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देहकी सँभाल नहीं है ॥ १ ॥

तारा विकल देखि रघुसया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥

ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया (अज्ञान) हर ली। [उन्होंने कहा—] पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु—इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥ २ ॥

प्रगट सो तनु तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोवा ॥

उपजा ग्यान चरन तव लागी । लीन्हेसि परम भगति वर मागी ॥

वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है; फिर तुम किसके लिये रो रही हो ? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान्‌के चरणों लगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥ ३ ॥

उमा दारु जोषित की नाई । सवहि नचावत रामु गोसाई ॥

तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! स्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह

नचाते हैं। तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सत्र मृतक-कर्म किया ॥ ४ ॥

राम कहा अनुजहि समुझाई । राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको राज्य दे दो। श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा (आज्ञा) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥ ५ ॥

दो०—लछिमन तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज ।

राजु दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुबराज ॥ ११ ॥

लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया और [उनके सामने] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद दिया ॥ ११ ॥

चौ०—उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥

सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वार्थ लागि करहिं सब प्रीती ॥

हे पार्वती ! जगत्में श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, बन्धु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थके लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥

बालि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंताँ जर छाती ॥

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कृपालु रघुवीर सुभाऊ ॥

जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सुग्रीवको उन्होंने वानरोंका राजा बना दिया। श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृपालु है ॥ २ ॥

जानतहँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥

पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥

जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तिके जालमें फँसें ? फिर श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी ॥ ३ ॥

कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥

गत ग्रीषम वर्षा रितु आई । रहिहउँ निकट सैल पर छाई ॥

फिर प्रभुने कहा—हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्षतक गांव (वस्ती) में नहीं जाऊंगा । ग्रीष्मऋतु बीतकर वर्षाऋतु आ गयी । अतः मैं यहाँ पास ही पर्वतपर टिक रहूँगा ।

अंगद सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदयँ धरेहु मम काजू ॥

जब सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रवरपन गिरि पर छाए ॥

तुम अंगदसहित राज्य करो । मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना । तदनन्तर जब सुग्रीवजी घर लौट आये, तब श्रीरामजी प्रवरपण पर्वतपर जा टिके ॥ ५ ॥

दो०—प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर वनाइ ।

राम कृपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आइ ॥ १२ ॥

देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना (सजा) रक्खा था । उन्होंने सोच रक्खा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे । १२ ।

चौ०—सुंदर वन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥

कंद मूल फल पत्र सुहाए । भए बहुत जब ते प्रभु आए ॥

सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित है । मधुके लोभसे भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं । जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी ।

देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥

मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहिं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा ॥

मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट् श्रीरामजी छोटे भाई-सहित वहाँ रह गये । देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओंके शरीर धारण करके प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥

मंगलरूप भयउ वन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥

फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्यौ भाई ॥

जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया, तबसे वन मङ्गलस्वरूप हो गया । सुन्दर स्फटिकमणिकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है । उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं ॥ ३ ॥

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति विरति नृपनीति विवेका ॥

वरषा काल मेघ नभ छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥

श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेकों कथाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं ॥ ४ ॥

दो०—लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि ।

गृही विरति रत हरष जस विष्णुभगत कहूँ देखि ॥ १३ ॥

[श्रीरामजी कहने लगे—] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं ॥ १३ ॥

चौ०—घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥

दामिनिदमकरह न घन माहीं । खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं ॥

आकाशमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया (सीताजी) के बिना मेरा मन डर रहा है। विजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥

वरषहिं जलद भूमि निअराएँ । जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ ॥

बूँद अघात सहहिं गिरि कैसें । खल के बचन संत सह जैसें ॥

बादल पृथ्वीके समीप आकर (नीचे उतरकर) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान् नम्र हो जाते हैं। बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोंके वचन संत सहते हैं ॥ २ ॥

छुद्र नदीं भरि चलीं तोराई । जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥

भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥

छोटी नदियाँ भरकर [किनारोंको] तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं (मर्यादाका त्याग कर देते हैं)। पृथ्वीपर पड़ते ही पानी गँदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥

समिटिसमिटिजल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥

सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥

जल एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगुण [एक-एक कर] सज्जनके

पास चले आते हैं। नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको पाकर बचल (आवागमनसे मुक्त) हो जाता है ॥ ४ ॥

श्लोक—हरित भूमि तृण संकुल समुद्रि परहिं नहिं पंथ ।

जिमि पाखंड वाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४ ॥

पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे चलते चलते नहीं पढ़ते। जैसे पाखण्ड मतके प्रचारसे सदग्रन्थ गुप्त (लुप्त) हो जाते हैं ॥ १४ ॥

श्लोक—दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पढ़हिं जनु बटु समुदाई ॥

नव पल्लव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें विवेका ॥

चारों दिशाओंमें मंदकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यापियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक (ज्ञान) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥

अर्क जवास पात विनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥

खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥

मदार और जवाना बिना पत्तेके हो गये (उनके पत्ते झड़ गये), जैसे श्रेष्ठ राज्यमें दुष्टोंका उद्यम जाता रहा (उनकी एक भी नहीं चतती)। धूल वहाँ खोजने-पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (जयति क्रोधका आवेग होनेपर धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता) ॥ २ ॥

ससि संपन्न सोह महि कैसी । उपकारी कै संपति जैसी ॥

निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥

अन्नसे युक्त (सहलहाती हुई) देतीसे हरी-भरी) पृथ्वी कंसो शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति। रातके घने अन्धकारमें जुगनू गोमा पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा हो ॥ ३ ॥

महावृष्टि चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भएँ विगरहिं नारीं ॥

कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मदमाना ॥

भारो बरसिं खेतोंकी क्यारियां फूट चली हैं; जैसे स्वतन्त्र होनेसे त्रिपां बिगड़

हृत अनुज सन कथा अनेका । भगति विरति नृपनीति विवेका ॥

रषा काल मेघ नभ छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥

श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेकों
थाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने
गते हैं ॥ ४ ॥

दो०—लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि ।

गृही विरति रत हरष जस विष्णुभगत कहूँ देखि ॥ १३ ॥

[श्रीरामजी कहने लगे—] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच
हे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं ॥ १३ ॥

ती०—घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥

दामिनि दमकरह न घन माहीं । खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं ॥

आकाशमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया (सीताजी)
ने विना मेरा मन डर रहा है। विजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जैसे दुष्टकी प्रीति
स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥

वरषहिं जलद भूमि निअराएँ । जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ ॥

बूँद अघात सहहिं गिरि कैसें । खल के वचन संत सह जैसें ॥

बादल पृथ्वीके समीप आकर (नीचे उतरकर) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर
वेदान् नम्र हो जाते हैं। बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोंके वचन संत सहते हैं ॥ २ ॥

शुद्ध नदीं भरि चलीं तोराई । जस थोरैहुँ घन खल इतराई ॥

भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥

छोटी नदियाँ भरकर [किनारोंको] तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े घनसे भी दुष्ट
इतरा जाते हैं (मर्यादाका त्याग कर देते हैं)। पृथ्वीपर पड़ते ही पानी गँदला हो गया
है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥

समिटिसमिटिजल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥

सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरिपाई ॥

जल एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगुण [एक-एक कर] सज्जनके

पास चले आते हैं। नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको पाकर अचल (आवागमनसे मुक्त) हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—हरित भूमि तृन संकुल समुद्रि परहिं नहिं पंथ ।

जिमि पाखंड वाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४ ॥

पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्ग्रन्थ गुप्त (लुप्त) हो जाते हैं ॥ १४ ॥

चौ०—दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई। वेद पढ़हिं जनु बटु समुदाई ॥

नव पल्लव भए विटप अनेका। साधक मन जस मिलें विवेका ॥

चारों दिशाओंमें मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक (ज्ञान) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥

अर्क जवास पात विनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥

खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी। करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥

मदार और जवासा बिना पत्तेके हो गये (उनके पत्ते झड़ गये), जैसे श्रेष्ठ राज्यमें दुष्टोंका उद्यम जाता रहा (उनकी एक भी नहीं चलती)। धूल कहीं खोजनेपर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (अर्थात् क्रोधका आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता) ॥ २ ॥

ससि संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी कै संपति जैसी ॥

निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥

अन्नसे युक्त (लहलहाती हुई खेतोंसे हरी-भरी) पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति। रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा हो ॥ ३ ॥

महावृष्टि चलि फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ विगरहिं नारीं ॥

कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद ॥

भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं; जैसे स्वतन्त्र होनेसे

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृपनीति विवेका ॥

वरषा काल मेघ नभ छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥

श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेकों कथाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं ॥ ४ ॥

दो०—लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि ।

गृही बिरति रत हरष जस विष्णुभगत कहूँ देखि ॥ १३ ॥

[श्रीरामजी कहने लगे—] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं ॥ १३ ॥

ची०—घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥

दामिनिदमकरह न घन माहीं । खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं ॥

आकाशमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया (सीताजी) के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥

वरषहिं जलद भूमि निअराएँ । जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ ॥

बूँद अघात सहहिं गिरि कैसें । खल के वचन संत सह जैसें ॥

बादल पृथ्वीके समीप आकर (नीचे उतरकर) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान् नम्र हो जाते हैं। बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोंके वचन संत सहते हैं ॥ २ ॥

धुद्र नदीं भरि चलीं तोराई । जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥

भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥

छोटी नदियाँ भरकर [किनारोंको] तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं (मर्यादाका त्याग कर देते हैं)। पृथ्वीपर पड़ते ही पानी गँदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥

समिटिसमिटिजल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥

सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥

जल एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगुण [एक-एक कर] सज्जनके

पास चले आते हैं। नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको पाकर अचल (आवागमनसे मुक्त) हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—हरित भूमि तृण संकुल समृद्धि परहिं नहिं पंथ ।

जिमि पाखंड वाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४ ॥

पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखण्ड मतके प्रचारसे सदग्रन्थ गुप्त (लुप्त) हो जाते हैं ॥ १४ ॥

चौ०—दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पढ़हिं जनु वदु समुदाई ॥

नव पल्लव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें विवेका ॥

चारों दिशाओंमें मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक (ज्ञान) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥

अर्क जवास पात विनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥

खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥

मदार और जवासा बिना पत्तेके हो गये (उनके पत्ते झड़ गये), जैसे श्रेष्ठ राज्यमें दुष्टोंका उद्यम जाता रहा (उनकी एक भी नहीं चलती)। धूल कहीं खोजनेपर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (अर्थात् क्रोधका आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता) ॥ २ ॥

ससि संपन्न सोह महि कैसी । उपकारी कै संपत्ति जैसी ॥

निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥

अन्नसे युक्त (लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी) पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति। रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा हो ॥ ३ ॥

महावृष्टि चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भएँ विगरहिं नारीं ॥

कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मदमाना ॥

भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली है; जैसे स्वतन्त्र होनेसे स्त्रियाँ विगड़

हैं। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं (उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक
)। जैसे विद्वान् लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४ ॥

अत चक्रवाक खग नहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥
 र वर्षइ तृन नहिं जामा। जिमि हरिजन हियँ उपजन कामा ॥

चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं।
 त्रमें वर्षा होती है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती। जैसे हरिभक्तके हृदयमें काम नहीं
 उत्पन्न होता ॥ ५ ॥

वेविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥
 जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना ॥

पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर
 प्रजाकी वृद्धि होती है। जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर
 इंद्रियाँ [शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं] ॥ ६ ॥

दो०—कबहुँ प्रबल बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं।

जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नसाहिं ॥१५(क)॥

कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते
 हैं। जैसे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म (श्रेष्ठ आचरण) नष्ट हो जाते हैं ॥१५ (क)

कबहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग।

विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥१५(ख)॥
 कभी [बादलोंके कारण] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी
 प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न
 जाता है ॥ १५ (ख) ॥

चौ०—व्रषा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई

फूलें कास सकल महि छाई। जनु वर्षाँ कृत प्रगट बुढ़ाई
 हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद्-ऋतु आ गयी
 हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी। मानो वर्षाऋतुने [कासरूपी सफेद बालोंके
 अपना बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ १ ॥

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥

अगस्त्यके तारने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्तोष लोभको सोख लेता है । नदियों और तालाबोंका निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोहसे रहित संतोंका हृदय ! ॥ २ ॥

रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥
जानि सरद रिनु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥

नदी और तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जैसे ज्ञानी (विवेकी) पुरुष ममताका त्याग करते हैं । शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो जाते हैं) ॥ ३ ॥

पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप कैजसि करनी ॥
जल संकोच विकल भइँ मीना । अवुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥

न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [निर्मल होकर] ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं । जैसे मूर्ख (विवेकशून्य) कुटुम्बी (गृहस्थ) धनके बिना व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

विनु धन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एकपाव भगतिजिमिमोरी ॥

बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं । कहीं-कहीं (विरले ही स्थानोंमें) शरदऋतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥

दो०—चले हरषि तजि नगर नृप तापस वनिक भिखारि ।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६ ॥

[शरदऋतु पाकर] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षाके लिये] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति प्राकर चारों आश्रमवाले [नाना प्रकारके साधनरूपी] श्रमोंको त्याग देते हैं ॥ १६ ॥

जाती हैं। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं (उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं) । जैसे विद्वान् लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४ ॥

देखिअत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥

ऊषर बरषइ तृन नहिं जामा । जिमि हरिजन हियँ उपजन कामा ॥

चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं । ऊसरमें वर्षा होती है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जैसे हरिभक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ ५ ॥

विविध जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥

जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना ॥

पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजाकी वृद्धि होती है । जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं] ॥ ६ ॥

दो०—कवहुँ प्रबल बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं ।

जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नसाहिं ॥१५(क)॥

कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं । जैसे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म (श्रेष्ठ आचरण) नष्ट हो जाते हैं ॥१५ (क)॥

कवहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कवहुँक प्रगट पतंग ।

विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥१५(ख)॥

कभी [बादलोंके कारण] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं । जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है ॥ १५ (ख) ॥

चौ०—वरषा विगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥

फूलें कास सकल महि छाई । जनु वर्षाँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥

हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा वीत गयी और परम सुन्दर शरद्-ऋतु आ गयी ! हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी । मानो वर्षाऋतुने [कासरूपी सफेद वालोंके अपना बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ १ ॥

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥

अगस्त्यके तारेने उदय होकर मागंके जलको सोख लिया, जैसे सन्तोष लोभको सोख लेता है । नदियों और तालाबोंका निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोहसे रहित संतोंका हृदय ! ॥ २ ॥

रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥

नदी और तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जैसे जानी (विवेकी) पुण्य ममताका त्याग करते हैं । शरद्वृत्तु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो जाते हैं) ॥ ३ ॥

पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप कैजसि करनी ॥
जल संकोच विकल भइँ मीना । अवुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥

न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [निर्मल होकर] ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं । जैसे मूर्ख (विवेकशून्य) कुटुंबी (गृहस्थ) धनके बिना व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

विनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगतिजिमिमोरी ॥

बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं । कहीं-कहीं (विरले ही स्थानोंमें) शरद्वृत्तुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥

दो०—चले हरषि तजि नगर नृप तापस वनिक भिखारि ।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६ ॥

[शरद्वृत्तु पाकर] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षाके लिये] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति प्राकर चारों आश्रमवाले [नाना प्रकारके साधनरूपी] श्रमोंको त्याग देते हैं ॥ १६ ॥

चौ०—सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥
फूलें कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥

जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके शरणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती । कमलोंके फूलनेसे तालाव कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है ॥ १ ॥

गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग ख नाना रूपा ॥
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥

भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंज रहे हैं तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे हैं । रात्रि देखकर चक्रवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है ॥ २ ॥

चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥

पपीहा रट लगाये है । उसको बड़ी प्यास है ! जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता (सुखके लिये झीखता रहता है) । शरद्ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है । जैसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥

देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा ॥

चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हैं जैसे भगवद्भक्त भगवान्को पाकर उनके [निर्निमेष नेत्रोंसे] दर्शन करते हैं । मच्छर और डाँस जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ ।
सद्गुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ १७ ॥

[वर्षाऋतुके कारण] पृथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरद्ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट हो गये जैसे सद्गुरुके मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७ ॥

चौ०—वरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥
एक वार कैसेहुँ सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥

वर्षा बीत गयी, निर्मल शरद्ऋतु आ गयी । परंतु हे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली ! एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आऊँ ।
कतहुँ रहउ जौँ जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥

कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा । राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुघ भुला दी ॥ २ ॥

जेहिं सायक मारा मैं बाली । तेहिं सर हतौँ मूढ़ कहँ काली ॥
जासु कृपाँ छूटहिं मद मोहा । ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥

जिस वाणसे मैंने बालिको मारा था, उसी वाणसे कल उस मूढ़को मारूँ ! [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है ? [यह तो लीलामात्र है] ॥ ३ ॥

जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना ॥

ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है (जोड़ ली है), वे ही इस चरित्र (लीलारहस्य) को जानते हैं । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर वाण हाथमें ले लिये ॥ ४ ॥

दो०—तव अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सीव ।

भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥

तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [उसे मारनेकी बात नहीं है] ॥ १८ ॥

चौ०—इहाँ पवनसुत हृदयँ विचारा । राम काजु सुग्रीवँ विसारा ॥

निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधितेहि कहि समुझावा ॥

यहां (किष्किन्धानगरीमें) पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने विचार किया कि सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । [साम, दान, दण्ड, भेद] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥

ची०—सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥
फूलें कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥

जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके शरणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती । कमलोंके फूलनेसे तालाव कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुन ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है ॥ १ ॥

गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग ख नाना रूपा ॥
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥

भीरे अनुपम शब्द करते हुए गुंज रहे हैं तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे हैं । रात्रि देखकर चक्रवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है ॥ २ ॥

चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥

पपीहा रट लगाये है । उसको बड़ी प्यास है ! जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता (सुखके लिये झीखता रहता है) । शरद्ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है । जैसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥

देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा ॥

चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हैं जैसे भगवद्भक्त भगवान्को पाकर उनके [निर्निमेष नेत्रोंसे] दर्शन करते हैं । मच्छर और डाँस जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ ।

सद्गुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ १७ ॥

[वर्षाऋतुके कारण] पृथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरद्ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट हो गये जैसे सद्गुरुके मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७ ॥

ची०—वरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥
एक बार कैसेहुँ सुधि जानौँ । कालहु जीति निमिष महुँ आनौँ ॥

वर्षा बीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी । परंतु हे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली ! एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आऊँ ।
 कतहुँ रहउ जौ जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥
 सुग्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी । पावां राज कोस पुर नारी ॥

कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊँगा ।
 राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुघ भुला दी ॥ २ ॥

जेहिं सायक मारा मैं वाली । तेहिं सर हतौं मूढ़ कहँ काली ॥
 जासु कृपाँ छूटहिं मद मोहा । ता कहँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥

जिस बाणसे मैंने वालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारूँ ! [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है ? [यह तो लीलामात्र है] ॥ ३ ॥

जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥
 लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना ॥

ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है (जोड़ ली है), वे ही इस चरित्र (लीलारहस्य) को जानते हैं । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथमें ले लिये ॥ ४ ॥

दो०—तव अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सीव ।

भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥

तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [उसे मारनेकी बात नहीं है] ॥ १८ ॥

चौ०—इहाँ पवनसुत हृदयँ विचारा । राम काजु सुग्रीवँ विसारा ॥

निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधितेहि कहि समुझावा ॥

यहाँ (किष्किन्धानगरीमें) पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने विचार किया कि सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । [साम, दान, दण्ड, भेद] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥

सुनि सुग्रीवँ परम भय माना । विषयँ मोर हरि लीन्हेउ ग्याना
अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा

हनुमान्जीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [और कहा—] विषयने मेरे ज्ञानको हर लिया । अब हे पवनसुत ! जहाँ-तहाँ बानरोंके यूथ रहते हैं; वहाँ दूतोंसमूहोंको भेजो ॥ २ ॥

कहहु पाख महुँ आव न जोई । मोरें कर ता कर बध होई
तव हनुमंत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता

और कहला दो कि एक पखवाड़ेमें (पंद्रह दिनोंमें) जो न आ जायगा, उसका मेरे हाथों वध होगा । तब हनुमान्जीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके—॥ ३ ॥

भय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई
एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए

सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी । सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चले इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये । उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे ॥ ४ ॥

दो०—धनुष चढ़ाइ कहा तव जारि करउँ पुर छार ।

व्याकुल नगर देखि तव आयउ बालिकुमार ॥ १६ ॥

तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर दूंगा । तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १६ ॥

चौ०—चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । लछिमन अ भय बाँह तेहि दीन्ही

क्रोधवंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भयँ अकुलाना

अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की (क्षमा-याचना की) । तब लक्ष्मणजीने उनको अभय बाँह दी (भुजा उठाकर कहा कि डरो मत) । सुग्रीवने अपकानोंसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर कहा—॥ १ ॥

सुनु हनुमंत संग लै तारा । करि विनती समुझाउ कुमारा
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना

हे हनुमान् ! सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझा

वर्षा बीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी । परंतु हे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली ! एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आऊँ ।
कतहुँ रहउ जौँ जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥

कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊँगा । राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुध भुला दी ॥ २ ॥

जेहिं सायक मारा मैं वाली । तेहिं सर हतौँ मूढ़ कहँ काली ॥
जासु कृपाँ छूटहिं मद मोहा । ता कहँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥

जिस बाणसे मैंने वालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारूँ ! [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है ? [यह तो लीलामात्र है] ॥ ३ ॥

जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना ॥

ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है (जोड़ ली है), वे ही इस चरित्र (लीलारहस्य) को जानते हैं । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथमें ले लिये ॥ ४ ॥

दो०—**तव अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव ।**

भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥

तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [उसे मारनेकी बात नहीं है] ॥ १८ ॥

चौ०—**इहाँ पवनसुत हृदयँ विचारा । राम काजु सुग्रीवँ विसारा ॥**

निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधितेहि कहि समुझावा ॥

यहाँ (किष्किन्धानगरीमें) पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने विचार किया कि सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । [राम, दान, दण्ड, भेद] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥

सुनि सुग्रीवँ परम भय माना । विषयँ मोर हरि लीन्हैउ ग्याना ॥

अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा ॥

हनुमान्जीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [और कहा—] विषयों-
ने मेरे ज्ञानको हर लिया । अब हे पवनसुत ! जहाँ-तहाँ वानरोंके यूथ रहते हैं; वहाँ दूतोंके
समूहोंको भेजो ॥ २ ॥

कहहु पाख महुँ आव न जोई । मोरें कर ता कर बध होई ॥

तब हनुमंत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥

और कहला दो कि एक पखवाड़ेमें (पंद्रह दिनोंमें) जो न आ जायगा, उसका
मेरे हाथों बध होगा । तब हनुमान्जीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके—॥ ३ ॥

भय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥

एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए ॥

सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी । सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चले ।
इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये । उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे ॥ ४ ॥

दो०—धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार ।

व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १६ ॥

तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर
दूंगा । तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १६ ॥

चौ०—चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥

क्रोधवंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भयँ अकुलाना ॥

अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की (क्षमा-याचना की) । तब
लक्ष्मणजीने उनको अभय बाँह दी (भुजा उठाकर कहा कि डरो मत) । सुग्रीवने अपने
कानोंसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर कहा—॥ १ ॥

सुनु हनुमंत संग लै तारा । करि विनती समुझाउ कुमारा ॥

तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥

हे हनुमान् ! सुनो, तूम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ

(समझा-बुझाकर शान्त करो) । हनुमान्जीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी वन्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका बखान किया ॥ २ ॥

करि विनती मंदिर लै आए । चरन पखारि पलंग बैठाए ॥

तव कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥

वे विनती करके उन्हें महलमें ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें पलंगपर बंठाया । तब वानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको गलेसे लगा लिया ॥ ३ ॥

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥

सुनत विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहुविधि समुझावा ॥

[सुग्रीवने कहा—] हे नाथ ! विषयके समान और कोई मद नहीं है । यह मुनियोंके मनमें भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न कर देता है [फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा] । सुग्रीवके विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत प्रकारसे समझाया ॥ ४ ॥

पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि विधि गए दूत समुदाई ॥

तव पवनसुत हनुमान्जीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे वह सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥

दो०—हरषि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ ।

रामानुज आगे करि आए जहँ रघुनाथ ॥ २० ॥

तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीको आगे करके (अर्थात् उनके पीछे-पीछे) सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ आये ॥ २० ॥

चौ०—नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥

अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जौं दाया ॥

श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा—हे नाथ ! मुझे कुछ भी दोष नहीं है । हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबल है ! आप जब दया करते हैं, हे राम ! तभी यह छूटती है ॥ १ ॥

विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पावँर पसु कपि अति कामी ॥
नारि नयन सर जाहि न लगा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥

हे स्वामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हैं । फिर मैं तो पामर पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ । स्त्रीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोधरूपी अँधेरी रातमें भी जागता रहता है (क्रोधान्ध नहीं होता) ॥ २ ॥

लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ॥

और लोभकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं बँधाया, हे रघुनाथजी ! वह मनुष्य आपहीके समान है । ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपासे ही कोई-कोई इन्हें पाते हैं ॥ ३ ॥

तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि विधि सीता कै सुधि पाई ॥

तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले—हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो । अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि होत बतकही आए बानर जूथ ।

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१ ॥

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरोंके यूथ (झुंड) आ गये । अनेक रंगोंके बानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे ॥ २१ ॥

चौ०—बानर कटक उमा मैं देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥

आइ राम पद नावहिं माथा । निरखि बदनु सब होहिं सनाथा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! बानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी । उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान् मूर्ख है । सब बानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं और [सौन्दर्य-माधुर्यनिधि] श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १ ॥

अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥

यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥

सेनामें एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो ।

प्रभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी विन्वरूप तथा सर्व-व्यापक हैं (सारे रूपों और सब स्थानोंमें हैं) ॥ २ ॥

ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई । कह सुग्रीव सवहि समुझाई ॥

राम काजु अरु मोर निहोरा । वानर जूय जाहु चहुँ ओरा ॥

आजा पाकर सब जहाँ-उहाँ खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा कि हे वानरोंके समूहो ! यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा (अनुरोध) है; तुम चारों ओर जाओ ॥ ३ ॥

जनकमुता कहँ खोजहु जाई । मास दिवस महँ आएहु भाई ॥

अवधि मेटि जो विनु सुधि पाएँ । आवइ वनिहि सो मोहि मराएँ ॥

और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । जो [महीनेभरकी] अवधि बिताकर बिना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे मेरेद्वारा मरवाते ही बनेगा (अर्थात् मुझे उसका बध करवाना ही पड़ेगा) ॥ ४ ॥

दो०—वचन सुनत सब वानर जहँ तहँ चले तुरंत ।

तब सुग्रीवँ बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२ ॥

सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-उहाँ (भिन्न-भिन्न दिशाओंमें) चल दिये । तब सुग्रीवने अंगद, नल, हनुमान् आदि प्रधान-प्रधान योद्धाओंको बुलाया [और कहा—] ॥ २२ ॥

चौ०—सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिथीर सुजाना ॥

सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु । सीता सुधि पँढेहु सब काहु ॥

हे धीरवृद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान् और हनुमान् ! तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाकी जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥

मनक्रमवचनसोजतन विचारेहु । रामचंद्र कर काजुँ सँवारेहु ॥

भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी ॥

मन, वचन तथा कर्मसे उभोका (सीताजीका पता लगानेका) उपाय सोचना । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न (सफल) करना । मुझको पीठसे और अग्निको हृदयसे (नामनेसे) सेवन करना चाहिये । परन्तु स्वामीकी सेवा तो छल छोड़कर सर्वभावसे (मन, वचन, कर्मसे) करनी चाहिये ॥ २ ॥

विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पावँर पसु कपि अति कामी ।
नारि नयन सर जाहि न लगा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ।

हे स्वामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हैं । फिर मैं तो पाम
पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ । स्त्रीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, ज
भयंकर क्रोधरूपी अँधेरी रातमें भी जागता रहता है (क्रोधान्ध नहीं होता) ॥ २ ॥

लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ।
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ।

और लोभकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं बँधाया, हे रघुनाथजी ! वह मनुष
आपहीके समान है । ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपासे ही कोई-कोई इ
पाते हैं ॥ ३ ॥

तव रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ।
अव सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ।

तव श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले—हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो
अव मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥

दो०—एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ ।

नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१ ॥

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ (झुंड) आ गये । अनेक रंगों
वानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे ॥ २१ ॥

चौ०—वानर कटक उमा मैं देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा ।

आइ राम पद नावहिं माथा । निरखि बदनु सब होहिं सनाथा ।

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! वानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी । उसकी
गिनती करना चाहे वह महान् मूर्ख है । सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें मस्त
नवाते हैं और [सौन्दर्य-माधुर्यनिधि] श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १ ॥

अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ।

यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकारि । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ।

सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी

प्रभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्व-व्यापक हैं (सारे रूपों और सब स्थानोंमें हैं) ॥ २ ॥

ठड़े जहँ तहँ आयसु पाई । कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥

राम काजु अरु मोर निहोरा । वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥

आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा कि हे वानरोंके समूहो ! यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा (अनुरोध) है; तुम चारों ओर जाओ ॥ ३ ॥

जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । मास दिवस महँ आएहु भाई ॥

अवधि मेटि जो विनु सुधि पाएँ । आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥

और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । जो [महीनेभरकी] अवधि बिताकर बिना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे मेरेद्वारा मरवाते ही बनेगा (अर्थात् मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा) ॥ ४ ॥

दो०—वचन सुनत सब वानर जहँ तहँ चले तुरंत ।

तव सुग्रीवँ बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२ ॥

सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ (भिन्न-भिन्न दिशाओंमें) चल दिये । तब सुग्रीवने अंगद, नल, हनुमान् आदि प्रधान-प्रधान योद्धाओंको बुलाया [और कहा—] ॥ २२ ॥

चौ०—सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥

सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु । सीता सुधि पूँछेहु सब काहु ॥

हे धीरवृद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान् और हनुमान् ! तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥

मन क्रमवचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेहु ॥

भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी ॥

मन, वचन तथा कर्मसे उसीका (सीताजीका पता लगानेका) उपाय सोचना । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न (सफल) करना । सूर्यको पीठसे और अग्निको हृदयसे (सामनेसे) सेवन करना चाहिये । परन्तु स्वामीकी सेवा तो छल छोड़कर सर्वभावसे (मन, वचन, कर्मसे) करनी चाहिये ॥ २ ॥

तजि माया सेइअ परलोका । मिटहिं सकल भवसंभव सोका ॥
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब काम विहाई ॥

माया (विषयोंकी ममता-आसक्ति) को छोड़कर परलोकका सेवन (भगवान्‌के दिव्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन) करना चाहिये, जिससे भव (जन्म-मरण) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायँ । हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि सब कामों (कामनाओं) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३ ॥

सोइ गुणग्य सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥
आयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥

सद्गुणोंको पहचाननेवाला (गुणवान्) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका प्रेमी है । आज्ञा माँगकर और चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले ॥ ४ ॥

पाछें पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥
परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥

सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमान्‌जीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके प्रभुने उन्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी अँगूठी उतारकर दी ॥ ५ ॥

बहु प्रकार सीताहि समुझाएहु । कहि बल विरह बेगि तुम्ह आएहु ॥
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदयँ धरि कृपानिधाना ॥

[और कहा—] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह (प्रेम) कहकर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमान्‌जीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभुको हृदयमें धारण करके वे चले ॥ ६ ॥

जद्यपि प्रभु जानत सब वाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥

यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं (नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं) ॥ ७ ॥

दो०—चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह ।

राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥

सब वागर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओंमें खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्रीरामजीके काममें लयलीन है। गरीबतकका प्रेम (नमस्त्र) भूल गया है ॥ २३ ॥

चौ०—कतहुँ होइ निसिचर सैं भेटा। प्राण लेहिँ एक एक चपेटा ॥

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिँ। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिँ ॥

कहीं किसी रामसत्ते भेट हो जाता है, तो एक-एक चपटमें ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनोंको बहुत प्रकारमें खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पड़नेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥ १ ॥

लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥

मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब विनु जल पाना ॥

इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल हो गये। किन्तु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलमें सब भूना गये। हनुमानजीने मनमें अनुमान किया कि जब लिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं ॥ २ ॥

चढ़ि गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा। भूमि विवर एक कौतुक पेखा ॥

चक्रवाक बक हंस उड़ार्हो। बहुतक खग प्रविसहिँ तेहि मार्हो ॥

उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वीके अंदर एक गुफामें उन्हें एक कौतुक (जादूचर्म) दिखायी दिया। उसके ऊपर चक्रवे, बगुने और हंस उड़ रहे हैं और बहुत-से पक्षी उड़ने प्रवेश कर रहे हैं ॥ ३ ॥

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा। सब कहूँ लै सोइ विवर देखावा ॥

बागों के हनुमंतहि लीन्हा। पेंठे विवर विलंबु न कीन्हा ॥

पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाया। सबने हनुमानजीको बागें कर लिया और वे गुफामें घुस गये, डर नहीं की ॥४॥

दो०—दीख जाइ उपवन वर सर विगसित बहु कंज ।

मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तप पुंज ॥ २४ ॥

जि माया सेइअ परलोका । मिटहिं सकल भवसंभव सोका ॥

ह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई ॥

माया (विषयोंकी ममता-आसक्ति) को छोड़कर परलोकका सेवन (भगवान्के व्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन) करना चाहिये, जिससे भव (जन्म-रण) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायँ । हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि व कामों (कामनाओं) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३ ॥

गोइ गुणग्य सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥

गयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥

सद्गुणोंको पहचाननेवाला (गुणवान्) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनाथजीके रणोंका प्रेमी है । आज्ञा मांगकर और चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण रते हुए सब हर्षित होकर चले ॥ ४ ॥

छिं पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥

रसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥

सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमान्जीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके प्रभुने न्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना वक जानकर उन्हें अपने हाथकी अँगूठी उतारकर दी ॥ ५ ॥

हु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल विरह बेगि तुम्ह आएहु ॥

नुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदयँ धरि कृपानिधाना ॥

[और कहा—] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम) कहकर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमान्जीने अपना जन्म सफल समझा और पानिधान प्रभुको हृदयमें धारण करके वे चले ॥ ६ ॥

यद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥

यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी धा कर रहे हैं (नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँ-तहाँ अनरोंको भेज रहे हैं) ॥ ७ ॥

दो०—चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह ।

राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥

सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओंमें खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्रीरामजीके कार्यमें लवलीन है। शरीरतकका प्रेम (ममत्व) भूल गया है ॥ २३ ॥

चौ०—कतहुँ होइ निसिचर सैं भेटा। प्रान लेहिँ एक एक चपेटा ॥

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिँ। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिँ ॥

कहीं किसी राक्षससे भेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥ १ ॥

लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥

मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब विनु जल पाना ॥

इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल हो गये। किन्तु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलमें सब भुला गये। हनुमान्जीने मनमें अनुमान किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं ॥ २ ॥

चढ़ि गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा। भूमि विवर एक कौतुक पेखा ॥

चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसहिँ तेहि माहीं ॥

उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वीके अंदर एक गुफामें उन्हें एक कौतुक (आश्चर्य) दिखायी दिया। उसके ऊपर चकवे, वगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ ३ ॥

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा। सब कहुँ लै सोइ विवर देखावा ॥

आगें कै हनुमंतहि लीन्हा। पैठे विवर विलंबु न कीन्हा ॥

पवनकुमार हनुमान्जी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलायी। सबने हनुमान्जीको आगे कर लिया और वे गुफामें घुस गये, देर नहीं की ॥४॥

दो०—दीख जाइ उपवन वर सर विगसित बहु कंज ।

मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप पुंज ॥ २४ ॥

अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन (बगीचा) और तालाब देखा, जिसमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है ॥ २४ ॥

श्री०—दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछें निज वृत्तांत सुनावा ॥

तेहिं तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥

दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । तब उसने कहा—जलपान करो और भाँति-भाँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ ॥ १ ॥

मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥

तेहिं सब आपनि कथा सुनाई । मैं अब जाब जहाँ रघुराई ॥

[आज्ञा पाकर] सबने स्नान किया, मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास चले आये । तब उसने अपनी सब कथा कह सुनायी [और कहा—] मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २ ॥

मूदहु नयन बिबर तजि जाहू । पैहहु सीताहि जनि पछिताहू ॥

नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा । ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा ॥

तुमलोग आँखें मूंद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ । तुम सीताजीको पा जाओगे, पछताओ नहीं (निराश न होओ) । आँखें मूंदकर फिर जब आँखें खोलीं तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हैं ॥ ३ ॥

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥

नाना भाँति विनय तेहिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥

और वह स्वयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे । उसने जाकर प्रभुके चरण-कमलोंमें मस्तक नवाया और बहुत प्रकारसे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी (अचल) भक्ति दी ॥ ४ ॥

श्री०—बदरीवन कहूँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस ।

उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५ ॥

प्रभुकी आज्ञा सिरपर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वन्दना करते हैं, हृदयमें धारणकर वह (स्वयंप्रभा) बदरिकाश्रमको चली गयी ॥ २५ ॥

बो०—इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥

सब मिलि कहहिं परस्पर वाता । विनु सुधि लएँ करव का भ्राता ॥

यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजीकी खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे ? ॥ १ ॥

कह अंगद लोचन भरि वारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥

इहाँ न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥

अंगदने नेत्रोंमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई । यहाँ तो सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २ ॥

पिता वधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥

वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते । श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नहीं है । अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३ ॥

अंगद वचन सुनत कपि वीरा । बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥

छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस वचन कहत सब भए ॥

वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रोंसे जल बह रहा है । एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे । फिर सब ऐसा वचन कहने लगे—॥ ४ ॥

हम सीता कै सुधि लीन्हें विना । नहिं जैहें जुवराज प्रवीना ॥

अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥

हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे । ऐसा कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥

जामवंत अंगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस विसेषी ॥

तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥

जाम्बवान्ने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं । [वे बोले—] हे

तात ! श्रीरामजीको मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा समझो ॥ ६ ॥

हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ।

हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म (श्रीरामजी) की प्रीति रखते हैं ॥ ७ ॥

दो०—निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि ।

सगुन उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥

देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [किसी कर्मबन्धनरहित] अवतार लेते हैं । वहाँ सगुणोपासक [भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, साख्य, सार्ष्णि और साशुज्य] सब प्रकारके मोक्षोंको त्यागकर उनकी सेवामें साथ रहते हैं ॥ २६ ॥

ची०—एहि विधि कथा कहहिं बहु भाँती । गिरि कंदराँ सुनी संपाती ।

बाहेर होइ दखि बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ।

इस प्रकार जाम्बवान् बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं । इनकी बातें पर्वतकी कन्दरायें सम्पातीने सुनीं । बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे । [तब वह बोला—जगदीश्वरने मुझको घर बैठे बहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १ ॥

आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ । दिनबहु चले अहार बिनु मरऊँ ।

कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह विधि एकहिं बारा ।

आज इन सबको खा जाऊँगा । बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा था । पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन दे दिया ॥ २ ॥

डरपे गीध वचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ।

कपि सब उठे गीध कहँ देखी । जामवंत मन सोच विसेषी ।

गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया यह हमने जान लिया । फिर उस गीध (सम्पाती) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए । जाम्बवान्के मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३ ॥

कह अंगद विचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ।

राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयउ परम बड़भागी ।

चौ०—इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं । वीती अवधि काज कछु नाहीं ॥

सब मिलि कहहिं परस्पर वाता । विनु सुधि लएँ करव का भ्राता ॥

यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजीकी खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे ? ॥ १ ॥

कह अंगद लोचन भरि वारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥

इहाँ न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥

अंगदने नेत्रोंमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई । यहाँ तो सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेगा ॥ २ ॥

पिता वधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥

वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते । श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नहीं है । अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३ ॥

अंगद वचन सुनत कपि वीरा । बोलि न सकहिं नयन ब्रह नीरा ॥

छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस वचन कहत सब भए ॥

वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रोंसे जल बह रहा है । एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे । फिर सब ऐसा वचन कहने लगे— ॥ ४ ॥

हम सीता कै सुधि लीन्हें बिना । नहिं जैहें जुवराज प्रवीना ॥

अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥

हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे । ऐसा कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश विछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥

जामवंत अंगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस विसेपी ॥

तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥

जाम्बवान्ने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी क्यारें कहीं । [वे बोले-] हे

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥

वहा चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी । उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित (देहसम्बन्धी) अभिमानको छुड़ा दिया ।

त्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिलें तैं होव पुनीता ॥

[उन्होंने कहा—] त्रेतायुगमें साक्षात् परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी स्त्रीको नशर्माका राजा हर ले जायगा । उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे । उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥

जभिहहि पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ॥
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू ॥

और मेरे पंख उग आयेंगे, चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना । मुनिकी बात याणी आज मान लूँ । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५ ॥

गिरि त्रिकूट उपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥
तहँ असोक उपवन जहँ रहई । सीता बैठि सोच रत अहई ॥

त्रिकूटपर्वतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता है । वहाँ अशोक नामका उपवन (बगीचा) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [इस समय भी] वे सोचमें मग्न बसी हैं ॥ ६ ॥

बा०—में देखउँ तुम्ह नहीं गीधहि दृष्टि अपार ।

बूढ़ भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥
में उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है (बहुत दूर तक जाती है) । क्या कहूँ ? मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करना ॥ २८ ॥

बा०—जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥
मोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपाँ कस भयउ सरीरा ॥
जो साँ योजन (चार सौ कोस) समुद्र लाँव सकेगा और बुद्धिनिधान होगा

अंगदने मनमें विचारकर कहा—अहा ! जटायुके समान घन्य कोई नहीं है । श्रीरामजीके कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान्‌के परमधामको चला गया ॥ ४ ॥

**सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥**

हयें और शोकसे युक्त बाणी (समाचार) सुनकर वह पक्षी (सम्पाती) वानरोंके पास आया, वानर डर गये । उनको अभय करके (अभय-वचन देकर) उसने पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा । तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥

सुनि संपाति बंधु कै करनी । रघुपति महिमा बहु विधि बरनी ॥

भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ६ ॥

दो०—**मोहि लै जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजलि ताहि ।**

वचन सहाइ करवि में पैहहु खोजहु जाहि ॥ २७ ॥

[उसने कहा—] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, मैं जटायुको तिलांजलि दे दूँ । इस सेवाके बदले मैं तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा (अर्थात् सीताजी कहाँ हैं सो बतला दूँगा) । जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे ॥ २७ ॥

चौ०—**अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा ॥**

हम द्वौ बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥

समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया (श्राद्ध आदि) करके सम्पाती अपनी कथा कहने लगा—हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक बार आकाशमें उड़कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १ ॥

तेज न सहि सक सो फिरि आवा । में अभिमानी रवि निअरावा ॥

जरे पंख अति तेज अपारा । परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥

वह (जटायु) तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया । (किंतु) मैं अभिमानी था, इसलिये सूर्यके पास चला गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये । मैं बड़े ज़ोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २ ॥

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥

बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥

बड़ा चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी । उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित (देहसम्बन्धी) अभिमानको छुड़ा दिया ।

ब्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥

तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिले तैं होव पुनीता ॥

[उन्होंने कहा—] ब्रेतायुगमें साक्षात् परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी स्त्रीको नश्रुगोंका राजा हर ले जायगा । उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे । उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥

जमिहहि पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ॥

मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू ॥

और मेरे पंख उग आयेंगे, चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना । मुनिकी बात नाणी आज मन्त्र हुई । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५ ॥

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥

तहँ असोक उपवन जहँ रहई । सीता बैठि सोच रत अहई ॥

त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता है । वहाँ असोक नामका उपवन (बगीचा) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [इस समय भी] वे मानमें मान बँधी हैं ॥ ६ ॥

वा०—में देखउँ तुम्ह नहीं गीधहि दृष्टि अपार ।

बूढ़ भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥

मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है (बहुत दूरतक जाती है) । क्या कहूँ ? मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायना अवश्य करता ॥ २८ ॥

चौ०—जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥

मोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपाँ कस भयउ सरीरा ॥

जो साँ बोजन (चार सौ कोस) समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा

वहीं श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा । [निराश होकर घबड़ाओ मन ।] मुझे देखकर मनमें धीरज धरो । देखो, श्रीरामजीकी कृपासे [देखते-ही-देखते] मेरा शरीर कैसा हो गया (विना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेमें मुन्दर हो गया) ! ॥ १ ॥

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं ॥

तासु दून तुम्ह तजि कदराई । राम हृदयँ धरि करहु उपाई ॥

पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरमें तर जाते हैं, तृप्त उनके दून हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २ ॥

अस कहि गरुड़ गीध जव गयऊ । निन्ह केँ मन अति विसमय भयऊ ॥

निज निज बल सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥

[काकमुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कहकर जब गोध चला गया, तब उन (वानरों) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसोंने अपना-अपना बल कहा । पर समुद्रके पार जानेमें सभीने संदेह प्रकट किया ॥ ३ ॥

जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥

जवहिँ त्रिविक्रम भए खरारी । तव में तरुन रहेउँ बल भारी ॥

ऋक्षराज जाम्बवान् कहने लगे—मैं अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहलेवाले बलका लेश भी नहीं रहा । जब खरारि (खरके शत्रु श्रीराम) वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४ ॥

दो०—बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु वरनि न जाइ ।

उभय घरी महुँ दीन्हिँ सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २६ ॥

बलिके बाँधने समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता । किंतु मैंने दो ही घड़ियोंमें दोड़कर [उस शरीरकी] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ॥ २६ ॥

चौ०—अंगद कहइ जाउँ मैं पारा । जियँ संसय कछु फिरती वारा ॥

जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥

अंगदने कहा—मैं पार तो चला जाऊँगा । परंतु लीटने समयके गिये हृदयमें कुछ सन्देह है । जाम्बवान्ने कहा—तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परन्तु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाय ? ॥ १ ॥

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥

वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी । उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित (देहसम्बन्धी) अभिमानको छुड़ा दिया ।

त्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥

तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिलें तैं होव पुनीता ॥

[उन्होंने कहा—] त्रेतायुगमें साक्षात् परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी स्त्रीको नक्षत्रोंका राजा हर ले जायगा । उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे । उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥

जमिहहि पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ॥

मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू ॥

और मेरे पंख उग आयेंगे, चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना । मुनिकी बात चाणी आज मन्त्र हुई । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५ ॥

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥

तहँ असोक उपवन जहँ रहई । सीता बैठि सोच रत अहई ॥

त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता है । वहाँ असोक नामका उपवन (बगीचा) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [इस समय भी] वे मानमें मान बैठी हैं ॥ ६ ॥

दा०—में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार ।

बूढ़ भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥

में उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है (बहुत दूर तक जाती है) । क्या कहें ? मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करना ॥ २८ ॥

चा०—जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥

मोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपाँ कस भयउ सरीरा ॥

जो साँ वोजन (चार सौ कोस) समुद्र लाँघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा

वही श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा । [निराश होकर घबड़ाओ मन ।] मुझे देखकर मनमें धीरज धरो । देखो, श्रीरामजीकी कृपामें [देखते-हो-देखते] मेरा शरीर कैसा हो गया (बिना पाँखना बेहाल था, पाँख उगनेमें सुन्दर हो गया) ! ॥ १ ॥

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं ॥
तामु दून तुम्ह नजि कदराई । राम हृदयँ धरि करहु उपाई ॥

पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरमें तर जाते हैं, तुम उनके दून हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २ ॥

अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ । तिन्ह केँ मन अति विसमय भयऊ ॥

निज निज बल सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कहकर जब गोध चला गया, तब उन (वानरों) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसीने अपना-अपना बल कहा । पर समुद्रके पार जानेमें सभीने संदेह प्रकट किया ॥ ३ ॥

जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । नहिँ तन रहा प्रथम बल लेसा ॥

जवहिँ त्रिविक्रम भए खरारी । तब में तरुन रहेउँ बल भारी ॥

ऋक्षराज जाम्बवान् कहने लगे—मैं अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहलेवाने बलका लेश भी नहीं रहा । जब खरारि (खरके शत्रु श्रीराम) वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४ ॥

दो०—बलि बाँधत प्रभु वाढेउ सो तनु वरनि न जाइ ।

उंभय घरी महुँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २६ ॥

बलिके बाँधने समय प्रभु इतने बड़े कि उम शरीरका वर्णन नहीं हो सकता । किंतु मैंने दो ही घड़ीमें दौड़कर [उस शरीरकी] सात प्रदक्षिणाएं कर लीं ॥ २६ ॥

चौ०—अंगद कहइ जाउँ मैं पारा । जियँ संसय कछु फिरती वारा ॥

जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥

अंगदने कहा—मैं पार तो चला जाऊँगा । परंतु लौटने समयके लिये हृदयमें कुछ संदेह है । जाम्बवान्ने कहा—तुम मय प्रकारमें योग्य हो । परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाय ? ॥ १ ॥

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥

पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥

ऋक्षराज जाम्बवान्ने श्रीहनुमान्जीसे कहा—हे हनुमान् ! हे बलवान् ! सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रक्खी है ? तुम पवनके पुत्र हो और बलमें पवनके समान हो । तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानकी खान हो ॥ २ ॥

कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥

राम काज लागि तव अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्वताकारा ॥

जगत्में कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात ! तुमसे न हो सके । श्रीराम-जीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है । यह सुनते ही हनुमान्जी पर्वतके आकारके (अत्यन्त विशालकाय) हो गये ॥ ३ ॥

कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥

सिंहनाद करि बारहिं बारा । लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा ॥

उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतोंका राजा सुमेरु हो । हनुमान्जीने बार-बार सिंहनाद करके कहा—मैं इस खारे समुद्रको खेलमें ही लाँघ सकता हूँ ॥ ४ ॥

सहित सहाय रावनहि मारी । आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥

जामवंत मैं पूँछउँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥

और सहायकोंसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ । हे जाम्बवान् ! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [कि मुझे क्या करना चाहिये] ॥ ५ ॥

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥

तब निज भुज बल राजिवनैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥

[जाम्बवान्ने कहा—] हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो । फिर कमलनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे [ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे, केवल], खेलके लिये ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६ ॥

छ०—कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहैं ।
 त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं ॥
 जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई ।
 रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥

वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे । तब देवता और नारदादि मुनि भगवान्के तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर ग्रंथका बखान करेंगे; जिसे सुनने, गाने, कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे श्रीरघुवीरके चरणकमलका मधुकर (भ्रमर) तुलसीदास गाता है ।

दो०—भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि ।

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥ ३० (क) ॥

श्रीरघुवीरका यश भव (जन्म-मरणरूपी) रोगकी [अचूक] दवा है । जो पुष्ट्य और स्त्री इसे सुनें, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे । ३० (क) ।

सो०—नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक ।

सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग वधिक ॥ ३० (ख) ॥

जिनका नीले कमलके समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके भारनेके लिये वधिक (व्याघ्र) के समान है, उन श्रीरामके गुणोंके समूह (लीला) को अवश्य सुनना चाहिये ॥ ३० (ख) ॥

मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम

इति धीमन्नामचरितमावसे सकलकलिकलुपविष्यन्तने षतुषं: सोपान: समाप्त: ।

कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका

यह चौथा सोपान समाप्त हुआ ।

(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त)

लंकादहन



अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥

श्रीरामचरितमानस
श्रीबानहोवस्तमो विद्यते

श्रीरामचरितमानस

पञ्चम सोपानं

सुन्दरकाण्ड

श्लोक

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनयं निर्वाणशान्तिप्रदं
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रतेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ।
रामाल्यं जगदीश्वरं नुरगुरुं मायाननुष्यं हरिं
वन्देऽहं कल्पकाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥ १ ॥

शान्त, शाश्वत, अप्रमेय (अनाश्रित) परे), निर्वाण, मोक्षदान करने वाली शक्ति देने वाले ब्रह्मा, शम्भु और केशवोंके निरन्तर सौमिक, वेदान्तके द्वारा ब्रह्मसोपान, सर्वमानव, अज्ञानहर्त्रके लक्षणे होते, मायाने मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, कल्पकाण्डका पञ्चमो हरिदेवको, कल्पकाण्डके अन्त, रघुवरको श्रेष्ठ तथा रामाजीके विद्योन्मत्त, राम कहलानेवाले अर्धशरीरको मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽत्मदीये
तत्त्वं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २ ॥

हे रघुवरयो ! मैं लक्ष स्पृहा हूँ और तिर जब तक नहीं बन्दराना ही है (जब जानने ही है), कि मेरे हृदयमें बसते कोई इच्छा नहीं है। हे रघुपुङ्गव ! मुझे बसते भक्ति (द्वारा) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम बन्दि दोषोंके रहित करिये ॥२॥

अतुलितबलधामं

हेमशैलाभदेहं

दनुजवनकृशानुं

ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।

सकलगुणनिधानं

वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियभक्तं

वातजातं

नमामि ॥ ३ ॥

अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेरु) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, दैत्यरूपी वन [को ध्वंस करने] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

ची०—जामवंत के बचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥

तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥

जाम्बवान्के सुन्दर वचन सुनकर हनुमान्जीके हृदयको बहुत ही भाये । [वे बोले—] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना ।

जब लगि आवौं सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥

यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा ॥

जबतक मैं सीताजीको देखकर [लौट] न आऊँ । काम अवश्य होगा; क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्रीरघुनाथजीको धारण करके हनुमान्जी हर्षित होकर चले ॥ २ ॥

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥

वार वार रघुवीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥

समुद्रक तीरपर एक सुन्दर पर्वत था । हनुमान्जी खेलसे ही (अनायास ही) कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और वार-वार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान् हनुमान्जी उसपरसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥

जिस पर्वतपर हनुमान्जी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले) वह तुरंत ही पातालमें धँस गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान्जी चले ।

जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥

समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक ! तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो (अर्थात् अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे) ॥ ५ ॥

दो०—हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्हें विनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥

हनुमान्जीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा—भाई ! श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥ १ ॥

चौ०—जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानैं कहूँ बल बुद्धि विसेषा ॥

सुरसा नाम अहिन्ह कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहिं वाता ॥

देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्जीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल-बुद्धिको जाननेके लिये (परीक्षार्थ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोंकी माताको भेजा, उसने आकर हनुमान्जीसे यह बात कही—॥ १ ॥

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥

राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥

आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमान्जीने कहा—श्रीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥२॥

तब तब वदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥

कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि नमोहि कहेउ हनुमाना ॥

तब मैं आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [तुम मुझे खा लेना] । हे माता ! मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान्जीने कहा—तो फिर मुझे खा न ले ॥ ३ ॥

जोजन भरि तेहिं वदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥

सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥

उसने योजनभर (चार कोसमें) मुँह फैलाया । तब हनुमान्जीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका मुख किया । हनुमान्जी तुरंत ही वत्तीस योजनके हो गये ॥ ४ ॥

अतुलितबलधामं

हेमशैलाभदेहं

दनुजवनकृशानुं

ज्ञानिनामश्रगण्यम् ।

सकलगुणनिधानं

वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियभक्तं

वातजातं

नमामि ॥ ३ ॥

अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेरु) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, दैत्यरूपी वन [को ध्वंस करने] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अश्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

चौ०—जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥

जाम्बवान्के सुन्दर वचन सुनकर हनुमान्जीके हृदयको बहुत ही भाये । [वे बोले—] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना ।

जब लगि आवौं सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥

यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा ॥

जबतक मैं सीताजीको देखकर [लौट] न आऊँ । काम अवश्य होगा; क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्री-रघुनाथजीको धारण करके हनुमान्जी हर्षित होकर चले ॥ २ ॥

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥

वार वार रघुवीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥

समुद्रक तीरपर एक सुन्दर पर्वत था । हनुमान्जी खेलसे ही (अनायास ही) कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और वार-वार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान् हनुमान्जी उसपरसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥

जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥

जिस पर्वतपर हनुमान्जी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले) वह तुरंत ही पातालमें धँस गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान्जी चले ।

जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥

समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक ! तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो (अर्थात् अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे) ॥ ५ ॥

दो०—हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्हें विनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥

हनूमान्जीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा—भाई ! श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥ १ ॥

चौ०—जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानैं कहूँ बल बुद्धि विसेषा ॥

सुरसा नाम अहिन्ह कैमाता । पठइन्हि आइ कही तेहिं वाता ॥

देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्जीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल-बुद्धिको जाननेके लिये (परीक्षार्थ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोंकी माताको भेजा, उसने आकर हनुमान्जीसे यह बात कही—॥ १ ॥

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥

राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥

आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमान्जीने कहा—श्रीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥२॥

तब तब वदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥

कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससिन मोहि कहेउ हनुमाना ॥

तब मैं आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [तुम मुझे खा लेना] । हे माता ! मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान्जीने कहा—तो फिर मुझे खा न ले ॥ ३ ॥

जोजन भरि तेहिं वदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥

सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥

उसने योजनभर (चार कोसमें) मुँह फैलाया । तब हनुमान्जीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका मुख किया । हनुमान्जी तुरंत ही वत्तिस योजनके हो गये ॥ ४ ॥

अतुलितबलधामं

हेमशैलाभदेहं

दनुजवनकृशानुं

ज्ञानिनामग्रगण्यम्

सकलगुणनिधानं

वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियभक्तं

वातजातं

नमामि ॥ ३ ॥

अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेरु) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, दैत्यरूपी वन [को ध्वंस करने] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

चौ०—जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥

जाम्बवान्के सुन्दर वचन सुनकर हनुमान्जीके हृदयको बहुत ही भाये । [बे बोले—] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना ।

जब लगि आवौं सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥

यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा ॥

जबतक मैं सीताजीको देखकर [लौट] न आऊँ । काम अवश्य होगा; क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्री-रघुनाथजीको धारण करके हनुमान्जी हर्षित होकर चले ॥ २ ॥

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥

वार वार रघुवीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥

समुद्रक तीरपर एक सुन्दर पर्वत था । हनुमान्जी खेलसे ही (अनायास ही) कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और वार-वार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान् हनुमान्जी उसपरसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥

जिस पर्वतपर हनुमान्जी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले) वह तुरंत ही पातालमें घँस गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोघ वाण चलता है, उसी तरह हनुमान्जी चले ।

जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥

समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक ! तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो (अर्थात् अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे) ॥ ५ ॥

दो०—हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्हें विनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥

हनुमान्जीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा—भाई ! श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥ १ ॥

चौ०—जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानैं कहूँ बल बुद्धि विसेषा ॥

सुरसा नाम अहिन्ह कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहिं वाता ॥

देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्जीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल-बुद्धिको जाननेके लिये (परीक्षार्थ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोंकी माताको भेजा, उसने आकर हनुमान्जीसे यह बात कही—॥ १ ॥

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥

राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥

आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमान्जीने कहा—श्रीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥२॥

तब तब बदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥

कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥

तब मैं आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [तुम मुझे खा लेना] । हे माता ! मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान्जीने कहा—तो फिर मुझे खा न ले ॥ ३ ॥

जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥

सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥

उसने योजनभर (चार कोसमें) मुँह फैलाया । तब हनुमान्जीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका मुख किया । हनुमान्जी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥ ४ ॥

जस जस सुरसा बदन बढावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥

सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥

जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान्जी उसका दूना रूप दिखलाते थे । उसने सौ योजन (चार सौ कोस) का मुख किया । तब हनुमान्जीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥

बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मागा विदा ताहि सिरु नावा ॥

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरसु तोर मैं पावा ॥

और वे उसके मुखमें घुसकर [तुरंत] फिर बाहर निकल आये और उसे सिर नवाकर विदा माँगने लगे । [उसने कहा—] मैंने तुम्हारे बुद्धि-बलका भेद पा लिया जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥

दो०—राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान ।

आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥

तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे; क्योंकि तुम बल-बुद्धिके भण्डार हो । यह आशीर्वाद देकर वह चली गयी, तब हनुमान्जी हर्षित होकर चले ॥ २ ॥

चौ०—निसिचरि एकसिंधु महुँ रहई । करि माया नभु के खग गहई ॥

जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं ॥

समुद्रमें एक राक्षसी रहती थी । वह माया करके आकाशमें उड़ते हुए पक्षियोंको पकड़ लेती थी । आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह जलमें उनकी परछाई देखकर, ११

गहई छाहँ सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई ।

सोइ छल हनुमान कहँ कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा ।

उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [और जलमें गिर पड़ते थे] । इस प्रकार वह सदा आकाशमें उड़नेवाले जीवोंको खाया करती थी ! उसने वही छल हनुमान्जीसे भी किया । हनुमान्जीने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया ॥ २ ॥

ताहि मारि मारुतसुत बीरा । बारिधि पार गयउ मनिधीरा ।

तहाँ जाइ देखी बन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ।

पवनपुत्र धीर-वृद्धि वीर श्रीहनुमान्जी उसको मारकर समुद्रके पार गये। वहाँ जाकर उन्होंने वनकी शोभा देखी। मधु (पुष्परस) के लोभसे भारे गुंजार कर रहे थे ॥ ३ ॥

नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग वृन्द देखि मन भाए ॥
सैल त्रिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें ॥

अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे शोभित हैं। पक्षी और पशुओंके समूहको देखकर तो वे मनमें [बहुत ही] प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान्जी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े ॥ ४ ॥

उमा न कळु कपि कै अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग विसेपी ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा! इममें वानर हनुमान्की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है। पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥

अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा ॥

वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोटे (चहारदिवारी) का परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥

छं०—कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना।

चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथीं चारु पुर बहु विधि बना ॥

गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनै।

वहुरूप निसिचर जूथ अतिवल सेन वरनत नहिं वनै ॥ १ ॥

विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियारा हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारमें सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरोंके समूह तथा पैदल और रथोंके समूहोंका कौन गिन सकता है? अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल हैं, उनकी अत्यन्त वानवती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥

वन वाग उपवन वाटिका सर कूप बापीं सोहहीं।

नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥

कहुँ माल देह विसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं ।

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ २ ॥

वन, वाग, उपवन (वगीचे), फुलवाड़ी, तालाव, कुएँ और बावलियाँ सुशोभित हैं । मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्वोंकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी मनोको मोहे लेती हैं । कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बड़े ही बलवान् मल्ल (पहलवान) गरज रहे हैं । वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिड़ते और एक दूसरेको ललकारते हैं ॥ २ ॥

करिजतनभटकोटिन्ह विकटतननगरचहुँदिसिरच्छहीं ।

कहुँ महिषमानुषधेनुखरअजखलनिसाचरभच्छहीं ॥

एहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एकहै कही ।

रघुवीरसरतीरथसरीरन्हित्यागिगतिपैहहिंसही ॥ ३ ॥

भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके (बड़ी सावेधानीसे) नगरकी चारों दिशाओंमें (सब ओरसे) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गदहों और बकरोंको खा रहे हैं । तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थमें शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे ।

दो०—पुररखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार ।

अति लघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

नगरके बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥ ३ ॥

चो०—मसकसमानरूपकपिधरी । लंकहिचलेउसुमिरिनरहरी ॥

नामलंकिनीएकनिसिचरी । सो कहचलेसिमोहिनिंदरी ॥

हनुमान्जी मच्छड़के समान (छोटा-सा) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लङ्काको चले । [लङ्काके द्वारपर] लङ्किनी नामकी एक राक्षसी रहती थी । वह बोली—मेरा निरादर करके (बिना मुझसे पूछे) कहां चला जा रहा है ? ॥ १ ॥

पवनपुत्र धीर-वृद्धि वीर श्रीहनुमान्जी उसको मारकर समुद्रके पार गये। वहाँ जाकर उन्होंने वनकी शोभा देखी। मधु (पुष्परस) के लोभसे भारे गुंजार कर रहे थे ॥ ३ ॥

नाना तरु फल फूल सुहाए । खग मृग वृन्द देखि मन भाए ॥
सैल विसाल देखि एक आगे । ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागे ॥

अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे शोभित हैं। पक्षी और पशुओंके समूहको देखकर तो वे मनमें [बहुत ही] प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान्जी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े ॥ ४ ॥

उमा न कछु कपि कै अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग विसेपी ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! इममें वानर हनुमान्की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाना है। पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लङ्का देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥

अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥

वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोटे (चहागदिवारी) का परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥

छ०—कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना ।

चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथीं चारु पुर बहु विधि बना ॥

गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनै ।

वहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन वरनत नहिं वनै ॥ १ ॥

विचित्र मणियोसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरोंके समूह तथा पंढल और रथोंके समूहोंका कौन गिन सकता है ? अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल हैं, उनकी अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥

वन वाग उपवन वाटिका सर कूप बापीं सोहहीं ।

नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥

कहुँ माल देह विसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं ।

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ २ ॥

वन, वाग, उपवन (बगीचे), फुलवाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलियाँ सुशोभित हैं । मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्वोंकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी मनोको मोहे लेती हैं । कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बड़े ही बलवान् मल्ल (पहलवान) गरज रहे हैं । वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिड़ते और एक दूसरेको ललकारते हैं ॥ २ ॥

करिजतनभटकोटिन्ह विकटतननगरचहुँदिसिरच्छहीं ।

कहुँ महिषमानुषधेनुखरअजखलनिसाचरभच्छहीं ॥

एहि लागि तुलसीदासइन्हकीकथाकछुएकहैकही ।

रघुवीरसरतीरथसरीरन्हित्यागिगतिपैहहिंसही ॥ ३ ॥

भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके (बड़ी सावेधानीसे) नगरकी चारों दिशाओंमें (सब ओरसे) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गदहों और बकरोंको खा रहे हैं । तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थमें शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे ।

दो०—पुरखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार ।

अति लघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

नगरके बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥ ३ ॥

चौ०—मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥

नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥

हनुमान्जी मच्छड़के समान (छोटा-सा) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लङ्काको चले । [लङ्काके द्वारपर] लङ्किनी नामकी एक राक्षसी रहती थी । वह बोली—मेरा निरादर करके (बिना मुझसे पूछे) कहाँ चला जा रहा है ? ॥ १ ॥

जानेहि नहीं मरसु सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥

मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर वमत धरनीं ढनमनी ॥

रे मूर्ख ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ? जहाँतक (जितने) चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं । महाकपि हनुमान्जीने उसे एक धुंसा मारा, जिससे वह खूनकी उलटी करती हुई पृथ्वीपर लुढ़क पड़ी ॥ २ ॥

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥

जब रावनाहि ब्रह्म वर दीन्हा । चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥

वह लङ्कानी फिर अपनेको संभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी । [वह बोली—] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसोंके विनाशकी यह पहचान बता दी थी कि—॥ ३ ॥

विकल होसि तैं कपि कैं मारे । तब जानेसु निसिचर संघारे ॥

तात मोर अति पुन्य बहूता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥

जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना । हे तात ! मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत (आप) को नेत्रोंसे देख पायी ॥४॥

दो०—तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥

हे तात ! स्वर्ग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पलड़ेमें रखवा जाय, तो भी वे सब मिलकर [दूसरे पलड़ेपर रखे हुए] उस सुखके बराबर नहीं हो सकते जो लव (क्षण) मात्रके सत्संगसे होता है ॥ ४ ॥

चौ०—प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हृदयँ राखि कोसलपुर राजा ॥

गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥

अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रखे हुए नगरमें प्रवेश करके सब काम कीजिये । उसके लिये विप अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गायके घुरके बराबर हो जाता है, अग्निमें शीतलता आ जाती है, ॥ १ ॥

गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥

अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥

और हे गरुड़जी ! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता है, जिसे श्रीराम-
 द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान्जीने बहुत ही छोटा रूप धारण
 किया और भगवान्का स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २ ॥

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहँ तहँ अगनित जोधा ॥
 गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो नाहीं ॥

उन्होंने एक-एक (प्रत्येक) महलकी खोज की। जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा
 देखे। फिर वे रावणके महलमें गये। वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो
 सकता ॥ ३ ॥

सयन किँ देखा कपि तेही । मंदिर महुँ न दीखि बैदेही ॥
 भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥

हनुमान्जीने उस (रावण) को शयन किये देखा। परंतु महलमें जानकी
 नहीं दिखायी दीं। फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया। वहाँ (उसमें) भगवान्
 एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥

दो०—रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ ।
 नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराई ॥ ५ ॥

वह महल श्रीरामजीके आयुध (धनुष-बाण) के चिह्नोंसे अङ्कित था;
 शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन-नवीन तुलसीके वृक्षसमूहोंको देखकर
 श्रीहनुमान्जी हर्षित हुए ॥ ५ ॥

चौ०—लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर
 मन महुँ तरक करैँ कपि लागा । तेहीं समय विभीषनु

लङ्का तो राक्षसोंके समूहका निवासस्थान है। यहाँ सज्जन (साधु पुरुष)
 कहाँ? हनुमान्जी मनमें इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण

राम राम तेहिँ सुमिरन कीन्हा । हृदयँ हरष कपि सज्जन
 एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी । साधु ते होइ न कार

उन्होंने (विभीषणने) राम-नामका स्मरण (उच्चारण) किया।
 गन्धर्व जाना और हृदयमें हर्षित हुए। [हनुमान्जीने विचार किया

करके (अपनी ओरसे ही) परिचय करेगा, क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [प्रत्युत लाभ ही होता है] ॥ २ ॥

विप्र रूप धरि वचन सुनाए । सुनत विभीषन उठि तहँ आए ॥

कारि प्रनाम पूँछी कुसलाई । विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥

ब्राह्मणका रूप धरकर हनुमान्जीने उन्हें वचन सुनाये (पुकारा) । सुनते ही विभीषणजी उठकर वहाँ आये । प्रणाम करके कुशल पूछी [और कहा कि] हे ब्राह्मणदेव! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३ ॥

की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरें हृदय प्रीति अति होई ॥

की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी ॥

क्या आप हरिभक्तोंमेंसे कोई हैं ? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा है । अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने (घर-बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने) आये हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—तव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम ।

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥

तब हनुमान्जीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके दोनोंके मन [प्रेम और आनन्दमें] मग्न हो गये ॥ ६ ॥

चौ०—सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महँ जीभविचारी ॥

तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिँ कृपा भानुकुल नाथा ॥

[विभीषणजीने कहा—] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । मैं यहाँ बँसे ही रहता हूँ, जैसे दाँतोंके बीचमें बेचारी जीभ । हे तात ! मुझे अनाथ जानकर मूर्खकुलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे ? ॥ १ ॥

तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥

अब मोहि भा भरोस हनुमंता । विनु हरिकृपा मिलहिँ नहिँ संता ॥

मेरा तामसी (राक्षस) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं । और न मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रेम ही है । परंतु हे हनुमान् ! अब मुझे विश्वास हो गया

कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है, क्योंकि हरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते ॥ २ ॥

जौं रघुवीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥
सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती । करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥

जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे) दर्शन दिये हैं । [हनुमान्जीने कहा—] हे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३ ॥

कहहु कवन मै परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥

भला कहिये, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ । [जातिका] चञ्चल वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ । प्रातःकाल जो हमलोगों (बंदरों) का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले ॥ ४ ॥

दो०—अस मै अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर ।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७ ॥

हे सखा ! सुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की है । भगवान्के गुणोंका स्मरण करके हनुमान्जीके दोनों नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया ॥ ७ ॥

चौ०—जानतहूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥

एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥

जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी (श्रीरघुनाथजी) को भुलाकर [विषयोंके पीछे] भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों ! इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय (परम) शान्ति प्राप्त की ॥ ९ ॥

पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥

तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता । देखी चहउँ जानकी माता ॥

फिर विभीषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ (लङ्कामें) रहती थीं, वह सब कथा कही । तब हनुमान्जीने कहा—हे भाई ! सुनो, मैं जानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥ २ ॥

जुगुति विभीषण सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । वन असोक सीता रह जहवाँ ॥

विभीषणजीने [माताके दर्शनकी] सब युक्तियाँ (उपाय) वह सुनायीं । तब हनुमान्जी विदा लेकर चले । फिर वही (पहलेका मसक-मसोखा) रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अगोकवनमें (वनके जिन भागमें) सीताजी रहती थीं ॥ ३ ॥

देखि मनहि महुँ कान्ह प्रनामा । बैठेहि वीति जात निसि जामा ॥
कृस तनु सीस जटा एक वेनी । जपति हृदयँ रघुपति गुन श्रेनी ॥

सीताजीको देखकर हनुमान्जीने उन्हें मनहीं प्रणाम किया । उन्हें बैठे-हो-बैठे रात्रिके चारों पहर बौध जाते हैं । शरीर दुबला हो गया है, सिरपर जटाओंकी एक वेनी (लट) है । हृदयमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका जप (स्मरण) करती रहती है ॥ ४ ॥

दो०—निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन ।

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥

श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं) और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है । जानकीजीको दीन (दुखी) देखकर पवनसुत हनुमान्जी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८ ॥

चौ०—तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई । करइ विचार करीं का भाई ॥

तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥

हनुमान्जी वृक्षके पत्तोंमें छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई ! क्या करूँ (इसका दुःख कैसे दूर करूँ) ? उसी समय बहुत-सी स्त्रियोंको साथ लिये सज्जधरकर रावण वहाँ आया ॥ ९ ॥

बहु विधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥

कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥

उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया । साम, दान, भय और भेद दिखा-लाया । रावणने कहा—हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सब रानियोंको—॥२॥ तब अनुचरीं करउँ पन मोरा । एक बार विलोकु मम ओरा ॥ तू न धरि ओट कहति वेदेही । मुमिरि अवधपति परम सनेही ॥

मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही ! अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी आड़ (परदा) करके कहने लगीं—॥ ३ ॥

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥
अस मन समुभु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥

हे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ? जानकीजी फिर कहती हैं—तू [अपने लिये भी] ऐसा ही मनमें समझ ले । रे दुष्ट ! तुझे श्रीरघुवीरके वाणकी खबर नहीं है ? ॥ ४ ॥

सठ सूनें हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥

रे पापी ! तू मुझे सूनेमें हर लाया है । रे अधम ! निर्लज्ज ! तुझे लज्जा नहीं आती ? ॥ ५ ॥

दो०—आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान ।

परुष वचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥६॥

अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और सीताजीके कठोर वचनोंको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सेमें आकर बोला—॥ ९ ॥

चौ०—सीता तैं मम कृत अपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना ॥

नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥

सीता ! तूने मेरा अपमान किया है । मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट डालूँगा । नहीं तो [अब भी] जल्दी मेरी बात मान ले । हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ! ॥ १ ॥

स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥

सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥

[सीताजीने कहा—] हे दशग्रीव ! प्रभुकी भुजा जो श्याम कमलकी मालाके समान सुन्दर और हाथीकी सूंडके समान [पुष्ट तथा विशाल] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही । रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है ।

चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति विरह अनल संजातं ॥

सीतल निसित बहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥

सीताजी कहती हैं—हे चन्द्रहास (तलवार) ! श्रीरघुनाथजीके विरहकी अग्निसे उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलनको तू हर ले । हे तलवार ! तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है (अर्थात् तेरी धार ठंडी और तेज है), तू मेरे दुःखके बोझको हर ले ॥३॥

सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु विधि तासहु जाई ॥

सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा । तब भय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे समझाया । तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥

मास दिवस महुँ कहा न माना । तौ मैं मारवि काढ़ि कृपाना ॥

यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा ॥ ५ ॥

दो०—भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि वृंद ।

सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥१०॥

[यों कहकर] रावण घर चला गया । यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुतसे बुरे रूप धरकर सीताजीको भय दिखलाने लगे ॥ १० ॥

चौ०—त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका ॥

सबन्हौ वोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥

उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी । उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति थी और वह विवेक (ज्ञान) में निपुण थी । उसने सबोंको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा—सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो ॥ १ ॥

सपनें वानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥

खर आरुद्ध नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥

स्वप्नमें [मैंने देखा कि] एक बंदरने लड्डका जला दी ! राक्षसोंकी सारी सेना मार डाली गयी । रावण नंगा है और गदहेपर सवार है । उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएँ कटी हुई हैं ॥ २ ॥

एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहुँ विभीपन पाई ॥

नगर फिरी रघुवीर दोहाई । तव प्रभु सीता वोलि पठाई ॥

इस प्रकारसे वह दक्षिण (यमपुरीकी) दिशाको जा रहा है और मानो लंका वभीषणने पायी है। नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी। तब प्रभुने सीताजीको भुला भेजा ॥ ३ ॥

यह सपना मैं कहउँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥
मासु वचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥

मैं पुकारकर (निश्चयके साथ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार (कुछ ही) दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥

दो०—जहँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोच ।

मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥

तब (इसके बाद) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं। सीताजी मनमें सोच करने लगीं कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥

वी०—त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु विपत्ति संगिनि तैं मोरी ॥

तजौं देह करु बेगि उपाई। दुसह विरहु अब नहिं सहि जाई ॥

सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं—हे माता! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूँ। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता ॥ १ ॥

आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥

सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुनै को श्रवन शूल सम बानी ॥

काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता! फिर उसमें आग लगा दे। मैं सयानी! तू मेरी प्रीतिको सत्य कर दे। रावणकी शूलके समान दुःख देनेवाली वाणी जानोंसे कौन सुने? ॥ २ ॥

सुनत वचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥

निसि न अनल मिलसुनु सुकुमारी। असकहि सोनिज भवन सिधारी ॥

सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका

प्रताप, बल और सुयश सुनाया । [उत्तने कहा—] हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥ ३ ॥

कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अविनि न आवत एकउ तारा ॥

सीताजी [मन-ही-मन] कहने लगीं—[क्या करें] विधाता ही विपरीत हो गया । न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी । आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं, पर पृथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ४ ॥

पावकमय ससि स्रवत न आगी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥
सुनहि विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥

चन्द्रमा अग्निमय है, किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता ! हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ले और अपना [अशोक] नाम सत्य कर । नूतन किसलय अनल समाना । देहि अग्निजनि करहि निदाना ॥
देखि परम विरहाकुल सीतां । सो छन कपिहि कल्प सम वीता ॥

तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्निके समान हैं । अग्नि दे, विरह-रोगका अन्त मत कर (अर्थात् विरह-रोगकी बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा) । सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान्जीको कल्पके समान बीता ॥ ६ ॥

चो०—कपि करि हृदयँ विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव ।

जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥

तब हनुमान्जीने हृदयमें विचारकर [सीताजीके सामने] अँगूठी डाल दी, मानो अशोकने अंगारा दे दिया । [यह समझकर] सीताजीने हर्षित होकर उठकर उसे हाथमें ले लिया ॥ १२ ॥

चो०—तव देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥

चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष विषाद हृदयँ अकुलानी ॥

तब उन्होंने रामनामसे अंकित अल्पन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीको पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषादसे हृदयमें अकुला उठी ॥ १ ॥

जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥
सीता मन विचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥

[वे सोचने लगीं—] श्रीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है ? और मायासे ऐसी (मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती । सीताजी मनमें अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं । इसी समय हनुमान्जी मधुर बचन बोले—॥ २ ॥

रामचंद्र गुन बरनैँ लागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥
लागीं सुनैँ श्रवन मन लाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥

वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, [जिनके] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया । वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं । हनुमान्जीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥

श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥
तव हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बैठीं मन विसमय भयऊ ॥

[सीताजी बोलीं—] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह हे भाई ! प्रकट क्यों नहीं होता ? तब हनुमान्जी पास चले गये । उन्हें देखकर सीताजी फिरकर (मुख फेरकर) बैठ गयीं; उनके मनमें आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥

राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥

[हनुमान्जीने कहा—] हे माता जानकी ! मैं श्रीरामजीका दूत हूँ । करुणानिधानकी सच्ची शपथ करता हूँ । हे माता ! यह अँगूठी मैं ही लाया हूँ । श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी (निशानी या पहिचान) दी है ॥ ५ ॥

नर वानरहि संग कहु कैसें । कही कथा भइ संगति जैसें ॥

[सीताजीने पूछा—] नर और वानरका संग कहो कैसे हुआ ? तब हनुमान्जीने जैसे संग हुआ था, वह सब कथा कही ॥ ६ ॥

दो०—कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास ।
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥

हनुमान्जीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो गया । उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनायजीका दास है ॥ १३ ॥

चौ०—हरिजनजानिप्रीतिअतिगाढ़ी । सजलनयनपुलकावलिबाढ़ी ॥

बूड़त विरहजलधिहनुमाना । भयहुतातमोकहुँजलजाना ॥

भगवान्का जन (सेवक) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी । नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर बाया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । [सीताजीने कहा—] हे तात हनुमान् ! विरह-सागरमें डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए ॥ १ ॥

अब कहूँ कुसल जाऊँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥

कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥

मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित घरके शत्रु सुखधाम प्रभुका कुशल-मङ्गल कहो । श्रीरघुनायजी तो कोमलहृदय और कृपालु हैं । फिर हे हनुमान् ! उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है ? ॥ २ ॥

सहजवानिसेवकसुखदायक । कवहुँकसुरति करत रघुनायक ॥

कवहुँ नयनममसीतलताता । होइहहिंनिरखिस्याममृदुगाता ॥

सेवकको सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है । वे श्रीरघुनायजी क्या कभी मेरी भी माद करते हैं ? हे तात ! क्या कभी उनके कोमल साँवले अंगोंको देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ? ॥ ३ ॥

वचनु न आव नयन भरे वारी । अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥

देखि परम विरहाकुलसीता । बोला कपि मृदु वचन विनीता ॥

[मूँहसे] वचन नहीं निकलता, नेत्रोंमें [विरहके आँसुओंका] जल भर बाया । [बड़े दुःखसे वे बोलीं—] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया ! सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमान्जी कोमल और विनीत वचन बोले—॥ ४ ॥

मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥

जनि जननी मानहु जियँ ऊना । तुम्ह ते प्रेसु राम केँ दूना ॥

हे माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [शरीरसे] कुशल

हैं, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं। हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये (मन छोटा कर दुःख न कीजिये)। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥

दो०—रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर ।

अस कहि कपि गद्गद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥१४॥

हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये। ऐसा कहकर हनुमान्ज प्रेमसे गद्गद हो गये। उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया ॥ १४ ॥

ची०—कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहूँ सकल भए बिपरीता ।

नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसासम निसिससिभानू ।

[हनुमान्जी बोले—] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोग मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। वृक्षोंके नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समान रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूर्यके समान ॥ १ ॥

कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ।

जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ।

और कमलोंके वन भालोंके वनके समान हो गये हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल वरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध (शीतल, मन्त सुगंध) वायु साँपके श्वासके समान (जहरीली और गरम) हो गयी है ॥ २ ॥

कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहौँ यह जान न कोई ।

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ।

मनका दुःख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। पर कहूँ किससे ? यह दुःख को जानता नहीं। हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही जानता है ॥ ३ ॥

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ।

प्रभु संदेशु सुनत बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ।

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। वस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ले। प्रभुका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्न हो गयीं। उन्हें शरीरकी सुध न रही ॥ ४ ॥

कह कपि हृदयँ धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥

उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥

हनुमान्जीने कहा—हे माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो और सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥

दो०—निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु ।

जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥

राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं । हे माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ ५ ॥

चौ०—जौं रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंबु रघुराई ॥

राम वान रवि उएँ जानकी । तम वरुथ कहँ जातुधान की ॥

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! राम-बाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥ १ ॥

अवहिं मातु में जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥

कळुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुवीरा ॥

हे माता ! मैं आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है, मुझे प्रभु (उन) की आज्ञा नहीं है । [अतः] हे माता ! कुछ दिन और धीरज धरो । श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे ॥ २ ॥

निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं ॥

हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥

और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेंगे । नारद आदि [ऋषि-मुनि] तीनों लोकोंमें उनका यश गावेंगे । [सीताजीने कहा—] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान (नन्हे-नन्हेसे) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान् योद्धा हैं ॥ ३ ॥

मोरें हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥

कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल वीरा ॥

अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी संदेह होता है [कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंको कैसे

हैं, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं। हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये (मन छोटा करके दुःख न कीजिये)। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥

दो०—रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर ।

अस कहि कपि गद्गद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥१४॥

हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये। ऐसा कहकर हनुमान्जी प्रेमसे गद्गद हो गये। उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया ॥ १४ ॥

चौ०—कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहूँ सकल भए बिपरीता ॥

नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसासम निसिससिभानू ॥

[हनुमान्जी बोले—] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगमें मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। वृक्षोंके नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समान, रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूर्यके समान ॥ १ ॥

कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु वरिसा ॥

जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥

और कमलोंके वन भालोंके वनके समान हो गये हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल वरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध (शीतल, मन्द, सुगंध) वायु साँपके श्वासके समान (जहरीली और गरम) हो गयी है ॥ २ ॥

कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहौँ यह जान न कोई ॥

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥

मनका दुःख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। पर कहूँ किससे ? यह दुःख कोई जानता नहीं। हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही जानता है ॥ ३ ॥

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥

प्रभु संदेसु सुनत बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। वस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ले। प्रभुका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्न हो गयीं। उन्हें शरीरकी सुष न रही ॥ ४ ॥

कह कपि हृदयँ धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम वचन तजहु कदराई ॥

हनुमान्जीने कहा—हे माता ! हृदयमें धैर्यं धारण करो और सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥

दो०—निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु ।

जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥

राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके वाण अग्निके समान हैं । हे माता ! हृदयमें धैर्यं धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ ५ ॥

चौ०—जौं रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंबु रघुराई ॥

राम वान रवि उएँ जानकी । तम वरूथ कहँ जातुधान की ॥

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! राम-वाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥ १ ॥

अवहिं मातु में जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥

कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुवीरा ॥

हे माता ! मैं आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है, मुझे प्रभु (उन) की आज्ञा नहीं है । [अतः] हे माता ! कुछ दिन और धीरज धरो । श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे ॥ २ ॥

निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं ॥

हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥

और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेंगे । नारद आदि [ऋषि-मुनि] तीनों लोकोंमें उनका यश गावेंगे । [सीताजीने कहा—] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान (नन्हे-नन्हे-से) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान् योद्धा हैं ॥ ३ ॥

मोरें हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥

कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल वीरा ॥

अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी संदेह होता है [कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंको कैसे

जीते] । यह सुनकर हनुमान्जीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत (सुमेरु) के आकारका (अत्यन्त विशाल) शरीर था, जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान् और वीर था ॥ ४ ॥

सीता मन भरोस तव भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥

तब (उसे देखकर) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ । हनुमान्जीने फिर छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥

दो०—सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल ।

प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥

हे माता ! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत छोटा सर्प भी गरुड़को खा सकता है (अत्यन्त निर्बल भी महान् बलवान्को मार सकता है) ॥ १६ ॥

ची०—मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥

आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥

भक्ति, प्रताप, तेज और बलसे सनी हुई हनुमान्जीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनमें सन्तोष हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमान्जीको आशीर्वाद दिया कि हे तात ! तुम बल और शीलके निधान होओ ॥ १ ॥

अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥

करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥

हे पुत्र ! तुम अजर (बुढ़ापेसे रहित), अमर और गुणोंके खजाने होओ श्रीरघुनायजी तुमपर बहुत कृपा करें । 'प्रभु कृपा करें' ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमान्जी पूर्ण प्रेममें मग्न हो गये ॥ २ ॥

वार वार नाएसि पद सीसा । बोला वचन जोरि कर कीसा ।

अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ।

हनुमान्जीने वार-वार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा—हे माता ! अब मैं कृतार्थ हो गया । आपका आशीर्वाद अमोघ (अचूक) है । या बात प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥

कह कपि हृदयँ धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ।
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम वचन तजहु कदराई ।

हनुमान्जीने कहा—हे माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो और सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥

दो०—निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु ।

जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥

राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं । हे माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ ५ ॥

चौ०—जौं रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥

राम वान रवि उएँ जानकी । तम वरुथ कहँ जातुधान की ॥

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! राम-बाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥ १ ॥

अवहिं मातु मैं जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥

कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुवीरा ॥

हे माता ! मैं आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है, मुझे प्रभु (उन) की आज्ञा नहीं है । [अतः] हे माता ! कुछ दिन और धीरज धरो । श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे ॥ २ ॥

निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं ॥

हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥

और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेंगे । नारद आदि [ऋषि-मुनि] तीनों लोकोंमें उनका यश गावेंगे । [सीताजीने कहा—] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान (नन्है-नन्है-से) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान् योद्धा हैं ॥ ३ ॥

मोरें हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥

कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल वीरा ॥

अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी संदेह होता है [कि तुम-जैसे बदर राक्षसोंको कैसे

पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ॥
आवत देखि विटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥

फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा । वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ लेकर चला । उसे आते देखकर हनुमान्जीने एक वृक्ष [हाथमें] लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधुनि (बड़े जोर) से गर्जना की ॥ ४ ॥

दो०—कछु मारैसि कछु मर्दँसि कछु मिलैसि धरि धूरि ।

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥१८॥

उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको पकड़-पकड़कर धूलमें मिला दिया । कुछने फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही बलवान् है ॥ १८ ॥

चौ०—सुनि सुत बध लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥

मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥

पुत्रका बध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [अपने जेठे पुत्र] बलवान् मेघनादको भेजा । [उससे कहा कि—] हे पुत्र ! मारना नहीं, उसे बाँध लाना । उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १ ॥

चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥

कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥

इन्द्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया । हनुमान्जीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है । तब वे कट-कटाकर गर्ज और दौड़े ॥ २ ॥

आति विसाल तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥

रहे महाभट ताके संग्गा । गहि गहि कपि मर्दँइ निज अंग्गा ॥

उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और [उसके प्रहारसे] लङ्केश्वर रावणके पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया । (रथको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ।) उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़-पकड़कर हनुमान्जी अपने शरीरसे मसलने लगे ॥ ३ ॥

सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥

सुनु सुत करहिं विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥

हे माता ! सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आयी है । [सीताजीने कहा—] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं ॥ ४ ॥

तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जौं तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥

[हनुमान्जीने कहा—] हे माता ! यदि आप मनमें सुख मानें (प्रसन्न होकर आज्ञा दें) तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥ ५ ॥

चौ०—देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु ।

रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फल खाहु ॥१७॥

हनुमान्जीको बुद्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा—जाओ । हे तात! श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फल खाओ ॥ १७ ॥

चौ०—चलेउ नाइ सिरु पैठेउ वागा । फल खाएसि तरु तोरें लागा ॥

रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥

वे सीताजीको सिर नवाकर चले और वागमें घुस गये । फल खाये और वृक्षोंको तोड़ने लगे । वहाँ बहुत-से योद्धा रखवाले थे । उनमेंसे कूँचको मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार की ॥ १ ॥

नाथ एक आवा कपि भारी । तेहिं असोक वाटिका उजारी ॥

खाएसि फल अरु विटप उपारे । रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे ॥

[और कहा—] हे नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है । उसने असोकवाटिका उजाड़ डाली । फल खाये, वृक्षोंको उखाड़ डाला और रखवालोंको मसल-मसलकर जमीनपर डाल दिया ॥ १ ॥

सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥

सब रजनीचर कपि संघारे । गए पुकारत कछु अधमारे ॥

यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे । उन्हें देखकर हनुमान्जीने गर्जना की ।

पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ॥

आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥

फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा । वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ लेकर चला । उसे आते देखकर हनुमान्जीने एक वृक्ष [हाथमें] लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि (बड़े जोर) से गर्जना की ॥ ४ ॥

दो०—कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि ।

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥१८॥

उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको पकड़-पकड़कर धूलमें मिला दिया । कुछने फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही बलवान् है ॥ १८ ॥

ती०—सुनि सुत वध लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥

मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥

पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [अपने जेठे पुत्र] बलवान् मेघनादको भेजा । [उससे कहा कि—] हे पुत्र ! मारना नहीं, उसे बाँध लाना । उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १९ ॥

चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥

कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥

इन्द्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया । हनुमान्जीने देखा कि अवकी भयानक योद्धा आया है । तब वे कट-कटाकर गर्जे और दौड़े ॥ २० ॥

अति विसाल तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥

रहे महाभट ताके संग । गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा ॥

उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और [उसके प्रहारसे] लङ्केश्वर रावणके पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया । (रथको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ।) उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़-पकड़कर हनुमान्जी अपने शरीरसे मसलने लगे ॥ २१ ॥

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥

मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुछा आई ॥

उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे] मानो दो गजराज (श्रेष्ठ हाथी) भिड़ गये हों । हनुमान्जी उसे एक घूसा मारकर वृक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके लिये मूर्छा आ गयी ॥ ४ ॥

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥

फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परंतु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५ ॥

दो०—ब्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा कपि मन कीन्ह विचार ।

जौं न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥१६॥

अन्तमें उसने ब्रह्मास्त्रका सन्धान (प्रयोग) किया । तब हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्रको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९ ॥

चौ०—ब्रह्मवान कपि कहुँ तेहिं मारा । परतिहुँ वार कटकु संघारा ॥

तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास बाँधेसि लै गयऊ ॥

उसने हनुमान्जीको ब्रह्मबाण मारा, [जिसके लगते ही वे वृक्षसे नीचे गिर पड़े] परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली । जब उसने देखा कि हनुमान्जी मूर्च्छित हो गये हैं, तब वह उनको नागपाशसे बाँधकर ले गया ॥ १ ॥

जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ग्यानी ॥

तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लागि कपिहिं बँधावा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी (विवेकी) मनुष्य संसार (जन्म-मरण) के बन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बन्धनमें आ सकता है ? किंतु प्रभुके कार्यके लिये हनुमान्जीने स्वयं अपनेको बँधा लिया ॥ २ ॥

कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि सभाँ सब आए ॥

दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥

बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये (तमाशा देखनेके

लिये) सब सभामें आये । हनुमान्जीने जाकर रावणकी सभा देखी । उसकी अत्यन्त प्रभुता (ऐश्वर्य) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३ ॥

कर जोरें सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल समीता ॥

देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥

देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी भौं ताक रहे हैं (उसका रुख देख रहे हैं) । उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान्जीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे निःशङ्क खड़े रहे जैसे सर्पोंके समूहमें गरुड़ निःशङ्क (निर्भय) रहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद ।

सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदयँ विषाद ॥२०॥

हनुमान्जीको देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हँसा । फिर पुत्रवधका स्मरण किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥

चौ०—कह लंकेस कवन तैं कीसा । केहि कें बल घालेहि बन खीसा ॥

की धौँ श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखउँ अति असंक सठ तोही ॥

लङ्कापति रावणने कहा—रे वानर ! तू कौन है ? किसके बलपर तूने वनको उजाड़कर नष्ट कर डाला ? क्या तूने कभी तुझे (मेरा नाम और यश) कानोंसे नहीं सुना ? रे शठ ! मैं तुझे अत्यन्त निःशंक देख रहा हूँ ॥ १ ॥

मारे निसिचर केहिं अपराधा । कहु सठ तोहि न प्राण कइ बाधा ॥

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥

तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ? रे मूर्ख ! बता क्या तुझे प्राण जानेका भय नहीं है ? [हनुमान्जीने कहा—] हे रावण ! सुन, जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है, ॥ २ ॥

जाकें बल विरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥

जिनके बलसे हे दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [क्रमशः] सृष्टिका सृजन,

पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहस्र मुख (फणों) वाले भेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥ ३ ॥

धरइ जो विविध देह मुरत्राता । तुम्ह से सठ्ठह सिखावनु दाता ॥
हर कोदंड कठिन जेहि भंजा । तेहि समेत नृप दल मद गंजा ॥

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे-जैसे मूर्खोंको शिक्षा देनेवाले हैं, जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुषको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण कर दिया ॥ ४ ॥

खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली । वधे सकल अतुलित बलसाली ॥

जिन्होंने खर, दूषण, त्रिसिरा और वालिको मार डाला, जो सबके-सब अतुलनीय बलवान् थे ॥ ५ ॥

दो०—जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि ।

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥

जिनके लेगमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगतको जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नीको तुम [चोरीसे] हर लाये हो, मैं उन्हींका दूत हूँ ॥ २१ ॥

चौ०—जानउँ में तुम्हारि प्रभुताई । सहसत्राहु सन परी लराई ॥

समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपिवचन त्रिहसि विहरावा ॥

मैं तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहस्रबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था । हनुमान्जीके [मार्मिक] वचन सुनकर रावणने हँसकर बात टाल दी ॥ १ ॥

खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥

सब कें देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥

हे [राक्षसोंके] स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, [इसलिये] मैंने फल खाये और वानर-स्वभावके कारण वृक्ष तोड़े । हे [निगाचरोंके] मालिक ! देह सबको परम प्रिय है । कुमांगर चलनेवाले (दुष्ट) राक्षस जब मुझे मारने लगे ॥ २ ॥

जिन्ह मोहि मारा ते में मारे । तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे ॥

मोहि न कञ्चु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥

तव जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा । उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँध लिया । [किंतु] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लज्जा नहीं है । मैं तो अपने प्रभुके कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३ ॥

बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ।

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे बिनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो । तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो और भ्रमको छोड़कर भक्त भयहारी भगवान्को भजो ॥ ४ ॥

जाकेँ डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ।
तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजै । मोरे कहेँ जानकी दीजै ॥

जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता है वह काल भी जिनके डरसे अत्यन्त डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५ ॥

दो०—प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि ॥

गाँ सरन प्रभु राखिहैं तव अपराध बिसारि ॥२२॥

खरके शत्रु श्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं । शरण जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे ॥ २२ ॥

चौ०—राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू ॥

रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका ॥

तुम श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो और लङ्काका अचल राज्य करो । ऋषि पुलस्त्यजीका यश निर्मल चन्द्रमाके समान है । उस चन्द्रमामें तुम कलंक न बनो ।

राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥

बसन हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥

रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती; मद-मोहको छोड़, विचारकर देखो । हे देवताओंके शत्रु ! सब गहनोसे सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ोंके बिना (नंगी) शोभा नहीं पाती ॥ २ ॥

पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहस्र मुख (फणों) वाले शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥ ३ ॥

घरइ जो विविध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठ्ठह सिखावनु दाता ॥
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा । तेहि समेत नृप दल मद गंजा ॥

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे-जैसे मूर्खोंको शिक्षा देनेवाले हैं, जिन्होंने शिवजीके कठोर घनुपको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण कर दिया ॥ ४ ॥

खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली । वधे सकल अतुलित बलसाली ॥

जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और वालिको मार डाला, जो सब-के-सब अतुलनीय बलवान् थे ॥ ५ ॥

दो०—जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर भारि ।

तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥

जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नीको तुम [चोरीसे] हर लाये हो, मैं उन्हींका दूत हूँ ॥ २१ ॥

चौ०—जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई ॥

समर वाली सन करि जसु पावा । सुनि कपिवचन विहसि विहरावा ॥

मैं तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहस्रबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और वालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था । हनुमान्जीके [मार्मिक] वचन सुनकर रावणने हैस्रकर बात दाल दी ॥ १ ॥

खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥

सब कें देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥

हे [राक्षसोंके] स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, [इसलिये] मैंने फल खाये और वानर-स्वभावके कारण वृक्ष तोड़े । हे [निशाचरोंके] मालिक ! देह सबको परम प्रिय है । कुमारग वचनेवाले (दुष्ट) राक्षस जब मुझे मारने लगे ॥ २ ॥

जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर बाँधेउँ तनयँ न्म्हारे ॥

मोहि न क्यु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु ॥

हनुमान्जीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [और बोला—] अरे ! इस मूर्खका प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े । उसी समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥

नाइ सीस करि बिनय बहूता । नीति विरोध न मारिअ दूता ॥
आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥

उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतको मारना नहीं चाहिये, यह नीतिके विरुद्ध है । हे गोसाँई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहा—भाई ! यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥

सुनत बिहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥

यह सुनते ही रावण हँसकर बोला—अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज (लौटा) दिया जाय ॥ ५ ॥

दो०—कपि कें ममता पूँछ पर सबहि कहउँ समुझाइ ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥२४॥

मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है । अतः तेलमें तपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बाँधकर फिर आग लगा दो ॥ २४ ॥

दो०—पूँछहीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ।

जिन्हकै कीन्हिसिबहुतबड़ाई । देखउँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई ॥

जब बिना पूँछका यह बंदर वहाँ (अपने स्वामीके पास) जायगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकको साथ ले आयेगा । जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य) तो देखूँ ॥ १ ॥

चन सुनत कपि मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥

रातुधान सुनि रावन बचना । लागे रचैं मूढ़ सोइ रचना ॥

यह वचन सुनते ही हनुमान्जी मनमें मुसकराये [और मन-ही-मन बोले कि] जान गया, सरस्वतीजी [इसे ऐसी बुद्धि देनेमें] सहायक हुई हैं । रावणके वचन सुनकर मैं राक्षस वही (पूँछमें आग लगानेकी) तैयारी करने लगे ॥ २ ॥

म विमुख संपत्ति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥
जल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । वरपि गएँ पुनि तवहिं सुखार्हीं ॥

रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका जना न पानेके समान है। जिन नदियोंके मूलमें कोई जलस्रोत नहीं है (अर्थात् जिन्हें बल बरसातका ही आसरा है) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ॥ ३ ॥

पुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । विमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥
शंकर सहस विष्णु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥

हे रावण ! सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है । हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले तुमको नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥

दो०—मोहमूल बहु सूत प्रद त्यागहु तम अभिमान ।

भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥२३॥

मोह ही जिसका मूल है ऐसे (अज्ञानजनित), बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप अभिमानका त्याग कर दो और रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ।

दो०—जदपिकहीकपिअतिहितवानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥

बोला विहसि महा अभिमानी । मिलाहमहिकपिगुरवड़ ग्यानी ॥

यद्यपि हनुमान्जीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही हितकी वाणी कही, तो भी वह महान् अभिमानी रावण बहुत हँसकर (व्यंगसे) बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला ॥ १ ॥

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥

उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥

रे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है । अधम ! मुझे शिक्षा देने चला है । हनुमान्जीने कहा—इससे उलटा ही होगा (अर्थात् मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी नहीं) । यह तेरा मतिभ्रम (बुद्धिका फेर) है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ ॥

सुनि कपि वचन बहुत खिसिआना । वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥

सुनत निसाचर मारन धाए । सचिवन्ह सहित विभीषनु आए ॥

यही पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं वानरका रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २ ॥

साधु अवग्या कर फलु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर गृह नाहीं

साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जल रहा है हनुमान्जीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला। एक विभीषणका घर नहीं जलाया ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मझारी

[शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुमान्जी उन्हीं दूत हैं। इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले। हनुमान्जीने उलट-पलटकर (एक ओरसे दूसरे ओरतक) सारी लङ्का जला दी। फिर वे समुद्रमें कूद पड़े ॥ ४ ॥

दो०—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि।

जनकसुता के आगेँ ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥

पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमान्जी श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥

चौ०—मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा।

चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ।

[हनुमान्जीने कहा—] हे माता ! मुझे कोई चिह्न (पहचान) दीजिये, जैसे श्रीरघुनायकीने मुझे दिया था। तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी। हनुमान्जीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १ ॥

कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥

दीन दयाल विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥

[जानकीजीने कहा—] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना—हे प्रभु ! यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है), तथापि दीनों (दुखियों) पर दया करना आपका विरद है [और मैं दीन हूँ] अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ २ ॥

रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥
कौतुक कहँ आए पुरवासी । मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥

[पूँछके लपेटनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि] नगरमें कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया । हनुमान्जीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी (सम्बन्धी हो गयी) । नगरवासीलोग तमाशा देखने आये । वे हनुमान्जीको पैरसे ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हैं ॥ ३ ॥

बाजहिं ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥
पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥

ढोल बजते हैं, सब लोग तालियाँ पीटते हैं । हनुमान्जीको नगरमें फिराकर फिर पूँछमें आग लगा दी । अग्निको जलते हुए देखकर हनुमान्जी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये । निब्रुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं । भईं सभीत निसाचर नारीं ।

बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोंकी स्त्रियाँ भयभीत हो गयीं ॥ ५ ॥

बो०—हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास ।

अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥२५॥

उस समय भगवान्की प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे । हनुमान्जी अट्टहास करके गर्जे और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५ ॥

बो०—देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई ॥

जरइ नगर भा लोग त्रिहाला । झपट लपट बहु कोटि कराला ॥

देह बड़ी विशाल, परंतु बहुत ही हल्की (फुर्तीली) है । वे दौड़कर एक महलसे दूसरे महलपर चढ़ जाते हैं । नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं । आगकी करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं ॥ १ ॥

तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहिं अवसर को हमहि उवारा ॥

हम जो कहा यह कपि नहिं होई । वानर रूप धरें सुर कोई ॥

हाय बप्पा ! हाय मैया ! इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा ? [चारों ओर]

यही पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है। वानरका रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २ ॥

साधु अवग्या कर फलु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥

साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जल रहा है। हनुमान्जीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला। एक विभीषणका घर नहीं जलाया। ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥
उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुमान्जी उन्हींके दूत हैं। इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले। हनुमान्जीने उलट-पलटकर (एक ओरसे दूसरी ओरतक) सारी लङ्का जला दी। फिर वे समुद्रमें कूद पड़े ॥ ४ ॥

दो०—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि।

जनकसुता कें आगें ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥

पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमान्जी श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥

चो०—मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥

चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥

[हनुमान्जीने कहा—] हे माता ! मुझे कोई चिह्न (पहचान) दीजिये, जैसे श्रीरघुनायकीने मुझे दिया था। तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी। हनुमान्जीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १ ॥

कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥

दीन दयाल विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥

[जानकीजीने कहा—] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना—हे प्रभु ! यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है), तथापि दोनों (दुखियों) पर दया करना आपका विरद है [और मैं दीन हूँ] अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ २ ॥

तात सकसुत कथा सुनाएहु । वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥
मास दिवस महुँ नाथु न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नहिँ पावा ॥

हे तात ! इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा (घटना) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका प्रताप समझाना (स्मरण कराना) यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न पायेगे ॥ ३ ॥

कहु कपि केहि विधि राखौँ प्राणा । तुम्हहू तात कहत अब जाना ॥
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥

हे हनुमान् ! कहो, मैं किस प्रकार प्राण रक्खूँ । हे तात ! तुम भी अब जानेको कह रहे हो । तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुझे वही दिन और वही रात ! ॥४॥

दो०—जनकसुताहि समुझाइ करि बहु विधि धीरजु दीन्ह ।

चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहिँ कीन्ह ॥२७॥

हनुमान्जीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया और उनके चरणकमलोंमें सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥

चौ०—चलत महाधुनिगर्जेसि भारी । गर्भ खवहिँ सुनि निसिचर नारी ॥

नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥

चलते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी स्त्रियोंके गर्भ गिरने लगे । समुद्र लाँघकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किल-किला शब्द (हर्षध्वनि) सुनाया ॥ १ ॥

हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तव जाना ॥

मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । कीन्हैसि रामचंद्र कर काजा ॥

हनुमान्जीको देखकर सब हर्षित हो गये और तब वानरोने अपना नया जन्म समझा । हनुमान्जीका मुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान है, [जिससे उन्होंने समझ लिया कि] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं ॥ २ ॥

मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥

चले हरषि रघुनायक पासा । पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥

सब हनुमान्जीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए । जैसे तड़पती हुई मछलीको

जल मिल गया हो । सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास (वृत्तान्त) पूछते-कहते हुए श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥

तब मधुवन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥
रखवारे जब बरजन लागे । मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥

तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [या मधु और फल] खाये । जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसोंकी मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे ॥ ४ ॥

दो०—जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुवराज ।

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु कज ॥२८॥

उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं । यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं ॥ २८ ॥

चौ०—जौं न होति सीता सुधि पाई । मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥

एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥

यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फल खा सकते थे ? इस प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १ ॥

आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥

पूँछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपाँ भा काजु बिसेषी ॥

सबने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया । कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके साथ मिले । उन्होंने कुशल पूछी, [तब वानरोंने उत्तर दिया—] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल है । श्रीरामजीकी कृपासे विशेष कार्य हुआ (कार्यमें विशेष सफलता हुई है) ॥२९॥

नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राणा ॥

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ ॥

हे नाथ ! हनुमान्ने ही सब कार्य किया और सब वानरोंके प्राण बचा लिये । यह सुनकर सुग्रीवजी हनुमान्जीसे फिर मिले और सब वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥३॥

राम कपिन्ह जब आवत देखा । किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥
फटिक सिला बैठे द्यौ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥

श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष हर्ष हुआ । दोनों भाई स्फटिक शिलापर बैठे थे । सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े ।

दो०—प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पूंज ।

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥२६॥

दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर भित्ते और कुशल पूछी । [वानरोंने कहा—] हे नाथ ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २९ ॥

शौ०—जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दया ॥

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥

जाम्बवान्ने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिसपर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशल है । देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १ ॥

सोइ विजई विनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥

प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥

वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र बन जाता है । उसीका सुन्दर यश तीनों लोकोंमें प्रकाशित होता है । प्रभुकी कृपासे सब कार्य हुआ । आज हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २ ॥

नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो वरनी ॥

पवनतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥

हे नाथ ! पवनपुत्र हनुमान्ने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता । तब जाम्बवान्ने हनुमान्जीके सुन्दर चरित्र (कार्य) श्रीरघुनाथजीको सुनाये ।

सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरपि हियँ लाए ॥

कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्नान की ॥

[ये चरित्र] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे । उन्होंने हर्षित होकर हनुमान्जीको फिर हृदयसे लगा लिया और कहा—हे तात ! कहो,

सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं ? ॥ ४ ॥

दो०—नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्राण केहिं बाट ॥३०॥

[हनुमान्जीने कहा—] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं, यही ताला लगा है; फिर प्राण जायें तो किस मार्गसे ? ॥ ३० ॥

चौ०—चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही ॥

नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुमारी ॥

चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [उतारकर] दी। श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर हृदयसे लगा लिया। [हनुमान्जीने फिर कहा—] हे नाथ ! दोनों नेत्रोंमें जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे—॥ १ ॥

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥

मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हौं त्यागी ॥

छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [और कहना कि] आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले हैं ! और मैं मन, वचन और कर्मसे आपके चरणोंकी अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी (आप) ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया ? ॥ २ ॥

अवगुन एक मोर मैं माना । बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना ॥

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्राण करहिं हठि बाधा ॥

[हाँ] एक दोष मैं अपना [अवश्य] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गये, किंतु हे नाथ ! यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३ ॥

बिरह अग्नि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥

यन स्रवहिं जलु निज हित लागी । जरैं न पाव देह बिरहागी ॥

बिरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है; इस प्रकार [अग्नि और पवनका संयोग होनेसे] यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है; परंतु नेत्र अपने हितके लिये

(प्रभुका स्वरूप देखकर सुखी होनेके लिये) जल (आँसू) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४ ॥

सीता कै अति विपति विसाला । विनहिं कहें भलि दीनदयाला ॥

सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयालु ! वह बिना कही ही अच्छी है, (कहनेसे आपको बड़ा क्लेश होगा) ॥ ५ ॥

दो०—निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कल्प सम वीति ।

वेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥३१॥

हे करुनानिधान ! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है । अतः हे प्रभु ! तुरंत चलिये और अपनी भुजाओंके बलसे दुष्टोंके दलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥

चौ०—सुनिसीतादुखप्रभुसुखअयना । भरि आए जल राजिव नयना ।

वचन कायँ मन मम गति जाही । सपनेहुँ वृझिअ विपति किताही ॥

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके घाम प्रभुके कमलनेत्रोंमें जल भर आया [और वे बोले—] मन, वचन और शरीरसे जिसे मेरी ही गति (मेरा ही आश्रय) है, उसे क्या स्वप्नमें भी विपत्ति हो सकती है ? ॥ १ ॥

कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥

केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिवी जानकी ॥

हनुमान्जीने कहा—हे प्रभु ! विपत्ति तो वही (तभी) है जब आपका भजन-स्मरण न हो । हे प्रभो ! राक्षसोंकी बात ही कितनी है ? आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आवेंगे ॥ २ ॥

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥

प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥

[भगवान् कहने लगे—] हे हनुमान् ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है । मैं तेरा प्रत्युपकार (बदलेमें उपकार) तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउँ करि विचार मन माहीं ॥

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥

हे पुत्र ! सुन; मैंने मनमें [खूब] विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उच्छ्रय नहीं हो सकता। देवताओंके रक्षक प्रभु बार-बार हनुमान्जीको देख रहे हैं। नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंका जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥ ४ ॥

दो०—सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत ।

चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥

प्रभुके वचन सुनकर और उनके [प्रसन्न] मुख तथा [पुलकित] अङ्गोंको देखकर हनुमान्जी हर्षित हो गये और प्रेममें विकल होकर 'हे भगवन् ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो' कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३२ ॥

चौ०—बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ।

प्रभु कर पंकज कपि केँ सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥

प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं; परंतु प्रेममें डूबे हुए हनुमान्जीको चरणोंसे उठाना सुहाता नहीं। प्रभुका करकमल हनुमान्जीके सिरपर है। उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥ १ ॥

सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥

कपि उठाइ प्रभु हृदयँ लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥

फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे—हनुमान्जीको उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया।

कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला वचन विगत अभिमाना ॥

हे हनुमान् ! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लङ्का और उसके बड़े बंके किलेको तुमने किस तरह जलाया ? हनुमान्जीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे अभिमानरहित वचन बोले—॥ ३ ॥

साखामृग कै बड़ि मनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥

नाधि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥

बंदरका वस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाँघकर सोनेका नगर जलाया और राक्षसगणको मारकर अशोकवनको उजाड़ डाला, ॥ ४ ॥

सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥

यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी ! आपहीका प्रताप है । हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

दो०—ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्ह अनुकूल ।

तव प्रभावं बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥

हे प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके प्रभावसे रूई [जो स्वयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है] बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है (अर्थात् असम्भव भी सम्भव हो सकता है) ॥ ३३ ॥

चौ०—नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥

हे नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये । हनुमान्जीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा ॥ १ ॥

उमा राम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥

यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥

हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती । यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २ ॥

सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिवृंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥

तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलैं कर करहु बनावा ॥

प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे—कृपालु आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जय हो, जय हो, जय हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया और कहा—चलनेकी तैयारी करो ॥ ३ ॥

अब बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे ॥

कौतुक देखि सुमन बहु वरषी । नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥

अब विलम्ब किस कारण किया जाय । वानरोंको तुरंत आज्ञा दो । [भगवान्की]

यह लीला (रावण-वधकी तैयारी) देखकर, बहुत-से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले ॥ ४ ॥

दो०—कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ ।

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ ॥३४॥

वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह आ गये । वानर-भालुओंके झुंड अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ ॥

चौ०—प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥

देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥

वे प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं । महान् बलवान् रीछ और वानर गरज रहे हैं । श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी । तब कमलनेत्रोंसे कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली ॥ १ ॥

राम कृपा बल पाइ कपिंदा । भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा ॥

हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥

रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये । तब श्रीरामजीने हर्षित होकर प्रस्थान (कूच) किया । अनेक सुन्दर और शुभ शकुन हुए ॥२॥

जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥

प्रभु पयान जाना बैदेहीं । फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥

जिनकी कीर्ति सब मङ्गलोंसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह नीति है (लीलाकी मर्यादा है) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान लिया । उनके वार्ये अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [कि श्रीरामजी आ रहे हैं] ॥ ३ ॥

जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥

चला कटकु बरनें पारा । गर्जहिं बानर भालु अपारा ॥

जानकीजीके होते थे, वही-वही रावणके लिये अपशकुन हुए । सेना उसका वर्णन सकता है? असंख्य वानर और भालू गर्जना कर ॥ ४ ॥

भालु

। चले गगन महि इच्छाचारी ॥

। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं ॥

सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥

यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी ! आपहीका प्रताप है । हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

दो०—ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्ह अनुकूल ।

तव प्रभावं बड़वानलहि जारि संकट खलु तूल ॥३३॥

हे प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके प्रभावसे रूई [जो स्वयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है] बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है (अर्थात् असम्भव भी सम्भव हो सकता है) ॥ ३३ ॥

चौ०—नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥

हे नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये । हनुमान्जीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा ॥ १ ॥

उमा राम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥

यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥

हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती । यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २ ॥

सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिवृंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥

तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलैं कर करहु बनावा ॥

प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे—कृपालु आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जय हो, जय हो, जय हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलामा और कहा—चलनेकी तैयारी करो ॥ ३ ॥

अब विलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे ॥

कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥

अब विलम्ब किस कारण किया जाय । वानरोंको तुरंत आज्ञा दो । [भगवान्की]

चौ०—उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जा रि गयउ कपि लंका ॥

निज निज गृहँ सब करहिं बिचारा । नहिं निसिचर कुल के उबारा ॥

वहाँ (लङ्कामें) जबसँ हनुमान्जी लङ्काको जलाकर गये, तबसे राक्षस भयभीत रहने लगे । अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [का कोई उपाय] नहीं है ॥ १ ॥

जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥

जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमें आनेपर कौन भलाई है (हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी) ? दूतियोसे नगरवासियोंके वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥

रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥

कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हियँ धरहू ।

वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति (रावण) के चरणों लगी और नीतिरसमें पगी हुई वाणी बोली—हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये । मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये ॥ ३ ॥

समुझत जासु दूत कइ करनी । खवहिं गर्भ रजनीचर घरनी ॥

तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठहु कंत जो चहहु भलाई ॥

जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही (स्मरण आते ही) राक्षसोंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते हैं, तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको भेज दीजिये ॥ ४ ॥

तव कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥

सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥

सीता आपके कुलरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी है । हे नाथ ! सुनिये, सीताको दिये (लौटाये) बिना शम्भु और ब्रह्माके किये भी आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

दो०—राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक ।

जब लागि ग्रसत न तब लागि जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥

नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार (सर्वत्र बेरोक-टोक) चलनेवाले रोछ-वानर पर्वतों और वृक्षोंको धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई पृथ्वीपर चले जा रहे हैं। वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं। [उनके चलने और गर्जनेसे] दिशाओंके हाथी विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हैं ॥ ५ ॥

छं०—चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे ।

मन हरष सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे ॥

कटकटहिं मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं ।

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥

दिशाओंके हाथी चिग्घाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये। (कांपने लगे) और समुद्र खलबला उठे। गन्धर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर, सबके-सब मनमें हर्षित हुए कि [अब] हमारे दुःख टल गये। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। 'प्रबल प्रताप कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो' ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोंको गा रहे हैं ॥ १ ॥

सहि सक न भार उदार अहिपति वार वारहिं मोहई ।

गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥

रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ।

जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥२॥

उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ नहीं सह सकते, वे बार-बार मोहित हो जाते (घबरा जाते) हैं और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोसे पकड़ते हैं। ऐसा करते (अर्थात् बार-बार दाँतोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर लकीर-सी खींचते हुए) वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थान-यात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी पीठपर लिख रहे हों ॥ २ ॥

दो०—एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर ।

जहँ तहँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर ॥३५॥

इस प्रकार कृपानिघान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे। अनेकों रोझ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे ॥ ३५ ॥

दो०—सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस ।

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥३७॥

मन्त्री, वैद्य और गुरु—ये तीन यदि [अप्रसन्नताके] भय या [लाभकी] आशासे [हितकी बात न कहकर] प्रिय बोलते हैं (ठकुरसुहाती कहने लगते हैं); तो [क्रमशः] राज्य, शरीर और धर्म—इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७ ॥

चौ०—सोइ रावन कहूँ बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥

अवसर जानि विभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥

रावणके लिये भी वही सहायता (संयोग) आ बनी है । मन्त्री उसे सुना-सुनाकर (मुँहपर) स्तुति करते हैं । [इसी समय] अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥

पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥

जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहउँ हित ताता ॥

फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये वचन बोले— हे कृपालु ! जब आपने मुझसे बात (राय) पूछी ही है, तो हे तात ! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हूँ—॥ २ ॥

जो आपन चाहै कल्याणा । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥

सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥

जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकारके सुख चाहता हो, वह है स्वामी ! परस्त्रीके ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे (अर्थात् जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्रीका मुखही न देखे) ॥ ३ ॥

चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥

गुन सागर नागर नर जोऊ । अल्प लोभ भल कहइ न कोऊ ॥

चौदहों भुवनोंका एक ही स्वामी हो वह भी जीवोंसे वैर करके ठहर नहीं सकता (नष्ट हो जाता है) । जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो; उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो कोई भला नहीं कहता ॥ ४ ॥

दो०—काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ।

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥३८॥

श्रीरामजीके बाण सपोकै समूहके समान हैं और रामजीके बाणके समान ।
जबतक वे इन्हें प्रस नहीं लेते (निगल नहीं आते) तबतक वह अनेकवार उपाय कर
लीजिये ॥ ३६ ॥

चौ०—श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । विहसत जगत् जेहि अभिमानी ॥

सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल नहि नर नर जति काचा ॥

मूर्ख और जगत्प्रसिद्ध अभिमानी रावण कागते अपने मर्ग नूनकर खूब हँस
[और बोला—] स्त्रियोंका स्वभाव सचमुच ही बहुत बदलेके होते हैं। नङ्गलमें भी मन
करती हो ! तुम्हारा मन (हृदय) बहुत ही कच्चा (कल्पित) है ॥ १ ॥

जों आवइ मर्कट कटकाई । जिन्हि विचारेलित्तिचर खाई ॥

कंपहि लोकप जाकीं त्रासा । तालु नाहि लोकोत बड़ि हासा ॥

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे रावण उसे बाधना अपना जीवनविरोध
करेगे। लोकपाल भी जिसके डरसे कांपते हैं, उसकी रणो रणो से यह बड़ी हँसीकी बात है :
अस कहि विहसि ताहि उर लाई । चलेउ लोको नमता अधिकई ॥

मंदोदरी हृदयँ कर चिंता । भरत को पर विधि विपरीत ॥

रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे सारा शिवा और नमता बढ़ाकर (अर्थात्
स्नेह दर्शाकर) वह समामें चला गया। मन्दोदरी इतना विचारा करने लगी कि नरोंके
विघाता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ ॥

बैठेउ सभौ खवारि असि पाई । सिंधु पर सेना सब जई ॥

बृभेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हँसि मष्ट करि रहहू ॥

ज्यों ही वह समामें जाकर बैठा, उसने ऐसे खबर पायी कि मनुके लोके
समुद्रके उस पार आ गयी है। उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि उचित सलाह कौनसे देनी
करना चाहिये] तब वे सब हँस और बोले कि बुध किये रहिये (इन्हे मनुके
कौनसी बात है ?) ॥ ४ ॥

जितेहु सुरासुर तत्र श्रम नाहीं । नर वानर केहि लेउे नहि ॥

आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया, तब तो कुछ श्रम है नही।
फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हैं ? ॥ ४ ॥

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात ।

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥३६(ख)॥

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है । हे तात ! सुन्दर

अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु (आप) से कह दी ॥ ३९ (ख) ॥

श्री०—माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ।

तात अनुज तव नीति विभूषन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन ।

माल्यवान् नामका एक बहुत ही बुद्धिमान् मन्त्री था । उसने उन (विभीषण) के

वचन सुनकर बहुत सुख माना [और कहा—] हे तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण

(नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात् नीतिमान्) हैं । विभीषण जो कुछ कह

रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये ॥ १ ॥

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ।

माल्यवंत गृह गयउ बहोरी । कहइ विभीषनु पुनि कर जोरी ।

[रावणने कहा—] ये दोनों मूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हैं । यहाँ कोई है ?

इन्हें दूर करो न ! तब माल्यवान् तो घर लौट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर

कहने लगे—॥ २ ॥

सुमति कुमति सब कें उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ।

हे नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि (अच्छी बुद्धि) और कुबुद्धि

(छोटी बुद्धि) सबके हृदयमें रहती हैं । जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकारकी सम्पदाएँ

(सुखकी स्थिति) रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाममें विपत्ति (दुःख) रहती है ॥३॥

तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ।

कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ।

आपके हृदयमें उलटी बुद्धि आ बसी है । इसीसे आप हितको अहित और शत्रुको

मित्र मान रहे हैं । जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [के समान] हैं, उन सीतापर

आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥

श्री०—तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।

सीता देहु राम कहँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥

हे नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोभ—ये सब नरकके रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको भजिये, जिन्हें संत (सत्पुरुष) भजते हैं ॥ ३८ ॥

चौ०—तात राम नहीं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥

ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥

हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकोंके स्वामी और कालके भी काल हैं। वे [सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञानके भण्डार] भगवान् हैं, वे निरामय (विकाररहित), अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥

गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥

जन रंजन भंजन खल ब्राना । वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥

उन कृपाके समुद्र भगवान्ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओंका हित करनेके लिये ही मनुष्यशरीर धारण किया है। हे भाई ! सुनिये, वे सेवकोंको आनन्द देनेवाले, दुष्टोंके समूहका नाश करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ ॥

ताहि वयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥

देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही । भजहु राम विनु हेतु सनेही ॥

बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये। वे श्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हैं। हे नाथ ! उन प्रभु (सर्वेश्वर) को जानकीजी दे दीजिये और बिना ही कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥

सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥

जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुभु जियँ रावन ॥

जिसे सम्पूर्ण जगत्से द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेपर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु (भगवान्) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं। हे रावण ! हृदयमें यह समझ लीजिये ॥ ४ ॥

दो०—वार वार पद लागउँ विनय करउँ दससीस ।

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३९(क)॥

हे दशश्रीश ! मैं वार-वार आपके चरणों लगता हूँ और विनयी करना हूँ कि मान, मोह और मदको त्यागकर आप कोसलपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९ (क) ॥

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात ।

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३६(ख)॥

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है । हे तात ! सुन्दर
वसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु (आप) से कह दी ॥ ३९ (ख) ॥

१०—माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥

तात अनुज तव नीति विभूषण । सो उर धरहु जो कहत विभीषण ॥

माल्यवान् नामका एक बहुत ही बुद्धिमान् मन्त्री था । उसने उन (विभीषण) के
बचन सुनकर बहुत सुख माना [और कहा—] हे तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण
नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात् नीतिमान्) हैं । विभीषण जो कुछ कह
हे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये ॥ १ ॥

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥

माल्यवंत गृह गयउ बहोरी । कहइ विभीषनु पुनि कर जोरी ॥

[रावणने कहा—] ये दोनों मूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हैं । यहाँ कोई है ?
इन्हें दूर करो न ! तब माल्यवान् तो घर लौट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर
बहने लगे—॥ २ ॥

कुमति कुमति सब कें उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥

तहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥

हे नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि (अच्छी बुद्धि) और कुबुद्धि
(खोटी बुद्धि) सबके हृदयमें रहती हैं । जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकारकी सम्पदाएँ
(सुखकी स्थिति) रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाममें विपत्ति (दुःख) रहती है ॥ ३ ॥

तव उर कुमति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥

कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥

आपके हृदयमें उलटी बुद्धि आ बसी है । इसीसे आप हितको अहित और शत्रुको
मित्र मान रहे हैं । जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [के समान] हैं, उन सीतापर
आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥

१०—तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।

सीता देहु राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥

हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ (विनती करता हूँ) कि आप मेरा दुलार रखिये (मुझ बालकके आग्रहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये) । श्रीरामजीको सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहित न हो ॥ ४० ॥

चौ०—बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही विभीषण नीति बखानी ॥

सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥

विभीषणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत (अनुमोदित) वाणीसे नीति बखानकर कही । पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ! अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है ! ॥ १ ॥

जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥

कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥

अरे मूख ! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ (अर्थात् मेरे ही अन्नसे पल रहा है), पर हे मूढ़ ! पक्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है । अरे दुष्ट ! बता न, जगत्में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओंके बलसे न जीता हो ? ॥ २ ॥

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥

अस कहि कीन्हैसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद वारहि वारा ॥

मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर । मूख ! उन्हींसे जा मिल और उन्हींको नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी । परंतु छोटे भाई विभीषणने [मारनेपर भी] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥

उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥

तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! संतकी यही बड़ाई (महिमा) है कि वे बुराई करनेपर भी [बुराई करनेवालेकी] भलाई ही करते हैं । [विभीषणजीने कहा—] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजीको भजनेमें ही है ॥ ४ ॥

सचिव संग लै नभ पथ गयऊ । सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥

[इतना कहकर] विभीषण अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाशमार्गमें गये और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे— ॥ ५ ॥

दो०—रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालवस तोरि ।

मैं रघुवीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥

श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [सर्वसमर्थ] प्रभु हैं और [हे रावण !] तुम्हारी सभ कालके वश है । अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना ॥ ४१ ॥

चौ०—अस कहि चला विभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं ।

साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कै हानी ।

ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए (उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी) । [शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! साधुका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश) कर देता है ॥ १ ॥

रावन जबहिं विभीषन त्यागा । भयउ विभव विनु तबहिं अभागा ।

चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ।

रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव (ऐश्वर्य) से हीन हो गया । विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ २ ॥

देखिहउँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥

जे पद परसि तरी रिषिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥

[वे सोचते जाते थे—] मैं जाकर भगवान्के कोमल और लाल वर्णके सुन्दर चरणकमलोंके दर्शन करूँगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं और जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

जे पद जनकसुताँ उर लाए । कपट कुरंग संग धर धाए ॥

हर उर सर सरोज पद जेई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई ॥

जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रक्खा है, जो कपटमृगके साथ पृथ्वीपर [उसे पकड़नेको] दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात् शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको आज मैं देखूँगा ! ॥ ४ ॥

दो०—जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ ।

ते पद आजु विलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥

जिन चरणोंकी पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्खा है, अहा ! आज मैं उन्हीं चरणोंको अभी जाकर इन नेत्रोंसे देखूंगा ॥ ४२ ॥

चो०—एहि विधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥

कपिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत विसेषा ॥

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार (जिधर श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी) आ गये । वानरोंने विभीषणको आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १ ॥

ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥

उन्हें [पहरेपर] ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुग्रीवने [श्रीरामजीके पास जाकर] कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये, रावणका भाई [आपसे] मिलने आया है ॥ २ ॥

कह प्रभु सखा वृक्षिऐ काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥

जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥

प्रभु श्रीरामजीने कहा—हे मित्र ! तुम क्या समझते हो (तुम्हारी क्या राय है)? वानरराज सुग्रीवने कहा—हे महाराज ! सुनिये, राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥

भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ वाँधि मोहि अस भावा ॥

सखा नीति तुम्ह नोकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥

[जान पड़ता है] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है । इसलिये मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बाँध रक्खा जाय ! [श्रीरामजीने कहा—] हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४ ॥

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना । सरनागत वच्छल भगवाना ॥

प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए [मन-ही-मन कहने लगे कि] भगवान् कैसे शरणागतवत्सल (शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले) हैं ॥ ५ ॥

दो०—सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पावँर पापमय तिन्हहि विलोकत हानि ॥४३॥

[श्रीरामजी फिर बोले—] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं वे पामर (क्षुद्र) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है (पाप लगता है) ॥ ४३ ॥

ची०—कोटि बिप्र बध लागहिं जाहूँ । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहूँ ॥

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटिअघ नासहिं तबहीं ॥

जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥

पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥

जों पै दुष्ट हृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥

पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह (रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥ २ ॥

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥

भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥

जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है । मुझे कपट और छलछिद्र नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥

जों समीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि प्राण की नाई ॥

क्योंकि हे सखे ! जगत्में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते हैं । और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रक्खूंगा ॥ ४ ॥

दो०—उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥

कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा—दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले आओ । तब अंगद और हनुमानसहित सुग्रीवजी 'कृपालु श्रीरामकी जय हो' कहते हुए चले ॥ ४४ ॥

ची०—सादर तेहि आगें करि वानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ।

दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥

जिन चरणोंकी पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्खा है, अहा ! आज मैं उन्हीं चरणोंको अभी जाकर इन नेत्रोंसे देखूंगा ॥ ४२ ॥

चौ०—एहि विधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥

कपिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत विसेषा ॥

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार (जिधर श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी) आ गये । वानरोंने विभीषणको आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १ ॥

ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥

उन्हें [पहरेपर] ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुग्रीवने [श्रीरामजीके पास जाकर] कहा—हे रघुनायजी ! सुनिये, रावणका भाई [आपसे] मिलने आया है ॥ २ ॥

कह प्रभु सखा वृझिऐ काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥

जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥

प्रभु श्रीरामजीने कहा—हे मित्र ! तुम क्या समझते हो (तुम्हारी क्या राय है)? वानरराज सुग्रीवने कहा—हे महाराज ! सुनिये, राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥

भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ वाँधि मोहि अस भावा ॥

सखा नीति तुम्ह नोकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥

[जान पड़ता है] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है । इसलिये मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बाँध रक्खा जाय ! [श्रीरामजीने कहा—] हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४ ॥

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना । सरनागत वच्छल भगवाना ॥

प्रभुके वचन सुनकर हनुमान्जी हर्षित हुए [मन-ही-मन कहने लगे कि] भगवान् कैसे शरणागतवत्सल (शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले) हैं ॥ ५ ॥

दो०—सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पावँर पापमय तिन्हहि विलोकत हानि ॥४३॥

[श्रीरामजी फिर बोले—] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं वे पामर (क्षुद्र) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है (पाप लगता है) ॥ ४३ ॥

चौ०—कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटिअघ नासहिं तबहीं ॥

जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥

पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥
जौं पै दुष्ट हृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥

पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह (रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥ २ ॥

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥

जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है । मुझे कपट और छलछिद्र नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥
जौं समीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि प्राण की नाई ॥

क्योंकि हे सखे ! जगत्में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते हैं । और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रक्खूंगा ॥ ४ ॥

दो०—उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥

कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा—दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले आओ । तब अंगद और हनुमान्सहित सुग्रीवजी 'कृपालु श्रीरामकी जय हो' कहते हुए चले ॥ ४४ ॥

चौ०—सादर तेहि आगें करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ।
दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥

विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान श्रीरघुनाथजी थे । नेत्रोंको आनन्दका दान देनेवाले (अत्यन्त सुखद) दोनों भाइयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥

बहुरि राम छविधाम विलोकी । रहेउ ठट्टुकि एकटक पल रोकी ॥

भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [मारना] रोककर ठिठककर (स्तब्ध होकर) एकटक देखते ही रह गये । भगवान्की विशाल भुजाएँ हैं, लाल कमलके समान नेत्र हैं और शरणागतके भयका नाश करनेवाला साँवला शरीर है । ॥ २ ॥

सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥

नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृदु बाता ॥

सिंहके-से कंधे हैं, विशाल वक्षःस्थल (चौड़ी छाती) अत्यन्त शोभा दे रहा है । असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है । भगवान्के स्वरूपको देखकर विभीषणजीके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे—॥ ३ ॥

नाथ दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥

सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उल्लूकहि तम पर नेहा ॥

हे नाथ ! मैं दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षसकुलमें हुआ है । मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लूको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥

दो०—श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर ॥

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥

मैं कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव (जन्म-मरण) के भयका नाश करनेवाले हैं । हे दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ४५ ॥

चौ०—अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसेपा ॥

दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज विसाल गहि हृदयँ लगावा ॥

[श्रीरामजी फिर बोले—] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं वे पामर (क्षुद्र) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है (पाप लगता है) ॥ ४३ ॥

चौ०—कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटिअघ नासहिं तबहीं ॥

जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥

पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥
जों पै दुष्ट हृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥

पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह (रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥ २ ॥

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥

जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है । मुझे कपट और छलछिद्र नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥
जों समीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि प्राण की नाई ॥

क्योंकि हे सखे ! जगत्में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते हैं । और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रक्खूंगा ॥ ४ ॥

दो०—उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥

कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा—दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले आओ । तब अंगद और हनुमान्साहित सुग्रीवजी 'कृपालु श्रीरामकी जय हो' कहते हुए चले ॥ ४४ ॥

चौ०—सादर तेहि आगें करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ।
दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥

विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान श्रीरघुनाथजी थे। नेत्रोंको आनन्दका दान देनेवाले (अत्यन्त सुखद) दोनों भाइयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥

बहुरि राम छविधाम विलोकी । रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥

भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [मारना] रोककर ठिठककर (स्तब्ध होकर) एकटक देखते ही रह गये। भगवान्की विशाल भुजाएँ हैं, लाल कमलके समान नेत्र हैं और शरणागतके भयका नाश करनेवाला साँवला शरीर है। ॥ २ ॥

सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥

नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृदु वाता ॥

सिंहके-से कंधे हैं, विशाल वक्षःस्थल (चीड़ी छाती) अत्यन्त शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है। भगवान्के स्वरूपको देखकर विभीषणजीके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया। फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे—॥ ३ ॥

नाथ दसानन कर में भ्राता । निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥

सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥

हे नाथ ! मैं दशमुख रावणका भाई हूँ। हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षसकुलमें हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लूको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥

दो०—श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर ॥

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥

मैं कानोसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव (जन्म-मरण) के भयका नाश करनेवाले हैं। हे दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ४५ ॥

दो०—अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा ॥

दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज विसाल गहि हृदयँ लगावा ॥

प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत् करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित होकर तुरन्त उठे विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये । उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥

अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । बोले बचन भगत भयहारी ।
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ।

छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी भक्तोंके भयको हरनेवाले वचन बोले—हे लङ्केश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है ॥ २ ॥

खल मंडलीं बसहु दिनु राती । सखा धरम निबहइ केहि भाँती ।
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ।

दिन-रात दुष्टोंकी मण्डलीमें बसते हो । [ऐसी दशामें] हे सबे ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है ? मैं तुम्हारी सब रीति (आचार-व्यवहार) जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती ॥ ३ ॥

बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ।
अब पद देखि कुसल रघुराया । जौं तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ।

हे तात ! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका सङ्ग [कभी] न दे । [विभीषणजीने कहा—] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोंका दर्शन कर कुशलसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की है ॥ ४ ॥

दो०—तब लागि कुसल न जीव कहूँ सपनेहूँ मन विश्राम ।

जब लागि भजत न राम कहूँ सोक धाम तजि काम ॥४६॥

तबतक जीवकी कुशल नहीं और न स्वप्नमें भी उसके मनको शान्ति है, जबतक वह शोकके घर काम (विषय-कामना) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥

चौ०—तब लागि हृदयँ बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥

जब लागि उर न बसत रघुनाथा । धरें चाप सायक कटि भाथा ॥

लोभ, मोह, मत्सर (डाह), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें

बसते है, जवतक कि धनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥

ममता तरुन तमी अँधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥
तव लागि बसति जीव मन माहीं । जव लागि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥

ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उल्लुओंको सुख देनेवाली है । वह (ममतारूपी रात्रि) तभीतक जीवके मनमें बसती है, जवतक प्रभु (आप) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २ ॥

अव मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ॥

हे श्रीरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अव मैं कुशलसे हूँ; मेरे भारी भय मिट गये । हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवमूल (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥

मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरषि हृदयँ मोहि लावा ॥

मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ । मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया । जिनका रूप मुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया ॥४॥

दो०—अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।

देखेउँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥४७॥

हे कृपा और सुखके पुञ्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्रोंसे देखा ॥ ४७ ॥

चो०—सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंढि संभु गिरिजाऊ ॥

जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हैं । कोई मनुष्य [सम्पूर्ण] जठचेतन जगत्का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १ ॥

तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु समाना ॥

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥

और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुके समान कर देता हूँ । माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार—

सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥

समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥

इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है (सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता है), जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं है, ॥ ३ ॥

अस सज्जन मम उर बस कैसें । लोभी हृदयँ बसइ धनु जैसें ॥

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें । धरउँ देह नहिं आन निहोरें ॥

ऐसा सज्जन मेरे हृदयमें कैसे बसता है, जैसे लोभीके हृदयमें धन बसा करता है । तुम-सारीखे संत ही मुझे प्रिय हैं । मैं और किसीके निहोरेसे (कृतज्ञतावश) देह धारण नहीं करता ॥ ४ ॥

दो०—सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ नेम ।

ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥

जो सगुण (साकार) भगवान्के उपासक हैं, दूसरेके हितमें लगे रहते हैं, नीति और नियमोंमें दृढ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ ॥

दो०—सुनु लंकेस सकल गुन तोरें । तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें ॥

राम वचन सुनि बानर जूथा । सकल कहहिं जय कृपा बरूथा ॥

हे लङ्कापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो । श्रीरामजीके वचन सुनकर सब बानरोंके समूह कहने लगे—कृपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो ! ॥ १ ॥

बसते हैं, जवतक कि धनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥

ममता तरून तमी अँधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥
तव लागि बसति जीव मन माहीं । जब लागि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥

ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उल्लुओंको सुख देनेवाली है। वह (ममतारूपी रात्रि) तभीतक जीवके मनमें बसती है, जवतक प्रभु (आप) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २ ॥

अव मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ॥

हे श्रीरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं कुशलसे हूँ; मेरे भारी भय मिट गये। हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवशूल (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥

मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरषि हृदयँ मोहि लावा ॥

मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया ॥४॥

दो०—अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।

देखेउँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥४७॥

हे कृपा और सुखके पुञ्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्रोंसे देखा ॥ ४७ ॥

चौ०—सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥

जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हैं। कोई मनुष्य [सम्पूर्ण] जहचेतन जगत्का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १ ॥

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिऐँ दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६ (ख) ॥

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥

बो०—अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना । ते नर पसु विनु पूँछ विषाना ॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥

ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछके पशु हैं । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका स्वभाव वानरकुलके मनको [बहुत] भाया ॥ १ ॥

पुनि सर्वग्य सर्व उर वासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥

बोले वचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥

फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले—॥ २ ॥

सुनु कपीस लंकापति वीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥

संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लङ्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अयाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥

कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥

जद्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई ॥

विभीषणजीने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रोंको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है (उचित यह होगा) कि [पहले] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥

बो०—प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि ।

विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५ ॥

सुनत विभीषणु प्रभु कै वानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥
पद अंबुज गहि वारहिं वारा । हृदयँ समात न प्रेमु अपारा ॥

प्रभुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी अघाते नहीं हैं । वे वार-वार श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़ते हैं । अपार प्रेम है, हृदयमें समाता नहीं है ॥ २ ॥

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥

[विभीषणजीने कहा—] हे देव ! हे चराचर जगत्के स्वामी ! हे शरणागतके रक्षक ! हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना थी, वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें बह गयी ॥ ३ ॥

अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥

अब तो हे कृपालु ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये । 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल मांगा ॥ ४ ॥

जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥

[और कहा—] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत्में मेरा दर्शन अमोघ है (वह निष्फल नहीं जाता) । ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको राजतिलक कर दिया । आकाशसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ५ ॥

दो०—रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड ।

जरत विभीषणु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ४६(क) ॥

श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी (विभीषणकी) श्वास (वचन) रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जलते हुए विभीषणको बचा लिया और उसे अघण्ड राज्य दिया ॥ ४९ (क) ॥

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिँ दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६ (ख) ॥

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥

चौ०—अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना ॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥

ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछके पशु हैं । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका स्वभाव वानरकुलके मनको [बहुत] भाया ॥ १ ॥

पुनि सर्वग्य सर्व उर बासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥

बोले वचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥

फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले—॥ २ ॥

सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥

संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लङ्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह प्रत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥

रह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥

तद्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई ॥

विभीषणजीने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों मुद्रोंको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है (उचित यह होगा) कि [पहले] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि ।

विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५० ॥

हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें बड़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । तब रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥

चौ०—सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौं होइ सहाई ॥

मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, यदि दैव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥

कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥

[लक्ष्मणजीने कहा—] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये (ले आइये) और समुद्रको सुखा डालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार (तसल्ली देनेका उपाय) है । आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥

सुनत विहसि बोले रघुवीरा । ऐसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥

यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले—ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रखवो । ऐसा कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥

जवहिं विभीषन प्रभु पहिं आए । पावैं रावन दूत पठाए ॥

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये । इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ४ ॥

दो०—सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह ।

प्रभु गुन हृदयँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥ ५ ॥

कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५ ॥

चौ०—प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥

रिपु के दूत कपिन्ह तव जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिऐँ दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६ (ख) ॥

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥

चौ०—अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥

ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछके पशु हैं । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका स्वभाव वानरकुलके मनको [बहुत] भाया ॥ १ ॥

पुनि सर्वग्य सर्व उर बासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥

बोले वचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥

फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले—॥ २ ॥

सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥

संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लङ्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥

कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥

जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥

विभीषणजीने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रोंको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है (उचित यह होगा) कि [पहले] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि ।

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भाल कपि धारि ॥ ५ ॥

हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें वड़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । तब रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥

चौ०—सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौं होइ सहाई ॥

मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, यदि दैव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके बचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥

कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥

[लक्ष्मणजीने कहा—] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये (ले आइये) और समुद्रको सुखा डालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार (तसल्ली देनेका उपाय) है । आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥

सुनत विहसि बोले रघुवीरा । ऐसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥

यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले—ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रक्खो । ऐसा कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥

जवहिं विभीषन प्रभु पहिं आए । पाछें रावन दूत पठाए ॥

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश विछाकर बैठ गये । इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ४ ॥

दो०—सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह ।

प्रभु गुन हृदयँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥

कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥

चौ०—प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥

रिपु के दूत कपिन्ह तव जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥

जो संपत्ति सिव रावनहि दीन्हि दिऐँ दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६ (ख) ॥

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥

चौ०—अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना ॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥

ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछके पशु हैं । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका स्वभाव वानरकुलके मनको [बहुत] भाया ॥ १ ॥

पुनि सर्वग्य सर्व उर बासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥

बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥

फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले—॥ २ ॥

सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥

संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लङ्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥

कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥

जद्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई ॥

विभीषणजीने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रोंको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है (उचित यह होगा) कि [पहले] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि ।

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५ ॥

हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें बड़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । तब रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥

चौ०—सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौं होइ सहाई ॥

मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, यदि दैव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके बचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥

कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥

[लक्ष्मणजीने कहा—] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये (ले आइये) और समुद्रको सुखा डालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार (तसल्ली देनेका उपाय) है । आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥

सुनत विहसि बोले रघुवीरा । ऐसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥

यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले—ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रखवो । ऐसा कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥

जबहिं विभीषन प्रभु पहिं आए । पाछें रावन दूत पठाए ॥

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये । इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ४ ॥

चौ०—सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह ।

प्रभु गुन हृदयँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥

कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥

चौ०—प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥

फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई कर लगे, उन्हें दुराव (कपट-वेष) भूल गया । तब वानरोने जाना कि ये शत्रुके दूत हैं औ वे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके पास ले आये ॥ १ ॥

कह सुग्रीव सुनहु सब वानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर ।
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए । बाँधि कटक चहु पास फिराए ।

सुग्रीवने कहा—सब वानरो ! सुनो, राक्षसोंके अङ्ग-भंग करके भेज दो । सुग्रीवने बचन सुनकर वानर दीड़े । दूतोंको बाँधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २ ॥

वहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस कै आना ॥

वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे । वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरोने उन्हें नहीं छोड़ा । [तब दूतोंने पुकारकर कहा—] जो हमारे नाक-कान काटेगा, उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ॥ ३ ॥

सुनि लछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥
रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन बाचु कुलघाती ॥

यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हँसकर उन्होंने राक्षसोंको तुरंत ही छोड़ा दिया । [और उनसे कहा—] रावणके हाथमें यह चिट्ठी देना [और कहना—] हे कुलघातक ! लक्ष्मणके शब्दों (संदेश) को बाँचो ॥ ४ ॥

दो०—कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेशु उदार ।

सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥

फिर उस मूर्खसे जबानी यह मेरा उदार (कृपासे भरा हुआ) संदेश कहना कि सीताजीको देकर उनसे (श्रीरामजीसे) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [समझो]

चौ०—तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥

कहत राम जसु लंकाँ आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥

लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिये । श्रीरामजीका यश कहते हुए वे लङ्कामें आये और उन्होंने रावणके चरणोंमें सिर नवाये ॥ १ ॥

हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें बड़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । तब रोद्ध और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥

चौ०—सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौं होइ सहाई ॥

मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥

[श्रीरामजीने कहा—] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, यदि दैव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके बचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥

कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥

[लक्ष्मणजीने कहा—] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये (ले आइये) और समुद्रको सुखा डालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार (तसल्ली देनेका उपाय) है । आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥

सुनत विहसि बोले रघुवीरा । ऐसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥

यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले—ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रखो । ऐसा कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥

जबहिं विभीषण प्रभु पहिं आए । पाछें रावन दूत पठाए ॥

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुशा बिछाकर बैठ गये । इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ४ ॥

दो०—सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह ।

प्रभु गुन हृदयँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥

कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥

चौ०—प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल वाँधि कपीस पहिं आने ॥

हम रावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे । श्रीरामजीकी शपथ-दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २ ॥

पूँछिहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥
नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारी ॥

हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी, सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती । अनेकों रंगोंके भालु और वानरोंकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले, विशाल शरीरवाले और भयानक हैं ॥ ३ ॥

जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा ॥
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥

जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सब वानरोंमें थोड़ा है । असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं । उनमें असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही विशाल हैं ॥ ४ ॥

दो०—द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि ।

दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५४॥

द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटास्य, दधिमुख, केसरी, निशठ, शठ और जाम्बवान्—ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४ ॥

चौ०—ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥

रामकृपाँअतुलितबलतिन्हहीं । तृन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥

ये सब वानर बलमें सुग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [एक-दो नहीं] करोड़ों हैं; उन बहुत-सोंको गिन ही कौन सकता है ? श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अतुलनीय बल है । वे तीनों लोकोंको तृणके समान [तुच्छ] समझते हैं ॥ १ ॥

अस मैं सुना श्रवन दसकंधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥

नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीतै रन माहीं ॥

हे दशग्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेना-पति हैं । हे नाथ ! उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥ २ ॥

बिहसि दसानन पूँछी वाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥

पुनि कहु खवरि विभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥

दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी—अरे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ? फिर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है ॥ २ ॥

करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥

पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥

मूर्खने राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया । अभागा अब जोका कीड़ा (घुन) बनेगा । (जौके साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर-वानरोंके साथ वह भी मारा जायगा ।) फिर भालु और वानरोंकी सेनाका हाल कह, जो कठिन कालकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है ॥ ३ ॥

जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा ॥

कहु तपसिन्ह के वात बहोरी । जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी ॥

और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र बन गया है (अर्थात् उनके और राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते) । फिर उन तपस्वियोंकी बात बता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥ ४ ॥

दो०—की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर ।

कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥५३॥

उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ? शत्रुसेनाका तेज और बल बताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत ही चकित (भौंचक्का-सा) हो रहा है ।

चो०—नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसेँ । मानहु कहा क्रोध तजि तैसेँ ॥

मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । जातहिँ राम तिलक तेहि सारा ॥

[इतने कहा—] हे नाथ ! आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये (मेरी बातपर विश्वास कीजिये) । जब आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ १ ॥

रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥

श्रवन नासिका काँटें लागे । राम सपथ दीन्हेँ हम त्यागे ॥

रामचरितमानस

हम रावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये,
तक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे। श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने
को छोड़ा ॥ २ ॥

छिहु नाथ राम कटकई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥
माना बरन भालु कपि धारी । विकटानन बिसाल भयकारी ॥

हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी, सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन
नहीं की जा सकती। अनेकों रंगोंके भालु और वानरोंकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले,
विशाल शरीरवाले और भयानक हैं ॥ ३ ॥

जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महुँ तेहि बलु थोरा ॥
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल विपुल बिसाला ॥

जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो
वानरोंमें थोड़ा है। असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य
हाथियोंका बल है और वे बड़े ही विशाल हैं ॥ ४ ॥

दो०—द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासि ।
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५४॥

द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निशठ, जाम्बवान्—ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४ ॥

चौ०—ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को
रामकृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं । तृन समान त्रैलोकहि

ये सब वानर बलमें सुग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [एक-दो नहीं]
उन बहुत-सोंको गिन ही कौन सकता है ? श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अतुलन
वे तीनों लोकोंको तृणके समान [तुच्छ] समझते हैं ॥ १ ॥

अस मैं सुना श्रवन दसकंधर । पदुम अठारह जूथ
नाथ कटक महुँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीतै

हे दशग्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले
... उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें

परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । आयसु पै न देहिं रघुनाथा ॥

सोषहिं सिंधु सहित झष व्याला । पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥

सब-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं; पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते । हम मछलियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतोंसे उसे भरकर पूर (पाट) देंगे ॥ ३ ॥

मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ वचन कहहिं सब कीसा ॥

गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहत हहिं लंका ॥

और रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे—सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं । सब सहज ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम ।

रावन काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५ ॥

सब वानर-भालु सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामजी हैं । हे रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥

चौ०—राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥

सक सर एक सोषि सत सागर । तव भ्राताहि पूँछेउ नय नागर ॥

श्रीरामचन्द्रजीके तेज (सामर्थ्य), बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं गा सकते । वे एक ही वाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परंतु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [नीतिकी रक्षाके लिये] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १ ॥

तासु वचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥

सुनत वचन बिहसा दससीसा । जौं असि मति सहाय कृत कीसा ॥

उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर वे (श्रीरामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके मनमें कृपा भरी है [इसलिये वे उसे सोखते नहीं] । दूतके ये वचन सुनते ही रावण घुब हँसा [और बोला—] जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है ॥ २ ॥

सहज भीरु कर वचन दढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥

मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना (वालहूठ) ठाना है। अरे मूर्ख ! झूठी वड़ाई क्या करता है, बस, मैंने शत्रु (राम) के बल और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३ ॥

सचिव सभीत विभीषण जाकें । विजय विभूति कहाँ जग ताकें ॥
सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत्में विजय और विभूति (ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥
विहसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥

[और कहा—] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५ ॥

दो०—वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ।

राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस ॥५६(क)॥

[पत्रिकामें लिखा था—] अरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर। श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क) ॥

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ।

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतंगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (ख) ॥

चौ०—सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे)

परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । आयसु पै न देहिं रघुनाथा ॥
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला । पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥

सब-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं; पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते । हम मछलियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतसे उसे भरकर पूर (पाट) देंगे ॥ ३ ॥

मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ वचन कहहिं सब कीसा ॥
गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहत हहिं लंका ॥

और रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे—सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं । सब सहज ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम ।

रावन काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५ ॥

सब वानर-भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामजी हैं । हे रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥

चौ०—राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥

सक सर एक सोषि सत सागर । तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर ॥

श्रीरामचन्द्रजीके तेज (सामर्थ्य), बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं मा सकते । वे एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परंतु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [नीतिकी रक्षाके लिये] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १ ॥

तासु वचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥

सुनत वचन विहसा दससीसा । जौं असि मति सहाय कृत कीसा ॥

उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर वे (श्रीरामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके मनमें कृपा भरी है [इसलिये वे उसे सोखते नहीं] । दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब हँसा [और बोला—] जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है ॥ २ ॥

सहज भीरु कर वचन दढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥

मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना (बालहठ) ठाना है। अरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है, बस, मैंने शत्रु (राम) के बल और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३ ॥

सचिव सभीत विभीषण जाके । विजय विभूति कहाँ जग ताके ॥
सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत्में विजय और विभूति (ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥
विहसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥

[और कहा—] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५ ॥

दो०—वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ।

राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस ॥५६(क)॥

[पत्रिकामें लिखा था—] अरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर। श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क) ॥

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ।

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतिगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (ख) ॥

चौ०—सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे)

मुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा—जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वाग्विलास करता है (डींग हांकता है) ॥ १ ॥

कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥

शुक (दूत) ने कहा—हे नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [इस पत्रमें लिखी] सब बातोंको सत्य समझिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! श्रीरामजीसे वर त्याग दीजिये ॥ २ ॥

अति कोमल रघुवीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥

यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है । मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रखेंगे ॥ ३ ॥
जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥
जब तेहिं कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥

जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये । जब उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥

नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई ॥

वह भी [विभीषणकी भाँति] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपासागर श्रीरघुनाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति (मुनिका स्वरूप) पायी ॥ ५ ॥

रिषि अगास्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥
बंदि राम पद वारहिं वारा । मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके शापसे पाक्ष हो गया था । वार-वार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ ६ ॥

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना (वालहठ) ठाना है। अरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है, बस, मैंने शत्रु (राम) के बल और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३ ॥

सचिव समीत विभीषण जाकें । विजय विभूति कहाँ जग ताकें ॥
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत्में विजय और विभूति (ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥
विहसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥

[और कहा—] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५ ॥

दो०—वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ।

राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस ॥५६(क)॥

[पत्रिकामें लिखा था—] अरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर। श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क) ॥

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ।

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतंगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (ख) ॥

चौ०—सुनत सभय मन मुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे)

मुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा—जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे भाकाभाको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वाग्विलास करता है (डींग हाँकता है) ॥ १ ॥

रुह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥
पुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥

शुक (दूत) ने कहा—हे नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [इस पत्रमें लेखी] सब बातोंको सत्य समझिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ॥ २ ॥

प्रति कोमल रघुवीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राज ॥
मेलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥

यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है । मेलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रखेंगे ॥ ३ ॥

जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥
जब तेहिं कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥

जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये । जब उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥

नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई ॥

वह भी [विभीषणकी भाँति] चरणोंमें सिर तवाकर वहीं चला, जहाँ कृपासागर श्रीरघुनाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति (मुनिका स्वरूप) पायी ॥ ५ ॥

रेषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥
बंदि राम पद वारहिं वारा । मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके भापसे राक्षस हो गया था । वार-वार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ ६ ॥

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना (बालहठ) ठाना है। अरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है, बस, मैंने शत्रु (राम) के बल और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३ ॥

सचिव सभीत विभीषण जाकें । विजय विभूति कहाँ जग ताकें ॥

मुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत्में विजय और विभूति (ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥

बिहसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥

[और कहा—] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५ ॥

दो०—वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ।

राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस ॥५६(क)॥

[पत्रिकामें लिखा था—] अरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर। श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क) ॥

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ।

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतिगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (ख) ॥

चौ०—सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे)

भुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा—जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वाग्विलास करता है. (डोंग हाँकता है) ॥ १ ॥

कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥

सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥

शुक (दूत) ने कहा—हे नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [इस पत्रमें लिखी] सब बातोंको सत्य समझिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! श्रीरामजीसे वर त्याग दीजिये ॥ २ ॥

अति कोमल रघुवीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥

यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है । मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रखेंगे ॥ ३ ॥

जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥

जब तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥

जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये । जब उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥

नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥

करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई ॥

वह भी [विभीषणकी भक्ति] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपासागर श्रीरघुनाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति (मुनिका स्वरूप) पायी ॥ ५ ॥

रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥

बंदि राम पद वारहिं वारा । मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था । बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ ६ ॥

दो०—बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति ।

बोले राम सकोप तब भय विनु होइ न प्रीति ॥५७॥

इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड़ समुद्र बिनय नहीं मानता । तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले—बिना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ ॥

चौ०—लछिमन बान सरासन आनू । सोषों बारिधि बिसिख कृसानू ॥

सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥

हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाओ । मैं अग्निबाणसे समुद्रको सोख डालूँ । मूर्खसे बिनय, कुटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १ ॥

ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥

ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम (शान्ति) की बात और कामीसे भगवान्की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात् ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है) ॥ २ ॥

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥

संधानेउ प्रभु बिसिख करात्ता । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा । प्रभुने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥

मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥

कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तजि माना ॥

मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जब समुद्रने जीवोंको जलते जाना तब सोनेके थालमें अनेक मणियों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मणके रूपमें आया ॥ ४ ॥

दो०—काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच ।

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नव नीच ॥५८॥

[काकमुमुक्षुडिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है। नीच विनयसे नहीं मानता, वह डाँटने-पर ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥

चौ०—सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमहुःनाथ सब अवगुन मेरे ॥

गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण (दोष) क्षमा कीजिये। हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड़ है ॥ १ ॥

तव प्रेरित मायाँ उपजाए । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने यही गाया है। जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥

ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी। किंतु मर्यादा (जीवोंका स्वभाव) भी आपकी ही बनायी हुई है। ढोल, गँवार, सूद्र, पशु और स्त्री—ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥

प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी)। तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात् आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥

दो०—सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ ।

जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥

समुद्रके अत्यन्त विनीत बचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा—

दो०—विनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति ।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥

इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले—बिना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ ॥

चौ०—लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू ।

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ।

हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाओ । मैं अग्निबाणसे समुद्रको सोख डालूँ । मूखसे विनय कुटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १ ॥

ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ।

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बाँँ फल जथा ।

ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम (शान्ति) की बात और कामीसे भगवान्की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात् ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है) ॥ २ ॥

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा ।

संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ।

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा । प्रभुने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥

मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु ज

कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप

मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जाना तब सोनेके थालमें अनेक मणियों (रत्नों) को भर ब्राह्मणके रूपमें आया ॥ ४ ॥

दो०—काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन

विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ

[काकमुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है । नीच विनयसे नहीं मानता, वह डाँटने-पर ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥

चौ०—सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥

भगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण (दोष) क्षमा कीजिये । हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड़ है ॥ १ ॥

तव प्रेरित मायाँ उपजाए । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने यही गाया है । जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥

डोल गवाँर सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी । किंतु मर्यादा (जीवोंका स्वभाव) भी आपकी ही बनायी हुई है । डोल, गँवार, भूद, पशु और स्त्री—ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥

प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी) । तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात् आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं । अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥

दो०—सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुसुकाइ ।

जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५६॥

समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा—

दो०—विनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति ।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥

इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामज
क्रोधसहित बोले—विना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ ॥

चौ०—लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू ।

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ।

हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाओ । मैं अग्निबाणसे समुद्रको सोख डालूँ । मूखसे विनय
कुटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १ ॥

ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ।

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ।

ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधी
शम (शान्ति) की बात और कामीसे भगवान्की कथा, इनका वैसा ही फल होता
जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात् ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ
जाता है) ॥ २ ॥

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा ।

संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ।

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत
अच्छा लगा । प्रभुने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अंदर
अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥

मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने

कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तजि माना ।

मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जब समुद्रने जीवोंको जल
जाना तब सोनेके थालमें अनेक मणियों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर
ब्राह्मणके रूपमें आया ॥ ४ ॥

दो०—काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच ।

विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नव नीच ॥५८॥

[काकमुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है। नीच विनयसे नहीं मानता, वह डीटने-पर ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥

श्री०—सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहुःनाथ सब अवगुन मेरे ॥

गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण (दोष) क्षमा कीजिये। हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड़ है ॥ १ ॥

तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने यही गाया है। जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥

द्वौल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी। किंतु मर्यादा (जीवोंका स्वभाव) भी आपकी ही बनायी हुई है। डोल, गँवार, सूद्र, पशु और स्त्री—ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोवि वड़ाई ॥

प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करौं सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥


प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी)। तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात् आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥

श्री०—सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ।

जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥

समुद्रके अत्यन्त विनीत बचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा—

शरणागतवत्सलता



दुरत बिभीषन पाछें मेला ।

सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥

श्रीगणेशाय नमः
श्रीजानकीवल्लभो विजयते

श्रीरामचरितमानस

षष्ठ सोपान

लंकाकाण्ड

श्लोक

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् ।
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥१॥

कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव (जन्म-मृत्यु) के भयको हरनेवाले, कालरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहके समान, योगियोंके स्वामी (योगीश्वर), ज्ञानके द्वारा जानने योग्य, गुणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, मायासे परे, देवताओंके स्वामी, दुष्टोंके वधमें तत्पर, ब्राह्मणवृन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), जलवाले मेघके समान सुन्दर श्याम, कमलके-से नेत्रवाले पृथ्वीपति (राजा) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं

शार्दूलचर्माश्र्वरं

कालव्यालकरालभूषणधरं

गङ्गाशशाङ्कप्रियम् ।

काशीशं कलिकल्मषौघशामनं

कल्याणकल्पद्रुमं

नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥२॥

शङ्ख और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, व्याघ्रचर्मके यस्त्रवाले, कालके समान [अथवा काले रंगके] भयानक सर्पोंका भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा

वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले—

परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥
करिहउँ इहाँ संभु थापना । मोरे हृदयँ परम कल्पना ॥

यह (यहाँकी) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयमें यह महान् संकल्प है ॥२॥

मुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल बोलि लै आए ॥
लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥

श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले आये। शिवलिङ्गकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया [फिर भगवान् बोले—] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥

सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥

जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नमें भी मुझे नहीं पाता। शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है ॥ ४ ॥

दो०—संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास ।

ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक महुँ बास ॥२॥

जिनको शंकरजी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और मेरे दास [वनना चाहते] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास-करते हैं ॥ २ ॥

दो०—जे रामेश्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजिमम लोक सिधरिहहिं ॥

जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥

जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हुए इन] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायँगे और जो गङ्गाजल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा (अर्थात् मेरे साथ एक हो जायगा) ॥ १ ॥

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥

मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु श्रम भवसागर तरिही ॥

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेगे, उन्हें शंकरजी मेरी भक्ति देगे और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥

राम वचन सब के जिय भाए । मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥

गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥

श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे । तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आश्रमोंको लौट आये । [शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! श्रीरघुनाथजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

बाँधा सेतु नील नल नागर । राम कृपाँ जसु भयउ उजागर ॥

बूड़हिं आनहि वोरहिं जेई । भए उपल वोहित सम तेई ॥

चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा । श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [उज्ज्वल] यश सबत्र फैल गया । जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको डुबा देते हैं, वे ही जहाजके समान [स्वयं तरनेवाले और दूसरोंको पार ले जानेवाले] हो गये ॥ ४ ॥

महिमा यह न जलधि कइ बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी ॥

यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और न वानरोंकी ही कोई करामात है ॥ ५ ॥

दो०—श्रीरघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान ।

ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥३॥

श्रीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये । ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं, वे [निश्चय ही] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥

चौ०—बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥

चली सेन कछु वरनि न जाई । गर्जहिं मर्कट भट समुदाई ॥

नल-नीलने सेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान

वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले—

परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥
करिहउँ इहाँ संभु थापना । मोरे हृदयँ परम कल्पना ॥

यह (यहाँकी) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयमें यह महान् संकल्प है ॥२॥

सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल बोलि लै आए ॥
लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥

श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले आये। शिवलिङ्गकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया [फिर भगवान् बोले—] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥

सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥

जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नमें भी मुझे नहीं पाता। शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है ॥ ४ ॥

दो०—संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास ।

ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक महुँ बास ॥२॥

जिनको शंकरजी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और मेरे दास [वनना चाहते] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास-करते हैं ॥ २ ॥

चौ०—जे रामेश्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजिमम लोक सिधरिहहिं ॥

जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥

जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हुए इन] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायँगे और जो गङ्गाजल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा (अर्थात् मेरे साथ एक हो जायगा) ॥ १ ॥

हंसते
तियोंकी

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मेरे तेहि जग कहि ।
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु अन्तर्यामि नहि ।

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरघुवीरकी सेवा करे, उसे मम
मेरी भक्ति दोगे और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह विना ही गति प्राप्त
समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥

रिन्हा ॥
हुँ धाए ॥
जाकर सुन्दर

राम वचन सब के जिय भाए । मुनिवर निज निज प्रसाए ।

गिरिजा रघुपति केँ यह रीती । संतन कहिँ प्रसू रीती । गति त्यागी ॥

श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे करे । संतानोंके प्रसू होनेसे
आश्रमोंको लौट आये । [गिरिजा कहते हैं—] हे पर्वत! गिरिजाकी गतिको छोड़कर
कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

बाँधा सेतु नील नल नागर । राघवसेन प्रसाए ।

वूड़हिँ आनहि वोरहिँ जेई । बहु नाच नचावहिँ ॥

चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा । श्रीरघुवीरके प्रतापसे
सबत्र फल गया । जो पत्थर आन दूधते हैं । ह तो सब उसे घेरकर खूब नाच
समान [स्वयं तरनेवाले और दूसरोंको घेरकर] सुयश कहकर [अथवा कहला-

महिमा यह न जलायि कह वरुण ।

यह न तो समुद्रकी महिमा बर्णन करे । कही :
ही कोई करामात है ॥ ५ ॥

दो०—श्रीरघुवीर प्रणा

ते मतिमंद जे

श्रीरघुवीरके प्रतापसे

किसी दूसरे स्वामीको जाकर

चौ०—बाँधि सेतु अति

चली सेन कहुँ

नल-नीलने सेतु

वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले—
**परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ।
 करिहउँ इहाँ संभु थापना । मोरे हृदयँ परम कल्पना ।**

यह (यहाँकी) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयमें यह महान् संकल्प है ॥२॥
**सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल बोलि लै आए ॥
 लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥**

श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले आये। शिवलिङ्गकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया [फिर भगवान् बोले—] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥

**सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
 संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥**

जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नमें भी मुझे नहीं पाता। शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है ॥ ४ ॥

दो०—**संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास ।**

ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक महुँ बास ॥२॥

जिनको शंकरजी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और मेरे दास [वनना चाहते] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास-करते हैं ॥ २ ॥

चौ०—**जे रामेश्वर दरसन करिहहिं । ते तनु तजिमम लोक सिधरिहहिं ॥**

जो गंगाजलु आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥

जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हुए इन] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायँगे और जो गङ्गाजल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा (अर्थात् मेरे साथ एक हो जायगा) ॥ १ ॥

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु श्रम भवसागर तरिही ॥

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शंकरजी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥

राम वचन सब के जिय भाए । मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥
गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥

श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे । तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आश्रमोंको लौट आये । [शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! श्रीरघुनायजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

बाँधा सेतु नील नल नागर । राम कृपाँ जसु भयउ उजागर ॥
वूड़हिं आनहि बोरहिं जेई । भए उपल वोहित सम तेई ॥

चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा । श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [उज्ज्वल] यश सर्वत्र फैल गया । जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको डुबा देते हैं, वे ही जहाजके समान [स्वयं तैरनेवाले और दूसरोंको पार ले जानेवाले] हो गये ॥ ४ ॥

महिमा यह न जलधि कइ वरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी ॥

यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और न वानरोंकी ही कोई करामात है ॥ ५ ॥

दो०—श्रीरघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान ।

ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥३॥

श्रीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये । ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं, वे [निश्चय ही] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥

चौ०—बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥

चली सेन कछु वरनि न जाई । गर्जहिं मर्कट भट समुदाई ॥

नल-नीलने सेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान

श्रीरामजीके मनको [बहुत ही] अच्छा लगा । सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो
सकता । योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १ ॥

सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥

देखन कहूँ प्रभु कहना कंदा । प्रगट भए सब जलचर वृंदा ॥

कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुबंधके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे ।
कल्पाकन्द (कल्पाके मूल) प्रभुके दर्शनके लिये सब जलचरोंके समूह प्रकट हो गये (जलके
ऊपर निकल आये) ॥ २ ॥

मकर नक्र नाना झष व्याला । सत जोजन तन परम विसाला ॥

अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह केँ डर तेपि डेराहीं ॥

बहुत तरहके मगर, नाक (घड़ियाल), मच्छ और सर्प ये—जिनके सौ-सौ योजनके
बहुत बड़े विशाल शरीर थे, कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा जायें । किसी-किसीके
डरते तो वे भी डर रहे थे ॥ ३ ॥

प्रभुहि विलोकहिं टरहिं न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥

तिन्ह कीं ओट न देखिअ वारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥

वे सब [वैर-विरोध भूलकर] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हठानेसे भी नहीं हटते । सबके
मन हर्षित हैं; सब चुकी हो गये । उनकी आड़के कारण जल नहीं दिखायी पड़ता । वे
सब भगवान्का रूप देखकर [मानन्द और प्रेममें] मग्न हो गये ॥ ४ ॥

चला कटकु प्रभु आयसु पाई । कौ कहि सक कपि दल विपुलाई ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेनाकी विपुलता (अत्यधिक
उंब्या) को कौन कह सकता है ? ॥ ५ ॥

बो०—सेतुबंध भइ भीर अति कपि नम पंथ उड़ाहिं ।

अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहिं ॥ ४ ॥

सेतुबंधपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे और दूसरे
[कितने ही] मत्तवर जीवोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥ ४ ॥

बो०—अस कौतुक विलोकि झौ भाई । विहँसि चले कृपाल रघुराई ॥

सेन सहित उतरे रघुवीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥

कृपालु श्रीरघुनाथजी [तदा लक्ष्मणवत्] दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हँसते हुए चले । श्रीरघुवीर सेनासहित मनुष्यों के नर हो गये । वानरों और उनके सेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥

सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा ॥
खाहु जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जहँ तहँ धाए ॥

प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ । यह सुनते ही रोद्ध-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ॥ २ ॥

सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥
खाहिं मधुर फल विटप हलावहिं । लंका सन्मुख सिखर चलावहिं ॥

श्रीरामजीके हित (सेवा) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुरितु—समयकी गतिको छोड़कर फल उठे । वानर-भालू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षोंको हिला रहे हैं और पर्वतोंके शिखरोंको लट्काकी ओर फँक रहे हैं ॥ ३ ॥

जहँ कहूँ फिरत निसाचर पावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहिं तत्र जाना ॥

घूमते-फिरते जहाँ-कहाँ किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दाँतोंसे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयश कहकर [अथवा कहलाकर] तब उसे जाने देते हैं ॥ ४ ॥

जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब वाता ॥
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना । दस मुख बोलि उठा अकुलाना ॥

जिन राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सब समाचार कहा । समुद्र [पर सेतु] का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा—

दो०—वाँध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस ।

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥५॥

वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि,

नदीशको क्या सचमुच ही बाँध लिया ? ॥ ५ ॥

०-निज बिकलता बिचारि बहोरी । विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो । कौतुकीं पाथोधि बँधायो ॥

फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ऊपरसे] हँसता हुआ, भयको भुलाकर
रावण महलको गया । [जब] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँधवा लिया है, ॥ १ ॥

कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥

[तब] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी
बोली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचल पसारा और कहा—हे प्रियतम !
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥

नाथ वयरु कीजे ताही सौं । बुधि बल सकिअ जीति जाही सौं
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा

हे नाथ ! वर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलके द्वारा जीत सं-
आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगनू और सूर्यमें ! ॥

अतिबल मधु कैटभ जेहिं मारे । महाबीर दितिसुत संघां
जेहिं बलि बाँधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेउ हरनमहि भा

जिन्होंने [विष्णुरूपसे] अत्यन्त बलवान् मधु और कैटभ [दैत्य] मां-
[वाराह और नृसिंहरूपसे] महान् शूरवीर दितिके पुत्रों (हिरण्याक्ष और हिरण्यक-
का संहार किया; जिन्होंने [वामनरूपसे] बलिको बाँधा और [परशुराम
सहस्रबाहुको मारा, वे ही [भगवान्] पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये [राम
अवतीर्ण (प्रकट) हुए हैं ! ॥ ४ ॥

तासु विरोध न कीजिअ नाथा । काल करम जिव जाकें ह
हे नाथ ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काल, कर्म और जीव सब

दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ ।
सुत कहँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६

[श्रीरामजीके] चरणकमलोंमें सिर नवाकर (उनकी शरणमें जाकर) उनका

सौंप दीजिये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये ।

चौ०—नाथ दीनदयाल रघुराई । वाघउसनमुख गएँ न खाई ॥

चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥

हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं । सम्मुख (शरण) जानेपर तो वाघ भी नहीं खाता । आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके । आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर सभीको जीत लिया ॥ १ ॥

संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥

तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥

हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन (बुढ़ापे) में राजाको वनमें चला जाना चाहिये । हे स्वामी ! वहाँ (वनमें) आप उनका भजन कीजिये जो सृष्टिके रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं ॥ २ ॥

सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥

मुनिवर जतनु करहिं जेहि लागी । भूप राजु तजि होहिं विरागी ॥

हे नाथ ! आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम करनेवाले भगवान्का भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं—॥ ३ ॥

सोइ कोसलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाय्या ॥

जौं पिय मानहु मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥

वही कोशलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं । हे प्रियतम ! यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकोंमें फैल जायगा ।

दो०—अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात ।

नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७ ॥

ऐसा कहकर, नेत्रोंमें [करुणाका] जल भरकर और पतिके चरण पकड़कर कंपते हुए शरीरसे मन्दोदरीने कहा—हे नाथ ! श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७ ॥

ची०—तव रावन मयसुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥

सुनु तैं प्रिया वृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥

तव रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा—
हे प्रिये ! सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रक्खा है। बता तो जगत्में मेरे समान योद्धा है कौन ?

वरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥

देव दनुज नर सब बस मोरें । कवन हेतु उपजा भय तोरें ॥

वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोंको तथा कालको भी मैंने अपनी
भुजाओंके बलसे जीत रक्खा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वशमें हैं। फिर
तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया ? ॥ २ ॥

नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई । सभाँ बहोरि बैठ सो जाई ॥

मन्दोदरीं हृदयँ अस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥

मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [किंतु रावणने उसकी एक भी बात
न सुनी] और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान लिया कि
कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है ॥ ३ ॥

सभाँ आइ मंत्रिन्ह तेहिं वूझा । करव कवन विधि रिपु सैं जूझा ॥

कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु पूछहु काहा ॥

सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ?
मन्त्री कहने लगे—हे राक्षसोंके नाथ ! हे प्रभु ! सुनिये, आप बार-बार क्या पूछते हैं ? ॥४॥

कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥

कहिये तो [ऐसा] कौन-सा बड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय ? (भयकी बात
ही क्या है ?) मनुष्य और वानर-भालू तो हमारे भोजन [की सामग्री] हैं ॥ ५ ॥

दो०—सब के वचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि ।

नीति विरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८ ॥

कानोंसे सबके वचन सुनकर [रावणका पुत्र] प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा—हे प्रभु !
नीतिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥ ८ ॥

चो०—कहहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव गहि भानी ॥

वारिधि नाधि एक कपि आवा । तासु चरिन मन महँ सवु गावा ॥

ये सभी मूर्ख (खुशामदी) मन्त्री ठकुरसुहाती (मुंहदेवी) कह रहे हैं । हे नाथ ! इस प्रकारकी बातोंसे पूरा नहीं पड़ेगा । एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था । उसका चरित्र सब लोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं (स्मरण किया करते हैं) ॥ १ ॥

छुधा न रही तुम्हहि तव काहू । जारत नगरु कस न धरि खाहू ॥

सुनत नीक आगें दुख पावा । सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा ॥

उस समय तुम लोगोंमेंसे किसीको भूख न थी ? [बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया ? इन मन्त्रियोंने स्वामी (आप) को ऐसी सम्मति सुनायी है, जो सुननेमें अच्छी है; पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा ॥ २ ॥

जेहिं वारीस वँधायउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥

सो भनु मनुज खाव हम भाई । वचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥

जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र वँधा लिया और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर आ उतरा । हे भाई ! कहो, वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम जा लेंगे ? सब गाल फुला-फुलाकर (पागलोंकी तरह) वचन कह रहे हैं ! ॥ ३ ॥

तात वचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥

प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं । ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥

हे तात ! मेरे वचनोंको बहुत आदरसे (बड़े गौरसे) सुनिये । मुझे मनमें कायर न समझ लीजियेगा । जगत्में ऐसे मनुष्य झुंड-के-झुंड (बहुत अधिक) हैं, जो प्यारी (मुंहपर मीठी लगनेवाली) बात ही सुनते और कहते हैं, ॥ ४ ॥

वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥

प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीनी ॥

हे प्रभो ! सुननेमें कठोर परंतु [परिणाममें] परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं । नीति सुनिये, [उसके अनुगार] पन्ने

दूत भेजिये और [फिर] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति (मेल) कर लीजिये ॥ ५ ॥

दो०—नारि पाइ फिरि जाहिं जौं तौ न बढ़ाइअ रारि ।

नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥६॥

यदि वे स्त्री पाकर लौट जायँ, तब तो [व्यर्थ] झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो (यदि न फिरें तो) हे तात ! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपूर्वक (डटकर) मारकाट कीजिये ॥६॥

चौ०—यह मत जौं मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥

सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई ॥

हे प्रभो ! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगत्में दोनों ही प्रकारसे आपका सुयश होगा । रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्रसे कहा—अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी ? ॥ १ ॥

अवहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयहु घमोई ॥

सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥

अभीसे हृदयमें सन्देह (भय) हो रहा है ? हे पुत्र ! तू तो बाँसकी जड़में घमोई हुआ (तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ) । पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चला गया ॥ २ ॥

हित मत तोहि न लागत कैसें । काल बिबस कहूँ भेषज जैसें ॥

संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥

हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती (आपपर कैसे असर नहीं करती), जैसे मृत्युके वश हुए [रोगी] को दवा नहीं लगती । सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओंको देखता हुआ महलको चला ॥ ३ ॥

लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥

बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन । लागे किन्नर गुन गन गावन ॥

लङ्काकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता था । रावण उस महलमें जाकर बैठ गया । किन्नर उसके गुणसमूहोंको गाने लगे ॥ ४ ॥

बाजहिँ ताल पखाउज वीना । नृत्य करहिँ अपछरा प्रवीना ॥

ताल (करताल), पखावज (मृदंग) और वीणा बज रहे हैं । नृत्यमें प्रवीण अप्साराएँ नाच रही हैं ॥ ५ ॥

दो०—सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ विलास ।

परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १० ॥

वह निरन्तर सैकड़ों इन्द्रोंके समान भोग-विलास करता रहता है । यद्यपि [श्रीरामजी-सरीखा] अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है ॥ १० ॥

चौ०—इहाँ सुबेल सैल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥

सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र विसेपी ॥

यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ (बड़े समूह) के साथ उतरे । पर्वतका एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर देखकर— ॥ १ ॥

तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला । तेहिँ आसन आसीन कृपाला ॥

वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोंसे सजाकर बिछा दिये । उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला बिछा दी । उसी आसनपर कृपालु श्रीरामजी विराजमान थे ॥ २ ॥

प्रभु कृत सीस कपीस उछंग्गा । वाम दाहिन दिसि चाप निपंग्गा ॥

दुहुँ कर कमल सुधारत वाना । कह लंकेस मंत्र लागि काना ॥

प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रखे हैं । उनकी बायीं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [रखवा] है । वे अपने दोनों कर-कमलोंसे बाण सुधार रहे हैं । विभीषणजी कानोंसे लगकर सलाह कर रहे हैं ॥ ३ ॥

बड़भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत विधि नाना ॥

प्रभु पाछें लछिमन वीरासन । कटि निषंग कर वान सरासन ॥

परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान् अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोंकी दबा

हैं । लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और हाथोंमें धनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे सुशोभित हैं ॥ ४ ॥

दो०—एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन ।

धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥

इस प्रकार कृपा, रूप (सौन्दर्य) और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं ।

वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैं ॥ ११ (क) ॥

पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक ।

कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥११(ख)॥

पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा । तब वे

सबसे कहने लगे—चन्द्रमाको तो देखो, कैसा सिंहके समान निडर है ! ॥ ११ (ख) ॥

चौ०—पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥

मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥

पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और बलकी राशि

यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकार रूपी मत्तवाले हाथीके मत्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी

वनमें निर्भय विचर रहा है ॥ १ ॥

विधुरे नम सुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥

कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥

आकाशमें बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर स्त्रीके शृङ्गार

हैं । प्रभुने कहा—भाइयो ! चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धिके

बनुतार कहो ॥ २ ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महुँ प्रगट भूमि कै झाँई ॥

मारेउ राहु ससिहि कह कोई । उर महुँ परी स्यामता सोई ॥

सुग्रीवने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया दिखायी दे रही

है । किसीने कहा—चन्द्रमाको राहुने मारा था । वही [चोटका] काला दाग हृदयपर पड़ा

हुआ है ॥ ३ ॥

कोउ कह जब विधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥

छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं । तेहि भग देखिअ नभ परिछाहीं ॥

कोई कहता है—जब ब्रह्माने [कामदेवकी स्त्री] रतिका मुख बनाया; तब उसने चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया; परंतु चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया] । वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है, जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है ॥ ४ ॥

प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह वसेरा ॥

विष संजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवंत नर नारी ॥

प्रभु श्रीरामजीने कहा—विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है । इसीसे उसने विषको अपने हृदयमें स्थान दे रक्खा है । विषयुक्त अपने किरणसमूहको फेंकाकर वह वियोगी नर-नारियोंको जलाता रहता है ॥ ५ ॥

वो०—कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास ।

तव मूरति विधु उर बसति सोइ श्यामता अभास ॥१२(क)॥

हनुमान्जीने कहा—हे प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है । आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृदयमें बसती है, वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है ॥ १२ (क) ॥

नवाह्नपारायण, सातवाँ विश्राम

पवन तनय के बचन सुनि विहँसे रामु सुजान ।

दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥१२(ख)॥

पवनपुत्र हनुमान्जीके बचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हँसे । फिर दक्षिणकी ओर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले—॥ १२ (ख) ॥

वो०—देखु विभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी विलासा ॥

मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ वृष्टिजनि उपल कठोरा ॥

हे विभीषण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, वादल कंसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है ! भयानक वादल मीठे-मीठे (हल्ले-हल्लके) स्वरसे गरज रहा है । कहीं कठोर ओलोंकी वर्षा न हो ॥ १ ॥

यद्यपि वादल अमृत-सा जल वरसाते हैं, तो भी वेत फूलता-फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्खके हृदयमें चेत (ज्ञान) नहीं होता ॥ १६ (ख) ॥

श्री०—इहाँ प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥
कहहु वेगि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद सिरु नाई ॥

यहाँ (सुबेल पर्वतपर) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब मन्त्रियों-को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये, अब क्या उपाय करना चाहिये ? जाम्बवान्ने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर कहा—॥ १ ॥

सुनु सर्वग्य सकल उर वासी । बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥
मंत्र कहउँ निज मति अनुसार । दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥

हे सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाले) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाले (अन्तर्यामी) ! हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणोंकी राशि ! सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर भेजा जाय ॥ २ ॥

नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह कृपानिधाना ॥
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥

यह अच्छी सलाह सबके मनमें जँच गयी । कृपाके निधान श्रीरामजीने अंगदसे कहा—हे बल, बुद्धि और गुणोंके धाम बालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लड्का जाओ ॥ ३ ॥

बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहउँ । परम चतुर मैं जानत अहउँ ॥
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥

तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ, तुम परम चतुर हो । शत्रुसे वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥

श्री०—प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ ।

सोई गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७ (क) ॥

प्रभुकी आज्ञा सिर चढ़ाकर श्रीर उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे

[और बोले—] हे भगवान् श्रीगमत्री ! बाप विष्णु का बेटा मैं ही मुझे जानता है ॥ १७ (क) ॥

स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मेहे चहुँ सिद्ध :

अस विचारि जुवराज तन पुलकिह हरिके सिद्ध : १७ (ख) :

स्वामीके सब कार्य करने-आप सिद्ध है । मैं ही मुझे जानता है ।

[जो मुझे करने का-पर भेज रहे हैं] । ऐसा विचारकर जुवराज काज सिद्ध होकर शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ (ख) ॥

चौ०—वंदि चरन उर धरि प्रभुताई ।

प्रभु प्रताप उर सहज असंका ।

चरणोंकी वन्दना करके और भगवान् के प्रभु प्रतापको सहज ही निभय है ॥ १८ ॥

पुर पैठत रावन हर बेटा ।

वातहि वान करष बहि आई ।

लङ्काने प्रवेग करते हो रावणके पुत्रों-ही वातानि दोनोंमें शरणा रह गया । फिर दोनोंकी दुवावस्था थी ॥ १९ ॥

तेहि अंगद कहूँ लात उठाई ।

निसिचर निकर देखि अर भारी ।

उसने अंगदपर लात उठायी । अंगदके दे पटका (मार-गिरया) । रावणके समूह के डरके मारे पुकार भी न था गये ॥ २० ॥

एक एक सन मरहुँ न रुहहीं ।

भयउ कोलाइल नरु संहारी ।

एक इन्तरेकी मर्ने (मरि पाव) समसकर सब डर मारकर मर गये है ।

मारे भागते देखकर] नगरभरमें कोलाहल मच गया कि जिसने लङ्का जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है ॥ ४ ॥

अब धौं कहा करिहि करतारा । अति सभीत सब करहिं विचारा ॥

बिनु पूछें मगु देहिं दिखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥

सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा । वे बिना पूछे ही अंगदको [रावणके दरवारकी] राह बता देते हैं । जिसे ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥

दो०—गयउ सभा दरवार तव सुमिरि राम पद कंज ।

सिंह ठवनि इत उत चितव धीर वीर बल पुंज ॥१८॥

श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये और वे धीर, वीर और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड (शान) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८ ॥

चौ०—तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥

सुनत बिहँसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥

तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित किया । सुनते ही रावण हँसकर बोला—बुला लाओ, [देखें] कहाँका बंदर है ॥ १ ॥

आयसु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुंजरहि बोलि लै आए ॥

अंगद दीख दसानन बैसैं । सहित प्रान कज्जलगिरि जैसें ॥

आजा पाकर बहुत-से दूत दौड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदको बुला लाये । अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका पहाड़ हो ! ॥ २ ॥

भुजा त्रिप सिर सुंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥

भुजाएँ वृक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं । रोमावली मानो बहुत-सी लताएँ हैं । मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बराबर हैं ॥ ३ ॥

गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा । वालितनय अतिबल बाँकुरा ॥

उठे सभासद कपि कहँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥

अत्यन्त बलवान् बाँके वीर बालिपुत्र भ्रंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं क्षिप्तके । अंगदको देखते ही सब सभासद् उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥

दो०—जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ ।

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥१६॥

जैसे मतवाले हाथियोंके झुंडमें सिंह [निःशंक होकर] चला जाता है, वैसे ही श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निर्मय] सभामें सिर नवाकर बैठ गये ॥१६॥

चौ०—कह दसकंठ कवन तैं बंदर।मैं रघुवीर दूत दसकंधर ॥

मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥

रावणने कहा—अरे बंदर ! तू कौन है ? [अंगदने कहा—] हे दशप्रोव ! मैं श्रीरघुवीरका दूत हूँ । मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी । इसलिये हे भाई ! मैं तुम्हारी भलाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ ॥

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव विरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥

वर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥

तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौत्र हो । शिवजीकी और ब्रह्माजीकी तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है । उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥ २ ॥

नृप अभिमान मोह बस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥

अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥

राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीकी हर लाये हो । अब तुम मेरे शुभ वचन (मेरी हितभरी सलाह) सुनो । [उसके अनुसार चलनेसे] प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ३ ॥

दसन गहहु वृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥

सादर जनकसुता करि आगें । एहि विधि चलहु सकल भय त्यागें ॥

दांतोंमें तिनका दबाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुटुम्बियोंसहित अपनी

मारे भागते देखकर] नगरभरमें कोलाहल मच गया कि जिसने लङ्का जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है ॥ ४ ॥

अब धौं कहा करिहि करतारा । अति समीत सब करहिं विचारा ॥

विनु पूछें मगु देहिं दिखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥

सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा । वे विना पूछे ही अंगदको [रावणके दरबारकी] राह बता देते हैं । जिसे ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥

दो०—गयउ सभा दरवार तब सुमिरि राम पद कंज ।

सिंह ठवनि इत उत चितव धीर वीर बल पुंज ॥१८॥

श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये और वे धीर, वीर और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड (शान) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८ ॥

चौ०—तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥

सुनत बिहँसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥

तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित किया । सुनते ही रावण हँसकर बोला—बुला लाओ, [देखें] कहाँका बंदर है ॥ १ ॥

आयसु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुंजरहि बोलि लै आए ॥

अंगद दीख दसानन बैसैं । सहित प्रान कज्जलगिरि जैसैं ॥

आज्ञा पाकर बहुत-से दूत दौड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदको बुला लाये । अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका पहाड़ हो ! ॥ २ ॥

भुजा विटप सिर संग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥

भुजाएँ वृक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं । रोमावली मानो बहुत-सी लताएँ हैं । मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बराबर हैं ॥ ३ ॥

गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा । बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥

उठे सभासद कपि कहँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥

अत्यन्त बलवान् बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं क्षिप्तके । अंगदको देखते ही सब सभासद् उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥

दो०—जथा मत्त गज जूथ महँ पंचानन चलि जाइ ।

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभौं सिरु नाइ ॥१६॥

जैसे मतवाले हाथियोंके झुंडमें सिंह [निःशंक होकर] चला जाता है, वैसे ही श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निर्भय] सभामें सिर तवाकर बैठ गये ॥१६॥

चौ०—कह दसकंठ कवन तैं वंदर। मैं रघुवीर दूत दसकंधर ॥

मम जनकहि तोहि रही मितार्ई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥

रावणने कहा—अरे वंदर ! तू कौन है ? [अंगदने कहा—] हे दशग्रीव ! मैं श्रीरघुवीरका दूत हूँ । मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी । इसलिये हे भाई ! मैं तुम्हारी भलाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ ॥

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव विरंचि पूजेहु बहु भौंती ॥

वर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥

तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौत्र हो । शिवजीकी और ब्रह्माजीकी तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है । उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥ २ ॥

नृप अभिमान मोह वस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥

अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥

राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीको हर लाये हो । अब तुम मेरे शुभ वचन (मेरी हितभरी सलाह) सुनो । [उसके अनुसार चलनेसे] प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ३ ॥

दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥

सादर जनकसुता करि आगें । एहि विधि चलहु सकल भय त्यागें ॥

दांतोंमें तिनका दबाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुट्टिमियोंसहित अपनी

स्त्रियोंको साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो ॥ ४ ॥

दो०—प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि ।

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो तोहि ॥२०॥

और 'हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' । [इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो ।] आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे ॥ २० ॥

चौ०—रे कपिपोत बोलु संभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥

कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मानिऐ मिताई ॥

[रावणने कहा—] अरे बंदरके बच्चे ! सँभालकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके शत्रुको तूने जाना नहीं ? अरे भाई ! अपना और अपने बापका नाम तो बता । किस नातेसे मित्रता मानता है ? ॥ १ ॥

अंगद नाम बालि कर बेटा । तासों कबहुँ भई ही भेटा ॥

अंगद बचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर में जाना ॥

[अंगदने कहा—] मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ । उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी ? अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [और बोला—] हाँ, मैं जान गया (मुझे याद आ गया), बालि नामका एक बंदर था ॥ २ ॥

अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥

गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु ॥

अरे अंगद ! तू ही बालिका लड़का है ? अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी गर्भके लिये अग्निरूप ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नष्ट हो गया ? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँहसे तपस्वियोंका दूत कहलाया ! ॥ ३ ॥

अब कहु कुसल बालि कहँ अहई । बिहँसि बचन तब अंगद कहई ॥

दिन दस गएँ बालि पहिँ जाई । बूझेहु कुसल सखा उर लाई ॥

अब बालिकी कुशल तो बता, वह [आजकल] कहाँ है ? तब अंगदने हँसकर

कहा—दस (कुछ) दिन बीतने पर [स्वयं] बालिके पास जाकर, अपने मित्रको हृदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना ॥ ४ ॥

राम विरोध कुसल जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥

सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥

श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे । हे मूर्ख ! सुन, भेद उसीके मनमें पड़ सकता है (भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव डाल सकती है) जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों ॥ ५ ॥

दो०—हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस ।

अंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव वीस ॥२१॥

सच है, मैं तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण ! तुम कुलके रक्षक हो ।

अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं ॥ २१ ॥

चो०—सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥

तासु दूत होइ हम कुल वोरा । अइसिहुँ मति उर विहर न तोरा ॥

शिव, ब्रह्मा [आदि] देवता और मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा [करना] चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुलको डुवा दिया ? अरे, ऐसी बुद्धि होनेपर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता ? ॥ १ ॥

सुनि कठोर वानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥

खल तव कठिन वचन सब सहऊँ । नीति धर्म में जानत अहऊँ ॥

वानर (अंगद) को कठोर वाणी सुनकर रावण आँधें तरेरकर (तिरछी करके)

बोला—अरे दुष्ट ! मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्मको जानता हूँ (उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ) ॥ २ ॥

कह कपि धर्मशीलता तोरी । हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥

देखी नयन दूत रखवारी । वृद्धि न मरहु धर्म व्रतधारी ॥

अंगदने कहा—तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है । [वह यह कि] तुमने परायी स्त्रीकी चोरी की है ! और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देय ली । ऐसे धर्मके व्रतको धारण (पालन) करनेवाले तुम डूबकर मर नहीं जाते ! ॥ ३ ॥

नाक विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म विचारी ॥
शीलता तव जग जागी । पावा दरसु हमहुँ बड़भारी ॥

नाक-नाकसे रहित बहिनको देखकर बुझने धर्म विचारकर ही तो छमा कर दिया था ।
शरीर धर्मशीलता जग-जाहिर है । मैं भी बड़ा भाग्यवान् हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया ॥४॥

जनि जल्यसि जड़ जंतु कपि सठ विलोकु मम बाहु ।
लोकपाल बल विपुल ससि प्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क)॥

[रावणने कहा—] अरे जड़ जंतु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर; अरे सूबे !
मैंने मुझसे तो देखा । ये सब लोकपालोंके विशाल बलवली चन्द्रमाको प्रसन्नके लिये
राहु है ॥ २२(क) ॥

पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि वास ।
सोमन भयउ मगल इव संभु सहित कैलास ॥२२(ख)॥

किर [तुने मुझ ही होगा कि] आकाशवली तालाबमें मेरी मुजाओंवली कमलोंपर
बसकर निवसोमहि कैलास हमके समान जोमाको प्राप्त हुआ था ! ॥ २२ (ख) ॥

तुम्हंर कटक माझ सुनु अंगद । सोसन भिरिहि कवन जोधा बढ
तव प्रभु नारि विरहँ बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना

अरे अंगद ! मुझ; तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे मिड़ सके
तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसीके दु
दुखी और उदास है ॥ १ ॥

तुम्ह मुग्धाव कूलद्रुम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सो
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समराख

तुम और मुग्धाव दोनों [नदी] तटके बूढ़ हो । [रहा] मेरा छो
विभीषण, [मो] वह भी बड़ा डरपोक है । मंत्री जाम्बवान् बहुत बूढ़ा है ।
नडाईमें क्या बड़ (उद्यत हो) सकता है ? ॥ २ ॥
मिलिय कर्म जानहिं नल नीला । है कपि एक महा बल
आवा प्रथम नगर जेहिं जारा । सुनत बचन कह बालि

नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें !) हाँ, एक वानर ज़रूर महान् बलवान् है, जो पहले आया था, और जिसने लङ्का जलायी थी। यह वचन सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा—॥ ३ ॥

सत्य वचन कहूँ निसिचर नाहा । साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥

रावन नगर अल्प कपि दहई । सुनि अस वचन सत्य को कहई ॥

हे राक्षसराज ! सच्ची बात कहो। क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया ? रावण [जैसे जगद्विजयी योद्धा] का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा ? ॥ ४ ॥

जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥

चलइ बहुत सो वीर न होई । पठवा खवरि लेन हम सोई ॥

हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला हरकारा है, वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने [केवल] खबर लेनेके लिये भेजा था ॥ ५ ॥

दो०—सत्य नगरु कपि जारेउ विनु प्रभु आयसु पाइ ।

फिरि न गयउ सुग्रीव पहिँ तेहिँ भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥

क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुको आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला ? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कही छिप रहा ! ॥ २३ (क) ॥

सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह ।

कोउ न हमरें कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥

हे रावण ! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (ख) ॥

प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि ।

जौं मृगपति वध मेडुकन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥२३(ग)॥

प्रीति और वध बराबरीवानेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है। सिंह

प्रेमियोंके मारे तो क्या उसे कोई भला करेगा ? ॥ २३ (ग) ॥

कान नाक विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म विचारी ।
धर्मशीलता तव जग जागी । पावा दरसु हमहुँ बड़भागी ॥

नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था ।

तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है । मैं भी बड़ा भाग्यवान् हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया ॥४॥

दो०—जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु ।

लोकपाल बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क)॥

[रावणने कहा—] अरे जड़ जन्तु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर; अरे मूर्ख !

मेरी भुजाएँ तो देख । ये सब लोकपालोंके विशाल बलरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राहु हैं ॥ २२(क) ॥

पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास ।

सोभत भयउ मराल इव संभु सहित कैलास ॥२२(ख)॥

फिर [तूने सुना ही होगा कि] आकाशरूपी तालाबमें मेरी भुजाओंरूपी कमलोंपर

बसकर शिवजीसहित कैलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ था ! ॥ २२ (ख) ॥

चौ०—तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥

तव प्रभु नारि विरहँ बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥

अरे अंगद ! सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा ?

तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी और उदास है ॥ १ ॥

तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥

जामवंत मंत्री अति बूढा । सो कि होइ अब समरारूढा ॥

तुम और सुग्रीव दोनों [नदी] तटके वृक्ष हो । [रहा] मेरा छोटा भाई

विभीषण, [सो] वह भी बड़ा डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान् बहुत बूढ़ा है । वह अब लड़ाईमें क्या चढ़ (उद्यत हो) सकता है ? ॥ २ ॥

सिलिप कर्म जानहिं नल नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥

आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा । सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥

नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें !) हाँ, एक वानर जरूर महान् बलवान् है, जो पहले आया था, और जिसने लङ्का जलायी थी। यह वचन सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा—॥ ३ ॥

सत्य वचन कहूँ निसिचर नाहा । साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥
रावण नगर अल्प कपि दहई । सुनि अस वचन सत्य को कहई ॥

हे राक्षसराज ! सच्ची बात कहो । क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया ? रावण [जैसे जगद्विजयी योद्धा] का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया । ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा ? ॥ ४ ॥

जो अति सुभट सराहेहुँ रावण । सो सुग्रीव केर लघु धावण ॥
चलइ बहुत सो वीर न होई । पठवा खवरि लेन हम सोई ॥

हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला हरकारा है, वह बहुत चलता है, वीर नहीं है । उसको तो हमने [केवल] खबर लेनेके लिये भेजा था ॥ ५ ॥

दो०—सत्य नगरु कपि जारेउ विनु प्रभु आयसु पाइ ।

फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥

क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला ? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं छिप रहा ! ॥ २३ (क) ॥

सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह ।

कोउ न हमरें कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥

हे रावण ! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है । सचमुच हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (ख) ॥

प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि ।

जौं मृगपति वध मेडुकन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥२३(ग)॥

प्रीति और वैर बराबरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है । सिध्द यदि मेडकोंको मारे, तो क्या उसमें कोई भला कहेगा ? ॥ २३ (ग) ॥

जद्यपि लघुता राम कहूँ तोहि बधेँ बड़ दोष ।

तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३(घ)॥

यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है । तथापि है

रावण ! सुनो, क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है ॥ २३ (घ) ॥

वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस ।

प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु काढ़त भट दससीस ॥२३(ङ)॥

वक्रोक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जला दिया ।

वीर रावण उन बाणोंको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियोंसे निकाल रहा है ॥ २३ (ङ) ॥

हाँसि बोलेउ दसमौलि तव कपि कर बड़ गुन एक ।

जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥

तव रावण हँसकर बोला—बंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है

उसका वह अनेकों उपायोंसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥ २३ (च) ॥

चौ०—धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥

नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित करइ धर्म निपुनाई ॥

बंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है

नाच-कूदकर, लोगोंको रिझाकर मालिकका हित करता है । यह उसके धर्मकी

निपुणता है ॥ १ ॥

अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाँती ॥

मैं गुन गाहक परम सुजाना । तव कटु स्टनि करउँ नहिँ काना ॥

हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है [फिर भला] तू अपने मालिकके गुण इस

प्रकार कैसे न बखानेगा ? मैं गुणग्राहक (गुणोंका आदर करनेवाला) और परम सुजान

समझदार हूँ, इसीसे तेरी जली-कटी बक-बकपर कान (ध्यान) नहीं देता ॥ २ ॥

कह कपि तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ।

बन विधंसि सुत वधि पुर जारा । तदपि न तेहिँ कछु कृत अपकारा ।

अंगदने कहा— तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सनायी थी । उसने

अशोकवनको विध्वंस (तहस-नहस) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया था। तो भी [तुमने अपनी गुणग्राहकताके कारण यही समझा कि] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥

सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥
देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा । तुम्हरेँ लाज न रोप न माखा ॥

तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचार कर, हे दशग्रोव ! मैंने कुछ घृष्टता की है। हनुमान्ने जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न सज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है ॥ ४ ॥

जौँ असि मति पितु खाए कीसा । कहि अस वचन हँसा दससीसा ॥
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अवहीं समुझि परा कछु मोही ॥

[रावण बोला—] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू चापको घा गया ! ऐसा वचन कहकर रावण हँसा। अंगदने कहा—पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डालता। परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझमें आ गयी ॥ ५ ॥

बालि बिमल जस भाजन जानी । हतउँ न तोहि अधम अभिमानी ॥
कहु रावन रावन जग केते । मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥

अरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मल यशका पात्र (कारण) जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण ! यह तो बता कि जगत्में कितने रावण है ? मैंने जितने रावण अपने कानोंसे सुन रखे हैं, उन्हें सुन—॥ ६ ॥

बलिहि जितन एक गयउ पताला । राखेउ वाँधि सिसुन्ह हय साला ॥
खेलहि बालक मारहिं जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥

एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था तब वन्देने उसे पुइसालमें बाँध रखवा। बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे। बलिको दया लगी, तब उन्होंने उसे छोड़ा दिया ॥ ७ ॥

एक वहोरि सहस्रभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा ॥
कौतुक लागि भवन लै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥

फिर एक रावणको सहस्रबाहुने देखा और उसने दौड़कर उसको एक नि

प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह [समझकर] पकड़ लिया। तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छोड़ाया ॥ ८ ॥

दो०—एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं काँख ।

इन्ह महुँ रावन तैं कवन सत्य बदाहि तजि माख ॥२४॥

एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है—वह [बहुत दिनोंतक] बालिकी काँखमें रहा था। इनमेंसे तुम कौन-से रावण हो? खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४ ॥

चौ०—सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥

जान उमापति जासु सुराई । पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढाई ॥

[रावणने कहा—] अरे मूर्ख ! सुन, मैं वही बलवान् रावण हूँ जिसकी भुजाओंकी लीला (करामात) कैलास पर्वत जानता है। जिसकी शूरता उमापति महादेवजी जानते हैं, जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा था ॥ १ ॥

सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी ॥

भुज विक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहुँ जिन्ह केँ उर साला ॥

सिररूपी कमलोंको अपने हाथसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि शिवजीकी पूजा की है। अरे मूर्ख ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिग्पाल जानते हैं जिनके हृदयमें वह आज भी चुभ रहा है ॥ २ ॥

जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरउँ जाइ बरिआई ॥

जिन्ह के दसन कराल न फूटे । उर लागत मूलक इव टूटे ॥

दिग्गज (दिशाओंके हाथी) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं। जिनके भयानक दात, जब-जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छातीमें कभी नहीं फूटे (अपना चिह्न भी नहीं बना सके), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये ॥ २ ॥

जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मत्तगजजिमि लघु तरनी ॥

सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥

जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथीके चढ़ते समय

छोटी नाव ! मैं वही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे झूठी बकवाद करनेवाले ! क्या तूने मुझको कानोंसे कभी नहीं सुना ? ॥ ४ ॥

दो०—तेहि रावण कहँ लघु कहसि नर कर करसि बखान ।

रे कपि बर्वर खर्व खल अव जाना तव ग्यान ॥२५॥

उस (महान् प्रतापी और जगत्प्रसिद्ध) रावणको (मुझे) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी बड़ाई करता है ? अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ।

चो०—सुनि अंगद सकोप कह वानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥

सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥

रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले—अरे नीच अभिमानी ! सँभालकर (सोच-समझकर) बोल । जिनका फरसा सहस्रबाहुकी भुजाओंरूपी अपार वनको जलानेके लिये अग्निके समान था, ॥ १ ॥

जासु परसु सागर खर धारा । बूड़े नृप अगनित बहु वारा ॥

तासु गर्व जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा ॥

जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीव्र धारामें अनगिनत राजा अनेकों वार डूब गये, उन परशुरामजीका गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे दशशीश ! वे मनुष्य क्योंकर हैं ? ॥ २ ॥

राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥

पसु सुरधेनु कल्पतरु रुखा । अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥

क्यों रे मूर्ख उदुण्ड ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है ? और गङ्गाजी क्या नदी हैं ? कामधेनु क्या पशु है ? और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है ? अन्न भी क्या दान है ? और अमृत क्या रस है ? ॥ ३ ॥

बैनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥

सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥

गरुड़जी क्या पक्षी हैं ? शेषजी क्या सर्प हैं ? अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या पत्थर है ? अरे ओ मूर्ख ! सुन, बैकुण्ठ भी क्या लोक है ? और श्रीरघुनाथजीकी अघण्ट भक्ति क्या [और लाभों-जंसा ही] लाभ है ? ॥ ४ ॥

दो०—सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि ।

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥२६॥

सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड़कर, नगरको जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो लौट गये [तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका], क्यों रे दुष्ट ! वे हनुमान्जी क्या वानर हैं ? ॥ २६ ॥

चौ०—सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ।

जौं खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ।

अरे रावण ! चतुराई (कपट) छोड़कर सुन । कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू भजन क्यों नहीं करता ? अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजीके वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे ॥ १ ॥

मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला । राम वयर अस होइहि हाला ।

तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिहहिं धरनि राम सर लागे ।

हे मूढ़ ! व्यर्थ गाल न मार (डींग न हाँक) । श्रीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे पृथ्वीपर पड़ेंगे ॥ २ ॥

ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहिं भालु कीस चौगाना ।

जवहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बहु सायक ।

और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोसे चौगान खेलेंगे । जब श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे, ॥ ३ ॥

तव कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ।

सुनत वचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ।

तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार (कृपालु) श्रीरामजीके भज । अंगदके ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा । मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्निमें घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥

दो०—कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि ।

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥२७॥

[वह बोला—अरे मूर्ख !] कुम्भकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है ! और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड़चेतन जगत्को जीत लिया है ! ॥ २७ ॥

चौ०—सठ साखामृग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥

नाघहिं खग अनेक बारीसा । सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा ॥

रे दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस, यही उसकी प्रभुता है ! समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाँघ जाते हैं । पर इसीसे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते । अरे मूर्ख बंदर ! सुन—॥ १ ॥

मम भुज सागर बल जल पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥

बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस वीर जो पाइहि पारा ॥

मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण है, जिसमें बहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं । [बता,] कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुद्रोंका पार पा जायगा ? ॥ २ ॥

दिग्पालन्ह में नीर भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनावा ॥

जों पै समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥

अरे दुष्ट ! मैंने दिक्पालोंतकसे जल भरवाया और तू एक राजाका मुझे सुयश सुनाता है । यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्राममें लड़नेवाला योद्धा है—॥ ३ ॥

तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥

हरगिरि मथन निरखु मम वाह । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥

तो [फिर] वह दूत किसलिए भेजता है ? शत्रुसे प्रीति (सन्धि) करते उसे ताज नहीं आती । [पहले] कंलासका मथन करनेवालों मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूर्ख वानर ! अपने मालिककी सराहना करना ॥ ४ ॥

दो०—सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहिं सीस ।

हुने अनल अति हरप बहु वार साखि गौरीस ॥२८॥

रावणके समान शूरवीर कौन है ? जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर

तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर और तेरे गाँवको चौपट (नष्ट-भ्रष्ट) करके, अरे मूर्ख ! तेरी युवती स्त्रियोंसहित जानकीजीको ले जाऊँ ॥ ३० ॥

चौ०—जौँ अस करौँ तदपि न बड़ाई । मुएहि बधेँ नहिँ कछु मनुसाई ॥

कौल कामवस कृपिन विमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥

यदि ऐसा कहूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है । मरे हुएको मारनेमें कुछ भी पुरुषत्व (बहादुरी) नहीं है । वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मूढ़, अति दरिद्र, बंदनाम, बहुत बूढ़ा, ॥ १ ॥

सदा रोगवस संतत क्रोधी । विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥

तनु पोषक निंदक अध खानी । जीवत सब सम चौदह प्राणी ॥

नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान् विष्णुसे विमुख, वेद और संतोंका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला और पापकी खान (महान् पापी)—ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं ॥ २ ॥

अस विचारि खल बधुँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥

सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा ।

अरे दुष्ट ! ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध न पैदा कर (मुझे गुस्ता न दिला) अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसे होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला—॥ ३ ॥

रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ।

कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाकेँ । बल प्रताप बुधि तेज न ताकेँ ।

अरे नीच बंदर ! अब तू मरना ही चाहता है । इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात कहता है । अरे मूर्ख बंदर ! तू जिसके बलपर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनवास ।

सो दुख अरु जुवती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास ॥३१(क)॥

उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने बनवास दे दिया । उसे एक

तो वह (उसका) दुःख, उसपर युवती स्त्रीका विरह और फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता है ॥ ३१ (क) ॥

जिन्ह के बल कर गर्व तोहि अइसे मनुज अनेक ।

खाहिं निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझु तजि टेक ॥ ३१ (ख) ॥

जिनके बलका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्योंको तो राक्षस रात-दिन खाया करते हैं । अरे मूढ़ ! जिद्द छोड़कर समझ (विचार कर) ॥ ३१ (ख) ॥

चो०—जब तेहिं कीन्हि राम कै निंदा । क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा ॥

हरि हर निंदा सुनइ जो कबना । होइ पाप गोघात समाना ॥

जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित हुए । क्योंकि [शास्त्र ऐसा कहते हैं कि] जो अपने कानोंसे भगवान् विष्णु और शिवकी निन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १ ॥

कटकटान कपिकुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥

डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥

वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाये (शब्द किया) और उन्होंने तमककर (जोरसे) अपने दोनों भुजदण्डोंको पृथ्वीपर दे मारा । पृथ्वी हिलने लगी, [जिससे बैठे हुए] सभासद् गिर पड़े और भयरूपी पवन (भूत) से ग्रस्त होकर भाग चले ॥ २ ॥

गिरत सँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥

कछु तेहिं लै निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पवारे ॥

रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़े । कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया और कुछ अंगदने उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये ॥ ३ ॥

आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूक परन विधि लागे ॥

की रावन करि कोप चलाए । कुलिस चारि आवत अति धाए ॥

मुकुटोंको आते देखकर वानर भागे । [सोचने लगे] विधाता ! क्या दिनमें ही उल्कापात होने लगा (तारे टूटकर गिरने लगे)? अथवा क्या रावणने क्रोध करने के चार वच्य चलाये हैं, जो बड़े धायेके साथ (वेगसे) आ रहे हैं ॥ ४ ॥

कह प्रभु हँसि जनि हृदयँ डेराहू । लूक न असनि केतु नहिं राहू ।
ए किरीट दसकंधर केरे । आवत बालितनय के प्रेरे ।

प्रभुने [उनसे] हँसकर कहा—मनमें डरो नहीं । ये न उल्का हैं, न वज्र हैं और न केतु या राहु ही हैं । अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं, जो बालिपुत्र अंगद के फँवें हुए आ रहे हैं ॥ ५ ॥

बो०—तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास ।

कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥

पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके पास रख दिया । रोछ और वानर तमाशा देखने लगे । उनका प्रकाश सूर्यके समान था ॥ ३२ (क) ॥

उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ ।

धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२(ख)॥

वहाँ (सभामें) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि—बंदरके पकड़ लो और पकड़कर मार डालो । अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे ॥ ३२ (ख) ॥

बो०—एहि बधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ जहँ पावहु ॥

मर्कटहीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस द्वौ भाई ॥

[रावण फिर बोला—] इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ-कहाँ रोछ वानरोंको पाओ, वहीं खा डालो । पृथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों (राम-लक्ष्मण) को जीते-जी पकड़ लो ॥ १ ॥

पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा । गाल वजावत तोहि न लाजा ।

मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥

[रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर] तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले—तुझे गाल वजाते लाज नहीं आती ? अरे निर्लज्ज ! अरे कुलनाशक ! गला काटकर (आत्महत्या करके) मर जा ! मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती ? ॥ २ ॥

रे त्रिय चोर कुमारग गामी । खल मल रासि मंदमति कामी ॥

सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भएसि कालवस खल मनुजादा ॥

अरे स्त्रीके चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे दुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि और कामी ! तू सन्निपातमें क्या दुर्वचन बक रहा है । अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके वश हो गया है ! ॥ ३ ॥

याको फलु पावहिगो आगें । वानर भालु चपेटन्हि लागें ॥

रामु मनुज बोलत असि वानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥

इसका फल तू आगे वानर और भालुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा । राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती ? ॥ ४ ॥

गिरिहहिं रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥

इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीभें [अकेले नहीं वरं] सिरोंके साथ, रणभूमिमें गिरेंगी ॥ ५ ॥

सो०—सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहिं एक सर ।

बीसहुँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥

रे दशकन्ध ! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला, वह मनुष्य कैसे है ? अरे कुजाति, अरे जड़ ! बीस आँखें होनेपर भी तू अंधा है । तेरे जन्मको धिक्कार है ॥३३ (क)॥

तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर ।

तजउँ तोहि तेहि त्रास कट्टु जल्पक निसिचर अधम ॥३३(ख)॥

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे है । [वे प्यासे ही रह जायेंगे] इस डरसे, अरे कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ ३३ (ख) ॥

चो०—मैं तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥

असि रिस होति दसउ मुख तोरौं । लंका गहि समुद्र महँ बोरौं ॥

मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ; पर क्या करूँ । श्रीरघुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं दी । ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूँ और [तेरी] लङ्काको पकड़कर समुद्रमें डुबा दूँ ॥ १ ॥

गूलरि फल समान तव लंका । वसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥

मैं वानर फल खात न वारा । आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥

तेरी लङ्का गूलरके फलके समान है । तुम सब कीड़े उसके भीतर [अज्ञानवश] निडर होकर बस रहे हो । मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ? पर उदार (कृपालु) श्रीरामचन्द्रजीने वैसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ ॥

जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत भुठाई ॥
बालि न कबहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह तैं भएसि लबारा ॥

अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [और बोला—] अरे मूर्ख ! बहुत मूढ़ बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा । जान पड़ता है तू तपस्वियोंसे मिलकर लवार हो गया है ॥ ३ ॥

साँचेहुँ मैं लवार भुज बीहा । जौं न उपारिउँ तव दस जीहा ॥
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद रोपा ॥

[अंगदने कहा—] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ीं तो सचमुच मैं लवार ही हूँ । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर (स्मरण करके) अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें प्रण करके (दृढ़ताके साथ) पैर रोप दिया ॥ ४ ॥

जौं मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहिं रामु सीता में हारी ॥
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥

[और कहा—] अरे मूर्ख ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लौट जायेंगे, मैं सीताजीको हार गया । रावणने कहा—हे सब वीरो ! सुनो, पैर पकड़कर बंदरको पृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५ ॥

इंद्रजीत आदिक बलवाना । हरषि उठे जहँ तहँ भट नाना ॥
झपटहिं करि बल विपुल उपाई । पद न टरइ बैठहिं सिरु नाई ॥

इन्द्रजीत (मेघनाद) आदि अनेकों बलवान् योद्धा जहाँ-तहाँसे हर्षित होकर उठे । वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके झपटते हैं । पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं ॥ ६ ॥

पुनि उठि झपटहिं सुर आराती । टरइ न कीस चरन एहि भौंती ॥
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी ॥

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] वे देवताओंके शत्रु (राक्षस) फिर उठकर झपटते हैं। परंतु हे सर्पोंके शत्रु गरुड़जी ! अंगदका चरण उनसे बंसे ही नहीं टसता जैसे कृयोगी (बिषयी) पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं उखाड़ सकते ॥ ७ ॥

दो०—कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ ।

झपटहिं ठरै न कपि चरन पुनि बैठहिं सिर नाइ ॥३४(क) ॥

करोड़ों शीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे । वे बारबार झपटते हैं, पर वानरका चरण नहीं उठता । तब लज्जाके मारे सिर नवाकर बँठ जाते हैं ॥ ३४ (क) ॥

भूमि न छाँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग ।

कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख) ॥

जैसे करोड़ों बिघ्न आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, बंसे ही वानर (अंगद) का चरण पृथ्वीको नहीं छोड़ता । यह देखकर शत्रु (रावण) का मद दूर हो गया ! ॥ ३४ (ख) ॥

चौ०—कपि बल देखि सकल हिंयँ हारे । उठा आपु कपि कें परचारे ॥

गहत चरन कह वालिकुमारा । मम पद गहँ न तोर उवारा ॥

अंगदका बल देखकर सब हृदयमें हार गये । तब अंगदके ललकारनेपर रावण स्वयं उठा । जब वह अंगदका चरण पकड़ने लगा तब वालिकुमार अंगदने कहा—मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ॥ १ ॥

गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥

भयउ तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥

अरे मूर्ख ! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ? यह सुनकर वह मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट गया । उसकी सारी श्नी जाती रही । वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्नमें चन्द्रमा दिखायी देता है ॥ २ ॥

सिंघासन बैठेउ सिर नाई । मानहुँ संपति सकल गँवाई ॥

जगदातमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि लह विश्रामा ॥

वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गँवाकर बैठा

हो । श्रीरामचन्द्रजी जगत्भरके आत्मा और प्राणोंके स्वामी हैं । उनसे विमुख रहनेवाला
प्राणति कैसे पा सकता है ? ॥ ३ ॥

उमा राम की भृकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ।
तृण ते कुत्तिस कुत्तिस तृण करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास (भौंहके इशारे)
से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है, जो तृणको वज्र और वज्रको
तृण बना देते हैं (अत्यन्त निर्बलको महान् प्रबल और महान् प्रबलको अत्यन्त निर्बल कर
देते हैं), उनके दूतका प्रण, कहो, कैसे टल सकता है ? ॥ ४ ॥

पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना ॥
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कहि चलयो बालि नृप जायो ॥

फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका
काल निकट आ गया था । शत्रुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका
सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया— ॥ ५ ॥

हतौं न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिं का करौं बड़ाई ॥
प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥

रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न माहूँ तबतक अभी [पहलेसे] क्या बड़ाई करूँ ।
अंगदने पहले ही (सभामें आनेसे पूर्व ही) उसके पुत्रको मार डाला था । वह संवाद सुनकर
रावण दुखी हो गया ॥ ६ ॥

जातुधान अंगद पन देखी । भय ब्याकुल सब भए बिसेषी ॥

अंगदका प्रण [सफल] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ॥ ७ ॥

दो०—रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज ।

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५ (क) ॥

शत्रुके बलका मर्दन कर, बलकी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें [आनन्दा-
श्रुओंका] जल भरा है ॥ ३५ (क) ॥

साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ विलखाइ ।

मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ (ख) ॥

सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव विलखता हुआ (उदास होकर) महलमें गया । मन्दोदरीने रावणको समझाकर फिर कहा—॥ ३५ (ख) ॥

चौ०—कंतसमुझि मनतजहुकुमतिही । सोह नसमरतुम्हहिरघुपतिही ॥

रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहिं नाघेहु असिभनुसाई ॥

हे कान्त ! मनमें समझकर (विचारकर) कुबुद्धिको छोड़ दो । आपसे और श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा नहीं देता । उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है ॥ १ ॥

पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥

कौतुक सिंधु नाधि तव लंका । आयउ कपि केहरी असंका ॥

हे प्रियतम ! आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम है ? सेतसे ही समुद्र लांघकर वह वानरोमें सिंह (हनुमान्) आपकी लङ्कामें निर्भय चला आया ॥२॥

रखवारे हति विपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा ॥

जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा । कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥

रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला । आपके देखते-देखते उसने अक्षयकुमारको मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया । उस समय आपके बलका गर्व कहाँ चला गया था ? ॥ ३ ॥

अब पति मृषा गाल जनि मारहु । मोर कहा कछु हृदयँ विचारहु ॥

पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुलबल जानहु ॥

अब हे स्वामी ! झूठ (व्यर्थ) गाल न मारिये (डोंग न हाँकिये) । मेरे कहनेपर हृदयमें कुछ विचार कीजिये । हे पति ! आप श्रीरघुपतिको [निरा] राजा मत समझिये, बल्कि अग-जगनाथ (चराचरके स्वामी) और अतुलनीय बलवान् जानिये ॥ ४ ॥

बान प्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥

जनक सभाँ अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल विसाला ॥

श्रीरामजीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था । परंतु आपने उसका

कहना भी नहीं माना । जनककी सभामें अगणित राजागण थे । वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवाले आप भी थे ॥ ५ ॥

भंजि धनुष जानकी बिआही । तब संग्राम जितेहु किन् ताही ॥
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥

वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको ब्याहा, तब आपने उनको संग्राममें क्यों नहीं जीता ? इन्द्रपुत्र जयन्त उनके बलको कुछ-कुछ जानता है । श्रीरामजीने पकड़कर, केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया ॥ ६ ॥

सूर्पनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदयँ नहिँ लाज बिसेषी ॥

शूर्पणखाकी दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके हृदयमें [उनसे लड़नेकी बात सोचते] विशेष (कुछ भी) लज्जा नहीं आती ! ॥ ७ ॥

दो०—बधि विराध खर दूषनहि लीलाँ हत्यो कबंध ।

बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥

जिन्होंने विराध और खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी मार डाला; और जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध ! आप उन्हें (उनके महत्त्वको) समझिये ! ॥ ३६ ॥

चौ०—जेहिँ जलनाथ बँधायउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥

कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तव हित हेतू ॥

जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको बँधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुबेल पर्वतपर उतर पड़े, उन सूर्यकुलके ध्वजास्वरूप (कीर्तिको बढ़ानेवाले) करुणामय भगवान्ने आपहीके हितके लिये दूत भेजा ॥ १ ॥

सभा माझ जेहिँ तव बल मथा । करि बरूथ महुँ मृगपति जथा ॥

अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन बाँकुरे बीर अति बाँके ॥

जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियोंके झुंडमें आकर सिंह [उसे छिन्न-भिन्न कर डालता है] । रणमें बाँके अत्यन्त विकट वीर अंगद और हनुमान् जिनके सेवक हैं ॥ २ ॥

तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू ॥
अहह कंत कृत राम विरोधा । काल विवस मन उपज न बोधा ॥

हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं । आप व्ययं ही मान, ममता और मदका बोझा बो रहे हैं । हा प्रियतम ! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया ! और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥

काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥
निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥

काल दण्ड (लाठी) लेकर किसीको नहीं मारता । वह धर्म, बल, बुद्धि और विचारको हर लेता है । हे स्वामी ! जिसका काल (मरण-समय) निकट आ जाता है, उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु ।

कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जसु लेहु ॥३७॥

आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया । [जो हुआ सो हुआ ;] हे प्रियतम ! अब भी [इस भूलकी] पूति (समाप्ति) कर दीजिये (श्रीरामजीसे वर त्याग दीजिये) ; और हे नाथ ! कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीको भजकर निर्मल यश लीजिये ॥ ३७ ॥

चो०—नारि बचन सुनि बिसिखसमाना । सभौं गयउ उठि होत विहाना ॥

बैठ जाइ सिंघासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥

स्त्रीके वाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥

इहाँ राम अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥

अति आदर समीप बैठारी । बोले विहँसि कृपाल खरारी ॥

यहाँ (सुबेल पर्वतपर) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया । उन्होंने आकर चरण-कमलोंमें सिर नवाया । बड़े आदरसे उन्हें पास बैठाकर चारके शत्रु कृपालु श्रीरामजी हँसकर बोले ॥ २ ॥

बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहूँ पूछउँ तोही ॥

रावणु जातुधान कुल टीकर । भुज बल अतुल जासु जग लीका ॥

हे बालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कौतूहल है । हे तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना । जो रावण राक्षसोंके कुलका तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्-भरमें घाक है, ॥ ३ ॥

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहहु तात कवनी विधि पाए ॥

सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहिं भूप गुन चारी ॥

उसके चार मुकुट तुमने फेंके । हे तात ! बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे पाया ? [अंगदने कहा—] हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजाके चार गुण हैं ॥ ४ ॥

साम दान अरु दंड विभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥

नीति धर्म के चरन सुहाए । अस जियँ जानि नाथ पहिं आए ॥

हे नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद—ये चारों राजाके हृदयमें बसते हैं । ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं । [किंतु रावणमें धर्मका अभाव है] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥ ५ ॥

दो०—धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवस दससीस ।

तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८(क) ॥

दशशीश रावण धर्महीन प्रभुके पदसे विमुख और कालके वशमें है । इसलिये कोसलराज ! सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ (क) ॥

परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार ।

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥ ३८ (ख) ॥

अंगदकी परम चतुरता [पूर्ण उक्ति] कानोंसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हँसने लगे । फिर बालिपुत्रने किलेके (लङ्काके) सब समाचार कहे ॥ ३८ (ख) ॥

१०—रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए ॥

लंका बाँके चारि दुआरा । केहि विधि लागिअ करहु बिचारा ॥

जब शत्रुके समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंको पास बुलाया [और कहा—] लङ्काके चार बड़े विकट दरवाजे हैं । उनपर किस तरह आक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो ॥ १ ॥

तव कपीस रिच्छेस विभीषन । सुमिरि हृदयँ दिनकर कुल भूपन ॥
करि विचार तिन्ह मंत्र ददावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥

तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान् और विभीषणने हृदयमें सूर्यकुलके भूषण श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया । वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये ॥ २ ॥

जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तव लीन्हे ॥
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंघनाद करि धाए ॥

और उनके लिये यथायोग्य (जैसे चाहिये वैसे) सेनापति नियुक्त किये । फिर सब यूथपतियोंको बुला लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंहके समान गर्जना करके दौड़े ॥ ३ ॥

हरषित राम चरन सिर नावहिं । गहि गिरि सिखर वीर सब धावहिं ॥
गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा । जय रघुवीर न्नेसलाधीसा ॥

वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर ले-लेकर सब वीर दौड़ते हैं । 'कोसलराज श्रीरघुवीरजीकी जय हो' पुकारते हुए भानू और वानर गरजते और ललकारते हैं ॥ ४ ॥

जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥
घटा टोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥

लङ्काको अत्यन्त श्रेष्ठ (अजेय) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे निडर होकर चले । चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह लङ्काको चारों दिशाओंसे घेरकर वे मुंहसे ही ढंके और भेरी बजाने लगे ॥ ५ ॥

दो०—जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव ।

गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल सर्व ॥३६॥

महान् बलकी सीमा वे वानर-भानू सिंहके समान ऊँचे स्वरसे श्रीरामजीकी

'लक्ष्मणजीकी जय,' 'वानरराज सुग्रीवकी जय' ऐसी गर्जना करने लगे ॥ ३९ ॥

चौ०—लंकाँ भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥

लङ्कामें बड़ा भारी कोलाहल (कोहराम) मच गया । अत्यन्त अहंकारी रावणने उसे सुनकर कहा—वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हँसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुलायी ॥ १ ॥

आए कीस काल के प्रेरे । छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बैठें अहार विधि दीन्हा ॥

बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं । मेरे राक्षस सभी भूखे हैं । विधाताने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया । ऐसा कहकर उस मूर्खने अट्टहास किया (वह बड़े जोरसे ठहाका मारकर हँसा) ॥ २ ॥

सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥
उमा रावनाहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥

[और बोला—] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर सबको पकड़-पकड़कर खाओ । [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! रावणको ऐसा अभिमान था जैसे टिट्टिहिरी पक्षी पंर ऊपरकी ओर करके सोता है [मानो आकाशको थाम लेगा] ॥ ३ ॥

चले निसाचर आयसु मागी । गहि कर भिंडिपाल बर साँगी ॥
तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा । सूत कृपान परिघ गिरिखंडा ॥

आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिन्दिपाल, साँगी (बरछी), तोमर, मुद्गर, प्रचण्ड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके टुकड़े लेकर राक्षस चले ॥ ४ ॥

जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥
चौंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा । तिमि धाए मनुजाद अबूझा ॥

जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते हैं, [पत्थरों-पर लगनेसे] चौंच टूटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े ॥ ५ ॥

दो०—नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर ।

कोट कँगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥

अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और घनुष-बाण धारण किये करोड़ों बलवान् और रणधीर राक्षस वीर परकोटेके कँगूरोंपर चढ़ गये ॥ ४० ॥

चौ०—कोट कँगूरन्हि सोहहि कैसे । मेरु के संगनि जनु घन बैसे ॥

बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि धुनिहोइ भटन्हि मन चाऊ ॥

वे परकोटेके कँगूरोंपर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरुके शिखरोंपर बादल बँठे हों । जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, [जिनकी] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके मनमें [लड़नेका] चाव होता है ॥ १ ॥

बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहिं दरारा ॥

देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा ॥

अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, [जिन्हें] सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारें पड़ जाती हैं । उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान् योद्धा वानर और भालुओंके ठट्ट (समूह) देखे ॥ २ ॥

धावहिं गनहिं न अवघट घाटा । पर्वत फेरि करहिं गहि बाटा ॥

कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं । दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिं ॥

[देखा कि] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; औघट (ऊँची-नीची, विकट) घाटियोंको कुछ नहीं गिनते । पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं । करोड़ों योद्धा कटकटाते और गर्जते हैं । दाँतोंसे ओंठ काटते और खूब डपटते हैं ॥ ३ ॥

उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥

निसिचर सिखर समूह ढहावहिं । कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं ॥

उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोलो जा रही है । 'जय' 'जय' 'जय' की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर-के-ढेर शिखरोंको फँकते हैं । वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हींकी ओर चलाते हैं ॥ ४ ॥

छं०—धारि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं ।

झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥

अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए ।

कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए ॥

प्रचण्ड वानर और भालू पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं । वे झपटते हैं और राक्षसोंके पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं । बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजस्वी वानर-भालू बड़ी फुर्तीसे उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये और जहाँ-तहाँ महलोंमें घुसकर श्रीरामजीका यश गाने लगे ।

दो०—एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ ।

ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥४१॥

फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले । ऊपर आप और नीचे [राक्षस] योद्धा—इस प्रकार वे [किलेपरसे] धरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥

चौ०—राम प्रताप प्रबल कपिजूथा । मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा ॥

चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर । जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥

श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके झुंड राक्षस योद्धाओंके समूह-के-समूह योद्धाओंको मसल रहे हैं । वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने लगे ॥ १ ॥

ले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥

हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहिं बालक आतुर नारी ॥

राक्षसोंके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर वादलोंके समूह तितर-वितर हो जाते हैं । लङ्का नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया । बालक, स्त्रियाँ और रोगी [असमर्थताके कारण] रोने लगे ॥ २ ॥

सब मिलि देहिं रावनाहि गारी । राज करत एहिं मृत्यु हँकारी ॥

निज दल विचल सुनी तेहिं काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥

सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला लिया । रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब [भागते हुए] योद्धाओंको लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला—॥ ३ ॥

जो रन विमुख सुना मैं काना । सो मैं हतद काल कृपाना ।
सर्वसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए बल्लभ प्राना ।
मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों मुकुंदा, उसे स्वयं नष्ट कर दुष्टार
तलवारसे मारूँगा । मेरा सब कुछ खाया, भक्ति-भक्तिके भोग किये और जब रणक्षेत्रमें
प्राण प्यारे हो गये ? ॥ ४ ॥

उग्र वचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥
सन्मुख मरन वीर कै सोभा । तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा ॥
रावणके उग्र (कठोर) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लज्जित होकर डोब
करके युद्धके लिये लौट चले । रणमें [शत्रुके] सम्मुख (युद्ध करते हुए) मरनेमें ही वीरके
सोभा है । [यह सोचकर] तब उन्होंने प्राणोंका लोभ छोड़ दिया ॥ ५ ॥

दो०—बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि ।
व्याकुल किए भालु कपि परिघ तिसूलनिह मारि ॥४२॥
वहुत-से अस्त्र-शस्त्र धारण किये सब वीर ललकार-नलकारकर मिटने लगे । उन्होंने
परिघों और त्रिशूलोंसे मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४२ ॥

चौ०—भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥
कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता । कहँ नल नील दुविद बलवंता ॥
[शिवजी कहने है—] वानर भयातुर होकर (डरके मारे घबड़ाकर) भागने
लगे, यद्यपि हे उमा ! आगे चलकर [वे ही] जीतेंगे । कोई कहता है—अंगद-हनुमान् वहाँ
? बलवान् नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ? ॥ १ ॥

ज दल विकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥
घनाद तहँ करइ लराई । दूट न द्वार परम कठिनारई ॥
हनुमान्जीने जब अपने दलको तिरु (भयभीत) हुआ सुना, उस समय वे बलवान्
द्वारपर थे । वहाँ उनसे मेघनाद पुँडू डर रहा था । वह द्वार दूटता न था, वहाँ
कठिनाई ही रही थी ॥ २ ॥

तनय मन भा अति क्रोश । गर्जे प्रवल काल सम जोधा
लंक गढ़ उपर आवा । गहँ गिरि मेघनाद कहँ धावा

तब पवनपुत्र हनुमान्जीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ । वे कालके समान योद्धा बड़े जोरसे गरजे और कूदकर लङ्काके किलेपर आगये और पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े ॥३॥

मंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारोसि लाता ॥

दूसरें सूत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥

रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें लात मारी । दूसरा सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमें डालकर, तुरंत घर ले आया ॥ ४ ॥

दो०—अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल ।

रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥४३॥

इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान् किलेपर अकेले ही गये हैं, तो रणमें बाँके बालिपुत्र वानरके खेलकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये ॥ ४३ ॥

बी०—जुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥

रावन भवन चढ़े द्वौ धाई । करहिं कोसलाधीस दोहाई ॥

युद्धमें शत्रुओंके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । हृदयमें श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महलपर जा चढ़े और कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लगे ॥ १ ॥

कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥

नारि वृंद कर पीटहिं छाती । अब दुइ कपि आए उतपाती ॥

उन्होंने कलशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण डर गया । सब स्त्रियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं [और कहने लगीं—] अबकी बार दो उत्पाती वानर [एक साथ] आ गये ॥ २ ॥

कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥

गुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥

वानरलीला करके (घुड़की देकर) दोनों उनको डराते हैं और श्रीरामचन्द्रजीका गुन्दर यश सुनाते हैं । फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [परस्पर] कहा कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३ ॥

गर्जि परे रिपु कटक मझारी । लागे मर्दें भुज बल भारी ॥
काहुहि लात चपेटन्हि केहू । भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥

वे गर्जकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे उसका मर्दन करने लगे । किसीकी लातसे और किसीकी चप्पड़से खबर लेते हैं [और कहते हैं कि] तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ४ ॥

वो०—एक एक सों मर्दहिं तोरि चलावहिं मुंड ।

रावन आगें परहिं ते जनु फूटहिं दधि कुंड ॥४४॥

एकको दूसरेसे [रगड़कर] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर फेंकते हैं । वे सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके कूड़े फूट रहे हों ॥४४॥

वो०—महा महा मुखिआ जे पावहिं । तेपदगहि प्रभु पास चलावहिं ॥

कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा । देहिं राम तिन्हहू निज धामा ॥

जिन बड़े-बड़े मुखियों (प्रधान सेनापतियों) को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभुके पास फेंक देते हैं । विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना घाम (परमपद) दे देते हैं ॥ १ ॥

खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥

उमा राम मृदुचित करुनाकर । वयरभावसुमिरतमोहि निसिचर ॥

ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं [परंतु सहजमें नहीं पाते] । [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय और करुणाकी खान हैं । [वे सोचते हैं कि] राक्षस मुझे वरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २ ॥

देहिं परम गति सो जियँ जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥

अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥

ऐसा हृदयमें जानकर वे उन्हें परम गति (मोक्ष) देते हैं । हे भवानी ! कहो तो ऐसे कृपालु [और] कौन हैं ? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्यागकर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥

अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा । कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥
 लंकां द्यौ कपि सोहहि कैसें । मथहि सिंधु दुइ मंदर जैसें ॥

श्रीरामजीने कहा कि अंगद और हनुमान् किलेमें ब्रुस गये हैं । दोनों वानर लङ्कामें [विश्राम करते] जैसे गोमा बहे हैं, जैसे दो मन्दराचल समुद्रको मथ रहे हों ॥ ४ ॥

श्लोक—भुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत ।

कूदे जुगल विगत श्रम आए जहँ भगवंत ॥४५॥

शुद्धाशक्ति वनमें शत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर, फिर दिनका अन्त होता देखकर हनुमान् और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम (थकावट) रहित होकर वहाँ आ गये जहाँ भगवान् श्रीरामजी थे ॥ ४५ ॥

श्लोक—प्रभुपद कमल सीस तिन्ह नाए । देखिसुभट रघुपतिमन भाए ॥

राम कृपा करि जुगल निहारे । भए विगतश्रम परम सुखारे ॥

उन्होंने प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाये । उत्तम योद्धाओंको देखकर श्रीरघुनाथजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे श्रमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १ ॥

गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट भट नाना ॥

जानुधान प्रदोष बल पाई । धाए करि दससीस दोहाई ॥

अंगद और हनुमान्को गये जानकर सभी भालु और वानर वीर लौट पड़े । रामजीने प्रदोष (सायं) कालका बल पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरोंपर धावा किया ॥ २ ॥

निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥

द्यौ दल प्रबल पचारि पचारी । लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥

रामजीकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकर नहीं मानते ॥ ३ ॥

महावीर निसिचर सब कारे । नाना वरन बलीमुख भारे ॥
 सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥

सभी राक्षस महान् वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगोंके हैं। दोनों ही दल बलवान् हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते (वीरता दिखलाते) हैं ॥ ४ ॥

प्राविट सरद पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे ॥
अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥

[राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं] मानो क्रमशः वर्षा और शरदऋतुके बहुत-से वादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५ ॥

भयउ निमिष महँ अति अँधिआरा । वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥
पलभरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया। खून, पत्यर और राखकी वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥

दो०—देखि निविड़ तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार ।

एकहि एक न देखई जहँ तहँ करहिँ पुकार ॥ ४६ ॥

दसों दिशाओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ गयी। एकको एक (दूसरा) नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं ॥ ४६ ॥

चो०—सकल भरमु रघुनायक जाना । लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥

समाचार सब कहि समुझाए । सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥

श्रीरघुनायजी सब रहस्य जान गये। उन्होंने अंगद और हनुमान्को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े।

पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥

भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ग्यान उदयँ जिमि संसय जाहीं ॥

फिर कृपालु श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया; कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञानके उदय होनेपर [सब प्रकारके] संदेह दूर हो जाते हैं ॥ २ ॥

भालु वलीमुख पाइ प्रकासा । धाए हरप विगत श्रम त्रासा ॥

हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥

भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े । हनुमान् और अंगद रणमें गरज उठे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥ ३ ॥

भागत भट पटकहि धरि धरनी । करहिं भालु कपि अद्भुत करनी ॥

गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग झष धरि धरि खाहीं ॥

भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भालू पकड़कर पृथ्वीपर दे मारते हैं और अद्भुत (आश्चर्यजनक) करनी करते हैं (युद्धकौशल दिखलाते हैं) । पैर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं । वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं ।

दो०—कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ ।

गर्जहिं भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४७॥

कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये । अपने बलसे शत्रुदलको विचलित करके रीछ और वानर [वीर] गरज रहे हैं ॥ ४७ ॥

चौ०—निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥

राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही ॥

रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ (टुकड़ियाँ) वहाँ आयीं, जहाँ कोसलपति श्रीरामजी थे । श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥

उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥

आधा कटकु कपिन्ह संघारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥

वहाँ [लङ्कामें] रावणने मन्त्रियोंको बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया । [उसने कहा—] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया । अब शीघ्र बताओ, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २ ॥

माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ।

बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ।

माल्यवंत [नामका एक] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था । वह रावणकी माताका पित (अर्थात् उसका नाना) और श्रेष्ठ मन्त्री था । वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला— हे तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो—॥ ३ ॥

जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहिं न जाहिं बखानी ॥
वेद पुरान जासु जसु गायो । राम त्रिमुख काहुँ न सुख पायो ॥

जबसे तुम सीताको हर लाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किये जा सकते । वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख होकर किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४ ॥

दो०—हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान ।

जेहिं मारे सोइ अवतरैउ कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ (क) ॥

भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको और बलवान् मधु-कैटभको जिन्होंने मारा था, वे ही कृपाके समुद्र भगवान् [रामरूपसे] अवतरित हुए हैं ॥ ४८ (क) ॥

मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम

कालरूप खल वन दहन गुनागार घनबोध ।

सिव विरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन विरोध ॥ ४८ (ख) ॥

जो कालस्वरूप हैं, दुष्टोंके समूहरूपी वनके भस्म करनेवाले [अग्नि] हैं, गुणोंके घाम और ज्ञानघन है एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बँर कँसा ? ॥ ४८ (ख) ॥

ची०—परिहारि वयरु देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥

ताके वचन वान सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥

[अतः] बँर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और कृपानिधान परम स्नेही श्रीरामजीका भजन करो । रावणको उसके वचन बाणके समान लगे । [वह बोला—] अरे अभागे ! मुँह काला करके [यहाँसे] निकल जा ॥ १ ॥

बूढ़ भएसि न त मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥

तेहिं अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥

तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता । अब मेरी आँसूओंको अपना मुँह न दिखला । रावणके ये वचन सुनकर उसने (मात्स्यवान्ने) अपने मनमें ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ ॥

भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े हनुमान् और अंगद रणमें गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥ ३ ॥

भागत भट पटकहि धरि धरनी । करहिं भालु कपि अद्भुत करनी ।
गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग झष धरि धरि खाहीं ।

भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भालू पकड़कर पृथ्वीपर दे मारते हैं और अद्भुत (आश्चर्यजनक) करनी करते हैं (युद्धकौशल दिखलाते हैं)। पैर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं

दो०—कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ ।

गर्जहिं भालु बलीमुख रिपु दल बल विचलाइ ॥४७॥

कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये। अपने बलसे शत्रुदलको विचलित करके रीछ और वानर [वीर] गरज रहे हैं ॥ ४७ ॥

चौ०—निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ।

राम कृपा करि चितवा सबही । भए विगतश्रम वानर तबही ।

रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ (टुकड़ियाँ) वहाँ आयीं, जहाँ कोसलपति श्रीरामजी थे। श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥

उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ।

आधा कटकु कपिन्ह संघारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ।

वहाँ [लङ्कामें] रावणने मन्त्रियोंको बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया। [उसने कहा—] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २ ॥

माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ।

बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ।

माल्यवंत [नामका एक] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था। वह रावणकी माताका पिता (अर्थात् उसका नाना) और श्रेष्ठ मन्त्री था। वह अत्यन्त पवित्र नीतिके बचन बोला है तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो—॥ ३ ॥

मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है । तब वह वीर किलेसे उतरा और ढंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ ॥

चौ०—कहँ कोसलाधीस द्रौ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता ॥

कहँ नल नील दुविद सुग्रीवा । अंगद हनुमंत बल सींवा ॥

[मेघनादने पुकारकर कहा—] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं ? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अंगद और हनुमान् कहाँ हैं ? ॥ १ ॥

कहाँ विभीषणु भ्राताद्रोही । आजु सवहि हठि मारउँ ओही ॥

अस कहि कठिन वान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन लागि ताने ॥

भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है ? आज मैं सबको और उस दुष्टको तो हठपूर्वक (अवश्य ही) मारूँगा । ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा ॥ २ ॥

सर समूह सो छाड़ै लागा । जनु सपच्छ धावहिँ बहु नागा ॥

जहँ तहँ परत देखिअहिँ वानर । सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥

वह बाणोंके समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत-से पंखवाले साँप दौड़े जा रहे हों । जहाँ-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे । उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३ ॥

जहँ तहँ भागि चले कपि रीछा । विसरी सवहि जुद्ध कै ईछा ॥

सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्राण अवसेपा ॥

रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले । सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी । रणभूमिमें ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो (अर्थात् जिसके केवल प्राणमात्र ही न बचे हों; बल-पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो) ॥ ४ ॥

दो०—दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि वीर ।

सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ५० ॥

फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े । बलवान्

और वीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा ॥ ५० ॥

चौ०—देखि पवनसुत कटक विहाला । क्रोधवंत जनु धायउ काला ॥

महासैल एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा ॥

सारी सेनाको बेहाल (व्याकुल) देखकर पवनपुत्र हनुमान् क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो । उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा ॥ १ ॥

आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥

वार वार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥

पहाड़को आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया । [उसके] रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गये (चूर-चूर हो गये) । हनुमान्जी उसे वार-वार ललकारते हैं । पर वह निकट नहीं आता; क्योंकि वह उनके बलका मर्म जानता था ॥ २ ॥

रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति करेसि दुर्बादा ॥

अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे । कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे ॥

[तब] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [उनके प्रति] अनेकों प्रकारके दुर्वचनोंका प्रयोग किया । [फिर] उसने उनपर अस्त्र-शस्त्र तथा और सब हथियार चलाये । प्रभुने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३ ॥

देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना । करै लाग माया विधि नाना ॥

जिमि कोउ करै गरुड़ सैं खेला । डरपावै गहि स्वल्प सपेला ॥

श्रीरामजीका प्रताप (सामर्थ्य) देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने लगा । जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा हाथमें लेकर गरुड़को डरावे और उससे खेल करे ॥ ४ ॥

दो०—जासु प्रबल माया बस सिव विरंचि बड़ छोट ।

ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१ ॥

शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [सभी] जिनकी अत्यन्त बलवान् मायाके वशमें हैं, नीचबुद्धि निजाचर उनको अपनी माया दिखलाता है ॥ ५१ ॥

चौ०—नभ चढ़ि बरष विपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जलधारा ॥

नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काटु धुनि बोलहिं नाची ॥

आकाशमें [ऊँचे] चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा । पृथ्वीसे जलकी धाराएँ प्रकट होने लगीं । अनेक प्रकारके पिसाच तथा पिसाचिनियाँ नाच-नाचकर 'मारो' काटो की आवाज करने लगीं ॥ १ ॥

विष्टा पूय रुधिर क्व हाड़ा । वरषइ क्वहुँ उपल बहु छाड़ा ॥

वरषि धूरि कीन्हेसि अँधिआरा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥

वह कभी तो विष्टा, पीव, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत-से पत्थर फेंक देता था । फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना हाँ पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था ॥ २ ॥

कपि अकुलाने माया देखें । सब कर मरन बना एहि लेखें ॥

कौतुक देखि राम मुसुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने ॥

माया देखकर वानर अकुला उठे । वे सोचने लगे कि इस हिसाबसे (इसी तरह रहा) तो सबका मरण आ बना । यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये । उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं ॥ ३ ॥

एक वान काटी सब माया । जिमिदिनकर हरतिमिर निकाया ॥

कृपादृष्टि कपि भालु विलोके । भए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥

तब श्रीरामजीने एक ही वाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके समूहको हर लेता है । तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे वानर-भालुओंकी ओर देखा; [जिससे] वे ऐसे प्रबल हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं रुकते थे ॥ ४ ॥

दो०—आयसु मांगि राम पहिं अंगदादि कपि साथ ।

लछिमन चले क्रुद्ध होइ वान सरासन हाथ ॥ ५.२ ॥

श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकर अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुषबाण लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर चले ॥ ५.२ ॥

चौ०—छतजनयन उर बाहु विसाला । हिमगिरिनिभ तनुकहुँ एकलाला ॥

इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र संस्त्र गहि धाम ॥

उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं। हिमाचल पर्वतके समान उज्ज्वल (गौरवर्ण) शरीर कुछ ललाई लिये हुए है। इधर रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र-शस्त्र लेकर दौड़े ॥ १ ॥

भूधर नख विटपायुध धारी । धाए कपि जय राम पुकारी ॥
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥

पर्वत, नख और वृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर 'श्रीरामचन्द्रजीकी जय' पुकारकर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये। इधर और उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम न थी (अर्थात् प्रबल थी) ॥ २ ॥

मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं । कपि जयशील मारि पुनि डाटहिं ॥
मारु मारु धरु धरु धरु मारु । सीस तोरि गहि भुजा उपारु ॥

वानर उनको घुंसें और लातोसे मारते हैं, दांतोसे काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डाँटते भी हैं। 'मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो' ॥ ३ ॥

असि रव पूरि रही नव खंडा । धावहिं जहँ तहँ रुंड प्रचंडा ॥
देखहिं कौतुक नभ सुर वृन्दा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनन्दा ॥

नवों खण्डोंमें ऐसी आवाज भर रही है। प्रचण्ड रुण्ड (घड़) जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाशमें देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनन्द ॥ ४ ॥

दो०—रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ ।

जनु अँगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ ॥ ५३ ॥

खून खड्डोंमें भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही है। [वह दृश्य ऐसा है] मानो अंगारोके ढेरोंपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥

चौ०—घायल वीर विराजहिं कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥

लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥

घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरेसे भिड़ते हैं ॥ १ ॥

एकहि एक सकइ नहिं जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥
क्रोधवंत तव भयउ अनंता । भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥

एक दूसरेको (कोई किसीको) जीत नहीं सकता । राक्षस छल-बल (माया) और अनीति (अधर्म) करता है; तब भगवान् अनन्तजी (लक्ष्मणजी) क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ २ ॥

नाना विधि प्रहार कर सेवा । राच्छस भयउ प्रान अवसेषा ॥
रावन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भयउ हरिहि मम प्राणा ॥

शेषजी (लक्ष्मणजी) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे । राक्षसके प्राणमात्र शेष रह गये । रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ बना ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ ३ ॥

वीरघातिनी छाड़िसि साँगी । तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥
सुरुछा भई सक्ति के लागें । तव चलि गयउ निकट भय त्यागें ॥

तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी । वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें लगी । शक्तिके लगनेसे उन्हें मूर्छा आ गयी । तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ४ ॥

दो०—मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ ।

जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसिआइ ॥ ५४ ॥

मेघनादके समान सौ करोड़ (अगणित) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं । परंतु जगत्के आधार श्रीशेषजी (लक्ष्मणजी) उनसे कैसे उठते ? तब वे लजाकर चले गये ॥ ५४ ॥

चौ०—सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिदस आसू ॥
सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे ! सुनो, [प्रलयकालमें] जिन (शेषनाग) के क्रोधकी अग्नि चौदहों भुवनोंको तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा गमस्त चराचर [जीव] जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राममें कौन जीत सकता है ? ॥ १ ॥

यह कौतूहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम कै होई ॥
संध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी । लगे सँभारन निज निज अनी ॥

इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो । संध्या होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सँभालने लगे ॥ २ ॥

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर । लछिमन कहाँ बूझ करुणाकर ॥
तब लगि लै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अतिदुख माना ॥

व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने पूछा—लक्ष्मण कहाँ हैं ? तबतक हनुमान् उन्हें ले आये । छोटे भाईको [इस दशामें] देखकर प्रभुने बहुत ही दुख माना ॥ ३ ॥

जामवंत कह बैद सुषेना । लंकाँ रहइ को पठई लेना ॥
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥

जाम्बवान्ने कहा—लङ्कामें सुषेण वँध रहता है, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा जाय ? हनुमान्जी छोटा रूप धरकर गये और सुषेणको उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाये ॥ ४ ॥

दो०—राम पदारविंद सिर नायउ आइ सुषेन ।

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥

सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया । उसने पर्वत और औषधका नाम बताया; [और कहा कि] हे पवनपुत्र ! औषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥

चौ०—राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥

उहाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि गृह आवा ॥

श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर पवनपुत्र हनुमान्जी अपना बल बखानकर (अर्थात् मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर) चले । उधर एक गुप्तचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी । तब रावण कालनेमिके घर आया ॥ ५६ ॥

दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥
देखत तुम्हहि नगरु जेहिं जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥

रावणने उसको सारा भ्रम (हाल) बतलाया । कालनेमिने मुना और बार-बार सिर पीटा (खेद प्रकट किया) :- [उसने कहा-] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है ? ॥ २ ॥

भजि रघुपति करु हित आपना । छाँड़हु नाथ मृषा जल्पना ॥
नील कंज तनु सुंदर स्यामा । हृदयँ राखु लोचनाभिरामा ॥

श्रीरघुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ ! मूठी बकवाद छोड़ दो । नेत्रोंको आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम-शरीरको अपने हृदयमें रक्खो ॥ ३ ॥

मैं तैं मोर मूढ़ता त्यागू । महा मोह निसि सूतत जागू ॥
काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥

मैं-तू (भेद-भाव) और ममत्तारूपी मूढ़ताको त्याग दो । महामोह (अज्ञान) रूपी रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो । जो कालरूपी सर्पका भी भयक है, कहीं स्वप्नमें भी वह रणमें जीता जा सकता है ? ॥ ४ ॥

बो०—मुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह विचार ।

राम दूत कर मरौं बरु यह खल रत मल भार ॥५६॥

उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ । तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही मरूँ तो अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ ५६ ॥

बो०—अस कहि चला रचिसि मगमाया । सर मंदिर वर वाग बनाया ॥

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि वृद्धि जलपियौं जाइ श्रम ॥

वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची । तालाब, मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हनुमान्जीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय ॥ १ ॥

राच्छस कपट वेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥

जाइ पवनसुत नायउ माया । लागसो कहै राम गुन गाथा ॥

राक्षस वहाँ कपट [से मुनि] का वेष बनाये विराजमान था । वह मूर्ख अपनी

यह कौतूहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम कै होई ॥
संध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी । लगे सँभारन निज निज अनी ॥

इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो । संध्या होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सँभालने लगे ॥ २ ॥

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर । लछिमन कहाँ बूझ करुणाकर ॥
तब लगि लै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अतिदुख माना ॥

व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने पूछा—लक्ष्मण कहाँ हैं ? तबतक हनुमान् उन्हें ले आये । छोटे भाईको [इस दशामें] देखकर प्रभुने बहुत ही दुख माना ॥ ३ ॥

जामवंत कह बैद सुषेना । लंकाँ रहइ को पठई लेना ॥
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥

जाम्बवान्ने कहा—लङ्कामें सुषेण बँध रहता है, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा जाय ? हनुमान्जी छोटा रूप धरकर गये और सुषेणको उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाये ॥ ४ ॥

दो०—राम पदारविंद सिर नायउ आइ सुषेन ।

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥

सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया । उसने पर्वत और औषधका नाम बताया; [और कहा कि] हे पवनपुत्र ! औषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥

चौ०—राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥

उहाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि गृह आवा ॥

श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर पवनपुत्र हनुमान्जी अपना बल बखानकर (अर्थात् मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर) चले । उधर एक गुप्तचरने रावणकी इस रहस्यकी खबर दी । तब रावण कालनेमिके घर आया ॥ ५६ ॥

दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥
देखत तुम्हहि नगरु जेहिं जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥

रावणने उसको सारा मर्म (हाल) बतलाया । कालनेमिने मुना और बार-बार सिर पीटा (खेद प्रकट किया) :। [उसने कहा—] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है ? ॥ २ ॥

भजि रघुपति करु हित आपना । छाँड़हु नाथ मृषा जल्पना ॥
नील कंज तनु सुंदर स्यामा । हृदयँ राखु लोचनाभिरामा ॥

श्रीरघुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ ! झूठी बकवाद छोड़ दो । नेत्रोंको आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम-शरीरको अपने हृदयमें रक्खो ॥ ३ ॥

मैं तैं मोर मूढ़ता त्यागू । महा मोह निसि सूतत जागू ॥
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥

मैं-तू (भेद-भाव) और ममत्तारूपी मूढ़ताको त्याग दो । महामोह (अज्ञान) रूपी रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो । जो कालरूपी सर्पका भी भयक है, कहीं स्वप्नमें भी वह रणमें जीता जा सकता है ? ॥ ४ ॥

चौ०—सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह विचार ।

राम दूत कर मरौं बरु यह खल रत मल भार ॥५६॥

उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ । तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही मरूँ तो अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ ५६ ॥

चौ०—अस कहि चलारचिसि मगमाया । सर मंदिर धर बाग बनाया ॥

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि वृद्धि जलपियौं जाइ श्रम ॥

वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची । तालाब, मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय ॥ १ ॥

राच्छस कपट वेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥

जाइ पवनसुत नायउ माथा । लाग सो कहै राम गुन गाथा ॥

राक्षस वहाँ कपट [से मुनि] का वेष बनाये विराजमान था । वह मूर्ख अपनी

मायासे मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था । मारुतिने उसके पास जाकर मस्तब नवाया । वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २ ॥

होत महा रन रावन रामहिं । जितिहहिं राम न संसय या महिं ।
इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई । ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकारि ।

[वह बोला—] रावण और राममें महान् युद्ध हो रहा है । रामजी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है । हे भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ । मुझे ज्ञानदृष्टिका बहुत बड़ा बल है ॥ ३ ॥

मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अघाउँ थोरें जल ॥
सर मज्जन करि आतुर आवहु । दिच्छ देउँ ग्यान जेहिं पावहु ॥

हनुमान्जीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया । हनुमान्जीने कहा— थोड़े जलसे मैं तृप्त नहीं होनेका । तब वह बोला—तालाबमें स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥ ४ ॥

दो०—सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान ।

मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥

तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमान्जीका पैर पकड़ लिया । हनुमान्जीने उसे मार डाला । तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चढ़कर आकाशको चली ॥ ५७ ॥

चौ०—कपि तव दरस भइउँ निष्पापा । मिटा तात मुनिबर कर सापा ॥

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानहु सत्यवचन कपि मोरा ॥

[उसने कहा—] हे वानर ! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी । हे तात ! श्रेष्ठ मुनि-का शाप मिट गया । हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है । मेरा वचन सत्य मानो ॥ १ ॥

अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥

कह कपि मुनि गुर दछिना लेह । पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देहू ॥

ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमान्जी निशाचरके पास गये । हनुमान्जीने कहा—हे मुनि ! पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये । पीछे आप मुझे मन्त्र दीजियेगा ॥ २ ॥

सिर लंगूर लपेटि पछारा । निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥

राम राम कहि छोड़ेसि प्राणा । सुनि मन हरपि चलेउ हनुमाना ॥

हनुमान्जीने उसके सिरको पूँछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया । मरते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया । उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े । यह (उसके मुँहसे राम-नामका उच्चारण) सुनकर हनुमान्जी मनमें हर्षित होकर चले ॥ ३ ॥

देखा सैल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥

गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥

उन्होंने पर्वतको देखा, पर औषध न पहचान सके । तब हनुमान्जीने एकदमसे पर्वतको ही उखाड़ लिया । पर्वत लेकर हनुमान्जी रातहीमें आकाशमार्गसे दौड़ चले और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ ॥

दो०—देखा भरत विसाल अति निसिचर मन अनुमानि ।

विनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लागि तानि ॥५८॥

भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप, देखा, तब मनमें अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है । उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा ॥५८॥

चौ०—परेउ मुरुछिमहि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥

सुनि प्रियवचन भरत तव धाए । कपिसमीप अति आतुर आए ॥

बाण लगते ही हनुमान्जी 'राम, राम, रघुपति'का उच्चारण करते हुए मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और बड़ी उतावलीसे हनुमान्जीके पास आये ॥ १ ॥

विकल विलोकि कीस उर लावा । जागत नहिं बहु भँति जगावा ॥

मुख मलीन मन भए दुखारी । कहत वचन भरि लोचन वारी ॥

हनुमान्जीको व्याकुल देखकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया । बहुत तरहसे जगाया, पर वे जागते न थे । तब भरतजीका मुख उदास हो गया । वे मनमें बड़े दुःखी हुए और नेत्रोंमें [विपादके आँसुओंका] जल भरकर ये वचन बोले—॥ २ ॥

जेहिं विधि राम विमुख मोहि कीन्हा । तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥

जौं मोरें मन वच अरु काया । प्रीति राम पद कमल अमाया ॥

जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया ।
यदि मन, वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोंमें मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३ ॥

तौ कपि होउ विगत श्रम सूला । जौं मो पर रघुपति अनुकूला ॥
सुनत वचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥

और यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ासे रहित हो जाय ! यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान्जी 'कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो' कहते हुए उठ बैठे ॥ ४ ॥

सो०—लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल ।

प्रीति न हृदयँ समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५६॥

भरतजीने वानर (हनुमान्जी) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका] जल भर आया । रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥

चौ०—तातकुसल कहु सुखनिधानकी । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥

कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥

[भरतजी बोले—] हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख-निधान श्रीरामजीकी कुशल कहो । वानर (हनुमान्जी) ने संक्षेपमें सब कथा कही । सुनकर भरतजी दुखी हुए और मनमें पछताने लगे ॥ १ ॥

अहह देव मैं कत जग जायउँ । प्रभु के एकहु काज न आयउँ ॥

जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥

हा देव ! मैं जगत्में क्यों जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया । फिर कुअवसर (विपरीत समय) जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमान्जीसे बोले—॥२॥

तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥

चढु मम सायक सैल समेता । पठवौं तोहि जहँ कृपानिकेता ॥

हे तात ! तुमको जानेमें देर होगी और सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । [अतः] तुम पर्वतसहित मेरे वाणपर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके घाम श्रीरामजी हैं ॥ ३ ॥

सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरें भार चलिहि किमि वाना ॥

राम प्रभाव विचारि बहोरी । वंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥

भरतजीकी यह बात सुनकर [एक वार तो] हनुमान्जीके मनमें अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोलसे बाण कैसे चलेगा ! [किंतु] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले—॥ ४ ॥

बो०—तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत ।

अस कहि आयसु पाइ पद वंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥

हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा । ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमान्जी चले ॥ ६० (क) ॥

भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार ।

मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥

भरतजीके बाहुबल, शील (सुन्दर स्वभाव), गुण और प्रभुके चरणोंमें अपार प्रेमकी मन-ही-मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमान्जी चले जा रहे हैं ॥ ६० (ख) ॥

बो०—उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥

वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार (समान) वचन बोले—आधी रात बीत चुकी, हनुमान् नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥

मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन हिम आतप दाता ॥

[और बोले—] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा स्वभाव सदासे ही कौमल था । मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और वनमें जाड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया ॥ २ ॥

सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम वच विफलाई ॥

जौं जनतेउँ वन बंधु विछोहू । पिता वचन मनतेउँ नहिं ओहू ॥

शरीर सुन्दर और नीरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणोंसे हीन ही है ॥ ३ ॥

सब निर्दभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।

सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ।

सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान् हैं। सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ (दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले) हैं, कपटचतुराई (धूर्तता) किसीमें नहीं है ॥ ४ ॥

दो०—राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं ।

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ २१ ॥

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये । श्रीरामके राज्यमें जड़, चेतन सारे जगत्में काल, कर्म, स्वभाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते (अर्थात् इनके बन्धनमें कोई नहीं है) ॥ २१ ॥

चौ०—भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥

भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥

अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला (करधनी) वाली पृथ्वीके एकमात्र राजा हैं। जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १ ॥

सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥

सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥

वल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [कि वे सात समुद्रोंसे घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् हैं] उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़जी ! जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीलामें बड़ा प्रेम मानते हैं।

सोउ जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा मुनिवर दमसीला ॥

राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥

क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला (इस लीलाका अनुभव) ही

है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं । रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते ॥ ३ ॥

सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी ॥
एकनारि व्रत रत सब झारी । ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥

सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक हैं । सभी पुरुषमात्र एकपत्नीव्रती हैं । इसी प्रकार स्त्रियाँ भी मन, वचन और कर्मसे पतिका हित करनेवाली हैं ॥ ४ ॥

दो०—दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज ।

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र कें राज ॥ २२ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हाथोंमें है और भेद नाचनेवालोंके नृत्यसमाजमें है और 'जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है (अर्थात् राजनीतिमें शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद—ये चार उपाय किये जाते हैं । रामराज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिये 'जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये कहा जाता है । कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; 'दण्ड' शब्द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; 'भेद' शब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये ही कामोंमें आता है) ॥ २२ ॥

चौ०—फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥

खग मृग सहज वयरु विसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति चढ़ाई ॥

वनमें वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं । हाथी और सिंह [बंद हुए] एक साथ रहते हैं । पक्षी और पशु सभीने स्वाभाविक वर भुलाकर आपसमें प्रेम बंध निरर है ।

कूजहिं खग मृग नाना वृंदा । अभय बरहिं बन बरहिं बन्दि ।

सीतल सुरभि पवन वह मंदा । गुंजत बरहिं लै चलि नन्दन ।

पक्षी कूजते (मीठी बोली बोलते) हैं । शीतल पवन, गुंजते (गुंजते) हैं ।

विचरते और आनन्द करते हैं । शीतल पवन, गुंजते (गुंजते) हैं ।

शरीर सुन्दर
हे और न
सब वि
सब गुण
और गुण
सभी कृत
में नहीं है
दो०—

धनु पय स्रवहीं ॥

जुग कै करनी ॥

गोएँ मनचाहा दूध देती
गयी ॥३॥

॥
॥

जड़, है
नहीं है
ची०-

मा
प्रगु
सो
सोड

घिरी हुई
हे गरुड़जी
सोड जा
राम राज

क्योंकि उस

पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि सुशील विनीता ॥

जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥

शोभाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे कृपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता (महिमा) को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण-कमलोंकी सेवा करती हैं ॥ २ ॥

जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥

निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥

यद्यपि घरमें बहुत-से (अपार) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधि-में कुशल हैं, तथापि [स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली-] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हाथसे करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३ ॥

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥

कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सवन्दि मान मद नाहीं ॥

कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं । घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीता-जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान और मद नहीं है ॥ ४ ॥

उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता । जगदंबा संततमनिदिता ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जगज्जननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा आदि देवताओंसे वन्दिते और सदा अनिन्दित (सर्वगुणसम्पन्न) हैं ॥ ५ ॥

दो०—जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ ।

राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ २४ ॥

देवता जिनका कृपा-कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देरतीं भी नहीं, वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी) अपने [महामहिम] स्वभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥

चो०—सेवहिं सानुकूल सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥

प्रभुमुखकमलत्रिलोकतरहहीं । क्यहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥

सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं । श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी

पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुजार करते जाते हैं ॥ २ ॥

लता विटप मार्गें मधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय स्रवहीं ॥
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी ॥

वेलें और वृक्ष माँगनेसे ही मधु (मकरन्द) टपका देते हैं । गौएँ मनचाहा दूध देती हैं । धरती सदा खेतीसे भरी रहती है । त्रेतामें सत्ययुगकी करनी (स्थिति) हो गयी ॥३॥

प्रगटीं गिरिन्ह विविधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥
सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥

समस्त जगत्के आत्मा भगवान्को जगत्का राजा जानकर पर्वतोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दीं । सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं ॥ ४ ॥

सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥

समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं । वे लहरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं । सब तालाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं । दसों दिशाओंके विभाग (अर्थात् सभी प्रदेश) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५ ॥

चौ०—विधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज ।

मार्गें बारिद देहिं जल रामचंद्र के राज ॥ २३ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [अमृतमयी] किरणोंसे पृथ्वीको पूर्ण कर देते हैं । सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और मेघ माँगनेसे [जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही] जल देते हैं ॥ २३ ॥

चौ०—कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे ॥

श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥

प्रभु श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान दिये । श्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके पालनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, [प्रकृतिजन्य सत्त्व रज और तम] तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों (ऐश्वर्य) में इन्दके समान हैं ॥ २४ ॥

पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि सुसील बिनीता ॥

जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥

शोभाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे कृपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता (महिमा) को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण-कमलोंकी सेवा करती हैं ॥ २ ॥

जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥

निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥

यद्यपि घरमें बहुत-से (अपार) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधि-में कुशल हैं, तथापि [स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हाथोंसे करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३ ॥

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥

कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सवन्हि मान मद नाहीं ॥

कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं । घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीताजी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान और मद नहीं है ॥ ४ ॥

उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता । जगदंबा संततमनिदिता ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जगज्जननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा आदि देवताओंसे वन्दिते और सदा अनिन्दित (सर्वगुणसम्पन्न) हैं ॥ ५ ॥

दो०—जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितवन सोइ ।

राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ २४ ॥

देवता जिनका कृपा-कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं, वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी) अपने [महामहिम] स्वभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥

चौ०—सेवहिं सानुकूल सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥

प्रभु मुखकमल त्रिलोकतरहहीं । कवहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥

सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं । श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी

प्रत्यन्त अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥

राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥
हरषित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥

श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सिखलाते हैं। नगरके लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ (देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य) भोग भोगते हैं ॥ २ ॥

अहनिसि विधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं ॥
दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए । लव कुस बेद पुरान्ह गाए ॥

वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [उनसे] श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं। सीताजीके लव और कुश—ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन किया है ॥ ३ ॥

दोउ बिजई विनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह करे । भए रूप गुन सील घनेरे ॥

वे दोनों ही विजयी (विख्यात योद्धा), नम्र और गुणोंके धाम हैं और अत्यन्त सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों। दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान् और सुशील थे ॥ ४ ॥

दो०—ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार ।

सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५ ॥

जो [वीदिक] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजन्मा हैं तथा माया, मन और गुणोंके परे हैं, वही सच्चिदानन्दघन भगवान् श्रेष्ठ नरलीला करते हैं ॥ २५ ॥

चौ०—प्रातकाल सरजू करि मज्जन । बैठहिं सभाँ संग द्विज सज्जन ॥

बेद पुरान वसिष्ठ बखानहिं । सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं ॥

प्रातःकाल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ सभामें बैठते हैं। वसिष्ठजी वेद और पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ १ ॥

अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं । देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥
भरत सत्रुहन दोनउ भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥

वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं । उन्हें देखकर सभी माताएँ आनन्दसे भर जाती हैं । भरतजी और शत्रुघ्नजी दोनों भाई हनुमान्जीसहित उपवनमें जाकर ॥२॥
बूझहिं बैठि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥
सुनत विमल गुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं ॥

वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमान्जी अपनी सुन्दर बुद्धिसे उन गुणोंमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके बार-बार कहलवाते हैं ॥३॥
सब कें गृह गृह होहिं पुराना । राम चरित पावन विधि नाना ॥
नर अरु नारि राम गुन गानहिं । करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥

सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती है । पुरुष और स्त्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस आनन्दमें दिन-रातका वीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥

दो०—अवधपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज ।
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम विराज ॥ २६ ॥
जहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६ ॥
चा०—नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥

दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । देखि नगरु विरागु विसरावहिं ॥
नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलराज श्रीरामजीके दर्शनके लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस [दिव्य] नगरको देखकर विराग्य भुला देते हैं ॥ १ ॥
जातरूप मनि रचित अटारीं । नाना रंग रुचिर गच ढारीं ॥
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर । रचे कँगूरा रंग रंग वर ॥
[दिव्य] स्वर्ण और रत्नोंसे बनी हुई अटारियाँ हैं । उनमें [मणि-रत्नोंकी]

की सुन्दर ढली हुई फर्शें हैं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना
र सुन्दर रंग-बिरंगे कंगूरे बने हैं ॥ २ ॥
ह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई ॥
बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा ॥
मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो ।
(सड़कों) पर अनेकों रंगोंके (दिव्य) काँचों (रत्नों) की गच बनायी (ढाली)
है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन नाच उठते हैं ॥ ३ ॥
प्रल धाम ऊपर नम चुंबत । कलस मनहुँ रविससिदुति निंदत ॥
हु मन रचित झरोखा भ्राजहिं । गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहिं ॥
उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं । महलोंपरके कलश [अपने
दिव्य प्रकाशसे] मानो सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा (तिरस्कार) करते हैं ।
[महलोंमें] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर-घरमें मणियोंके
दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥
छं०—मनि दीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरीं बिद्रुम रची ।
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे ।
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि खचे ॥
घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं । मूंगोंकी बनी हुई देहलियाँ च
रही हैं । मणियों (रत्नों) के खम्भे हैं । मरकतमणियों (पत्तों) से जड़ी हुई सो
दीवारें ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे बनायी हों । महल सुन्दर, मनोहर
विशाल हैं । उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं । प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खर
हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किवाड़ हैं ।
दो०—चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ ।
राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥
घर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दर
अंकित किये हुए हैं । जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा ले

चौ०—सुमन बाटिका सबहिं लगाई । बिबिध भौंति करि जतन बनाई ॥

लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई ॥

सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी बाटिकाएँ यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत-जातियोंकी सुन्दर और ललित-लताएँ सदा बसंतकी तरह फूलती रहती हैं ॥ १ ॥

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर ॥

नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥

और मनोहर स्वरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती है । बालकोंने बहुत-से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़नेमें सुन्दर लगते हैं ॥ २ ॥

मोर हंस सारस पारावत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥

जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं । बहु विधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥

मोर, हंस, सारस और कबूतर—घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं । वे पक्षी [मणियोंकी दीवारोंमें और छतमें] जहाँ-तहाँ अपनी परछाईं देखकर [वहाँ दूसरे पक्षी समझकर] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं ॥ ३ ॥

सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥

राज दुआर सकल विधि चारु । बीथीं चौहट रुचिर वजारु ॥

बालक तोता, मँनाको पढ़ाते हैं कि कहो—'राम' 'रघुपति' 'जनपालक' । राजद्वार सब प्रकारसे सुन्दर है । गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं ॥ ४ ॥

छं०—बाजार रुचिर न वनइ वरनत वस्तु विनु गथ पाइए ।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥

बैठे बजाज सराफ धनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते ।

सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥

सुन्दर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं वनता; वहाँ वस्तुएँ बिना ही मूल्य मिलती हैं । जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन कैसे किया जाय ? बजाज (कपड़ेका व्यापार करनेवाले), शराफ (रुपये-पैसेका लेन-देन करनेवाले) आदि वणिक्

व्यापारी) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों । स्त्री, पुरुष, बच्चे और जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं ।

१०—उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर ।

बौंधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ २८ ॥

नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है । मोहर घाट बौंधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ॥ २८ ॥

१०—दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥

पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥

अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठट्ट-के-ठट्ट जल या करते हैं । पानी भरनेके लिये बहुत-से [जनाने] घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं; हाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १ ॥

राजघाट सब विधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥

तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥

राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णोंके पुरुष स्नान करते हैं । सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन बगीचे) हैं ॥ २ ॥

चहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥

तीर तीर तुलसिका सुहाई । बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥

नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण, मुनि और संन्यासी निवास करते हैं । सरयूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके झुंड-के-झुंड बहुत-से पेड़ मुनियोंके आश्रय हैं ॥ ३ ॥

पुर सोभा कछु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥

खत पुरी अखिल अध भागा । वन उपवन बापिका तड़ागा ॥

नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती । नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है । शीअयोध्यापुरीके दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं । [वहाँ] वन, उपवन बाव-लेयाँ और तालाब सुशोभित हैं ॥ ४ ॥

छं०—वापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहर्ही ।
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहर्ही ॥
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं ।
आराम रम्य पिकादि खग खव जनु पथिक हंकारहीं ॥

अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [रत्नोंकी] सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनितक मोहित हो जाते हैं । [तालाबोंमें] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरि गुंजार कर रहे हैं । [परम] रमणीय वगीचे कोयल आदि पक्षियोंकी [सुन्दर बोलीसे] मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं ।

दो०—रमानाथ जहँ राजा सो पुर वरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ २६ ॥

स्वयं लक्ष्मीपति भगवान् जहाँ राजा हों, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता है ? अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख-सम्पत्तियां अयोध्यामें छा रही हैं ॥ २९ ॥

चौ०—जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । वैठि परसपर इहइ सिखावहिं ॥

भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि । सोभा सील रूप गुन धामहि ॥

लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते हैं कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप और गुणोंके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १ ॥

जलज विलोचन स्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥

पूत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज वन रवि रनधीरहि ॥

कमलनयन और साँवले शरीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो । सुन्दर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवालेको भजो । संतरूपी कमलवनके [खिलानेके] लिये सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥

काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥

लोभ मोह मृगजूथ किरातहि । मनसिजकरि हरि जन सुखदातहि ॥

कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुड़जीको भजो । निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ-मोहरूपी हरिर्नोके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो । कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥

संसय सोक निबिड़ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥
जनकसुता समेत रघुवीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥

संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजो । राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अग्निको भजो - जन्म-मृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते ? ॥ ४ ॥

बहु वासना मसक हिम रासिहि । सदा एक रस अज अविनासिहि
मुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि

बहुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (बर्फ ढेर) को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजीको भजो । मुनियों आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुलसीदासके उदार (दयालु) स्वा श्रीरामजीको भजो ॥ ५ ॥

दो०—एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान ।

सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ ३०

इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और कृपानि श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० ॥

चौ०—जब ते राम प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेस
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोव

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे पक्षिराज गरुड़जी ! जबसे रामप्रतापरूपी अ प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर गया है । इससे बहुतोंको और बहुतोंके मनमें शोक हुआ ॥ १ ॥

जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसान
अघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचा

जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बखानकर कहता हूँ। [सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे] पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी। पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये ॥ २ ॥

विविध कर्म गुण काल सुभाऊ । ए चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥
मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥

भाँति-भाँतिके [वन्धनकारक] कर्म, गुण, काल और स्वभाव—ये चकोर हैं, जो [रामप्रतापरूपी सूर्यके प्रकाशमें] कभी सुख नहीं पाते। मत्सर (डाह), मान, मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर (कला) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥

धरम तड़ाग ग्यान विग्याना । ए पंकज विकसे विधि नाना ॥
सुख संतोष विराग विवेका । विगत सोक ए कोक अनेका ॥

धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान—ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक—ये अनेकों चकवै शीकरहित हो गये ॥ ४ ॥

दो०—यह प्रताप रवि जाकेँ उर जब करइ प्रकास ।

पछिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥ ३१ ॥

यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है, वे (धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक) बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे (अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि) नाशको प्राप्त होते (नष्ट हो जाते) हैं ॥ ३१ ॥

चौ०—भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥

सुंदर उपवन देखन गए । सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥

एक बार भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमान्जीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये। वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्तोंसे युक्त थे ॥ १ ॥

जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सील सुहाए ॥

ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥

मुअवसर जानकर सनकादि मुनि जाये, जो तेजके पुञ्ज, सुन्दर गुण और शीलसे

युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं। देखनेमें तो वे बालक लगते हैं; परंतु हैं बहुत समयके ॥ २ ॥

रूप धरें जनु चारिउ वेदा । समदरसी मुनि विगत विभेदा ॥
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं ॥

मानो चारों वेद ही बालकरूप धारण किये हों। वे मुनि समदर्शी और भेदरहित हैं। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरघुनाथजीकी चरित्र-कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं ॥ ३ ॥

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिवर ग्यानी ॥
राम कथा मुनिवर बहु वरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी! सनकादि मुनि वहाँ गये थे (वहीसे चले आ रहे थे) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीव्यगस्त्यजी रहते थे। श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे अरणि लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥

श्री०—देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह ।

स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह ॥ ३२ ॥

सनकादि मुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत् की और स्वागत (कुशल) पूछकर प्रभुने [उनके] बैठनेके लिये अपना पीताम्बर त्रिछा दिया ॥ ३२ ॥

श्री०—कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥

मुनिरघुपतिछविअतुलविलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥

फिर हनुमान्जीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत् की; सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्रीरघुनाथजीकी अतुलनीय छवि देखकर उसीमें मग्न हो गये। वे मनको रोक न सके ॥ १ ॥

स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥

एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं ॥

वे जन्म-मृत्यु [के चक्र] से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्दरताके

धाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते । और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं ॥ २ ॥

तिन्ह कै दसा देखि रघुवीरा । खवत नयन जल पुलक सरीरा ॥

कर गहिं प्रभु मुनिवर बैठारे । परम मनोहर वचन उचारे ॥

उनकी [प्रेमविह्वलः] दशा देखकर [उन्हींकी भाँति] श्रीरघुनाथजीके नेत्रोंसे भी प्रेमाश्रुओंका जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया । तदनन्तर प्रभुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंको बैठाया और परम मनोहर वचन कहे—॥ ३ ॥

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥

बड़े भाग पाइव सतसंगा । बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा ॥

हे मुनीश्वरो ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनोंहीसे [सारे] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही भाग्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

दो०—संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ ।

कहहिं संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३३ ॥

संतका सङ्ग मोक्ष (भव-बन्धनसे छूटने) का और कामीका सङ्ग जन्म-मृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है । संत, कवि और पण्डित तथा वेद-पुराण [आदि] सभी सदग्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

चौ०—सुनि प्रभु वचन हरषि मुनिचारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥

जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥

प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकित शरीरसे स्तुति करने लगे— हे भगवन् ! आपकी जय हो । आप अन्तरहित, विकाररहित, पापरहित, अनेक (सब रूपोंमें प्रकट), एक (अद्वितीय) और करुणामय हैं ॥ १ ॥

जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥

जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥

हे निर्गुण ! आपकी जय हो । हे गुणके समुद्र ! आपकी जय हो, जय हो । आप

नवाया । सब भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं । [इसलिये] सब हनुमान्जीकी ओर देख रहे हैं ॥ १ ॥

सुनी चहहिं प्रभु मुख कै बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ।

अंतरजामी प्रभु सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ।

वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो जाता है । अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने लगे—कहो, हनुमान् ! क्या बात है? ॥२॥

जोरि पानि कह तव हनुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवंता ।

नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं । प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं ।

तब हनुमान्जी हाथ जोड़कर बोले—हे दीनदयालु भगवान् ! सुनिये । हे नाथ ! भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ ३ ॥

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ।

सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ।

[भगवान्ने कहा—] हनुमान् ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो । भरतजी और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर (भेद) है ? प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़ लिये [और कहा—] हे नाथ ! हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! सुनिये ॥ ४ ॥

दो०—नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह ।

केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥ ३६ ॥

हे नाथ ! न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्नमें भी शोक और मोह है । कृपा और आनन्दके समूह ! यह केवल आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ ॥

चौ०—करउँ कृपानिधि एक ढिठाई । मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई ।

संतन्ह कै महिमा रघुराई । बहु बिधि वेद पुरानन्ह गाई ।

तथापि हे कृपानिधान ! मैं आपसे एक घृष्टता करता हूँ । मैं सेवक हूँ और आप सेवकको सुख देनेवाले हैं [इससे मेरी घृष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर सुख दीजिये] । हे रघुनाथजी ! वेद पुराणोंने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है ॥ १ ॥

श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ।

सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिंधु गुन ग्यान विचच्छन ।

आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बंड़ाई की है और उनपर प्रभु (आप) का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपाके समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥

संत असंत भेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥

हे शरणागतका पालन करनेवाले ! संत और असंतके भेद अलग-अलग करके मुझको समझाकर कहिये। [श्रीरामजीने कहा—] हे भाई ! संतोंके लक्षण (गुण) असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥

संत असंतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥
काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका आचरण होता है। हे भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षोंको काटना है]; किंतु चन्दन [अपने स्वभाववश] अपना गुण देकर उसे (काटनेवाली कुल्हाड़ीको) सुगन्धसे सुवासित कर देता है ॥ ४ ॥

दो०—ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड ॥ ३७ ॥

इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोंपर चढ़ता है और जगत्का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं।

चो०—विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥

सम अभूतरिपु विमद विरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी ॥

संत विषयोंमें लंपट (लिप्त) नहीं होते, शील और सद्गुणोंकी खान होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। वे [सबमें, सर्वत्र, सब समय] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, वे मदसे रहित और वराग्यवान् होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १ ॥

कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥

सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥

उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्मसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान-रहित होते हैं। हे भरत ! वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ २ ॥

विगत काम मम नाम परायण । सांति विरति विनती मुदितायन ॥
सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥

उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नामके परायण होते हैं। शान्ति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणके चरणोंमें प्रीति होती है, जो धर्मोंको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥

ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं ॥

हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम (मनके निग्रह), दम, (इन्द्रियोंके निग्रह), नियम और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४ ॥

दो०—निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८ ॥

जिन्हें निन्दा और स्तुति (बड़ाई) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें जिनकी ममता है, वे गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ ३८ ॥

ची०—सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ । भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ ॥

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि धालइ हरहाई ॥

अब असंतों (दुष्टों) का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये। उनका संग सदा दुःख देनेवाला होता है। जैसे हरहाई (बुरी जातिकी) गाय कपिला (सीधी और दुधार) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥ १ ॥

खलन्ह हृदयँ अति ताप बिसेषी । जरहिं सदा पर संपति देखी ॥

जहँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई । हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥

दुष्टोंके हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति (सुख) देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित

होते हैं, मानो रास्तेमें पड़ी निधि (खजाना) पा ली हो ॥ २ ॥

काम क्रोध मद लोभ परायण । निर्दय कपटी कुटिल मत्तायन ॥

वयरु अकारन सब काहू सों । जो कर हित अनहित ताहू सों ॥

वे काम, क्रोध, मद और लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापोंके धर होते हैं । वे बिना ही कारण सब किसीसे वर किया करते हैं । जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ३ ॥

भूठइ लेना भूठइ देना । भूठइ भोजन भूठ चवेना ॥

बोलहिं मधुर वचन जिमिमोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥

उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है । झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है (अर्थात् वे लेने-देनेके व्यवहारमें झूठका आश्रय लेकर दूसरोंका हक मार लेते हैं अथवा झूठी डोंग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका दान कर दिया । इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आये । अथवा चवेना चवाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे वीरग्य है, इत्यादि । मतलब यह कि वे सभी बातोंमें झूठ ही बोला करते हैं) । जैसे मोर [बहुत मीठा बोलता है, परंतु उस] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान् विपत्तियोंको भी खा जाता है । वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते हैं [परंतु हृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं] ॥ ४ ॥

दो०—पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ।

ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ३६ ॥

वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं और परायी स्त्री, परायी धन तथा परायी निन्दामें आसक्त रहते हैं । वे पामर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ ३९ ॥

चौ०—लोभइ ओढ़न लोभइ डसन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥

काहू की जौं सुनहिं बड़ाई । स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥

लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही विछोना होता है (अर्थात् लोभहीसे वे सदा धिरे हुए रहते हैं) । वे पशुओंके समान आहार और मंथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें

यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी [दुःखभरी] साँस लेते हैं, मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १ ॥

जब काहू के देखहिं विपती । सुखी भए मानहुँ जग नृपती ।
स्वारथ रत परिवार विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ।

और जब किसीकी विपत्ति-देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत्भरके राज हो गये हों । वे स्वार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम और लोभके कारण लंपट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २ ॥

मातु पिता गुरु विप्र न मानहिं । आपु गए अरु घालहिं आनहिं ।
करहिं मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ।

वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते । आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं [साथ ही अपने सङ्गसे] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । मोहवश दूसरोसे द्रोह करते हैं उन्हें न संतोंका सङ्ग अच्छा लगता है, न भगवान्की कथा ही सुहाती है ॥ ३ ॥

अवगुन सिंधु मंदमति कामी । वेद विदूषक परधन स्वामी ।
विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा । दंभ कपट जियँ धरें सुबेषा ॥

वे अवगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी (रागयुक्त), वेदोंके निन्दक और जबर्दस्ती परायें धनके स्वामी (लूटनेवाले) होते हैं । वे दूसरोसे द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण-द्रोह विशेषतासे करते हैं । उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता है । परंतु वे [ऊपरसे] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं ।

द्वापर कछुक बृंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं ॥ ४० ॥

ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते । द्वापरमें थोड़े-से होंगे और कलियुगमें तो इनके झुंड-के-झुंड होंगे ॥ ४० ॥

चौ०—पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥

निर्नय सकल पुरान वेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोविद नर ॥

हे भाई ! दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके

समान कोई नीचता (पाप) नहीं है। हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय (निश्चित सिद्धान्त) मैंने तुमसे कहा है, इस बातको पण्डितलोग जानते हैं ॥ १ ॥

नर सरोर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥
करहि मोह वस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥

मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुंचाते हैं, उनको जन्म-मृत्युके महान् संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है ॥ २ ॥

कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥
अस विचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि संसृत दुख जाने ॥

हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप (भयंकर) हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मोंका [यथायोग्य] फल देनेवाला हूँ। ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार [के प्रवाह] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं ॥ ३ ॥

त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥
संत असंतन्ह के गुन भाषे । तेन परहि भव जिन्ह लिखि राखे ॥

इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मोंको त्यागकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके नायक मुझको भजते हैं। [इस प्रकार] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे। जिन लोगोंने इन गुणोंको समझ रखा है, वे जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ते ॥ ४ ॥

दो०—सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक ।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविवेक ॥ ४१ ॥

हे तात ! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक (सब) गुण और दोष हैं (इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है)। गुण (विवेक) इसीमें है कि दोनों ही न देखे जायें; इन्हें देखना यही अविवेक है ॥ ४१ ॥

चो०—श्रीमुख वचन सुनत सब भाई । हरषे प्रेम न हृदयँ समाई ॥

करहि विनय अति वारहि वारा । हनुमान हियँ हरष अपारा ॥

भगवान्‌के श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गये। प्रेम उनके हृदयोंमें समाता नहीं। वे बार-बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान्‌जीके हृदयमें अपार हर्ष है।

मुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि विधि चरित करत नित नए ॥
बार बार नारद मुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये । इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते हैं । नारदमुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं ॥२॥

नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥
मुनि त्रिरन्धि अतिसय सुखमानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥

मुनि यहाँसे नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोकमें जाकर सब कथा कहते हैं । ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [और कहते हैं—] हे तात ! बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो ॥ ३ ॥

सनकादिक नारदहि सराहहिं । जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं ॥
मुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥

सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं । यद्यपि वे (सनकादि) मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं । वे [रामकथा सुननेके] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४ ॥

दो०—जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान ।

जे हरि कथाँ न करहिं रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२ ॥

सनकादि मुनि-जैसे जीवनमुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (ब्रह्मसमाधि) छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते हैं । यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं करते, उनके हृदय [सचमुच ही] पत्थर [के समान] हैं ॥ ४२ ॥

चौ०—एक बार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज पुरवासी सब आए ॥

बैठे गुर मुनिअरुद्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥

एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर-निवासी सभामें आये । जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गये, तब भक्तोंके जनम-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोले—॥ १ ॥

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥

नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥

हे समस्त नगरनिवासियो ! मेरी बात सुनिये । यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ । न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है । इसलिये [संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर] मेरी बातोंको सुन लो और [फिर] यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो ॥ २ ॥

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानै जोई ॥

जौं अनीति कछु भाषौं भाई । तौ मोहि बरजहु भय विसराई ॥

वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने । हे भाई ! यदि मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय मुलाकर (वेखटके) मुझे रोक देना ॥ ३ ॥

बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥

बड़े भाग्यसे यह मनुष्य-शरीर मिला है । सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह शरीर देवताओंको भी दुर्लभ है (कठिनतासे मिलता है) । यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है । इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, ॥ ४ ॥

दो०—सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

काल्हि कर्माहि ईश्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥ ४३ ॥

वह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [अपना दोष न समझकर] कालर, कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३ ॥

चौ०—एहितनकर फल विषयन भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥

नर तनु पाइ विषयँ मन देहीं । पलटि सुधाते सठ विपलेहीं ॥

हे भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं है । [इस जगत्के भोगोंकी तो बात ही क्या] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला है । अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयोंमें मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं ॥ १ ॥

ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई ॥

आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी

जो पारस मणिको छोकर बदलेमें धुंधची ले लेता है, उसको क

(बुद्धिमान्) नहीं कहता । यह अविनाशी जीव [अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज्ज] चार खानों और चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर लगाता रहता है ॥ २ ॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥
कवहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥

मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा हुआ (इनके वशमें हुआ) यह सदा भटकता रहता है । बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं ॥ ३ ॥

नर तनु भव वारिधि कहुँ बेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥
करनधार सद्गुर दृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥

यह मनुष्यका शरीर भवसागर [से तारने] के लिये बेड़ा (जहाज) है । मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार (खेनेवाले) हैं । इस प्रकार दुर्लभ (कठिनतासे मिलनेवाले) साधन सुलभ होकर (भगवत्कृपासे सहज ही) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥ ४ ॥

दो०—जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ ।

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ४४ ॥

जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतघ्न और मन्दबुद्धि है और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥

जी०—जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनिमम बचन हृदयँ दृढ़ गहहू ॥

सुलभसुखदमारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥

यदि परलोकमें और यहाँ [दोनों जगह] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदयमें दृढ़तासे पकड़ रखो । हे भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया है ॥ १ ॥

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥

ज्ञान अगम (द्रागम) है, [और] जसकी पापिनियों अनेकों विना है ।

साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्तिरहित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २ ॥

भक्तिसुतंत्र सकल सुख खानी । विनु सतसंग न पावहिं प्राणी ॥
पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥

भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खान है। परन्तु सत्सङ्ग (संतोंके सङ्ग) के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति (जन्म-मरणके चक्र) का अन्त करती है ॥ ३ ॥

पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा ॥

जगत्में पुण्य एक ही है [उसके समान] दूसरा नहीं। वह है—मन, कर्म और वचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना। जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ॥ ४ ॥

दो०—औरत एक गुप्त मत सवहिं कहउँ कर जोरि ।

संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि ॥ ४५ ॥

और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५ ॥

दो०—कहहु भगतिपथकवनप्रयासा । जोगनमख जपतपउपवासा ॥
सरल सुभावन मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदाई ॥

कहो तो, भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है? इसमें-न योगकी आवश्यकता है, न जप, तप और उपवासकी! [यहाँ इतना ही आवश्यक है कि] सरल स्वभाव हो, मैं कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसीमें सदा संतोष रखे ॥ १ ॥

र दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा विस्वासा ॥
त कहउँ का कथा वढाई । एहि आचरन वस्य मैं भाई ॥

मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्हीं कहो, उसका विश्वास है? (अर्थात् उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है)। बहुत बात बढ़ाकर कहूँ? हे भाइयो! मैं तो इसी आचरणके वशमें हूँ ॥ २ ॥

म विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
 आरंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥
 न किसीसे वैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे । उसके
 लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं । जो कोई भी आरम्भ (फलकी इच्छासे कर्म) नहीं
 करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है (जिसकी घरमें ममता नहीं है) ; जो मानहीन,
 पापहीन और क्रोधहीन है, जो [भक्ति करनेमें] निपुण और विज्ञानवान है ॥ ३ ॥
 प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥
 भगति पच्छ हठनहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥

संतजनोंके संसर्ग (सत्सङ्ग) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँ तक
 कि स्वर्ग और मुक्तितक [भक्तिके सामने] तृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें हठ
 करता है, पर [दूसरेके मतका खण्डन करनेकी] मूर्खता नहीं करता तथा जिसने स
 कुतर्कोंको दूर बहा दिया है, ॥ ४ ॥

दो०—मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।
 ता कर सुख सोइ जानइ परमानंद संदोह ॥ ४ ॥
 जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद और मोहसे
 है, उसका सुख वही जानता है, जो [परमात्मारूप] परमानन्दराशिको प्राप्त है ॥

चौ०—सुनत सुधासम वचन राम के । गहे सबनि पद कृपाधाम
 जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपा निधान प्रान ते
 श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण
 [और कहा—] हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब
 प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ ५ ॥

तनु धनु धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह प्रनता
 असि सिखतुम्ह विनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वार्थ
 और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही हमारे
 द्वार और सभी प्रकारसे हित करनेवाले हैं । ऐसी शिक्षा आपके अ

दे सकता । माता-पिता [हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं] परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं [इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते] ॥ २ ॥

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥

हे असुरोंके शत्रु ! जगत्में बिना हेतुके (निःस्वार्थ) उपकार करनेवाले तो दो ही हैं—एक आप, दूसरे आपके सेवक । जगत्में [शेष] सभी स्वार्थके मित्र हैं । हे प्रभो ! उनमें स्वप्नमें भी परमार्थका भाव नहीं है ॥ ३ ॥

सब के वचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदयँ हरषाने ॥
निज निज गृह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥

सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हर्षित हुए । फिर आज्ञा पाकर सब प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥

दो०—उमा अवधवासी नर नारि कृतारथ रूप ।

ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप ॥ ४७ ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! भयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थस्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥ ४७ ॥

चौ०—एक बार बसिष्ठ मुनि आए । जहाँ राम सुखधाम सुहाए ॥

अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद परखारि पादोदक लीन्हा ॥

एक बार मुनि बसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे । श्रीरघुनाथजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर परंपामृत लिया ॥ १ ॥

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु विनती कहु मोरी ॥

देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदयँ अपारा ॥

मुनिने हाथ जोड़कर कहा—हे कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती हुईने । आपके आचरणों (मनुष्योचित चरित्रों) को देख-देखकर मेरे हृदयमें मोह होता है ॥ २ ॥

महिमा अमिति बेद नहिं जाना । मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना ॥
उपरोहित्य कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥

हे भगवन् ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ ? पुरोहितीका कर्म (पेशा) बहुत ही नीचा है । वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ३ ॥

जब न लेउँ मैं तब विधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल भूषण भूपा ॥

जब मैं उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम) नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मुझे कहा था—हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा । स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य-रूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होगे ॥ ४ ॥

दो०—तब मैं हृदयँ विचारा जोग जग्य व्रत दान ।

जा कहूँ करिअ सो पैहउँ धर्म न एहि सम आन ॥ ४८ ॥

तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८ ॥

चौ०—जपतपनियमजोगनिजधर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥

ग्यानदया दम तीरथ मज्जन । जहँलगि धर्म कहत श्रुतिसज्जन ॥

जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [वर्णाश्रमके] धर्म, श्रुतियोंसे उत्पन्न (वेदविहित) बहुत-से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह), तीर्थस्नान आदि जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [उनके करनेका] ॥ १ ॥

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥

तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥

[तथा] हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलोंमें सदा-सर्वदा प्रेम हो ॥ २ ॥

छूटइ मल कि मलहि के धोएँ । घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥

प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥

मैलसे घोनेसे क्या मैल छूटता है ? जलके मघनेसे क्या कोई धी पा सकता है ?
[उसी प्रकार] हे रघुनाथजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [निर्मल] जलके बिना अन्तःकरणका
मल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रति होई ॥

वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ और पण्डित है, वही गुणोंका घर और अखण्ड विज्ञानवान्
है, वही चतुर और सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोंमें प्रेम है ॥ ४ ॥

दो०—नाथ एक वर मागउँ राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जनि नेहु ॥ ४६ ॥

हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये । प्रभु
(आप) के चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ ४६ ॥

चौ०—अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए ॥

हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥

ऐसा कहकर मुनि वसिष्ठजी घर आये । वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत
ही अच्छे लगे । तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमान्जी तथा भरतजी आदि
भाइयोंको साथ लिया ॥ १ ॥

पुनि कृपाल पुर बाहेर गए । गज रथ तुरग मगावत भए ॥

देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥

और फिर कृपालु श्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और
घोड़े मँगवाये । उन्हें देखकर, कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना की और उनको जिस-जिसने
चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ २ ॥

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ सीतल अवैराई ॥

भरत दीन्ह निज वसन डसाई । बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥

संसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [हाथी, घोड़े आदि वांटनेमें] श्रमका
अनुभव किया और [श्रम मिटानेको] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई (आमोंका वगी)

थी । वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया । प्रभु उसपर बैठ गये और सब भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥

मारुतसुत तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥

हनूमान सम नहिं बड़भागी । नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥

उस समय पवनपुत्र हनुमान्जी पवन (पंखा) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया [शिवजी कहने लगे—] हे गिरिजे ! हनुमान्जीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [स्वयं] प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है ॥ ४-५ ॥

दो०—तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन ।

गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन ॥ ५० ॥

उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुये आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे ॥ ५० ॥

चौ०—मामवलोक्य पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥

नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥

कृपापूर्वक देख लेने मात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये (मुझपर भी कृपादृष्टि कीजिये) । हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमलके मकरन्द (प्रेम-रस)के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥ १॥

जातुधान बरुथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥

भूसुर ससि नव वृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥

आप राक्षसोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं । मुनियों और संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंके नाश करनेवाले हैं । ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह हैं और शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंको अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं ॥ २ ॥

भुज बल विपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध बध पंडित ॥

रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥

अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले खर, दशरथ और विराध

वध करनेमें कुशल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥ ३ ॥

सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुणीक व्यलीक मद खंडन । सब विधि कुसल कोसला मंडन ॥

आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें और तन्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है । देवता, मुनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं । आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल (निपुण) और श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥

कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥

आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला है । हे तुलसीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

चौ०—प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुन ग्राम ।

सोभासिंधु हृदयँ धरि गए जहाँ विधि धाम ॥ ५१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र प्रभुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है, वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥

चौ०—गिरिजासुनहु विसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥

राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न वरनै पारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी, वैसी पूरी कह डाली । श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [अथवा] अपार हैं । श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥

राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म कर्म अनंत नामानी ॥

जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न वरनि सिराहीं ॥

भगवान् श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त है । जलकी बूँदें और पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरघुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २ ॥

विमल कथा हरि पद दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥

उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥

थी । वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र विछा दिया । प्रभु उसपर बैठ गये और सब भाई उनव सेवा करने लगे ॥ ३ ॥

मारुतसुत तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ।
हनूमान सम नहिं बड़भागी । नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ।
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ।

उस समय पवनपुत्र हनुमान्जी पवन (पंखा) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया [शिवजी कहने लगे—] हे गिरिजे ! हनुमान्जीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है जिनके प्रेम और सेवाकी [स्वयं] प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है ॥ ४-५ ॥

दो०—तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल वीन ।

गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन ॥ ५० ॥

उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुये आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे ॥ ५० ॥

चौ०—मामवलोक्य पंकज लोचन । कृपा बिलोकनिसोच विमोचन ॥

नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥

कृपापूर्वक देख लेने मात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये (मुझपर भी कृपादृष्टि कीजिये) । हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमलके मकरन्द (प्रेम-रस)के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥ १ ॥

जातुधान बरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अथ गंजन ॥

भूसुर ससि नव वृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥

आप राक्षसोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं । मुनियों और संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंके नाश करनेवाले हैं । ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये आप नये भेषसमूह हैं और शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंको अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं ॥ २ ॥

भुज बल विपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध बध पंडित ॥

रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥

अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और विराधके

वध करनेमें कुशल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥ ३ ॥

सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥

कारुणीक व्यलीक मद खंडन । सब विधि कुसल कोसला मंडन ॥

आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें और तन्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है । देवता, मुनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं । आप करुणा करनेवाले और झूठे मंदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल (निपुण) और श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥

कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥

आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला है । हे तुलसीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

दो०—प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुन ग्राम ।

सोभासिंधु हृदयँ धरि गए जहाँ विधि धाम ॥ ५१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र प्रभुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है, वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥

चौ०—गिरिजासुनहु विसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥

राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न वरनै पारा ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी, वैसी पूरी कह डाली । श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [अथवा] अपार हैं । श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥

राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म कर्म अनंत नामानी ॥

जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न वरनि सिराहीं ॥

भगवान् श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं । जलकी बूँदें और पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरघुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २ ॥

बिमल कथा हरि पद दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥

उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खंगपति सुनाई ॥

वह पवित्र कथा भगवान्‌के परमपदको देनेवाली है। इसके सुननेसे अविचल
प्त होती है। हे उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही, जो काकभुण्डिजीने
को सुनायी थी ॥ ३ ॥
राम गुण कहेँ बखानो। अब का कहीं सो कहहु भवानी ॥

सुम कथा उमा हरषानी। बोली अति विनीत मृदु बानी ॥
मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी ! सो कहो अब
र क्या कहूँ ? श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुई और अत्यन्त
नम्र तथा कोमल वाणी बोलों ॥ ४ ॥
धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेँ राम गुण भव भय हारी ॥
हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य-धन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करने-
वाले श्रीरामजीके गुण (चरित्र) सुने ॥ ५ ॥

दो०—तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।
जानेँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥
हे कृपाघाम ! अब आपकी कृपासे मैं कृतकृत्य हो गयी। अब मुझे मोह नहीं रह गया।
हे प्रभु ! मैं सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ (क) ॥
नाथ तवानन ससि खवत कथा सुधा रघुवीर।
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिँ अघात मतिधीर ॥ ५२ (ख) ॥

हे नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता
हे मतिधीर ! मेरा मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ (ख) ॥
बो०—रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस विशेष जाना तिन्ह नाह
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुण सुनहिँ निरंतर ते
श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं (बस कर देते हैं)।
तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवनमुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवा
निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥
भद्र सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहँ दृढ
विषइन्ह कहँ पुनि हरि गुण ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अति

जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा दूढ़ नौकाके समान है। श्रीहरिके गुणसमूह तो विपयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २ ॥

श्रवणवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥

जगत्में कानवाला ऐसा कौन है, जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्रीरघुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमिति सुख पावा ॥
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥

हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी—॥४॥

दो०—विरति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह ।

वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥

सो कोएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त है, इस बातका मुझे परम संदेह हो रहा है ॥ ५३ ॥

चौ०—नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी ॥

धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय विमुख विराग रत होई ॥

हे त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके व्रतका धारण करनेवाला होता है और करोड़ों धर्मात्मानोंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंका त्यागी) और वैराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई ॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥

श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक सम्यक् (यथायं) ज्ञानको प्राप्त

यह पवित्र कथा भगवान्‌के परमपदको देनेवाली है। इसके सुननेसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही, जो काकभुशुण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी ॥ ३ ॥

कलुक राम गुन कहेउँ बखानो । अब का कहौं सो कहहु भवानी ॥
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोली अति विनीत मृदु बानी ॥

मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी ! सो कहो अब और क्या कहूँ ? श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुई और अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोली ॥ ४ ॥

धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी । सुनेउँ राम गुन भव भय हारी ॥

हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य-धन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करनेवाले श्रीरामजीके गुण (चरित्र) सुने ॥ ५ ॥

दो०—तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह ।

जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥

हे कृपाधाम ! अब आपकी कृपासे मैं कृतकृत्य हो गयी। अब मुझे मोह नहीं रह गया हे प्रभु ! मैं सच्चिदानन्दधन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ (क) ॥

नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुवीर ।

श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिँ अघात मतिधीर ॥ ५२ (ख) ॥

हे नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है हे मतिधीर ! मेरा मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ (ख) ॥

दो०—रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ।

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहिँ निरंतर तेऊ ।

श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं (बस कर देते हैं), उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवनमुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान्‌के गुण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥

भय सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहँ दृढ़ नावा
विषइन्ह कहँ पुनि हरि गुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा

जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा दूढ़ नौकाके समान है। श्रीहरिके गुणसमूह तो विषयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देने-वाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २ ॥

श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहिन रघुपति चरित सोहाहीं ॥
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥

जगत्में कानवाला ऐसा कौन है, जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्रीरघुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करने-वाले हैं ॥ ३ ॥

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ॥
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंडि गरुड प्रति गाई ॥

हे नाथ ! आपने श्रीरामचरित्रमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजीने गरुडजीसे कही थी—॥४॥
दो०—विरति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह ।

वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥
सो कौएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वंराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त है, इस बातका मुझे परम संदेह हो रहा है ॥ ५३ ॥

चौ०—नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी ॥
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय विमुख विराग रत होई ॥

हे त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके व्रतका धारण करनेवाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंका त्यागी) और वंराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई ॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥

श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक सम्यक् (यथायं) ज्ञानको प्राप्त

है। और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है। जगत्में कोई विरला सा (जीवन्मुक्त) होगा ॥ २ ॥

ह सहस्र महँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्म लीन विग्यानी ॥
 र्सील विरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी ॥

हजारों जीवन्मुक्तोंमें भी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विज्ञानवान् पुरुष और जो दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान्, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन—॥ ३ ॥

सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥
 सो हरि भगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥

इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है जो मद और मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो। हे विश्वनाथ ! ऐसी दुर्लभ हरि-भक्तिको कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये ॥ ४ ॥

दो०—राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर ।
 नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४ ॥

हे नाथ ! कहिये, [ऐसे] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणघाम और धीरबुद्धि भुशुण्डिजीने कौएका शरीर किस कारण पाया ? ॥ ५४ ॥

चौ०—यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहँ पावा
 तुम्ह केहि भाँति सुनामदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी

हे कृपालु ! बताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया और हे कामदेवके शत्रु ! यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है ॥ १ ॥

गरुड़ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निव
 तेहिं केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर बि

गरुड़जी तो महान् ज्ञानी, सद्गुणोंकी राशि, श्रीहरिके सेवक और उनके निकट रहनेवाले (उनके वाहन ही) हैं। उन्होंने मुनियोंके समूहको छोड़कर, कौए हरिकथा किस कारण सुनी ? ॥ २ ॥

कहहु कवन विधि भा संवादा । दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥

कहिये, काकभुशुण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत किस प्रकार हुई ?
पार्वतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले—

धन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ॥

हे सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है । श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें
तुम्हारा कम प्रेम नहीं है (अत्यधिक प्रेम है) । अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे
सुननेसे सारे लोकके भ्रमका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥

उपजइ राम चरन विस्वासा । भव निधि तर नर विनहिं प्रयासा ॥

तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम
संसाररूपी समुद्रसे तर जाता है ॥ ५ ॥

दो०—ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्ह काग सन जाइ ।

सो सब सादर कहिहउँ सुनहु उमा मन लाइ ॥ ५५ ॥

पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकभुशुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये थे । हे
उमा ! मैं वह सब आदरसहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५ ॥

धौ०—मैंजिमिकथासुनीभवमोचनि । सोप्रसंगसुनुसुमुखिसुलोचनि ॥

प्रथमदच्छ गृह तव अवतारा । सती नाम तव रहा तुम्हारा ॥

मैंने जिस प्रकार वह भव (जन्म-मृत्यु) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी !
हे सुलोचनी ! वह प्रसङ्ग सुनो । पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था । तब तुम्हारा
नाम सती था ॥ १ ॥

दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तव प्राणा ॥

मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥

दक्षके यज्ञमें तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग
दिये थे और फिर मेरे सेवकोंने यज्ञ विध्वंस कर दिया था । वह सारा प्रसङ्ग जानती
ही हो ॥ २ ॥

तब अति सोच भयउ मन मोरें । दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें ॥
सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरउँ बेरागा ॥

तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ और हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया । मैं विरक्तभावसे सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक (दृश्य) देखता फिरता था ॥ ३ ॥

गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥
तासु कनकमय सिखर सुहाए । चारि चारु मोरे मन भाए ॥

सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है । उसके सुन्दर सुवर्णमय शिखर हैं, [उनमेंसे] चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे लगे ॥ ४ ॥

तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥
सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥

उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर और आमका एक-एक विशाल वृक्ष है । पर्वतके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित है, जिसकी मणियोंकी सीढियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ ५ ॥

दो०—सीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग ।

कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग ॥ ५६ ॥

उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है; उसमें रंग-विरंगे बहुत-से कमल खिले हुए हैं । हंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥

चौ०—तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥

माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिवेका ॥

उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी (काकभुशुण्डि) बसता है । उसका नाश कल्पके अन्तमें भी नहीं होता । मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अबिवेक ॥ १ ॥

रहे ब्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरिनिकट कबहुँ नहिं जाहीं ॥

तहँ बसि हरिहि भजइ जिमिकागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥

जो सारे जगत्में छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बसकर

जिस प्रकार वह काक हरिको भजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जग्य पाकरि तर करई ॥
आँव छँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजनु काजु नहिँ दूजा ॥

वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान धरता है । पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है । आमकी छायामें मानसिक पूजा करता है । श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दृष्ट्य कोई काम नहीं है ॥ ३ ॥

वर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिँ सुनहि अनेक विहंगा ॥
राम चरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥

वरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसङ्ग कहता है । वहाँ बनेकों पक्षी याते और कथा सुनते हैं । वह विचित्र रामचरित्रकी बनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४ ॥

सुनिहिँ सकल मति विमल मराला । बसहिँ निरंतर जे तेहिँ ताला ॥
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा । उर उपजा आनंद त्रिसेपा ॥

सब निमल बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं । जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक (दृश्य) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥

दो०—तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निदास ।

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास ॥ ५७ ॥

तब मैंने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निदास किया और श्रीरघुनाथजीके गुणोंको आदरसहित सुनकर फिर कैलासको लौट आया ॥ ५७ ॥

चौ०—गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहि सनय गयउँ लग पासा ॥

अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गयउ काग पहिँ लग कुल केतू ॥

हे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक-सृष्टिपिंडके पास गया था । अब वह कथा सुनी जिस कारणसे पक्षिवृत्तके ध्वजा गच्छजी उस काकके पास गये थे ।

जब रघुनाथ कीन्हि रन घ्रीड़ा । समुद्रत चरित होति मोहि व्रीड़ा ॥

इंद्रजीन पर आपु वैथायो । तब नारद मुनि गयउ कथा ॥

जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे मुझे लज्जा होती है—मेघनादके हाथों अपनेको बँधा लिया—तब नारदमुनिने गरुड़को भेजा ॥ २ ॥

बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृदयँ प्रचंड विषादा ॥
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती । करत विचार उरग आराती ॥

सर्पोंके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ । प्रभुके बन्धनको स्मरण करके सर्पोंके शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार करने लगे—॥ ३ ॥

व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥
सो अवतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥

जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत्में उन्हींका अवतार है । पर मैंने उस (अवतार) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा ॥ ४ ॥

दो०—भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम ।
खर्व निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥

जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक तुच्छ राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया ॥ ५८ ॥

चो०—नाना भाँति मनहि समुभावा । प्रगट न ग्यान हृदयँ भ्रम छावा ॥
खेद खिन्न मन तर्क बढाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ॥

गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया । पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदयमें भ्रम और भी अधिक छा गया । [संदेहजनित] दुःखसे दुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोहवश हो गये ॥ १ ॥

व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै माया ॥

व्याकुल होकर वे देवरिषि नारदजीके पास गये और मनमें जो संदेह था, वह उनसे कहा । उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी । [उन्होंने कहा—] हे गरुड़ ! सुनिये । श्रीरामजीकी माया बड़ी ही बलवती है ॥ २ ॥

जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई बिमोह मन करई ॥

जेहि बहु वार नचावा मोही । सोइ व्यापी बिहंगपति तोही ॥

जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाँति हरण कर लेती है और उनके मनमें जबदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षिराज ! वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ ३ ॥

महामोह उपजा उर तोरें । मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें ॥

चतुरानन पहि जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥

हे गरुड़ ! आपके हृदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है । यह मेरे समझानेसे तुरंत नहीं मिटेगा । अतः हे पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥

दो०—अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान ।

हरि माया बल वरन्त पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५६ ॥

ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए और बारंबार श्रीहरिकी मायाका बल वर्णन करते हुए चले ॥ ५६ ॥

चौ०—तब खगपति विरंचि पहिं गयऊ । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥

सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुद्रि प्रताप प्रेम अति छादा ॥

तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना संदेह उन्हें कह सुनावा । उसे सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापको समझकर उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ ॥

मन महुँ करइ विचार विधाता । माया बस कवि कोविद ग्याता ॥

हरि माया कर अमिति प्रभावा । विपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥

ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके बन्ध हैं । भगवान्की मायाका प्रभाव असीम है, जिसने मुझतकको अनेकोंबार नचाया है ॥ २ ॥

अग जगमय जग मम उपराजा । नहिं आचरज मोह रु ॥

तब बोले विधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्र ॥

यह सारा चराचर जगत् तो मेरा रचा हुआ है । जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चर्य [की बात] नहीं है । तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले—श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ ॥

बैनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥
तहँ होइहि तव संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥

हे गरुड़ ! तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात ! और कहीं-किसीसे न पूछना । तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा । ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये ॥ ४ ॥

दो०—परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास ।

जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥ ६० ॥

तब बड़ी आतुरता (उतावली) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । हे उमा ! उस समय मैं कुबेरके घर जा रहा था और तुम कैलासपर थीं ॥ ६० ॥

ची०—तेहिं मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥

सुनि ता करि विनती मृदु बानी । प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी ॥

गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया । हे भवानी ! उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा—॥ १ ॥

मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही । कवन भाँति समुझावौं तोही ॥

तबहिं होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥

हे गरुड़ ! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ? सब सन्देहोंका तो तभी नाश हो जब दीर्घकालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २ ॥

सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥

जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥

और वहाँ (सत्सङ्गमें) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकारसे गाया है और जिसके आदि, मध्य और अन्तमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥ ३ ॥

नित हरि कथा होत जहँ भाई । पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥
जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा ॥

हे भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो । उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥

दो०—विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग ।

मोह गएँ विनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥

सत्सङ्गके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके विना मोह नहीं भागता और मोहके गये विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दृढ़ (अचल) प्रेम नहीं होता ।

ची०—मिलहिं नरघुपतिविनु अनुरागा । किएँ जोगतप ग्यानविरागा ॥

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहँ रह काकभुसुंडिसुसीला ॥

विना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान और बंराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते । [अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहाँ जाओ, जहाँ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है; वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं ॥ १ ॥

राम भगति पथ परम प्रवीना । ग्यानी गुन गृह बहु कालीना ॥

राम कथा सो कहइ निरन्तर । सादर सुनहिं विविध विहंगवर ॥

वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम हैं, और बहुत कालके हैं । वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥

जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥

मैं जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरपि मम पद सिरु नाई ॥

वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंको सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा । मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया ॥ ३ ॥

ताते उमा न मैं समुझावा । रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा ॥

होइहि कीन्ह कवहुँ अभिमाना । सो खोवै चह कृपानिधाना ॥

हे उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं श्रीरघुनाथजीकी कृपासे उसका मर्म (भेद) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिघान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४ ॥

कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा । समुझइ खग खगही कै भाषा ॥
प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥

फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं । हे भवानी ! प्रभुकी माया [बड़ी ही] बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले ? ॥ ५ ॥

दो०—ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान ।

ताहि मोह माया नर पावँर करहिं गुमान ॥ ६२(क) ॥

जो ज्ञानियोंमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान्के वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश धमंड किया करते हैं ॥ ६२ (क) ॥

मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम

सिव विरंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन ।

अस जियँ जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥

यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है ? जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवान्का भजन करते हैं ॥ ६२ (ख) ॥

चौ०—गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अखंडा ॥

देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥

गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकभुशुण्डि बसते थे । उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [उसके दर्शनसे ही] सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ ॥

करि तड़ाग मज्जन जलपाना । बट तर गयउ हृदयँ हरषाना ॥

वृद्ध वृद्ध बिहंग तहँ आए । सुनै राम के चरित सुहाए ॥

तालावमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे बटवृक्षके नीचे गये । वहाँ श्रीरामजी के सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २ ॥

कथा अरंभ करै सोइ चाहा । तेही समय गयउ खगनाहा ॥

आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥

भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़-जी वहाँ जा पहुँचे । पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकभुशुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३ ॥

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥

कारि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तव बोलेउ कागा ॥

उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और स्वागत (कुशल) पूछकर बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके काकभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले— ॥ ४ ॥

दो०—नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज ॥

आयसु देहु सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥

हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया । आप जो आज्ञा दें, मैं अब वही करूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ? ॥ ६३ (क) ॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु वचन खगेस ।

जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ (ख) ॥

पक्षिराज गरुड़जीने कोमल वचन कहे—आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, जिनको बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है ॥ ६३ (ख) ॥

चौ०—सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरस तव पायउँ ॥

देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥

हे तात ! मुनिवने, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया । फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १ ॥

हे उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं श्रीरघुनाथजीकी कृपासे उसका मर्म (भेद) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४ ॥

कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा । समुझइ खग खगही कै भाषा ॥
प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥

फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं । हे भवानी ! प्रभुकी माया [बड़ी ही] बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले ? ॥ ५ ॥

दो०—ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान ।

ताहि मोह माया नर पावँर करहिं गुमान ॥ ६२(क) ॥

जो ज्ञानियोंमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान्के वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं ॥ ६२ (क) ॥

मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम

सिव विरंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन ।

अस जियँ जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥

यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है ? जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवान्का भजन करते हैं ॥ ६२ (ख) ॥

चौ०—गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अखंडा ॥

देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥

गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकभुशुण्डि बसते थे । उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [उसके दर्शनसे ही] सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ ॥

करि तड़ाग मज्जन जलपाना । बट तर गयउ हृदयँ हरषाना ॥

वृद्ध वृद्ध बिहंग तहँ आए । सुनै राम के चरित सुहाए ॥

तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षके नीचे गये । वहाँ श्रीरामजी के सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २ ॥

कथा अरंभ करें सोइ चाहा । तेही समय गयउ खगनाहा ॥

आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥

भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़-जी वहाँ जा पहुँचे । पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकभुशुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३ ॥

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥

करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तव बोलेउ कागा ॥

उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और स्वागत (कुशल) पूछकर बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके काकभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले— ॥ ४ ॥

दो०—नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज ॥

आयसु देहु सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥

हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया । आप जो आज्ञा दें, मैं अब वही करूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ? ॥ ६३ (क) ॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु वचन खगोस ।

जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ (ख) ॥

पक्षिराज गरुड़जीने कोमल वचन कहे—आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है ॥ ६३ (ख) ॥

चौ०—सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरस तव पायउँ ॥

देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥

हे तात ! सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया । फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १ ॥

अव श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार विनवउँ प्रभु तोही ॥

अव हे तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये । हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २ ॥

सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥

गरुड़जीकी विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही भृशुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ ३ ॥

प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥

हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा ॥ ४ ॥

प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥
फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी बाललीलाएँ कहीं ॥ ५ ॥

दो०—बालचरित कहि विविधि विधि मन महँ परम उछाह ।
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुवीर विवाह ॥ ६४ ॥

मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, फिर ऋषि विश्वामित्रजीका अयोध्या आना और श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥

चौ०—बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंगा ॥
पुरवासिन्ह कर विरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संवादा ॥

फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज-रस (राज्याभिषेकके आनन्द) में भङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद (वातचीत) कहा ॥ १ ॥

विपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥
बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि वसे भगवाना ॥

श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास, बाल्मीकिजी और प्रभु श्रीरामजीका मिलन और जैसे भगवान् चित्रकूटमें वसे, वह सब कहा ॥ २ ॥

सचिवागवन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम बहु वरना ॥
करि नृप क्रिया संग पुरवासी । भरत गए जहँ प्रभु सुख रासी ॥

फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका [ननिहालसे] अयोध्यामें आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया । राजाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके नगरनिवासियोंको साथ लेकर भरतजी वहाँ गये, जहाँ सुखकी राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३ ॥

पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए । लै पाटुका अवधपुर आए ॥
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि वरनी ॥

फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया; जिससे वे खड़ाक लेकर अयोध्यापुरी लौट आये, यह सब क्या कहा । भरतजीकी मन्दिग्राममें रहनेकी रीति, इन्द्रपुत्र जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अत्रिजीका मिलाप वर्णन किया ॥ ४ ॥

बो०—कहि विराध वध जेहि विधि देह तजी सरभंग ।

वरनि सुतीक्ष्ण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥

जिस प्रकार विराधका वध हुआ और सरभंग होनेकी रीति त्याग किया, वह प्रसङ्ग कहकर, फिर सुतीक्ष्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्तिजीका सतसङ्ग-वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥

बो०—कहि दंडक वन पावनताई । गोव मइत्री पुनि तेहि गाई ॥

पुनिप्रभुपंचवटी कृतवासा । भंजी सकल मुनिन्ह की वासा ॥

दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भृगुमन्दिर्वाले पंचवटीके साथ मित्रताका वर्णन किया । फिर जिस प्रकार प्रभुने पंचवटीमें निवास किया और सब मुनियोंके भयका नाश किया ।

पुनि लछिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा

वर दूषन वध बहुरि बखाना । जिमि सब मरसु

और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखाको कुरूप किय वह सब वर्णन किया । फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जान वह बखानकर कहा ॥ २ ॥

दसकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरघुवीर विरह कछु बरना

तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३ ॥

पुनि प्रभु गीधक्रिया जिमिकीन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही
बहुरि विरह बरनत रघुवीरा । जेहि बिधि गए सरोवर तीरा

फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका बध करके शबरीव परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासर तीरपर गये, वह सब कहा ॥ ४ ॥

दो०—प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग ।

पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (क) ॥

प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सुग्रीवक मित्रता और बालिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ (क) ॥

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रवरषन वास ।

बरनन वर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥ ६६ (ख) ॥

सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, तथा वर्ष और शरदका वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग क ॥ ६६ (ख) ॥

चौ०—जेहि बिधिकपिपतिकीसपठाए । सीता खोज सकल दिसिधाए ।

बिवर प्रवेस कीन्ह जेहिभाँती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ।

जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस प्रकार सब दिशाओंमें गये, जिस प्रकार उन्होंने विलमें प्रवेश किया और फिर जैसे वानरोंक सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १ ॥

सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥
लंकाँ कपि प्रवेश जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥

संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लांघ गये, फिर हनुमानजीने जैसे लङ्कामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया, सो सब कहा ॥ २ ॥

वन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ वहुरि पयोधी ॥
आए कपि सब जहँ रघुराई । बैदेही की कुसल सुनाई ॥

अशोकवनको उजाड़कर, रावणको समझाकर, लङ्कापुरीको जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्रको लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे और आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥

सेन समेति जथा रघुवीरा । उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥
मिला विभीषन जेहि विधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥

फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी ॥ ४ ॥

दो०—सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार ।

गयउ वसीठी बीरबर जेहि विधि वालिकुमार ॥ ६७ (क) ॥

पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ वालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये, वह सब कहा ॥ ६७ (क) ॥

निसिचर कीस लराई वरनिसि विविधि प्रकार ।

कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ (ख) ॥

फिर राक्षसों और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया । फिर कुम्भकर्ण और मेघनादके बल, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कहीं ॥ ६७ (ख) ॥

चौ०—निसिचर निकरमरनविधिनाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥

रावन बध मंदोदरि सोका । राज विभीषन देव असोका ॥

नाना प्रकारके राक्षससमूहोंके मरण तथा श्रीरघुनाथजी और रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया । रावणवध, मन्दोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १ ॥

रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्ह अस्तुतिकर जोरी ॥
पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥

फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवताओंने हाथ
अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २ ॥

जेहि विधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नृपनीति अनेका ॥

जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) में आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र
काकभुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा
[शिवजी कहते हैं—] अयोध्यापुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए—
कथा समस्त भुसुंड बखानी । जो मैं तुम्ह सन कही भवानी

सुनि सब राम कथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा
भुशुण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही । सारी रा
सुनकर परिक्रमण गुरुजी मनमें बहुत उत्साहित (आनन्दित) होकर वचन कहने लगे—
सो०—गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित ।

भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८
श्रीरघुनाथजीके सब चरित मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा
शिरोमणि ! आपके अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया ॥ ६८

मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि ।
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥
युद्धमें प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था
तो सच्चिदानन्दधन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं ॥ ६८ (ख) ॥
चौ०—देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयँ मम स
सोइ भ्रम अवहित करि मैं माना । कीन्ह अनुग्रह
विकल ही लौकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे ह

गया। मैं अब उस भ्रम (संदेह) को अपने लिये हित करके रामज्ञता हूँ। कृपानिधान
मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥

जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई ॥
जों नहिं होत मोह अति मोहीं। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही ॥

जो धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता है, वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है।
तात ! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता ? ॥ २ ॥

सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई। अति विचित्रवहु विधि तुम्ह गाई ॥
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥

और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकारों
गायी है ? वेद, शास्त्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं,
इसमें संदेह नहीं कि—॥ ३ ॥

संत विसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥
राम कृपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥

शुद्ध (सच्चे) संत उसीको मिलते हैं, जिसे श्रीरामकी कृपा करके देखते हैं।
श्रीरामजीकी कृपासे मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपासे मेरा संदेह घटा गया ॥ ४ ॥

दो०—सुनि विहंगपति वानी सहित विनय अनुराग ॥
पुलक गात लोचन सजल मन हरपेउ अनि काग ॥ ६६ (क) ॥

पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभृगुष्टिजीका शरीर
कित हो गया, उनके नेत्रोंमें जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त द्रवित हुए ॥ ६६ (क) ॥

श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास ॥
पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन कर्हिं प्रकास ॥ ६६ (ख) ॥

हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके संवद श्रोताओं
र सज्जन अत्यन्त गोपनीय (सबके सामने प्रकट न करने योग्य) रहस्यों भी प्रकट
ते हैं।

बोलेउँ काकभुसुंड बहोरी। नमग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥
सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र ग्युनायक करे ॥
काकभृगुष्टिजीने फिर कहा—पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था (अर्थात् कृ-

आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं ॥ १ ॥

न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥
 मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥
 आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है । हे नाथ ! आपने तो मुझपर
 की है । हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई
 ॥ २ ॥

निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥
 भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आत्मवादी ॥
 हे पक्षियोंके स्वामी ! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्चर्य
 नहीं है । नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ और उसका
 उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ ३ ॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥
 तृस्ताँ केहि न कीन्ह वौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥
 उनमेंसे भी किस-किसको मोहने अंधा (विवेकशून्य) नहीं किया ? जगतमें ऐसा
 कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? वृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोध
 किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४ ॥

दो०—ग्यानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार ।
 केहि कै लोभ विडम्बना कीन्हि न एहि संसार ॥ ७० (क)
 इस संसारमें ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान् और
 धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद) न की हो ॥ ७० (क) ॥

श्री मद् वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि ।
 मृगलोचनिके नैन सर को अस लाग न जाहि ॥ ७०
 लक्ष्मीके मदन किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर वि
 कां०—गुन कृत सन्यपात नहिं केही । कोउ न मान मद् तजेव
 जोवनज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केहि कर जस
 [रज, तम आदि] गुणोंका किया हुआ सन्यपात किसे नहीं

कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो। जीवनके ज्वरने किसे आपसे बाहर नहीं किया? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया? ॥ १ ॥

मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥
चिंता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया ॥

मत्सर (डाह) ने किसको कलङ्क नहीं लगाया? शोकरूपी पवनने किसे नहीं हिला दिया? चिन्तारूपी साँपिनने किसे नहीं खा लिया? जगत्में ऐसा कौन है, जिसे माया न व्यापी हो? ॥ २ ॥

कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥
सुत वित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥

मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान् कौन है, जिसके शरीरमें यह कीड़ा न लगा हो? पुत्रकी, धनकी और लोकप्रतिष्ठाकी—इन तीन प्रबल इच्छाओंने किसकी बुद्धिको मलिन नहीं कर दिया (बिगाड़ नहीं दिया)? ॥ ३ ॥

यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को वरनै पारा ॥
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥

यह सब मायाका बड़ा बलवान् परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है? शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हैं?

दो०—व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड।

सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) ॥

मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छापी हुई है। कामादि (काम, क्रोध और लोभ) उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाषण्ड योद्धा हैं ॥ ७१ (क) ॥

सो दासी रघुवीर के समुभेँ मिथ्या सोपि।

छूट न राम कृपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि ॥ ७१ (ख) ॥

वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है। यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है किंतु वह श्रीरामजीकी कृपाके बिना छूटती नहीं। हे नाथ! यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ ॥ ७१ (ख) ॥

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहुँ न पावा ॥
सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥

जो माया सारे जगत्को नचाती है और जिसका चरित्र (करती) किसीने नहीं
देखा पाया, है खगराज गहड़जी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर
पने समाज (परिवार) सहित नटीकी तरह नाचती है ॥ १ ॥

सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज विग्यान रूप बल धामा ॥
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥

श्रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप और बलके
धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य (सर्वरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमोघशक्ति (जिसकी
शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती) और छः ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान् हैं ॥ २ ॥

अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । सबदरसी अनवद्य अजीता ।
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ।

वे निर्गुण (मायाके गुणोंसे रहित), महान्, वाणी और इन्द्रियोंसे परे, सब
देखनेवाले, निर्दोष, अजेय, ममतारहित, निराकार (मायिक आकारसे रहित), मोह
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ॥ ३ ॥

प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अविना ।
इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सन्मुख तम कबहुँ कि उ ।

प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इ
विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं । यहाँ (श्रीराममें) मोहका कारण ही नहीं
अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा सकता है ? ॥ ४ ॥

दो०—भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥

भगवान् प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शरीर धारण
साधारण मनुष्योंकेसे अनेकों परम पावन चरित्र किये ॥ ७२ (क) ॥

जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ ।
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ।

जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ ।
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ।

जैसे कोई नट (खेल करनेवाला) अनेक वेप धारण करके नृत्य करता है, और वही-वही (जैसा वेप होता है, उसीके अनुकूल) भाव दिखलाता है; पर स्वयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता ॥ ७२ (ख) ॥

चौ०—असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥
जे मति मलिन विषयवस कामी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥

हे गरुड़जी ! ऐसी ही श्रीरघुनाथजीकी यह लीला है जो राक्षसोंको विशेष मोहित करनेवाली और भक्तोंको सुख देनेवाली है । हे स्वामी ! जो मनुष्य मलिनबुद्धि, विषयोंके वश और कामी है, वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं ॥ १ ॥

नयन दोष जा कहँ जब होई । पीत वरन ससि कहँ कह सोई ॥
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥

जब जिसको [कँवल आदि] नेत्रदोष होता है, तब वह चन्द्रमाको पीले रङ्गका कहता है । हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशाभ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है ॥ २ ॥

नौकारूढ़ चलत जग देखा । अचल मोह वस आपुहि लेखा ॥
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥

नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपनेको अचल समझता है । बालक धूमते (चक्राकार दौड़ते) हैं, घर आदि नहीं घूमते; पर वे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते हैं ॥ ३ ॥

हरि विषइक अस मोह विहंगा । सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा ॥
मायावस मतिमंद अभागी । हृदयँ जमनिका बहुविधि लागी ॥

हे गरुड़जी ! श्रीहरिके विषयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है, भगवान्में तो स्वप्नमें भी अज्ञानका प्रसंग (अवसर) नहीं है । किंतु जो मायाके वश, मन्दबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पड़े हैं, ॥ ४ ॥

ते सठ हठ बस संसय करहीं । निज अग्यान राम पर धरहीं ॥

वे मूर्ख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित करते हैं ॥ ५ ॥

दो०—काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप ।

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥ ७३ (क) ॥

जो काम, क्रोध, मद और लोभमें रत हैं और दुःखरूप घरमें आसक्त हैं, वे श्रीरघुनाथजीको कैसे जान सकते हैं ? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँमें पड़े हुए हैं ॥ ७३ (क) ॥

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३ (ख) ॥

निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समझमें आ जानेवाला) है, परंतु [गुणातीत दिव्य] सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवान्के अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके भी मनको भ्रम हो जाता है ॥ ७३ (ख) ॥

चौ०—सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहउँ जथामति कथा सुहाई ॥

जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावउँ तोही ॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ । हे प्रभो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ ॥ १ ॥

राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥

ताते नहिं कछु तुम्हहिं दुरावउँ । परम रहस्य मनोहर गावउँ ॥

हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं । श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति है, इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैं । इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २ ॥

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥

संसृत मूल सूत्रप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥

श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये ; वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं रहने देते । क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशों तथा समस्त शोकोंका देनेवाला है ॥ ३ ॥

ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥

इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक ममता है । हे गोसाईं ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर हृदयकी भाँति चिरा डालती है ॥ ४ ॥

दो०—जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर ।

व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (क) ॥

यद्यपि बच्चा पहले (फोड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोगके नाशके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती (उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेको चिरवा ही डालती है) ॥ ७४ (क) ॥

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ ७४ (ख) ॥

उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं, कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते ? ॥ ७४ (ख) ॥

चो०—राम कृपा आपनि जड़ताई । कहउँ खगोस सुनहु मन लाई ॥

जब जब राम मनुज तनु धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता (मूर्खता) की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये । जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं, ॥ १ ॥

तब तब अवधपुरी में जाऊँ । बालचरित बिलोकि हरषाऊँ ॥

जन्म महोत्सव देखउँ जाई । वरप पाँच तहँ रहउँ लोभाई ॥

तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हर्षित होता हूँ । वहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [भगवान्की शिशुलीलामें] लुभाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ ॥ २ ॥

इष्टदेव मम बालक रामा । सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥

निज प्रभु वदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥

बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा है। हे गरुड़जी ! अपने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं नेत्रोंको सफल करता हूँ ॥ ३ ॥

लघु वायस वपु धरि हरि संग। देखउँ बालचरित बहुरंगा।

छोटे-से कौएका शरीर धरकर और भगवान्के साथ-साथ फिरकर मैं उनके भाँति भाँतिके बालचरित्रोंको देखा करता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—**लरिकाईं जहँ जहँ फिरहिँ तहँ तहँ संग उड़ाउँ।**

जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥ ७५ (क)

लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, वहाँ-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगन उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क) ॥

एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ (ख)

एक बार श्रीरघुबीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये। प्रभुकी उस लीलाव स्मरण करते ही काकभृशुण्डिजीका शरीर [प्रेमानन्दवश] पुलकित हो गया ॥ ७५ (ख)

ची०—**कहइ भुसुंड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक।**

नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती।

भृशुण्डिजी कहने लगे—हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सु देनेवाला है। [अयोध्याका] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है। सोनेके महलमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए हैं ॥ १ ॥

वरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलहिँ नित चारिउ भाई।

बालबिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई।

सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाँई नित्य खेलते हैं माताको सुख देनेवाले बाल-बिनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमें बिचर रहे हैं ॥ २ ॥

मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा।

नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हरना।

मरकतमणिके समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अङ्ग-अङ्गमें बहुत-कामदेवोंकी शोभा छापी हुई है। नवीन [लाल] कमलके समान लाल-लाल कोम

चरण हैं । सुन्दर अँगुलियाँ हैं और नख अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं ॥ ३ ॥

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर खकारी ॥

चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल सुखर सुहाई ॥

[तलवेमें] वज्रादि (वज्र, अङ्गुश, ध्वजा और कमल) के चार सुन्दर चिह्न हैं । चरणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं । मणियों (रत्नों) से जड़ी हुई सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग रहा है ॥ ४ ॥

दो०—रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर ।

उर आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषन चीर ॥ ७६ ॥

उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं, नाभि सुन्दर और गहरी है । विशाल वक्षःस्थलपर अनेकों प्रकारके बच्चोंके आभूषण और वस्त्र सुशोभित है ॥ ७६ ॥

चौ०—अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु विसाल विभूषन सुंदर ॥

कंध बाल केहरि दर ग्रीवा । चारुचिबुक आनन छवि सींवा ॥

लाल-लाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले हैं और विशाल भुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं । बालसिंह (सिंहके बच्चे) के-से कंधे और शङ्खके समान (तीन रेखाओंसे युक्त) गला है । सुन्दर ठुड्डी है और मुख तो छत्रिकी सीमा ही है ॥ १ ॥

कलबल वचन अधर अरुनारे । दुइ दुइ दसन विसद वर वारे ॥

ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर समहासा ॥

कलबल (तोतले) वचन हैं, लाल-लाल ओंठ हैं । उज्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी [ऊपर और नीचे] दो-दो दँतुलियाँ हैं, सुन्दर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [अथवा सुख देनेवाली समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी] किरणोंके समान मधुर मुसकान है ॥ २ ॥

नील कांज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥

बिकट भूकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेचक छवि छाए ॥

नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [के बन्धन] से छुड़ानेवाले हैं । ललाटपर

गैरोचनका तिलक सुशोभित है । भौंहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर हैं । काले और घुंघराले केशोंकी छबि छा रही है ॥ ३ ॥

पीत झीनि झगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥
रूप रासि नृप अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥

पीली और महीन झंगुली शरीरपर शोभा दे रही है । उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके आँगनमें बिहार करनेवाले रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हैं ॥ ४ ॥

मोहि सनकरहिं बिबिधि बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥
किलकत मोहि धरन जब धावहिं । चलउँ भागि तब पूष देखावहिं ॥

और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लज्जा आती है । किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पूषा दिखलाते थे ॥ ५ ॥

दो०—आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं ।

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥ ७७(क) ॥

मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं । और जब मैं उनका चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं ॥ ७७ (क) ॥

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७७(ख) ॥

साधारण बच्चों-जैसी लीला देखकर मुझे मोह (शङ्का) हुआ कि सच्चिदानन्दघन प्रभु यह कौन [महत्त्वका] चरित्र (लीला) कर रहे हैं ॥ ७७ (ख) ॥

चौ०—एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥

सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥

हे पक्षिराज ! मनमें इतनी [शङ्का] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी । परंतु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई और न दूसरे जीवोंकी भाँति संसारमें डालनेवाली हुई ॥ १ ॥

नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहुसो सावधान हरिजाना ॥

ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥

हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवान्‌के वाहन गरुडजी ! उसे सावधान होकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप हैं और जड़-चेतन सभी जीव मायाके बश हैं ॥ २ ॥

जौं सब कैं रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥

माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥

यदि जीवोंको एकरस (अखण्ड) ज्ञान रहे तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें भेद ही कसा ? अभिमानी जीव मायाके बश है और वह [सत्त्व, रज, तम—इन] तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके बशमें है ॥ ३ ॥

परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥

मुधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥

जीव परतन्त्र है, भगवान् स्वतन्त्र हैं । जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान् एक हैं । यद्यपि मायाका किया हुआ यह भेद असत् है तथापि वह भगवान्‌के भजन बिना करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ ॥

दो०—रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान ।

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥ ७८ (क) ॥

श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान् होनेपर भी बिना पूँछ और सींगका पशु है ॥ ७८ (क) ॥

राकापति षोडस उअहिं तारागन समुदाय ।

सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रवि राति न जाइ ॥ ७८ (ख) ॥

सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं, उन सबमें दावाग्नि लगा दी जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती ॥ ७८ ॥

दो०—ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥

हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥

हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं मिटत श्रीहरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १ ॥

ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़इ बिहंगबर
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । विहँसे सो सुनु चरित बिसेषा

हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती है । श्रीराम ने मुझे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हैंसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ॥

तेहि कौतुक कर मरमु न काहँ । जाना अनुज न मातु पिताहँ
जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना

उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने और न माता-पिताने हैं वे श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने अ हाथोंके बल मुझे पकड़नेको दौड़े ॥ ३ ॥

तब मैं भागि चलेउँ उरगारी । राम गहन कहँ भुजा पसारी
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देखउँ निज पासा

हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! तब मैं भाग चला । श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फँलायी । मैं जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने प देखता था ॥ ४ ॥

दो०—ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं चितयउँ पाछ उडात ।

जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥ ७६ (क)

मैं ब्रह्मलोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात श्रीरामजीकी भुजामें और मुझमें केवल दो ही अङ्गुलका बीच था ॥ ७९ (क) ॥

सप्तावरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि ।

गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥ ७६ (ख)

सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी, वहाँतक मैं गया । पर वहाँ प्रभुकी भुजाको [अपने पीछे] देखकर मैं व्याकुल हो गया ॥ ७६ (ख) ॥

चौ०—मूदेउँ नयन त्रसित जब भयउँ । पुनि चितवत कोसलपुर गयउँ
मोहिविलोकिराम मुसुकाहीं । विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं

जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूंद लीं। फिर आँखें खोलकर देखते ही अवधपुरीमें पहुँच गया। मुझे देखकर श्रीरामजी मुसकराने लगे। उनके हँसते ही मैं तुरंत उनके मुखमें चला गया ॥ १ ॥

उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥
अति विचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका ॥

हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डों को समूह देखा। वहाँ (उन ब्रह्माण्डोंमें) अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एककी बद्धर थी।

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उदगन रवि रजनीसा ॥
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूधर भूमि विसाला ॥

करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ॥ ३ ॥

सागर सरि सर विपिन अपारा। नाना भाँति नृष्टि विस्तारा ॥
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥

असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी नृष्टिका विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकारके उड़ और चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥

दो०—जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाई ।

सो सब अद्भुत देखेउँ वरनि क्यनि विधि जाइ ॥ ८० (क) ॥

जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था (कल्पान् जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी), यही सब अद्भुत वृष्टि मैंने देखा। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय ॥ ८० (क) ॥

एक एक ब्रह्मांड माहँ रहँ वरप मत एक ।

एहि विधि दंग्यता गिरउँ मैं अंड कटाह अनेक ॥ ८० (ख) ॥

मैं एक-एक ब्रह्माण्डों को एक-एक ही वर्णित करता हूँ। इस प्रकार मैं-कल्पों-में-देखता हूँ...
देखता हूँ ॥ ८० (ख) ॥

चौ०—लोकलोकप्रतिभिन्नविधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसित्राता ॥

नर गंधर्व भूत बेताला । किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥

प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प ॥ १ ॥

देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तहँ आनहिं भाँती ॥

महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आनइ आना ॥

तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे । सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे । अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी ।

अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउँ जिनस अनेक अनूपा ॥

अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥

प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ देखीं । प्रत्येक भुवनमें न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर-नारी थे ।

दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥

प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखेउँ बालबिनोद अपारा ॥

हे तात ! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी और भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्न रूपोंके थे । मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीलाएँ देखता फिरता ॥ ४ ॥

दो०—भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति विचित्र हरिजान ।

अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ ८१ (क) ॥

हे हरिवाहन ! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अनगिनत ब्रह्माण्डोंमें फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ (क) ॥

सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर ।

भुवन भुवन देखत फिरउँ प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥

सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्रीरघुबीर । इस प्रकार मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे मैं भुवन-भुवनमें देखता फिरता था ॥ ८१ (ख) ॥

चौ०—भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥

फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ । तहँ पुनिरहि कछु काल गवाँयउँ ॥

अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये । फिरता-फिरता मैं अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया ॥ १ ॥

नेज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायउँ ॥

देखउँ जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाई ॥

फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म (अवतार) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ-दौड़ा । जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ ॥ २ ॥

राम उदर देखेउँ जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥

तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना ॥

श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत् देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किये जा सकते । वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपालु भगवान् श्रीरामको देखा ॥ ३ ॥

करउँ विचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥

उभय घरी महँ मैं सब देखा । भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा ॥

मैं बार-बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से व्याप्त थी । यह सब मैंने दो ही घड़ीमें देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे मैं भ्रमित हो गया ॥ ४ ॥

दो०—देखि कृपाल विकल मोहि बिहँसे तव रघुवीर ।

बिहँसतहीं मुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥

मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्रीरघुवीर हँस दिये । हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, उनके हँसते ही मैं मुँहसे बाहर आ गया ॥ ८२ (क) ॥

सोइ तरिकार्ह मो सन करन लगे पुनि राम ।

कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ विश्राम ॥ ८२ (ख) ॥

श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे । मैं करोड़ों (असंख्य) प्रकारसे मनको समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ (ख) ॥

चौ०—देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देह दसा विसराई ॥

धरनि परेउँ मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥

यह [बाल] चरित देखकर और [पेटके अंदर देखी हुई] उस प्रभुताका

स्मरण कर मैं शरीरकी सुध भूल गया और हे आर्तजनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा । मुखसे बात नहीं निकलती थी ॥ १ ॥

प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ।

तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविह्वल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता (प्रभाव) को रोक लिया । प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रक्खा । दीनदयालुने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥२॥

कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महाँ होइ हरष अति भारी ॥

सेवकोंको सुख देनेवाले, कृपाके समूह (कृपामय) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित कर दिया । उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर (याद कर-करके) मेरे मनमें बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥

भगत बछलता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति विसेषी ।
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउँ बहु विधि विनय बहोरी ।

प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ । फिर मैं [आनन्दसे] नेत्रोंमें जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार विनती की ॥ ४ ॥

दो०—सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास ।

वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ ८३ (क)

मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीराम सुखदायक, गम्भीर और कोमल वचन बोले—॥ ८३ ॥

काकभुसुंङि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिकसिधिअपररिधिमोच्छसकलसुखखानि ॥ ८३ (ख)

हे काकभुशुण्डि ! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । अणिमा आदि सिद्धियाँ, दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ॥ ८३ (ख) ॥

चौ०—ग्यान विवेक बिरति विग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ।

आजु देउँ सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥

ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (तत्त्वज्ञान) और वे अनेकों गुण जो जगत्में मुनियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं । जो तेरे मन भावे, सो माँग ले ॥ १ ॥

मुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउँ ॥

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ।

प्रभुके बचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेममें भर गया । तब मनमें अनुमान करने लगा कि प्रभुने सब सुखोंके देनेकी बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कही ॥ २ ॥

भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन विना बहु विंजन जैसे ॥

भजन हीन सुख कवने काजा । अस विचारि बोलेउँ खगराजा ॥

भक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही (फीके) हैं, जैसे नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ ! भजनसे रहित सुख किस कामके ? हे पक्षिराज ! ऐसा विचारकर मैं बोला—॥ ३ ॥

जों प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू । मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥

मन भावत वर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥

हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी ! मैं अपना मनभाया वर माँगता हूँ । आप उदार हैं और हृदयके भीतरकी जानने वाले हैं ॥ ४ ॥

दो०—अविरल भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ८४ (क) ॥

आपकी जिस अविरल (प्रगाढ़) एवं विसुद्ध (अनन्य निष्काम) भक्तिको श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे कोई विरला ही जिसे पाता है ॥ ८४ (क) ॥

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ ८४ (ख) ॥

हे भक्तोंके [मन-इच्छित फल देनेवाले] कल्पवृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे कृपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ ८४ (ख) ॥

चौ०—एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥

सुनु बायस तैं सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले बचन बोले—
हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही बुद्धिमान् है । ऐसा बरदान कैसे न मांगता ? ॥ १ ॥

सब सुख खानि भगति तैं मागी । नहिं जगकोउतोहि समबड़भागी ॥

जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥

तूने सब सुखोंकी खान भक्ति मांग ली, जगत्में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है । वे मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको (जिस भक्तिको) नहीं पाते ॥ २ ॥

रीभेऊँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥

सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें । सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरें ॥

वही भक्ति तूने मांगी । तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया । यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी । हे पक्षी ! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें बसेंगे ॥ ३ ॥

भगति ग्यान विग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥

जानब तैं सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥

भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग—
इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥

दो०—माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि ।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५ (क) ॥

मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे । मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण (प्रकृतिके गुणोंसे रहित) और [गुणातीत दिव्य] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ॥ ८५ (क) ॥

मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग ।

कायँ वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) ॥

हे काक ! सुन, मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन और मनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना ॥ ८५ (ख) ॥

चौ०—अब सुनु परम विमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥

निज सिद्धान्त सुनावउँ तोही । सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥

अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह 'निज सिद्धान्त' सुनाता हूँ । सुनकर मनमें धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥ ११ ॥

मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा ॥

सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥

यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है । [इसमें] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं । वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । [किंतु] मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं ॥ २ ॥

तिन्ह महुँ द्विज द्विज महुँ श्रुत धारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥

तिन्ह महुँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी ॥

उन मनुष्योंमें भी द्विज, द्विजोंमें भी वेदोंको [कण्ठमें] धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले; उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान्) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पार्हीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नार्हीं ॥

विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है, कोई दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझसे बार-बार सत्य ('निज सिद्धान्त') कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४ ॥

भगति हीन विरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥

भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥

भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय है ।

अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥ २ ॥

सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग ।
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥

पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता ? वेद
र पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं । हे काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥

दो०—एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिं पृथक् गुन सील अचारा ॥
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥

एक पिताके बहुत-से पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं ।
कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ॥ १ ॥

कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥

कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन सभीपर सम
भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २ ॥

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयान
एहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समे

वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब
अज्ञान (मूर्ख) ही हो । इसी प्रकार तिर्यक् (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य और असुर
जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं ॥ ३ ॥

अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि
तिन्ह महुँ जो परिहरि मद माया । भजै मोहि मन बच अस

[उनसे भरा हुआ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है ।
मेरी बराबर दया है । परंतु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन
मुझको भजता है, ॥ ४ ॥

दो०—पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ ।
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥

वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा पर-अक्षर कोई भी जीव हो, कण्ठ छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है ॥ ८७ (फ) ॥

सो०—सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ।

अस विचारि भंजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७(ख) ॥

हे पक्षी ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम) शेषक मुझे प्राणोंके समान प्यारा है । ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥ ८७ (घ) ॥

चौ०—कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥

प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरपाऊँ ॥

तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना । प्रभुके वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और गममें मैं अत्यन्त ही हर्षित हो रहा था ॥ १ ॥

सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहिं जाइ बगवाना ॥

प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना ॥

वह सुख मन और कान ही जानते हैं । जीभसे उमका बगवान नहीं किया जा सकता । प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं ? उनके वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥

बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कौनुक तेई ॥

सजल नयन कछु मुख करि रुखा । चिनइ मातु लागी अति भुग्या ॥

मुझे बहुत प्रकारसे भलीभांति गमझाकर और मुख देकर प्रभु फिर वही बालकोंके खेल करने लगे । नेत्रोंमें जल भरकर और मुखको कृच्छ्र श्या [न्या] बनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा—[और मुखाकृति तथा चितवनने माताको गमझा दिया कि] अहृष भृष लगी है ॥ ३ ॥

देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु वचन निर उर लाई

गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित नन्दिन कर गाना

यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उठी

अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥ ८६ ॥

सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग ।

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥

विद्वान्, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक; बता किसको प्यारा नहीं लगता? वेद पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥

—एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिं पृथक् गुन सील अचारा ॥

कोउ पंडित कोउ तापस गयाता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥

कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ॥ ९ ॥

कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥

कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥

कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है। परंतु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त होता है, स्वप्न भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २ ॥

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना

एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेत

वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब प्राणियों में से ही हो। इसी प्रकार तिर्यक् (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य और असुर जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं ॥ ३ ॥

अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि

तिन्ह महुँ जो परिहरि मद माया । भजै मोहि मन बच अस्व

[उनसे भरा हुआ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। मेरी बराबर दया है। परंतु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन मुझको भजता है, ॥ ४ ॥

दो०—पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ ।

सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥

वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है ॥ ८७ (क) ॥

सो०—सत्य कहउँ खग तोहि सुंचि सेवक मम प्रानप्रिय ।

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७(ख) ॥

हे पक्षी ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम) सेवक मुझे प्राणिके समान प्यारा है । ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥ ८७ (ख) ॥

चौ०—कवहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥

प्रभुवचनामृत सुनि न अघाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरषाऊँ ॥

तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना । प्रभुके वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और मनमें मैं अत्यन्त ही हर्षित हो रहा था ॥ १ ॥

सो सुख जानइ मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥

प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सकहि तिन्हहि नहि वयना ॥

वह सुख मन और कान ही जानते हैं । जीभसे उसका बखान नहीं किया जा सकता । प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं ? उनके वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥

बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥

सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥

मुझे बहुत प्रकारसे भलीभाँति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों-के खेल करने लगे । नेत्रोंमें जल भरकर और मुखको कुछ रूखा [-सा] बनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा—[और मुखाकृति तथा चितवनसे माताको समझा दिया कि] बहुत भूख लगी है ॥ ३ ॥

देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु वचन लिए उर लाई ॥

गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥

यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीको

गा लिया। वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी (उन्हें)
त लीलाएँ गाते लगीं ॥ ४ ॥

जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद।
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥ ८८ (क) ॥

जिस सुखके लिये [सबको] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ
घारण किया, उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हैं ॥ ८८ (क) ॥

सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ।
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति ॥ ८८ (ख) ॥

उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज!
वे सुन्दर बुद्धिवाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥ ८८ (ख) ॥

चौ०—मैं पुनि अवधरहेउँ कछु काला। देखेऊँ बालबिनोद रसाला ॥
राम प्रसाद भगति बर पायउँ। प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ ॥

मैं और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली बाललीलाएँ
देखीं। श्रीरामजीकी कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया। तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी वन्दन
करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया ॥ १ ॥

तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया
यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरि मायाँ जिमि मोहि नचाव

इस प्रकार जबसे श्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कभी
ब्यापी। श्रीहरिकी मायाने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा ॥ २ ॥

निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहिं कले
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभु

हे पक्षिराज गरुड़! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ।
कि] भगवान्के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षिराज! सुनिये, श्री
कृपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती ॥ ३ ॥

जाने बिनु न होउ पस्तीती। बिनु परस्तीति होइ नहिं
प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई। जिमि खगपति जल कै

प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दूढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज ! जलकी चिकनाई बहरती नहीं ॥ ४ ॥

सो०—बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग बिनु ।

गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ (क) ॥

गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ? अथवा वैराग्यके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्या सुख मिल सकता है ? ॥ ८९ (क) ॥

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु ।

चलै कि जलबिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८६ (ख) ॥

हे तात ! स्वाभाविक सन्तोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ? [चाहे] करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये, [फिर भी] क्या कभी जलके बिना नाव चल सकती है ?

सो०—बिनु संतोष न काम नसार्हीं । काम अछत सुखसपनेहुँ नाहीं ॥

रामभजनबिनुमिटहिं किकामा । थलविहीनतरु कवहुँ किजामा ॥

सन्तोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता । और श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ? बिना धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ? ॥ १ ॥

बिनु विग्यान कि समता आवइ । कोउ अवकासकिनभबिनु पावइ ॥

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥

विज्ञान (तत्त्वज्ञान) के बिना क्या समभाव आ सकता है ? आकाशके बिना क्या कोई अवकाश (गोल) पा सकता है ? श्रद्धाके बिना धर्म [का आचरण] नहीं होता । क्या पृथ्वीतत्वके बिना कोई गन्ध पा सकता है ? ॥ २ ॥

बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥

शील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥

तपके बिना क्या तेज फैल सकता है ? जलतत्वके बिना संसारमें क्या सकता है ? पण्डितजनोंकी सेवा बिना क्या शील (सदाचार) प्राप्त हो सकता

हे गोसाईं ! जैसे बिना तेज (अग्नि-तत्त्व) के रूप नहीं मिलता ॥ ३ ॥

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥

कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥

निज-सुख (आत्मानन्द) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है ? वायु-तत्त्वके बिना क्या स्पर्श हो सकता है ? क्या विश्वासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ? इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ॥

दो०—बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु ।

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रामु ॥ ६० (क) ॥

बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते (ढरते) नहीं और श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० (क) ॥

सो०—अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल ।

भजहु राम रघुवीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ६० (ख) ॥

हे धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतर्कों और सन्देहोंको छोड़कर करुणाकी खान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये ॥ ९० (ख) ॥

चौ०—निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥

कहउँ न कछु करि जुगुति बिसेषी । यह सब मैं निजनयनन्हि देखी ॥

हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमाका गान किया । मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आँखों देखी कही है ॥ १ ॥

महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥

निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं ॥

श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं अनन्त हैं तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भी अनन्त हैं । मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं । वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥

तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥

तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥

आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बड़े जीव आकाशमें चड़ते हैं, किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है तात ! श्रीरघुनाथजीकी महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ? ॥ ३ ॥

रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभसत कोटि अमित अवकासा ॥

श्रीरामजीका अरवों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है। वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान शत्रुनाशक हैं। अरवों इन्द्रोंके समान उनका विलास (ऐश्वर्य) है। अरवों आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्थान) है ॥ ४ ॥

दो०—मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकास ।

ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ६१(क) ॥

अरवों पवनके समान उनमें महान् बल है और अरवों सूर्योंके समान प्रकाश है। अरवों चन्द्रमाओंके समान वे शीतल और संसारके समस्त भयोंका नाश करनेवाले हैं ॥ ६१(क) ॥

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत ।

धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंतं ॥ ६१(ख) ॥

अरवों कालोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं। वे भगवान् अरवों धूमकेतुओं (पुच्छल तारों) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ६१ (ख) ॥

चौ०—प्रभुअगाधसत कोटिपताला । समन कोटि सतसरिस कराला ॥

तीरथअमितकोटिसम पावन । नामअखिलअघ पूग नसावन ॥

अरवों पातालोंके समान प्रभु अथाह हैं। अरवों यमराजोंके समान भयानक हैं। अनन्त कोटि तीर्थोंके समान वे पवित्र करनेवाले हैं। उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है ॥ १ ॥

हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥

कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगव

श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके समान अचल (स्थिर) हैं और अरवों

समान गहरे हैं। भगवान् अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं (इच्छित पदार्थों) देनेवाले हैं ॥ २ ॥

सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई
विष्णु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता

उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओंके समा सृष्टिरचनाकी निपुणता है। वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरब रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा

वे अरबों कुबेरोंके समान धनवान् और करोड़ों मायाओंके समान सृष्टिके खजा हैं। बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं। [अधिक क्या] जगदीश्वर प्र श्रीरामजी [सभी बातोंमें] सीमारहित और उपमारहित हैं ॥ ४ ॥

छं०—निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै ।
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै ॥
एहि भाँति निजनिज मतिबिलास मुनीस हरिहि बखानहीं ।
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥

श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्रीरामके समान श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओंके समान कहनेसे सूर्य [प्रशंसाको नहीं वर अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है (सूर्यकी निन्दा ही होती है)]। इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं किंतु प्रभु भक्तोंके भावमात्र ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपालु हैं। वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं।

दो०—रामु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ ।

संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोइ ॥ ६२(क)

श्रीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतो मैंने जैसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥ ६२ (क) ॥

सो०—भाव बस्य भगवान् सुख निधान करुना भवन ।

तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥ ६२ (ख) ॥

सुखके भण्डार, करुणाघाम भगवान् भाव (प्रेम) के वश हैं। [अतएव] ममता, मद

और मानको छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९२ (ख) ॥

चो०—सुनि भुसुंडि के वचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥

नयन नीर मन अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥

भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिये ।

उनके नेत्रोंमें [प्रेमानन्दके आंसुओंका] जल आ गया और मन अत्यन्त हर्षित हो गया ।

उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें धारण किया ॥ १ ॥

पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥

पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥

वे अपने पिछले मोहको समझकर (याद करके) पछताने लगे कि मैंने अनादि

ब्रह्मको मनुष्य करके माना । गरुड़जीने बार-बार काकभुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया

और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया ॥ २ ॥

गुर विनु भव निधि तरइ न कोई । जौं बिरंचि संकर सम होई ॥

संसय सर्प असेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु वाता ॥

गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्माजी और शंकरजीके

समान ही क्यों न हो-। [गरुड़जीने कहा—] हे तात ! मुझे सन्देहरूपी सपने बस लिया

था और [साँपके डसनेपर जैसे विप चढ़नेसे लहरें आती हैं वैसे ही] बहुत-सी कुतर्करूपी

दुःख देनेवाली लहरें आ रही थीं ॥ ३ ॥

तव सरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥

तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना ॥

आपके स्वरूपरूपी गारुड़ी (साँपका विप उतारनेवाले) के द्वारा भक्तोंको सुख

देनेवाले श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया । आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और

मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥

दो०—ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि ।

बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ ६३ (क) ॥

उनकी (भृशुण्डिजीकी) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर

फिर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले—॥ ६३ (क) ॥

प्रभु अपने अविवेक ते बूझउँ स्वामी तोहि ।

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ६३ (ख) ॥

हे प्रभो ! हे स्वामी ! मैं अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ । हे कृपाके समुद्र !

मुझे अपना 'निज दास' जानकर आदरपूर्वक (विचारपूर्वक) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये ।

चौ०—तुम्ह सर्वग्य तग्य तम पारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥

ग्यान बिरति विग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥

आप सब कुछ जाननेवाले हैं, तत्त्वके ज्ञाता हैं, अन्धकार (माया) से परे, उत्तम बुद्धिसे युक्त, सुशील, सरल आचरणवाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञानके धाम और श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १ ॥

कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥

राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु कहाँ कहहु नभगामी ॥

आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ? हे तात ! सब समझाकर मुझसे कहिये । हे स्वामी ! हे आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिये ॥ २ ॥

नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं । महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं ॥

सुधा वचन नहीं ईस्वर कहई । सोउ मोरें मन संसय अहई ॥

हे नाथ ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रलयमें भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर (शिवजी) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३ ॥

अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥

अंड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥

[क्योंकि] हे नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत् कालका कलेवा है । असंख्य ब्रह्माण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है ।

सो०—तुम्हारे न व्यापत काल अति कराल कारन कवन ।

मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ६४(क) ॥

[ऐसा वह] अत्यन्त भयंकर काल आपको नहीं व्यापता (आपपर प्रभाव नहीं दिखलाता)—इसका क्या कारण है ? हे कृपालु ! मुझे कहिये, यह ज्ञानका प्रभाव है या योगका बल है ? ॥ ९४ (क) ॥

दो०—प्रभु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग ।

कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ ६४ (ख) ॥

हे प्रभो ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया । इसका क्या कारण है ? हे नाथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ९४ (ख) ॥

चौ०—गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥

धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्नतुम्हारि मोहि अतिप्यारी ॥

हे उमा ! गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे बोले— हे सपैके शत्रु ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है । आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥१॥

सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥

सब निज कथा कहउँ मैं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥

आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी । मैं अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूँ । हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥

जप तप मख सम दम व्रत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥

सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा ॥

अनेक जप, तप, यज्ञ, शम (मनको रोकना), दम (इन्द्रियोंको रोकना), व्रत दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनायजीके चरणोंमें प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥

एहिं तन राम भगति मैं पाई । ताते मोहि ममता अधिकाई ॥

जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥

मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है । इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक है । जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥

सो०—पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं ।

अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ६५ (क) ॥

हे गरुड़जी ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपन परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ (क) ॥

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर ।

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ६५ (ख) ॥

रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं । इसीसे उस पर अपवित्र कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ (ख) ॥

चौ०—स्वारथ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम वचन राम पद नेहा ।

सोइ पावन सोइ सुभग शरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ।

जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो । वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय ॥ १ ॥

राम विमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रसंसहिं तेही ।

राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ।

जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई इसीसे हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है ॥ २ ॥

तजउँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना ॥

प्रथम मोहँ मोहि बहुत बिगोवा । राम विमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥

मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि वेदोंने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा की । श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥

नाना जनम कर्म पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥

कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥

अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म

किये । हे गरुड़जी ! जगत्में ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने (बार-बार) धूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४ ॥

देखेउँ करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयउँ अबहिं की नाईं ॥

सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहँ न घेरी ॥

हे गुसाईं ! मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब (इस जन्म) की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ । हे नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है । [क्योंकि] श्रीशिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा ॥ ५ ॥

दो०—प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु विहगोस ।

सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिटाहिं क्लेश ॥ ६६ (क) ॥

हे पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ६६ (क) ॥

पूरुव कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल ।

नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ६६ (ख) ॥

हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे ॥ ६६ (ख) ॥

चौ०—तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई ॥

सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥

उस कलियुगमें मैं अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा । मैं मन, वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ।

धन मद मत्त परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला ॥

जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तत्र जानी ॥

मैं धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्रबुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था । यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २ ॥

अब जाना मैं अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥

कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥

सो०—पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं ।

अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ६५ (क) ॥

हे गरुड़जी ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ (क) ॥

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर ।

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्राण सम ॥ ६५ (ख) ॥

रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं । इसीसे उस परम अपवित्र कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ (ख) ॥

चौ०—स्वारथ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा ।

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ।

जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणों प्रेम हो । वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन कि जाय ॥ १ ॥

राम विमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोबिद न प्रसंसहिं तेही

राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी

जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी क और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई इसीसे हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है ॥ २ ॥

तजउँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना

प्रथम मोहँ मोहि बहुत विगोवा । राम विमुख सुख कबहुँ न सोवा

मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ूँ क्योंकि वेदोंने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी दुर्दशा की । श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥

नाना जनम कर्म पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दान

कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं

अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि

किये । हे गरुड़जी ! जगत्में ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने (बार-बार) धूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४ ॥

देखेउँ करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयउँ अबहिं की नाईं ॥
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहँ न घेरी ॥

हे गुसाईं ! मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब (इस जन्म) की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ । हे नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है । [क्योंकि] श्रीशिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा ॥ ५ ॥

दो०—प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु विहगोस ।

सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिटहिं क्लेश ॥ ६६ (क) ॥

हे पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ६६ (क) ॥

पूरुव कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल ।

नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ६६ (ख) ॥

हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे ॥ ६६ (ख) ॥

चौ०—तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई ॥

सिव सेवक मन क्रम अरु वानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥

उस कलियुगमें मैं अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा । मैं मन, वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ।

धन मद मत्त परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला ॥

जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तव जानी ॥

मैं धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्रबुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था । यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २ ॥

अब जाना मैं अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥

कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥

अब मैंने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्त्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि किसी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता है, वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो

जायगा ॥ ३ ॥

अवध प्रभाव जान तब प्राणी । जब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥

अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास करते हैं । हे गरुड़जी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था । उसमें सभी नर-नारी पापपरायण (पापोंमें लिप्त) थे ॥ ४ ॥

दो०—कलिसल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रकट किए बहु पंथ ॥ ६७ (क)

कलियुगके पापोंने सब धर्मोंको ग्रस लिया, सदग्रन्थ लुप्त हो गये । दंभि अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ६७ (क) ॥

भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म ।

सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिधर्म ॥ ६७ (क)

सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोंको लोभने हड़प लिया । भण्डार ! हे श्रीहरिके वाहन ! सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ ६७

चौ०—बरनधर्मनहिं आश्रमचारी । श्रुति विरोध रत सब नर

द्विजश्रुतिबेचक भूप्रजासन । कोउ नहिं जाननिगम अन

कलियुगमें न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं । सब पुरुष विरोधमें लगे रहते हैं । ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा ड

मार्ग सोइ जा कहँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाव

मिथ्यारंभ दंभ रत जोई । ता कहँ संत कहइ

जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है । जो डींग मारता है जो मिथ्या आरम्भ करता (आडम्बर रचता) है और जो दम्भमें र

पुंठ कहते हैं ॥ २ ॥

सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥
जो कह भूँठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥

जो [जिस किसी प्रकारसे] दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान् है । जो दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी है । जो झूठ बोलता है और हँसी-दिल्लगी करना जानता है, कलियुगमें वही गुणवान् कहा जाता है ॥ ३ ॥

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सोविरागी ॥
जाके नख अरु जटा विसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥

जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कलियुगमें वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान् है । जिसके बड़े-बड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कलियुगमें प्रसिद्ध तपस्वी है ॥ ४ ॥

दो०—असुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहिं ।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥ ६८ (क) ॥

जो अमङ्गल वेश और अमङ्गल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य-अभक्ष्य (खाने योग्य और न खाने योग्य) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनग्य कलियुगमें पूज्य हैं ॥ ९८ (क) ॥

सं०—जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।

मन क्रम वचन लवार तेइ वक्ता कलिकाल महुँ ॥ ९८ (ख) ॥

जिनके आचरण दूसरोंका अपकार (अहित) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मानके योग्य होते हैं । जो मन, वचन और कर्मसे लवार (झूठ बकनेवाले) हैं, वे ही कलियुगमें वक्ता माने जाते हैं ॥ ९८ (ख) ॥

चौ०—नारि बिबस नर सकल गोसाईं । नाचहिं नट मर्कट की नाईं ॥

सूद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥

हे गोसाईं ! सभी मनुष्य स्त्रियोंके विशेष वशमें हैं और बाजीगरके बंदरकी तरह [उनके नचाये] नाचते हैं । ब्राह्मणोंको शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं ॥ १ ॥

व नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत विरोधी ॥
न मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥

सभी पुरुष काम और लोभमें तत्पर और क्रोधी होते हैं । देवता, ब्राह्मण, वेद और उनके विरोधी होते हैं । अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका वन करती हैं ॥ २ ॥

भीमाग्निनीं विभूषन हीना । विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥
गुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥

सुहाग्निनी स्त्रियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये शृङ्गार होते हैं । शिष्य और गुरुमें बहरे और अंधेका-सा हिसाब होता है । एक (शिष्य) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु) देखता नहीं, (उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है) ॥ ३ ॥

हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं ॥

जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें मड़ता है । माता-पिता बालकोंको बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥

दो०—ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात ।

कौड़ी लागि लोभ बस करहिं विप्र गुर घात ॥ ६६ (क) ॥
स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों (बहुत थोड़े लाभ) के लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९९ (क) ॥

बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि ।
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डाटि ॥ ६६ (ख) ॥

शूद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [और कहते हैं] कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं ? जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है । [ऐसा कहकर] वे उन्हें डाँटकर आँखें दिखलाते हैं ॥ ९९ (ख) ॥

चौ०—पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखा मैं चरित्र कलिजुग कर ॥

जो परायी स्त्रीमें आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी (ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले) ज्ञानी हैं । मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥

आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं । जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥
कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥

वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं । जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्पभर एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं ॥ २ ॥

जे वरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥
नारि मुई गृह संपति नासी । मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥

तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भोल, कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीचे हैं, स्त्रीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥ ३ ॥

ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ दूषली स्वामी ॥

वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं । ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यभिचारिणी स्त्रियोंके स्वामी होते हैं ॥ ४ ॥

सूद्र करहिं जप तप व्रत नाना । बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥
सब नर कलिपत करहिं अचारा । जाइ न वरनि अनीति अपारा ॥

सूद्र नाना प्रकारके जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊँचे आसन (व्यासगद्दी) पर बैठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं । अपार अनीतिकारणन नहीं किया जा सकता ॥ ५ ॥

दो०—भए वरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १०० (क) ॥

कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये । वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप [दुःख, भय, रोग, शोक और [प्रिय वस्तुका] वियोग पाते हैं ॥ १०० (क) ॥

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक ।

तेहिं न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १०० (ख) ॥

वेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है, मोहवश मनुष्य उसपर नहीं चलते और अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना करते हैं ॥ १०० (ख) ॥

छं०—बहु दाम सँवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि नरहि विरती ॥

तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥

संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने हर लिया । तपस्वी धनवान् हो गये और गृहस्थ दरिद्र । हे तात ! कलियुगकी लीला कुछ कही नहीं जाती ॥ १ ॥

कुलवंति निकारहिं नारि सती । गृह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥

सुत मानहिं मातु पिता तब लौं । अबलानन दीख नहीं जब लौं ॥

कुलवती और सती स्त्रीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं और अच्छी चालको छोड़कर घरमें दासीको ला रखते हैं । पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते हैं, जबतक स्त्रीका मुंह नहीं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥

ससुरारि पिआरि लगी जब तें । रिपुरूप कुटुंब भए तब तें ॥

नृप पाप परायन धर्म नहीं । करि दंड विडंब प्रजा नितहीं ॥

जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटुम्बी शत्रुरूप हो गये । राजालोग पापपरायण हो गये, उनमें धर्म नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य ही [बिना अपराध] दण्ड देकर उसकी विडम्बना (दुर्दशा) किया करते हैं ॥ ३ ॥

धनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥

नहिं मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥

धनी लोग मलिन (नीच जातिके) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं । द्विजका चिह्न जनेऊमात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वीका । जो वेदों और पुराणोंको नहीं मानते, कलियुगमें वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं ॥ ४ ॥

कवि वृंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥

कलि वारहिं वार दुकाल परै । विनु अन्न दुखी सब लोग मरै ॥

कवियोंके तो झुंड हो गये, पर दुनियामें उदार (कवियोंका आश्रय-दाता) सुनायी नहीं पड़ता । गुणमें दोष लगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है । कलियुगमें बार-बार अकाल पड़ते हैं । अन्नके बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं ॥ ५ ॥

दो०—सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड ।

मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ १०१ (क) ॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, कलियुगमें कपट, हठ (दुराग्रह), दंभ, द्वेष, पाषण्ड, मान, मोह और काम आदि (अर्थात् काम, क्रोध और लोभ) और मद ब्रह्माण्ड-भरमें व्याप्त हो गये (छा गये) ॥ १०१ (क) ॥

तामस धर्म करहिं नर जप तप व्रत मख दान ।

देव न वरषहिं धरनीं वए न जामहिं धान ॥ १०१ (ख) ॥

मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे । देवता (इन्द्र) पृथ्वीपर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं ।

छं०—अवला कच भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥

सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥

स्त्रियोंके बाल ही भूषण हैं (उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया) और उनको भूख बहुत लगती है (अर्थात् वे सदा अतृप्त ही रहती हैं) । वे धनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे भूख सुख चाहती हैं, पर धर्ममें उनका प्रेम नहीं है । बुद्धि थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है ॥ १ ॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥

लघु जीवन संवतु पंच दसा । कलपांत न नास गुमानु असा ॥

मनुष्य रोगोंसे पीड़ित है, भोग (सुख) कहीं नहीं है । बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं । दस-पांच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है; परंतु घमंड ऐसा है, मानो कल्पान्त (प्रलय) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा ॥ २ ॥

कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहीं मानत कौ अनुजा गुजा ॥

नहिं तोष विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए ॥ ॥

कलिकालने मनुष्यको बेहाल (अस्त-व्यस्त) कर डाला । कोई बहिन-बेटीका चार नहीं करता । [लोगोंमें] न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है । कुजाति सभी लोग भीख माँगनेवाले हो गये ॥ ३ ॥

षा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता विगता ॥

ईर्ष्या (डाह), कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी । सब लोग वियोग और विशेष शोकसे मरे पड़े हैं । वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४ ॥

दम दान दया नहीं जानपनी । जड़ता परबंचनताति घनी ॥

तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक जे जग मो बगरे ॥

इन्द्रियोंका दमन, दान, दया और समझदारी किसीमें नहीं रही । मूर्खता और दूसरोंको ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ गया । स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषण लगे रहते हैं । जो परायी निन्दा करनेवाले हैं जगत्में वे ही फैले हैं ॥ ५ ॥

दो०—सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार ।

गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२ (क)

हे सर्पोंके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर है । कलियुगमें एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबन्धनसे छुटकारा जाता है ॥ १०२ (क) ॥

कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिँ लोग ॥ १०२

सतयुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त हो गति कलियुगमें लोग केवल भगवान्के नामसे पा जाते हैं ॥ १०२ (ख) ॥

चौ०—कृतजुग सब जोगी विग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिँ भ

त्रेताँ विविध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समर्पि कर्म भ

सतयुगमें सब योगी और विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान क भवसागरसे तर जाते हैं । त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं औ

पूजा करके भवसागरसे पार हो जाते हैं ॥ १ ॥

द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥

कलियुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥

द्वापरमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है और कलियुगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २ ॥

कलियुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥

सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥

कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है । श्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार है । अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहोंको गाता है ॥ ३ ॥

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥

कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥

वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । नामका प्रताप कलियुगमें प्रत्यक्ष है । कलियुगका एक पवित्र प्रताप (महिमा) है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर [मानसिक] पाप नहीं होते ॥ ४ ॥

दो०—कलियुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर विस्वास ।

गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनहिं प्रयास ॥ १०३(क)॥

यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है [क्योंकि] इस युगमें श्रीरामजीके निर्मल गुणसमूहोंको गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार [रूपी समुद्र] से तर जाता है ॥ १०३ (क) ॥

प्रगट चारिं पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान ।

जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्याण ॥ १०३(ख)॥

धर्मके चार चरण (सत्य, दया, तप और दान) प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे कलिमें एक [दान-रूपी] चरण ही प्रधान है । जिस-किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता है ।

चौ०—नित जुग धर्म होहिं सब करे । हृदयँ राम माया के प्रेरे ॥

सुद्ध सत्व समता बिग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥

श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने।
 सत्व बहुत रज कष्ट रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥
 बहु रज स्वल्प सत्व कष्ट तामस । द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥

सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मोंमें प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो, यह त्रेताका धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मनमें हर्ष और भय हों, यह द्वापरका धर्म है ॥ २ ॥

तामस बहुत रजोगुण थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥
 बुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥

तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका प्रभाव है। पण्डित लोग युगोंके धर्मको मनमें जान (पहिचान) कर अधर्म छोड़कर धर्ममें प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

काल धर्म नहिं व्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥
 नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्यापइ माया ॥

जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधर्म (युगधर्म) नहीं व्यापते। हे पक्षिराज ! नट (बाजीगर) का किया हुआ कपट-चरित्र (इन्द्रजाल) देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट (दुर्गम) होता है, पर नटके सेवक (जंभूरे) को उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४ ॥

दो०—हरि माया कृत दोष गुन विनु हरिभजन न जाहिं ।
 भजिअ राम तजि काम सब अस विचारि मन माहिं ॥ १०४(क) ॥
 श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरिके भजन बिना नहीं जाते। मनमें ऐसा विचारकर, सब कामनाओंको छोड़कर निष्कामभावसे श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १०४ (क) ॥

तेहिं कलिकाल वरष बहु वसेउँ अवध विहगेस ।
 परेउ दुकाल विपति बस तव मैं गयउँ विदेस ॥ १०४ (ख) ॥

हे पक्षिराज ! उस कतिकालमें मैं बहुत वर्षोंतक अयोध्यामें रहा । एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्तिवा मारा विदेश चला गया ॥ १०४ (ख) ॥

श्री०—गयउँ उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥
गएँ काल कछु संपत्ति पाई । तहँ पुनि करउँ संभु सेवकाई ॥

हे सपौके शत्रु गच्छजी ! सुनिये, मैं दीन, मलिन (उदास); दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया । कुछ काल बीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान् शंकरकी आराधना करने लगा ॥ १ ॥

विप्र एक वैदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥
परम साधु परमारथ विंदक । संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥

एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था । वे परम साधु और परमार्थके ज्ञाता थे । वे शम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी निन्दा करनेवाले न थे ॥ २ ॥

तेहि सेवउँ मैं कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥
बाहिज नघ देखि मोहि साई । विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई ॥

मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीतिके घर थे । हे स्वामी ! बाहरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भांति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३ ॥

संभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा । सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा ॥
जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई । हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई ॥

उन ब्राह्मणश्रेष्ठने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ उपदेश किये । मैं शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जपता । मेरे हृदयमें दम्भ और अहंकार बढ़ गया ॥ ४ ॥

श्री०—मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह ।

हरिजन द्विज देखें जरउँ करउँ विष्णु कर द्रोह ॥ १०५ (क) ॥

मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तों और द्विजोंको देखते ही जल उठता और विष्णुभगवान्से द्रोह करता था ॥ १०५ (क) ॥

गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम ।
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ १०५ (ख) ॥

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे मुझे नित्य ही भलीभाँति समझाते, पर कुछ भी नहीं समझता] उलटे मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता । दम्भीको कभी नीति से लगती है ? ॥ १०५ (ख) ॥

एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगतिराम पद होई ॥

एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [परमार्थ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाढ़ भक्ति हो ॥१॥

रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पावँर कै केतिक बाता ॥
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी ॥

हे तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं, [फिर] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ? ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं, अरे अभागी ! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ? ॥ २ ॥

हर कहँ हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ।
अधम जाति में विद्या पाँँ । भयउँ जथा अहि दूध पिआ

गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा । यह सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा हृदय उठा । नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप ॥ ३ ॥

मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुर कर द्रोह करउँ दिनु ।
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सु

अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करने के वार-वार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते थे ॥ ४ ॥

जेहि ते नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहिं हति ताहि ।
धम अनल संभव सुनु भाई । तेहि बुझाव घन प

नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश करता है। हे भाई ! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआँ मेघकी पदवी पाकर उसी अग्निको जमा देता है ॥ ५ ॥

रज मग परी निरादर रहई । सब कर पद प्रहार नित सहई ॥
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई । पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥

धूल रास्तेमें निरादरसे पढ़ी रहती है और सदा सब [राह चलनेवालों] के लातोंकी मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता (ऊँचा उठाता) है, तो सबसे पहले वह उसी (पवन) को भर देती है और फिर राजाओंके नेत्रों और किरीटों (मुकुटों) पर पड़ती है ॥ ६ ॥

सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अधम कर संग्गा ॥
कवि कोविद गावहिं असि नीती । खलसनकलह न भलनहिं प्रीती ॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान् लोग अधम (नीच) का सङ्ग नहीं करते। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७ ॥

उदासीन नित रहिअ गोसाईं । खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥
मैं खल हृदयँ कपट कुटिलाई । गुर हित कहइ न मोहि सोहाई ॥

हे गोसाईं ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्टको कुत्तेकी तरह दूरसे ही त्याग देना चाहिये। मैं दुष्ट या, हृदयमें कपट और कुटिलता भरी थी। [इसीलिये यद्यपि] गुरुजी हितकी बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी ॥ ८ ॥

दो०—एक वार हर मंदिर जपत रहेउँ शिव नाम ।

गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ (क) ॥

एक दिन मैं शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आये, पर अभिमानके भारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क) ॥

सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोप लवलेस ।

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ १

गुरुजी दयालु थे, [मेरा दोष देखकर भी] उन्होंने कुछ नहीं कहा;

रामचरितमानस

भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः महादेवजी उसे ह सके ॥ १०६ (ख) ॥

मंदिर माझ भई नमबानी । रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥
जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपालचित सम्यक बोधा ॥

मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य! मूर्ख! अभिमानी! यद्यपि तेरे गुरुको क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्तके हैं और उन्हें [पूर्ण तथा] यथार्थ ज्ञान है, ॥ १ ॥

तदपि साप सठ देहउँ तोही । नीति विरोध सोहाइ न मोही ॥
जौं नहिं दंड करौं खल तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुतिमाराग मोरा ॥

तो भी हे मूर्ख! तुझको मैं शाप दूंगा। [क्योंकि] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट! यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमार्ग ही भ्रष्ट हो जाय ॥ २ ॥

जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ।
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥

जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगोंतक रौरव नरकमें पड़े रहते फिर (वहाँसे निकलकर) वे तिर्यग् (पशु, पक्षी आदि) योनियोंमें शरीर धारण हैं और दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते रहते हैं ॥ ३ ॥

बैठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खल मल मति ब्य
महा बिटप कोटर महुँ जाई । रहु अधमाधम अधगति ॥

अरे पापी! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा! रे दुष्ट! तेरी बढक गयी है, [अतः] तू सर्प हो जा। और, अरे अधमसे भी अधम! इ (सर्पकी नीची योनि) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेमें जाकर र

दो०—हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप ।
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १

शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया। मु देखकर उनके हृदयमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥

करि दंडवत् सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि ।

विनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि ॥ १०७ (ख) ॥

प्रेमसहित दण्डवत् करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति (दण्ड) का विचारकर गदगद वाणीसे, विनती करने लगे—॥ १०७: (ख) ॥

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासंभजेऽहं ॥ १ ॥

हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निजस्वरूपमें स्थित (अर्थात् मायादिरहित), [मायिक] गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन, आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिग्म्बर [अथवा आकाशको भी आच्छादित करनेवाले] आपको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥

निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिरा ग्यानगोतीतमीशंगिरीशं ॥

करालं महाकालं कालं कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २ ॥

निराकार, ओङ्कारके मूल, तुरीय (तीनों गुणोंसे अतीत), वाणी, शान और इन्द्रियोसे परे, कैलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, कृपालु, गुणोंके धाम, संसारसे परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं ॥

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालत्रालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ ३ ॥

जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर है, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके ललाटेपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित हैं ॥ ३ ॥

चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं ॥

मृगाधीशचर्मस्वरं सुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भक्तान्ते ॥ ४ ॥

जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भुजुयी और विशाल नेत्र हैं, मुख, नीलकण्ठ और दयालु हैं; सिंहचर्मको वस्त्र धारण किये और सुण्डमाला पहने सबके प्यारे और सबके नाथ, [कल्याण करनेवाले] श्रीशिवजीको मैं भजता हूँ ॥

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥५॥

प्रचण्ड (रुद्ररूप), श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों (दुःखों) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्रिशूल धारण किये, भाव (प्रेम) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशङ्करजीको मैं भजता हूँ ॥ ५ ॥

कलातीत कल्याण कल्यान्तकारी । सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥

कलाओंसे परे, कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनोंको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिए, प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥

न यावद् उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥७॥

जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहलोक और परलोकमें सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापोंका नाश होता है । अतः हे समस्त जीवोंके अंदर (हृदयमें) निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हूजिये ॥ ७ ॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं ॥
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीशशंभो ॥८॥

मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे शंभो ! मैं तो सदा-सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [मृत्यु] के दुःखसमूहोंसे जलते हुए मुझ दुःखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शंभो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

श्लोक—रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ ६ ॥
भगवान् रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि (प्रसन्नता) के लिये

ब्राह्मणद्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर भगवान् शम्भु प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥

श्री०—सुनि विनती सर्वग्यसिव देखि विप्र अनुरागु ।

श्री० पुनि मंदिर नभवानी भइ द्विजवर वर मांगु ॥ १०८ (क) ॥

श्री० सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा। तब मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ ! वर मांगो ॥ १०८ (क) ॥

श्री० जौं प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु ।

श्री० निजपद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर वर देहु ॥ १०८ (ख) ॥

श्री० [ब्राह्मणने कहा—] हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ ! यदि इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये ॥ १०८ (ख) ॥

श्री० तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान ।

श्री० तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥ १०८ (ग) ॥

श्री० हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला फिरता है। हे कृपाके समुद्र भगवान् ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग) ॥

श्री० शंकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल ।

श्री० साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥ १०८ (घ) ॥

श्री० हे दीनोंपर दया करनेवाले [कल्याणकारी] शंकर ! अब इसपर कृपालु होइये (कृपा कीजिये), जिससे हे नाथ ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह (शापसे मुक्ति) हो जाय ॥ १०८ (घ) ॥

श्री०—एहि कर होइ परम कल्याणा । सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥

श्री० विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भइ नभवानी ॥

श्री० हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरेके हितसे सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई—'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ॥ १ ॥

जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । मैं पुनि दीन्हि कोप करि सा

तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा विसे

यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है; तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥ २ ॥
 छमाशील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥
 मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥

हे द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि श्रीरामचन्द्रजी । हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ ३ ॥
 जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि स्वल्पउ नहिं व्यापिहि सोई
 कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना

परंतु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है इसको वह दुःख जरा भी व्यापेगा और किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शूद्र ! मेरा प्रामा (सत्य) वचन सुन ॥ ४ ॥

रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि तैं मम सेवाँ मन दय
 पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरैं । राम भगति उपजिहि उर तैं
 [प्रथम तो] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर तूने मेरी सेवा लगाया । पुरीके प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ ५ ॥

सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन व्रत द्विज सेवा
 अब जनि करहि विप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत सर
 हे भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा ही भगवान् करनेवाला व्रत है । अब कभी ब्राह्मणका अपमान न करना । संतोंको अनन्त श्रीसमान जानना ॥ ६ ॥

इंद्र कुलिस मम सूल विसाला । कालदंड हरि चक्र
 जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्र द्रोह पावक से
 इंद्रके वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकारा भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥
 अस विवेक राखेहु मन माहीं । तुम्ह कहँ जग दुर्लभ न
 औरउ एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति हो

ऐसा विवेक मनमें रखना । फिर तुम्हारे लिये जगत्में कुछ भी दुर्लभ न होगा । मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अवाध गति होगी (अर्थात् तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक-टोकके जा सकोगे) ॥ ८ ॥

दो०—सुनि सिव वचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि ।

मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ॥ १०६ (क) ॥

[आकाशवाणीके द्वारा] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर 'ऐसा ही हो' यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर अपने घर गये ॥ १०६ (क) ॥

प्रेरित काल विधि गिरि जाइ भयउँ मैं व्याल ।

पुनि प्रयास विनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल ॥ १०६ (ख) ॥

कालकी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर बिना ही परिश्रम (कष्ट) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (ख) ॥

जोइ तनु धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान ।

जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥ १०६ (ग) ॥

हे हरिवाहन ! मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहिन लेता है ॥ १०९ (ग) ॥

सिवँ राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिँ पावा क्लेश ।

एहि विधि धरेउँ विविधितनु ग्यान न गयउ खगेस ॥ १०६ (घ) ॥

शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे परमराज ! मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया ॥ १०९ (घ) ॥

दो०—त्रिजग देव नर जोइ तनु धरउँ । तहँ तहँ राम भजन अनुसरउँ ॥

एक शूल मोहि विसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥

तियँकु योनि (पशु-पक्षी), देवता या मनुष्यका, जो भी शरीर धारण करता, वहाँ-वहाँ (उस-उस शरीरमें) मैं श्रीरामजीका भजन जारी रखता । [इस प्रकार मैं सुखी हो गया] परंतु एक शूल मुझे बना रहा । गुरुजीका कोमल, सुशील स्वभाव

कभी नहीं भूलता (अर्थात् मैंने ऐसे कोमल-स्वभाव दयालु गुरुका अपमान किया, यह दुःख मुझे सदा बना रहा) ॥ १ ॥

चरम देह द्विज कै में पाई । सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥
खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला । करउँ सकल रघुनायक लीला ॥

मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ बताते हैं । मैं वहाँ (ब्राह्मण-शरीरमें) भी बालकोंमें मिलकर खेलता तो श्रीरघुनाथजीकी ही सब लीलाएँ किया करता ॥ २ ॥

प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा । समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा ।
मन ते सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय लागी ॥

सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं । केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लव लग गयी ॥ ३ ॥

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥

हे गरुड़जी ! कहिये, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी सेवा करेगा ? प्रेममें मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता । पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥

भए कालवस जब पितु माता । मै बन गयउँ भजन जनत्राता ॥
जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ । आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ ॥

जब पिता-माता कालवश हो गये (मर गये), तब मैं भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया । वनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोंके आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता ॥ ५ ॥

बूझउँ तिन्हहि राम गुन गाहा । कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा ॥
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुवादा । अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥

हे गरुड़जी ! उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता । वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता । इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजीके

कृपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी (अर्थात् मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था) ॥ ६ ॥

छूटी त्रिविधि ईषना गाढी । एक लालसा उर अति बाढी ॥

राम चरन वारिज जब देखौं । तब निज जन्म सफल करि लेखौं ॥

मेरी तीनों प्रकारकी (पुत्रकी, धनकी और मानकी) गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गयीं और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ ॥ ७ ॥

जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सर्व भूतमय अहई ॥

निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥

जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है । यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था । हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥ ८ ॥

दो०—गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग ।

रघुपतिजस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥

गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग गया । मैं क्षण-क्षण नया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ ११० (क) ॥

॥ मेरु सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन ।

देखि चरन सिरु नायउँ वचन कहेउँ अति दीन ॥ ११० (ख) ॥

सुरेश्वरके शिखरपर बड़की छायामें लोमशमुनि बैठे थे । उन्हें देखकर मैंने उनके चरणोंमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख) ॥

सुनि मम वचन विनीतमृदु सुनि कृपाल खगराज ।

मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग) ॥

हे पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे सादरके साथ पूछने लगे—हे ब्राह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं ? ॥ ११० (ग) ॥

तब मैं कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वग्य सुजान ।

सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु भगवान ॥ ११० (घ) ॥

तब मैंने कहा—हे कृपानिधि ! आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं । मैं भगवत्पूजाके सगुण ब्रह्मकी आराधना [की-प्रक्रिया] कहिये ॥ ११० (घ) ॥

ब्रह्मग्यान रत मुनि विद्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥
ब्रह्मग्यानाय नमः । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥

तब हे पक्षिराज ! मुनीश्वरने श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं ।
ब्रह्मज्ञानपरायण विज्ञानवान् मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर—॥ १ ॥
मे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा

कल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥
ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदयका
(अन्तर्यामी) है । उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित,
नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जानने योग्य, अखण्ड और उपमारहित है ॥ २ ॥
मन गोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुख रासी ॥
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा । बरि बीचि इव गावहिं बेदा ॥

वह मन और इन्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित; निर्विकार, सीमारहित और
सुखकी राशि है । वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है (तत्त्वमसि), जल और जलकी लहर
भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है ॥ ३ ॥
बिबिधि भाँति मोहिमुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदयँ न आव
पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहहु मुनीस

मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें नहीं
मैंने फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर कहा—हे मुनीश्वर ! मुझे सगुण ब्रह्मकी
कहिये ॥ ४ ॥
राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस
सोइ उपदेस कहहु करि दाय । निज नयनन्हि देखौं र

मेरा मन रामभक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है (उसीमें रम रहा
मुनीश्वर ! ऐसी दशामें वह उससे अलग कैसे हो सकता है ? आप दया
उपदेश (उपाय) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सकूँ ।
भरि लोचन विलोकि अवधेसा । तब सुनिहउँ निर्गुन
मनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत अ

[पहले] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर तब निर्गुणका उपदेश सुनूंगा। मुनिते फिर अनुपम हरिकथा कहकर, सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण किया ॥ ६ ॥ तब मैं निर्गुण मत कर दूरी। सगुण निरूपण करि हठ भूरी ॥ उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥

तब मैं निर्गुण मतको हटाकर (काटकर) बहुत हठ करके सगुणका निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया; इससे मुनिके शरीरमें क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये ॥ ७ ॥

सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ ॥ अति संघरषन जौँ कर कोई। अतल प्रगट चंदन ते होई ॥

हे प्रभो! मुनिये, बहुत अपमान करनेपर जानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जायगी ॥ ८ ॥

श्लो०—बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान।

मैं अपने मन बैठ तब करउँ बिबिधि अनुमान ॥ १११ (क) ॥

मुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा-बैठा अपने मनमें अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा ॥ १११ (क) ॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान।

मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११ (ख) ॥

बिना द्वैतबुद्धिके क्रोध कौसा और बिना अज्ञानके क्या द्वैतबुद्धि हो सकती है? मायाके वश रहनेवाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है? ॥ १११ (ख) ॥

श्लो०—कत्रहुँ कि दुख सब कर हित लाकेँ। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकेँ ॥

परद्रोही की होहिँ निसंका। कामी पुनि कि रहहिँ अकलंका ॥

सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है? जिसके पास पारसमाँ उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भर और कामी क्या कलङ्करहित (बेदाग) रह सकते हैं? ॥ १ ॥

वंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें ॥
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥

ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान) होनेपर क्या [आसक्तिपूर्वक] कर्म हो सकते हैं ? दुष्टोंके सङ्गसे क्या किसीके सुबुद्धि उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है ? ॥ २ ॥

भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कबहुँ हरि निंदक ॥
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें ॥

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर] में पड़ सकते हैं ? भगवान्की निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ? श्रीहरिके चरित वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं ? ॥ ३ ॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥

बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [प्राप्त] हो सकता है ? बिना पापके भी क्या कोई अपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥ ४ ॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥

हे भाई ! जगत्में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ? और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है ? ॥ ५ ॥

एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ॥
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥

इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका उपदेश नहीं सुनता था । जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त बचन बोले—॥ ६ ॥

मूढ़ परम सिख देउं न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥

सत्य वचन विस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही ॥

अरे मूढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर (दलीलें) लाकर रखता है। मेरे सत्य वचनपर विस्वास नहीं करता। कौएकी भाँति सभीसे डरता है ॥ ७ ॥

सठ स्वपच्छ तव हृदयँ बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥

लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥

अरे मूर्ख ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है। अतः तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी (कौआ) हो जा। मैंने आनन्दके साथ मुनिके श्रापको सिरपर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी ॥ ८ ॥

दो०—तुरत भयउँ मैं काग तव पुनि मुनि पद सिरु नाइ ।

सुमिरि राम रघुवंस मनि हरषित चलेउँ उड़ाइ ॥ ११२ (क) ॥

तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥

उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहिं जगतकोहि सन करहिं विरोध ॥ ११२ (ख) ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी है, और काम, अभिमान तथा क्रोधसे रहित है, वे जगत्को अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें ॥ ११२ (ख) ॥

चो०—सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥

कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥

[काकभृशुण्डिजीने कहा—] हे पक्षिराज गरुड़जी ! मुनिये, इसमें ऋषिका कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुद्धिको भोली करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ ११ ॥

मन बच क्रममोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥

रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेषी ॥

बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें ॥
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥

ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान) होनेपर क्या [आसक्तिपूर्वक] कर्म हो सकते हैं ? दुष्टोंके सङ्गसे क्या किसीके सुबुद्धि उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है ? ॥ २ ॥

भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कबहुँ हरि निंदक ॥
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें ॥

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर] में पड़ सकते हैं ? भगवान्की निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ? श्रीहरिके चरित वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं ? ॥ ३ ॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥

बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [प्राप्त] हो सकता है ? बिना पापके भी क्या कोई अपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥ ४ ॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥

हे भाई ! जगत्में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ? और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है ? ॥ ५ ॥

एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ॥
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥

इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका उपदेश नहीं सुनता था । जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि तोषयुक्त बचन बोले—॥ ६ ॥

मूढ़ परम सिख देउं न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥
सत्य वचन विस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही ॥

अरे मूढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर (दलीलें) लाकर रखता है । मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं करता । कौएकी भाँति सभीसे डरता है ॥ ७ ॥

सठ स्वपच्छ तव हृदयँ विसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥
लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥

अरे मूख ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है । अतः तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी (कौआ) हो जा । मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया । उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी ॥ ८ ॥

श्लो०—तुरत भयउँ मैं काग तव पुनि मुनि पद सिरु नाइ ।

सुमिरि राम रघुवंस मनि हरपित चलेउँ उड़ाइ ॥ ११२(क) ॥

तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया । फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥

उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहिं जगतकेहि सन करहिं विरोध ॥ ११२(ख) ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी है, और काम, अभिमान तथा क्रोधसे रहित है, वे जगत्को अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें ॥ ११२ (ख) ॥

श्लो०—सुनु खगोस नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥

कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥

[काकभृशुण्डिजीने कहा—] हे पक्षिराज गरुड़जी ! मुनिये, इसमें ऋषिका कुछ भी दोष नहीं था । रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं । कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुद्धिको मोली करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ ११ ॥

मनवच क्रममोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥

रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन विस्वास विसेषी ॥

स कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें ॥
 गृह सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥

ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान) करनेपर क्या [आसक्तिपूर्वक] कर्म हो सकते हैं ? दुष्टोंके सङ्गसे क्या किसीके सुबुद्धि त्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है ? ॥ २ ॥

तब कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कबहुँ हरि निंदक ॥
 राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें ॥

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर] में पड़ सकते हैं ? भगवान्की प्रशंसा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ? श्रीहरिके चरित वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं ? ॥ ३ ॥

सावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥
 लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥

बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [प्राप्त] हो सकता है ? बिना पापके भी क्या कोई प्रपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥ ४ ॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥
 अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥

हे भाई ! जगत्में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर नष्ट कर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ? और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है ? ॥ ५ ॥

एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ॥
 मुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥

इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका उपदेश नहीं सुनता था । जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि बोधयुक्त वचन बोले— ॥ ६ ॥

निज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥

राम भगति अविरल उर तोरें । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरें ॥

मुनीश्वरने अपने कर-कमलसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति बसेगी ॥ ८ ॥

श्लो०—सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान ।

कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥ ११३ (क) ॥

तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम, मानरहित, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जिसको शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो), एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार होओ ॥ ११३ (क) ॥

जैहिं आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत श्रीभगवंत ।

ब्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥ ११३ (ख) ॥

इतना ही नहीं, श्रीभगवान्को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन (चार कोस) तक अविद्या (माया-मोह) नहीं व्यापेगी ॥ ११३ (ख) ॥

श्लो०—काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि न ब्यापिहि काऊ ॥

राम रहस्यललित विधिनाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥

काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य (गुप्त मर्मके चरित्र और गुण), जो इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं (वर्णित और लक्षित हैं) ॥ १ ॥

विनु श्रम तुम्ह जानव सब सोऊ । नित नव नेह राम पद होऊ ॥

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥

तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जात जाओगे । श्रीरामजीके चरणोंमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी ॥ २ ॥

सुनि, मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गंभीरा ॥

एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म-पानी ॥

हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आक

मन, वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान्ने
निकी बुद्धि फिर पलट दी। ऋषिने मेरा महान् पुरुषोंका-सा स्वभाव (धैर्य, अक्रोध
अनय आदि) और श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २ ॥

प्रति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥
राम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥

तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया।
उन्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ ३ ॥

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥
सुन्दर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा ॥

कृपानिधान मुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान (ध्यानकी विधि)
बतलाया। सुन्दर और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं
आपको पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४ ॥

मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥

मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ (अपने पास) रक्खा। तब उन्होंने रामचरितमानस
वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोले—॥५॥

रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात मैं पावा ।
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते मैं सब कहेउँ बखानी ।

हे तात ! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था
तुम्हें श्रीरामजीका 'निज भक्त' जाना, इसीसे मैंने तुमसे सब चरित विस्तारके साथ कहा ॥ ६ ॥

राम भगति जिन्ह के उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं
मुनिमोहि बिबिधि भाँतिसमुझावा । मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नवावा

हे तात ! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे क
भी नहीं कहना चाहिये। मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया। तब मैंने प्रेमके साथ मु
चरणोंमें सिर नवाया ॥ ७ ॥

निज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥
राम भगति अविरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥

मुनीश्वरने अपने कर-कमलसे मेरा सिर स्पर्श करके हृषित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति बसेगी ॥ ८ ॥

दो०—सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान ।

कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥ ११३ (क) ॥

तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम, मानरहित, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो), एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार होओ ॥ ११३ (क) ॥

जेहि आश्रम तुम्ह बसत्र पुनि सुमिरत श्रीभगवंत ।

व्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥ ११३ (ख) ॥

इतना ही नहीं, श्रीभगवान्को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन (चार कोस) तक अबिद्या (माया-मोह) नहीं व्यापेगी ॥ ११३ (ख) ॥

चो०—काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि नव्यापिहि काऊ ॥

राम रहस्यललित विधिनाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥

काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य (गुप्त मर्मके चरित्र और गुण), जो इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं (वर्णित और लक्षित हैं) ॥ १ ॥

विनु श्रम तुम्ह जानव सब सोऊ । नित नव नेह राम पद होऊ ॥

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥

तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके चरणोंमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी ॥ २ ॥

सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गंभीरा ॥

एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म मन वानी ॥

हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये; मुनिका आशीर्वाद; सुनकर आकाशमें गम्भीर

वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही (सत्य) हो । यह कर्म, मन
र वचनसे मेरा भक्त है ! ॥ ३ ॥

मुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥
आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ ! मैं प्रेममें मग्न हो गया और मेरा सब
संदेह जाता रहा । तदनन्तर मुनिकी बिनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरण-कमलोंमें
वार-वार सिर नवाकर—॥ ४ ॥

हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ । प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥
इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कल्प सात अरु बीसा ।
मैं हर्षसहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने दुर्लभ वर
लिया । हे पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ॥ ५ ॥

करउँ सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहिं बिहंग सुजाना
जब जब अवधपुरीं रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा
मैं यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी
आदरपूर्वक सुनते हैं । अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके [हितके]
मनुष्यशरीर धारण करते हैं, ॥ ६ ॥

तब तब जाइ राम पुर रहऊँ । सिसुलीला बिलोकि सुख ल
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवउँ खग
तब-तब मैं जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला
सुख प्राप्त करता हूँ । फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर
आश्रममें आ जाता हूँ ॥ ७ ॥

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहिं कारन
कहिउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अ
जिस कारणसे मैंने कौएकी देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना दी
मैंने आपके सब प्रश्नोंके उत्तर कहे । अहा ! रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा

दे०—ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह ।

निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह ॥ ११४ (क) ॥

मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्राप्त हुआ । इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब संदेह जाते हैं (दूर हुए) ॥ ११४ (क) ॥

मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम

भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप ।

मुनि दुर्लभ वर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥ ११४ (ख) ॥

मैं हठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमशने मुझे शाप दिया । तब उसका फल यह हुआ कि जो मुनियोंको भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया । भजनका प्रताप तो देखिये ॥ ११४ (ख) ॥

१०—जेअसिभगतिजानिपरिहरहीं । केवल ग्यानहेतु श्रम करहीं ॥

ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी । खोजतआकु फिरहिं पय लागी ॥

जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके लिये श्रम (साधन) करते हैं, वे मूर्ख घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दूधके लिये मदारके लिये खोजते फिरते हैं ॥ १ ॥

मुनु खगेस हरि भगति विहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥

सठ महासिंधु विनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥

हे पक्षिराज ! मुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनीवाले (अभागे) बिना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके तट पर जाना चाहते हैं ॥ २ ॥

मुनि भुसुंडि के वचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु वानी ॥

नव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥

[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! भृशुण्डिके वचन सुनकर गरुड़जी हर्षित होकर कोमल वाणीसे बोले—हे प्रभो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३ ॥

मुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कृपाँ लहेउँ विश्रामा ॥
 एक बात प्रभु पूँछउँ तोही । कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥

मैंने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोंको सुना और शान्ति प्राप्त की। हे प्रभो! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपासागर! मुझे समझाकर कहिये ॥४॥

कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना ।
 सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं । नहिं आदरेहु भगति की नाईं ।

संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी है। हे गोसाईं! वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा; परंतु आपने भक्तिके समान उ आदर नहीं किया ॥ ५ ॥

ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपा निके
 सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुज

हे कृपाके धाम! हे प्रभो! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है? मुझसे कहिये। गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और साथ कहा—॥ ६ ॥

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं भव संभव
 नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोउ सुनु नि

भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसे उत्पन्न लेते हैं। हे नाथ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ! होकर सुनिये ॥ ७ ॥

ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु
 पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अबला अबल सहज

हे हरिवाहन! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान—ये सब प्रताप सब प्रकारसे प्रबल होता है। अबला (माया) स्वाभाविक (जन्म) से ही जड (मूर्ख) होती है ॥ ८ ॥

दो०—पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मति धीर
 न तु कामी विषयावस विमुख जो पद रघुबी

परंतु जो वैराग्यवान् और धीरबुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्रीको त्याग सकते हैं, न कि वे कार्मा पुरुष, जो विषयोंके वशमें हैं (उनके गुलाम हैं) और श्रीरघुवीरके चरणोंसे विमुक्त हैं ॥ ११५ (क) ॥

सो०—सोड मुनि ग्याननिधान मृगनयनी विधु मुख निरखि ।

त्रिवस होइ हरिजान नारि विष्णु माया प्रगट ॥११५(ख)॥

वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी (युवती स्त्री) के चन्द्रमुखको देखकर विवश (उसके अधीन) हो जाते हैं । हे गरुड़जी ! साक्षात् भगवान् विष्णुकी माया ही स्त्रीरूपसे प्रकट है ॥ ११५ (ख) ॥

चौ०—इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ । वेद पुरान संत मत भापउँ ॥

मोह न नारि नारि कें रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥

यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेद, पुराण और संतोंका मत (सिद्धान्त) ही कहता हूँ । हे गरुड़जी ! यह अनुपम (विलक्षण) रीति है कि एक स्त्रीके रूपपर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि वर्ग जानइ सब कोऊ ॥

पुनि रघुवीरहि भगति पियारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥

आप सुनिये, माया और भक्ति—ये दोनों ही स्त्रीवर्गकी हैं; यह सब कोई जानते हैं । फिर श्रीरघुवीरको भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली (नटनीमात्र) है ॥ २ ॥

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥

राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥

श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं । इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती रहती है । जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाधिरहित (विशुद्ध) रामभक्ति सदा बिना किसी बाधा (रोक-टोक) के बसती है; ॥ ३ ॥

तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥

अस विचारि जे मुनि विग्यानी । जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥

उसे देखकर माया सकुचा जाती है । उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं

(चला) सकती । ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखोंकी खान
की ही याचना करते हैं ॥ ४ ॥

जो जानइ रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ ।

श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य (गुप्त मर्म) जल्दी कोई नहीं जान पाता ।
श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्नमें भी मोह नहीं होता ॥ ११६ (क) ॥

औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीन ।

हे सुचतुर गरुड़जी ! ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके सुनने
श्रीरामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्न (एकतार) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ (ख) ॥

चौ०—सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बनइ न जाइ बखान

ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुकरा

हे तात ! यह अकथनीय कहानी (वार्ता) सुनिये । यह समझते ही ब
और स्वभावसे ही सुखकी राशि है ॥ १ ॥

सो मायाबस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की

जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छूट व

हे गोसाई ! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति
बँध गया । इस प्रकार जड़ और चेतनमें ग्रंथि (गाँठ) पड़ गयी । यद्यपि व
ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है ॥ २ ॥

तत्र ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न हो

श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधि

तभीसे जीव संसारी (जन्मने-मरनेवाला) हो गया । अब न
और न वह सुखी होता है । वेदों और पुराणोंने बहुत-से उपाय
कहे हैं, परं अधिकाधिक उलझती ही जाती है ॥ ३ ॥

जीव हृदयँ तम मोह विसेषी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ॥
अस संजोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥

जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग (जैसा आगे कहा जाता है) उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित् ही वह (ग्रन्थि) छूट पाती है ॥ ४ ॥

सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौं हरि कृपाँ हृदयँ बस आई ॥
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥

श्रीहरिकी कृपासे यदि सात्त्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें आकर बस जाय; असंख्यों जप, तप, ब्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार (आचरण), जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५ ॥

तेइ तृन हरित चरै जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥
नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥

उन्हीं [धर्माचाररूपी] हरे तृणों (घास) को जब वह गौ चरे और आस्तिक भावरूपी छोटे बछड़ेको पाकर वह पेन्हावे । निवृत्ति (सांसारिक विषयोंसे और प्रपञ्चसे हटना) नोई (गौके दुहते समय पिछले पैर बाँधनेकी रस्ती) है, विश्वास [दूध दुहनेका] बरतन है, निर्मल (निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशमें है), दुहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥

परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटै अनल अकाम बनाई ॥
तोष मरुत तब छाँ जुड़ावै । धृति सम जावनु देइ जमावै ॥

हे भाई ! इस प्रकार (धर्माचारमें प्रवृत्त सात्त्विकी श्रद्धारूपी गौसे भाव, निवृत्ति और वशमें किये हुए निर्मल मनकी सहायतासे) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम-भावरूपी अग्निपर भलीभाँति ओँटावे । फिर क्षमा और संतोषरूपी हवासे उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम (मनका निग्रह) रूपी जामन देकर उसे जमावे ॥ ७ ॥

मुदिताँ मथै विचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥
तब मथि कादि लेइ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥

तब मुदिता (प्रसन्नता) रूपी कमोरीमें तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम (इन्द्रिय-

न) के आधारपर (दमरूपी खंभे आदिके सहारे) सत्य और सुन्दर ज्ञानीरूपी रस्सी
पाकर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी
मखन निकाल ले ॥ ८ ॥

दो०—जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७ (क) ॥

तब योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन लगा दे
सब कर्मोंको योगरूपी अग्निमें भस्म कर दे) । जब [वैराग्यरूपी मखनका]
मत्तारूपी मल जल जाय, तब [बचे हुए] ज्ञानरूपी घीको [निश्चयात्मिका] बुद्धिसे
ढा करे ॥ ११७ (क) ॥

तब विग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ ।

चित्त दिया भरि धरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ ॥ ११७ (ख) ॥

तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस [ज्ञानरूपी] निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको
भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृढ़तापूर्वक (जमाकर) रखे ॥ ११७ (ख) ॥

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि ।

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि ॥ ११७ (ग) ॥

[जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति] तीनों अवस्थाएँ और [सत्त्व, रज और तम]
तीनों गुणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे सँवारकर उसकी
सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ (ग) ॥

सो०—एहि बिधि लेसै दीप तेज रासि विग्यानमय ।

जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥ ११७ (घ) ॥

इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपको जलावे, जिसके समीप जाते ही मद
आदि सब पतंगे जल जायें ॥ ११७ (घ) ॥

सो०—सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥

आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥

'सोहमस्मि' (वह ब्रह्म मैं हूँ) यह जो अखण्ड (तैलधारावत् कभी न

टूटनेवाली) वृत्ति है, वही [उस ज्ञानदीपककी] परम प्रचण्ड दीपशिखा (लौ) है ।
[इस प्रकार] जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है, तब संसारके मूल
भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है ॥ १ ॥

प्रवल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥
तव सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा । उर गृहँ बैठि ग्रंथि निरुआरा ॥

और महान् बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता
है । तब वही (विज्ञानरूपिणी) बुद्धि [आत्मानुभवरूप] प्रकाशको पाकर हृदयरूपी
घरमें बैठकर उस जड़-चेतनकी गाँठको खोलती है ॥ २ ॥

छेरन ग्रंथि पाव जौँ सोई । तब यह जीव कृतारथ होई ॥
छेरत ग्रंथि जानि खगराया । विघ्न अनेक करइ तव माया ॥

यदि वह (विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो ।
परंतु हे पक्षिराज गरुड़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है ॥ ३ ॥

रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥
कल बल छल करि जाहिं समीपा । अंचल वात बुझावहिं दीपा ॥

हे भाई ! वह बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंको भेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ
दिखाती हैं । और वे ऋद्धि-सिद्धियाँ कल (कला), बल और छल करके समीप जाती और
आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥ ४ ॥

होइ बुद्धि जौँ परम सयानी । तिन्हतनचितवनअनहितजानी ॥
जौँ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी । तौँ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥

यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन (ऋद्धि-सिद्धियों) को अहितकर
(हानिकर) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विघ्नोंसे
बुद्धिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि (विघ्न) करते हैं ॥ ५ ॥

इंद्री द्वार झरोखा नाना । तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥
आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठि देहिं कपाट उघारी ॥

इन्द्रियोंके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं । वहाँ-वहाँ (प्रत्येक झरोखे-

र) देवता थाना किये (अड्डा जमाकर) बैठे हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको आते खते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ॥ ६ ॥

तबसो प्रभंजन उर गृहँ जाई । तबहिं दीप विग्यान बुझाई ॥
प्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भइ विषय बतासा ॥

ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता है । गाँठ भी नहीं छूटी और वह (आत्मानुभवरूप) प्रकाश भी मिट गया । विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी (सारा किया-कराया चौपट हो गया) ॥ ७ ॥

इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥

इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [स्वाभाविक ही] नहीं सुहाता; क्योंकि उनकी विषय-भोगोंमें सदा ही प्रीति रहती है । और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली बना दिया । तब फिर (दुबारा) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे ? ॥ ८ ॥

दो०—तब फिरि जीव बिबिधि बिधि पावइ संसृति क्लेस ।

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ ११८ (क) ॥

[इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति (जन्म-मरणादि) के क्लेश पाता है । हे पक्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (क) ॥

कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक ।

होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ (ख) ॥

ज्ञान कहने (समझाने) में कठिन, समझानेमें कठिन और साधनेमें भी कठिन है । यदि घुणाक्षरन्यायसे (संयोगवश) कदाचित् यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [उसे बचाये रखनेमें] अनेकों विघ्न हैं ॥ ११८ (ख) ॥

चौ०—ग्यान पंथ कृपान कै धारा । परत खगेस होइ नहिं वारा ।

जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई । सो कैवल्य परम पद लहई ।

ज्ञानका मार्ग कृपाण (दुधारी तलवार) की धारके समान है । हे पक्षिराज

इस मार्गसे गिरते देर नहीं लगती । जो इस मार्गको निर्विघ्न निबाह ले जाता है, वही कैवल्य (मोक्ष) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम वद ॥

राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं । अनइच्छित आवइ वरिआईं ॥

संत, पुराण, वेद और [तन्त्र आदि] शास्त्र [सब] यह कहते हैं कि कैवल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है; किंतु हे गोसाईं ! वही [अत्यन्त दुर्लभ] मुक्ति श्रीरामजीको भजनेसे विना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २ ॥

जिमि थल विनु जलरहिनसकाई । कोटि भाँति कोउ करै उपाईं ॥

तथा मोच्छ सुख सुनु खगराईं । रहिनसकइ हरि भगति बिहाईं ॥

जैसे स्थलके विना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे । वैसे ही, हे पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ ३ ॥

अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥

भगति करत विनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥

ऐसा विचारकर बुद्धिमान् हरिभक्त भक्तिपर लुभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं । भक्ति करनेसे संसृति (जन्म-मृत्युरूप संसार) की जड़ अविद्या विना ही यत्न और परिश्रमके (अपने-आप) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥ ४ ॥

भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥

असि हरि भगति सुगम सुखदाईं । को अस मूढ़ न जाहि सोहाईं ॥

जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये और उस भोजनको जठराग्नि अपने-आप (विना हमारी चेष्टाके) पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा ॥ ५ ॥

दो०—सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिअ उरगारि ।

भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥ ११६ (क) ॥

हे सर्पके शत्रु गरुड़जी ! मैं सेवक हूँ और भगवान् मेरे सेव्य (स्वामी) हैं, इस भावके बिना संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन कीजिये ॥ ११९ (क) ॥

जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य ।

अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ११६ (ख) ॥

जो चेतनको जड़ कर देता है और जड़को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथजीको जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥ ११९ (ख) ॥

श्री०—कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुभाई । सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई ॥

राम भगति चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥

मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा, अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता (महिमा) मुनिये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे गरुड़जी ! यह जिसके हृदयके अंदर बसती है, ॥ १ ॥

परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअदिआघृत बाती ॥

मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुभावा ॥

वह दिन-रात [अपने-आप ही] परम प्रकाशरूप रहता है । उसको दीपक, घी और प्रती कुछ भी नहीं चाहिये । [इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है], और [तीसरे] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशरूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती] ॥ २ ॥

प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥

खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं ॥

[उसके प्रकाशसे] अबिद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है । मदादि पतंगोंका गारा समूह हार जाता है । जिसके हृदयमें भक्ति बसती है, काम-क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥

गरल सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥

व्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥

उसके लिये विष अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है । उस मणिके बिना कोई सुख नहीं पाता । बड़े-बड़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥

राम भगति मनि उर बस जाकेँ । दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकेँ ॥
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥

श्रीराम-भक्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है, उसे स्वप्नमें भी लेखनात दुख नहीं होता । जगत्में वे ही मनुष्य चतुरोंके सिरोमणि हैं जो उस भक्तिरूपी मणिके लिये मलीनाति बल करते हैं ॥ ५ ॥

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥
सुगम उपाय पाइवे करे । नर हतभाग्य देहिं भटभेरे ॥

यद्यपि वह मणि जगत्में प्रकट (प्रत्यक्ष) है, पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा नहीं सकता । उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभाग्य मनुष्य उन्हें छुकरा देते हैं ।

पावन पर्वत वेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥
मर्मा सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ॥

वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं । श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतोंमें सुन्दर खानें हैं । संत पुरुष [उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले] मर्मा हैं और सुन्दर बुद्धि [खोदनेवाली] कुदाल है । हे गरुड़जी ! ज्ञान और वंराग्य—ये दो उनके नेत्र हैं ॥७॥

भाव सहित खोजइ जो प्राणी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥
मोरें मन प्रभु अस विस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥

जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी पान इस भगतिरूपी मणिको पा जाता है । हे प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके पास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥

राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहैं पाई ॥

श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन हैं । सब साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है । उसे संतके बिना गिराने नहीं पाया ॥

अस विचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ विहंगा ॥

ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी ! उसके लिये श्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १० ॥

ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं ।
कथा सुधा मथि काढ़िं भगति मधुरता जाहिं ॥ १२० (क) ॥

ब्रह्म (वेद) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्रको
र क्यारूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२० (क) ॥

विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि ।
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस विचारि ॥ १२० (ख) ॥

वैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ और
मोहरूपी वैरियोंको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है; हे पक्षिराज !
इसे विचारकर देखिये ॥ १२० (ख) ॥

चौ०—पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जौं कृपाल मोहि उपर भाऊ ॥
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥

पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले—हे कृपालु ! यदि मुझपर आपका प्रेम
तो हे नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखानकर कहिये ॥ ११९

प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु विचार

हे नाथ ! हे धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लभ कौन-सा शरीर है
सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही

संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बख

कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम व

संत और असंतका मर्म (भेद) आप जानते हैं, उनके सहज स्वभा
कीजिये । फिर कहिये कि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध सबसे महान् पुण्य कौन-सा है और
भयंकर पाप कौन है ? ॥ ३ ॥

मानस रोग कहहु समुभाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा उ

तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउँ य

फिर मानस-रोगोंको समझाकर कहिये । आप सर्वज्ञ हैं और मुझ

भी बहुत है । [काकभुशुण्डिजीने कहा—] हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ सुनिये । मैं यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ४ ॥

नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥

मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है । चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं । यह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको देनेवाला है ॥ ५ ॥

सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥

काँच किरिच बदलें ते लेहीं । कर ते डारि परस मनि देहीं ॥

ऐसे मनुष्य-शरीरको धारण (प्राप्त) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं करते और नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमें काँचके टुकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥

पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥

जगत्में दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिलनके समान जगत्में सुख नहीं है और हे पक्षिराज ! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना—यह संतोंका सहज स्वभाव है ॥ ७ ॥

संत सहहिं दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥

भूर्ज तरु सम संत कृपाला । परहितनितिसह विपतिविसाला ॥

संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सहते हैं और अभाग असंत दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये । कृपालु संत भोजके वृक्षके समान दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं (अपनी खालतक उधड़वा लेते हैं) ॥ ८ ॥

सन इव खल पर बंधन करई । खाल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥

खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूपक इव सुनु उरगारी ॥

कित्तु दुष्ट लोग सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं और [उन्हें बाँधनेके अपनी खाल खिचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं । हे सर्पोंके शत्रु गण्डजी !

विना किसी स्वार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥ ९॥

संपदा विनासि नसाहीं । जिमिससिहतिहिमउपलविलाहीं ॥

दुष्ट उदय जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥

वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतीका नाश करके नष्ट हो जाते हैं । दुष्टका अभ्युदय (उन्नति) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी जगत्के दुःखके लिये ही होता है ॥ १० ॥

संत उदय संतत सुखदायी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अध न गरीसा ॥

और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखदायी होता है, जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय सबभरके लिये सुखदायक है । वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना है और परनिन्दाके ज्ञान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥

पर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन मोई ॥

ज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ वायस सरीर धरि ॥

शंकरजी और गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [अगले जन्ममें] मेढक होता है । वह हजार जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है । ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति जन्मसे नरक भोगकर फिर जगत्में कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२ ॥

पर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्राणी ॥

हिं उल्लूक संत निंदा रत । मोह निसाप्रिय ग्यान भानु गत ॥

जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें जाते हैं । संतोंकी निन्दामें लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया (अस्त हो गया) रहता है ॥ १३ ॥

व कै निंदा जे जड़ करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥

जन्हु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥

जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं । हेत ! अब मानस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं ॥ १४ ॥

मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥

सब रोगोंकी जड़ मोह (अज्ञान) है । उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से शूल उत्पन्न होते हैं । काम वात है, लोभ अपार (बड़ा हुआ) कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५ ॥

प्रीति करहिं जौं तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥
विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥

यदि कहीं ये तीनों भाई (वात, पित्त और कफ) प्रीति कर लें (मिल जायें) तो दुःखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है । कठिनतासे प्राप्त (पूर्ण) होनेवाले जो विषयोंके मनोरथ हैं, वे ही सब शूल (कष्टदायक रोग) हैं; उनके नाम कौन जानता है (अर्थात् वे अपार हैं) ॥ १६ ॥

ममता दादु कंडु इरषाई । हरष विषाद गरह बहुताई ॥
पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥

ममता दाद है, ईर्ष्या (डाह) खुजली है, हर्ष-विषाद गलेके रोगोंकी अधिकता है (गलगंड, कण्ठमाला या घेघा आदि रोग हैं), पराये सुखको देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है । दुष्टता और मनकी कुटिलता ही कोड़ है ॥ १७ ॥

अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥
तृष्णा उदरवृद्धि अति भारी । त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी ॥

अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू (गाँठका) रोग है । दम्भ, कपट, मद और मान नहरुआ (नसोंका) रोग है । तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्धि (जलोदर) रोग है । तीन प्रकार (पुत्र, धन और मान) की प्रबल इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं ॥ १८ ॥

जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहँ लागि कहीं कुरोग अनेका ॥
मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं । इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं; जिन्हें कर्हातक कहँ ॥ १९ ॥

दो०—एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि ।
पीड़हिं संतत जीव कहँ सो किमि लहै समाधि ॥ १२ (क) ॥

रामचरितमानस

एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं।
वको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधि (शान्ति) को कैसे
करे ? ॥ १२१ (क) ॥

नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान।

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१ (ख) ॥

नियम, धर्म, आचार (उत्तम आचरण), तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और
भी करोड़ों औषधियाँ हैं; परंतु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख) ॥

चौ०—एहि विधिसकल जीवजग रोगी। सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥

मानस रोग कछुक मैं गाए। हहिं सब कें लखि बिरलेन्ह पाए।

इस प्रकार जगत्में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग
दुःखसे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-से मानसरोग कहे हैं। ये हैं तो सब
परंतु इन्हें जान पाये हैं कोई बिरले ही ॥ १ ॥

जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी

विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापी

जाते हैं; परंतु नाशको नहीं प्राप्त होते। विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदय
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं ॥ २ ॥

राम कृपाँ नासहिं सब रोगा। जौं एहि भाँति बनै सं

सद्गुर वैद बचन बिस्वासा। संजम यह न विषय कै

यदि श्रीरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब
जायें। सद्गुरुरूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो। विषयोंकी आशा न क
(परहेज) हो ॥ ३ ॥

रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा म

एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सञ्जीवनी जड़ी है। श्रद्धासे पूर्ण बुद्धि है

साथ लिया जानेवाला मधु आदि) है । इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जायें, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते ॥ ५ ॥

जानिअ तव मन विरुज गोसाँई । जब उर बल विराग अधिकाई ॥

सुमति छुधा बाढ़इ नित नई । विषय आस दुर्बलता गई ॥

हे गोसाँई ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका बल बढ़ जाय, उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित-नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आणारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ५ ॥

विमल ग्यान जल जब सो नहाई । तव रह राम भगति उर छाई ॥

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद ॥

[इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर] जब मनुष्य निर्मल ज्ञानरूपी जलमें स्नान कर लेता है, तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है । शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥

सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥

हे परक्षरराज ! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये । श्रुति, पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनायजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है ॥ ७ ॥

कमठ पीठ जामहिं बरु वारा । बंध्या सुन बरु काहुहि मारा ॥

फूलहिं नभ बरु बहुविधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥

कछुएकी पीठपर भले ही बाल उग आवें, बाँझका पुत्र भले ही किमीको मार डाले, आकाशमें भले ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठें; परन्तु श्रीहरिमें विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥

टुषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहिं मम मीम विषाना ॥

अंधकार बरु रविहि नसावै । राम विमुख न जीव सुख पावै ॥

मृगवृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय, खरगोजके विरपर भले ही सोंग निकल आवे, अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे, परन्तु श्रीराममें विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥

हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥

बर्फसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय (ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जायें), परंतु श्रीरामसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥

दो०—बारि मथें घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२(क) ॥

जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय और बालू [को पेरने] से भले ही तेल निकल आवे; परंतु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धान्त अटल है ॥ १२२ (क) ॥

मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन ।

अस विचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रवीन ॥ १२२(ख) ॥

प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं । ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं ॥ १२२ (ख) ॥

श्लोक—विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।

हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ १२२(ग) ॥

मैं आपसे भलीभाँति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ—मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या) नहीं हैं—कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर संसारसागरको [सहज ही] पार कर जाते हैं ॥ १२२ (ग) ॥

बी०—कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥

श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजिअ सब काज बिसारी ॥

हे नाथ ! मैंने श्रीहरिका अनुपम चरित अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे कहा । हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सब नाम भुलाकर (छोड़कर) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १ ॥

भु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥

गुह विग्यान रूप नहिं मोहा । नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥

प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन (भजन) किया जाय, जिनका

मुझ-जैसे मूर्खपर भी ममत्व (स्नेह) है। हे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है ॥ २ ॥

पूँछिहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥
सत संगति दुर्लभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥

जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली अति पवित्र रामकथा पूछी। संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरका एक बारका भी सत्सङ्ग दुर्लभ है ॥ ३ ॥

देखु गरुड़ निज हृदयँ विचारी । मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥
सकुनाधम सब भौँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥

हे गरुड़जी ! अपने हृदयमें विचार कर देखिये, क्या मैं भी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ ? पक्षियोंमें सबसे नीच और सब प्रकारसे अपवित्र हूँ। परंतु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगत्को पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [अथवा प्रभुने मुझको जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया] ॥ ४ ॥

दो०—आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन ।

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३ (क) ॥

यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन (नीच) हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यन्त धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना 'निज जन' जानकर संत-समागम दिया (आपसे मेरी भेंट करायी) ॥ १२३ (क) ॥

नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ ।

चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥ १२३ (ख) ॥

हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखवा। [फिर भी] श्रीरघुवीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? ॥ १२३ (ख) ॥

चौ०—सुमिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुंड़ि सुजाना ॥

महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥

श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार-

मार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदोंने 'नेति-नेति' कहकर गायी है; जिनका बल, सुताप और प्रभुत्व (सामर्थ्य) अतुलनीय है ॥ १ ॥

शिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥

अस सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ ॥

जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसीका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ, न देखता हूँ। अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैं श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनुँ (समझूँ) ? ॥२॥

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतग्य संन्यासी ॥

जोगी सूर सुतापस ग्यानी । धर्म निरत पंडित विग्यानी ॥

साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन (विरक्त) कवि, विद्वान्, कर्म [रहस्य] के ज्ञाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी—

तरहिं न बिनु सेएँ मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥

सरन गएँ मो से अघ रासी । होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी ॥

ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन (भजन) किये बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण जानेपर मुझ-जैसे पापराशि भी शुद्ध (पापरहित) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४॥

दो०—जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूत ।

सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १२४ (क) ॥

जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [अव्यर्थ] औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं (आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों) को हरनेवाला है, वे कृपालु श्रीरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ (क) ॥

सुनि भुसुंड़ि के बचन सुभ देखि राम पद नेह ।

बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥

भृशुण्डिजीके मङ्गलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे भलीभाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले ॥ १२४ (ख) ॥

चो०—मैं कृतकृत्य भयउँ तव वानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥
राम चरन नूतन रति भई । माया जनित विपति सब गई ॥

श्रीरघुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया । श्रीरामजीके चरणोंमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ १ ॥

मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कहँ नाथ विविध सुख दए ॥
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । वंदउँ तव पद वारहिं वारा ॥

मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए । हे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर दिया) । मुझसे इसका प्रत्युपकार (उपकारके बदलेमें उपकार) नहीं हो सकता । मैं तो आपके चरणोंकी बार-बार वन्दना ही करता हूँ ॥ २ ॥

पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥
संत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्ह कै करनी ॥

आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं । हे तात ! आपके समान कोई बड़भागी नहीं है, संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी—इन सबकी क्रिया पराये हितके लिये ही होती है ॥ ३ ॥

संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जाना ॥
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥

संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने [असली बात] कहना नहीं जाना; क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरोंके दुःखसे पिघल जाते हैं ॥ ४ ॥

जीवन जन्म सुफल मम भयऊ । तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर ॥

मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया । मुझे सदा अपना दास ही जानियेगा । [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥

दो०—तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर ।

गयउ गरुड़ बैकुंठ तव हृदयँ राखि रघुवीर ॥ १२५ (क) ॥

उन (भृशुण्डिजी) के चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके धीरवृद्धि गरुड़जी तव वैकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क) ॥

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन ।

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ १२५ (ख) ॥

हे गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है । पर वह (संत-समागम) श्रीहरिकी कृपाके बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ॥ १२५ (ख) ॥

चौ०—कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा ॥

प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा ॥

मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश (संसारके बन्धन) छूट जाते हैं और शरणागतोंको [उनके इच्छानुसार फल देनेवाले] कल्पवृक्ष तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

मन क्रम वचन जनित अघ जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥

जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म (शरीर) से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञानमें निपुणता—॥ २ ॥

नाना कर्म धर्म व्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥

भूत दया द्विज गुर सेवकाई । विद्या बिनय विवेक बड़ाई ॥

अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, व्रत और दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ; प्राणियोंपर दया, ब्राह्मण और गुरुकी सेवा; विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई [आदि]—॥ ३ ॥

जहँ लागि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम कृपाँ काहँ एक पाई ॥

जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति ही है । किंतु श्रुतियोंमें गायी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी एक (विरले) ने ही पायी है ॥ ४ ॥

दो०—मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं विनहिं प्रयास ।

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि विस्वास ॥ १२६ ॥

किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे विना ही परिश्रम उस मुनिदुर्लभ हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२६ ॥

चौ०—सोइ सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥

धर्म परायन सोइ कुल त्राता । राम चरन जा कर मन राता ॥

जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाला) है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है । वही पृथ्वीका भूषण, पण्डित और दानी है । वही धर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है ॥ १ ॥

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥

सोइ कवि कोविद सोइ रणधीरा । जो छल छाड़ि भजइ रघुवीरा ॥

जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है, वही परम बुद्धिमान् है । उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना है । वही कवि, वही विद्वान् तथा वही रणधीर है ॥ २ ॥

धन्य देस सो जहँ सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी ॥

धन्य सो भूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥

वह देश धन्य है जहाँ श्रीगङ्गाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत-धर्मका पालन करती है । वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मसे नहीं डिगता ॥ ३ ॥

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥

धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अर्ध ॥

वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है (जो दान देनेमें व्यय होता है) वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यमें लगी हुई है । वही घड़ी धन्य है जब सत्सङ्ग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ ४ ॥

[धनकी तीन गतियाँ होती हैं—दान, भोग और नाश । दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है । जो पुरुष न देता है, न भोगता है, उसके धनकी तीसरी गति होती है ।]

दो०—सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ।

श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ १२७ ॥

हे उमा ! सुनो, वह कुल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण (अनन्य रामभक्त) विनम्र पुरुष उत्पन्न हो ॥ १२७ ॥

चौ०—मति अनुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥

तव मन प्रीति देखि अधिकारि । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥

मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रक्खा था । जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने श्रीरघुनाथजीकी यह कथा तुमको सुनायी ॥ १ ॥

यह न कहिअ सठही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥

कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥

यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ (धूर्त) हों, हठी स्वभावके हों और श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों । लोभी, क्रोधी और कामीको, जो चराचरके स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिये ॥ २ ॥

द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥

राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह केंसत संगति अति प्यारी ॥

ब्राह्मणोंके द्रोहीको, यदि वह देवराज (इन्द्र) के समान ऐश्वर्यवान् राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिये । श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्सङ्गति अत्यन्त प्रिय है ॥ ३ ॥

गुरु पद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥
ता कहँ यह विसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥

जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है, जो नीतिपरायण है और ब्राह्मणोंके सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥

दो०—राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वान ।

भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥

जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, वह इस कथारूपी अमृतको प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥

चौ०—राम कथा गिरिजा में वरनी । कलि मलसमनि मनोमल हरनी ॥

संसृति रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥

हे गिरिजे ! मैंने कलयुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली रामकथाका वर्णन किया । यह रामकथा संसृति (जन्म-मरण) रूपी रोगके [नाशके] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और विद्वान् पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥

एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ॥

अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ एहिं मारग सोई ॥

इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हैं । जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर पैर रखता है ॥ २ ॥

मन कामना सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥

कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं । ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥

जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन.कामनाकी सिद्धि पा लेते हैं । जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन (प्रशंसा) करते हैं, वे संसाररूपी समुद्रको गौके खुरसे बने हुए गड्ढेकी भाँति पार कर जाते हैं ॥ ३ ॥

सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुह ॥

नाथ कृपाँ मम गत संदेहा । राम चरन उपजेउ नव नै ।

[याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] सब कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके हृदयको बहुत ही प्रिय लगी और वे सुन्दर वाणी बोलीं—स्वामीकी कृपासे मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥

दो०—मैं कृतकृत्य भयउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस ।

उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल क्लेश ॥ १२६ ॥

हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अब मैं कृतार्थ हो गयी । मुझमें दृढ़ रामभक्ति उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये (नष्ट हो गये) ॥ १२९ ॥

चौ०—यह सुभ संभु उमा संवादा । सुख संपादन समन विषादा ॥

भव भंजन गंजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥

शम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश करनेवाला है । जन्म मरणका अन्त करनेवाला, संदेहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंको आनन्द देनेवाला और संत पुरुषोंको प्रिय है ॥ १ ॥

राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रियतिन्ह के कछु नाहीं ॥

रघुपति कृपाँ जथामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥

जगत्में जो (जितने भी) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ भी प्रिय नहीं है । श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाला चरित अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २ ॥

एहिं कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥

रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥

[तुलसीदासजी कहते हैं—] इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है । बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको सुनना चाहिये ॥ ३ ॥

जासु पतित पावन बड़ बाना । गावहिं कवि श्रुति संत पुराना ॥

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजें गति केहिं नहिं पाई ॥

पतितोंको पवित्र करना जिनका महान् (प्रसिद्ध) बाना है—ऐसा कवि, वेद,

संत और पुराण गाते हैं—रे मन ! कुटिलता त्यागकर उन्हींको भज । श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ? ॥ ४ ॥

ॐ—पाई न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना ।

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥

आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे ।

कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ ५ ॥

अरे मूर्ख मन ! सुन, पतितोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने परमगति नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत-से दुष्टोंको उन्होंने तार दिया । आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच (चाण्डाल) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजीको मैं तमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥

रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनिहिं जे गावहीं ।

कलि मल मनोमल धोइ विनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै ।

दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरै ॥ २ ॥

जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलको धोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको चले जाते हैं । [अधिक क्या] जो मनुष्य पाँच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर जानकर [अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेष्ठ पंच (कर्तव्याकर्तव्यका सच्चा निर्णायक) जानकर उनको] हृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उत्पन्न विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं (अर्थात् सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है, जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं ।) ॥ २ ॥

सुन्दर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो ।
 सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन को ॥
 जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ ।
 पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नहीं कहूँ ॥ ३ ॥

[परम] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। इनके समान निष्काम (निःस्वार्थ) हित करनेवाला (सुहृद्) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है? जिनकी लेशमात्र कृपासे, मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं ॥ ३ ॥

दो०—मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघुवंस मनि हरहु बिषम भव भीर ॥ १३० (क)
 हे श्रीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीन हित करनेवाला नहीं है। ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि ! मेरे जन्म-मरणके भय दुःखका हरण कर लीजिये ॥ १३० (क) ॥

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३०
 जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा लगता है हे रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये ॥ १३० (ख) ॥

श्लोक—यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं
 श्रीमद्रामपदाब्जभक्तितमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्
 मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तरस्तमःशान्तये
 भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानस
 श्रेष्ठ कवि भगवान् श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायण चरणकमलोंमें नित्य-निरन्तर [अनन्य] भक्ति प्राप्त होनेके लिये राम मानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणमें लिखे तलसीदासने इस मानसके रूपमें भाषावद्ध किया ॥ १ ॥

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं
 मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् ।
 श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये
 ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः ॥ २ ॥

यह श्रीरामचरित्रमानस पुण्यरूप, पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिको देनेवाला, माया, मोह और मलका नाश करनेवाला, परम निर्मल प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मङ्गलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानसमरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते ॥ २ ॥

मासपारायण, तीसवाँ विश्राम ।

नवाह्नपारायण, नवाँ विश्राम ॥

इति श्रीमद्रामचरित्रमानसे सकलकलिकतुयविश्वंद्ने कथनः कथनः कथनः ।
 कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरित्रमानसका
 यह सातवाँ सोपान उमान्त हुआ ।


(अन्तपरकाण्ड इत्यन्त)



श्री रामायणजीकी आरती



आरति श्रीरामायणजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ॥
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बालमीक विग्यान बिसारद ।
सुक सनकादि सेष अरु सारद । वरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥
गावत वेद पुरान अष्टदस । छओ सास्त्र सब ग्रंथन को रस ।
मुनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ २ ॥
गावत संतत संभु भवानी । अरु घटसंभव मुनि विग्यानी ।
व्यास आदि कबिवर्ज बखानी । कागभुसुंडि गरुड के ही की ॥ ३ ॥
कलिमल हरनि विषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की ।
दलन रोग भव मूरि अमी की । तात मात सब विधि तुलसी की ॥ ४ ॥



गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके उपलब्ध कुछ ग्रन्थ

	६० पं०
विनय-पत्रिका—सरल हिंदी-टीकासहित २५०
बोहाबली—भाषानुवादसहित १००
रामाज्ञा-प्रश्न—सरल भावार्थसहित ०६०
जानकी-मंगल—सरल भावार्थसहित ०४०
श्रीपावती-मंगल— ०३०
वैराग्य-संबीपनी—सानुवाद ०१५
मानस शंका समाधान १५०
बरवै रामायण—सरल भावार्थसहित ०१५
हनुमानबाहुक—सानुवाद ०३०
हनुमानचालीसा— ०१५
श्रीरामचरितमानस—मोटा टाइप, सानुवाद २४००
श्रीरामचरितमानस—मुल, मझला साइज ६००

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

